

186851

page missing
book text fly

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186851

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 88/R 14 B Accession No. G. H 168

Author राहुल सांकृत्यायन ।

Title भागो नहीं - दुनिया को बदलो ॥

This book should be returned on or before the date
last marked below.

प्रथम-संस्करण, १९४५

All rights of translation in any language strictly reserved.

Checked 1969

प्रकाशक:—किताब महल, प्रयाग

मुद्रक:—बी० एल० वारहनी, वारहनी प्रेस, कटरा, इलाहाबाद

तनिक अरज

इस किताबकी भाखा देखके कितने ही पढ़नेवाले अचरज करेंगे, लेकिन मुझे उमेद है, कि वह नराज नहीं होंगे; काहेसे कि यहाँ उन्हें ऐसे सैकड़ों सबद मिलेंगे, जिनको उन्होंने माँका दूध पीनेके साथ सीखा है और अब भी वह ऐसे ही फिर मीठे लगते होंगे। लेकिन मैंने इस पोथीको भाखा फैलानेके ख्यालसे नहीं लिखा। एक बरस पहले जो कोई कहता, कि तुम इस भाखामें एक किताब लिखोगे, तो मुझे बिसवास न होता। मैंने छपरा-बलियाकी भाखा मल्लिकामें आठ छोटे-छोटे नाटक लिखे, और मैंने देखा कि अपनी बातोंको रखनेमें कोई कठिनाई नहीं है। उस भाखामें मैं इस पोथीको लिख सकता था लेकिन फिर वह चार-पाँच जिलों हीके कामकी होती लेकिन इस तरहकी हिन्दीमें लिखना बहुत मुसकिल मालूम होता था। तो भी मैंने सोचा कि जिन लोगोंके पास मैं अपनी बातोंको पहुँचाना चाहता हूँ उनके लिये ऐसी ही भाखामें लिखनेकी कोसिस करनी चाहिये। पोथी लिखते बखत मेरे दिलमें हमेशा इस बातका ख्याल रहा है कि जिन्होंने प्राइमरी तक हिन्दी पढ़ी है, वह इसे समझ पायें। इस काममें सन्तोखी और दुखरामने मेरी बड़ी मदद की है, जो यह दोनों मेरे सामने न रहते, तो मैं बहक जाता। मेरी जनम-भाखा बनारसी (कासिका) है, लेकिन ३१ बरसोंसे छपरामें ज्यादा रहनेके कारन मुझे वहाँकी भाखाका ज्यादा ग्यान है। बनारसी बोलने-लिखनेमें मैं गलती कर जाता हूँ तो भी भाखा लिखते बखत मुझे बनारसी और छपरहा भाखाओंसे बहुत मदद मिली है। किसी समय मैं सालसे बेसी बुन्देलखण्डमें रहा था, और उस भाखाने भी मुझे जरूर मदद की। इसके बाद सबसे बेसी मदद सिरी सतनरायेन दूबे (सेठवी)से मिली। मैं बोलता जाता था, और वह कागजपर उतारते जाते थे। कागजपर उतारनेके साथ-साथ वह सबदोंके बारेमें अपनी राय देते जाते थे, जिससे भाखा और आसान बन सकी। वह भी राय देनेमें बहक जाते, जो उनके सामने अपने गाँवकी पुरबहिया (अहिरिनि) भौजाई न होती। इस तरह फैजाबाद जिलेकी अबधी भाखासे भी मदद मिली। तो भी हिन्दी पढ़नेवालोंके थोड़ेसे जिलोंकी

मदद मैंने ली । हो सकता है, इस पोथीमें कुछ ऐसे सबद भी आ गये हों जो पच्छिमके कुछ जिलोंमें न चलते हों । मैंने अपने जान ऐसे सबदोंको न लेनेकी कोसिस की ।

राजनीतिको थोड़ेसे पढ़े-लिखे आदमियोंके हाथमें देकर अब चुप बैठना नहीं जा सकता । ऐसा करनेसे जनताको बराबर नुकसान उठाना पड़ा । जनताको वोट देनेका अख्तियार दे देनेसे काम नहीं चलेगा, उसे अपनी भलाई-बुराई भी मालूम होनी चाहिये और यह भी मालूम होना चाहिये कि राजनीतिके अखाड़ेमें कैसे ढाँच-पेंच खेले जाते हैं । इस पोथीमें इस बातके समझानेकी मैंने थोड़ी-सी कोसिस की है । लोगोंको, इससे कुछ फायदा होगा या नहीं इसे मैं नहीं कह सकता । और इतना बड़ा काम एक पोथीसे हो भी नहीं सकता । मुझे उमेद है कि मेरे दूसरे भाई अपनी मजबूत कलमसे और अच्छी किताबें लिखेंगे, तब ज्यादा काम हो सकेगा ।

हो सकता है किसी-किसी भाईको पोथी पढ़ते वक्त कुछ सबद कड़े मालूम हों—दुखराम भाईकी कोई-कोई बातें देहमें तीर जैसी लगती है, लेकिन दुखराम जैसे किसानको हम वैसे ही भाखामें बोलते सुनते हैं । तो भी जो किसी भाईके दिलमें चोट लगे तो मैं छुमा माँगता हूँ । मैं किसी एक आदमीको दोसी नहीं मानता, आज जिस तरहका मानुख जातिका ढाँचा दिखाई पड़ता, असलमें सब दोस उसी ढाँचेका है । जब तक वह ढाँचा तोड़कर नया ढाँचा नहीं बनाया जाता, तब तक दुनिया नरक बनी रहेगी । ढाँचा तोड़ना भी एक आदमीके बूतेका नहीं है, इसके लिये उन सब लोगोंको काम करना है, जिनको इस ढाँचे-ने आदमी नहीं रहने दिया ।

आखिरमें मैं एक बार फिर सिरी सतनरायेन दूबे (सेठवी)को धनबाद देता हूँ कि उन्होंने रात-दिन लगाके बारह दिनों (१७ मई—२८ मई)में लिख डालनेमें अपनी कलमसे मुझे मदद दी ।

पर्याग
२८ मई १९४४

राहुल सांकृत्यायन

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| १—दुनिया नरक है | ... | ... | १ |
| २—दुनिया क्यों नरक है ? | ... | ... | २० |
| ३—जोक-पुरान | ... | ... | ३६ |
| ४—जोंकोंके दुसमन मरकस बाबा | ... | ... | ५७ |
| ५—वह देस जहाँ जोंकें नहीं हैं | ... | ... | ८२ |
| ६—भसमासुर भूतनाथपर चढ़ दौड़ा | ... | ... | ११४ |
| ७—पागल सियार गाँवकी और | .. | ... | १२४ |
| ८—जोंकोंके मन्सूबे | ... | ... | १४४ |
| ९—जोंकें हिन्दुस्तानको नहीं छोड़ना चाहतीं | ... | ... | १६२ |
| १०—पूरबका युद्ध | ... | .. | १८० |
| ११—हिन्दुस्तानको आजादी | ... | ... | २०२ |
| १२—जमींदारी और रियासत | ... | ... | २२२ |
| १३—दरबारी, पुरोहित और सेठ | ... | .. | २३६ |
| १४—औरतें | ... | ... | २६४ |
| १५—“हरिजन” या सबसे अधिक सताये आदमी | ... | ... | २८३ |
| १६—मरकसका रस्ता बिदेसी है ? | ... | ... | २९७ |
| १७—ग्यान और भाखा | ... | ... | ३१२ |
| १८—दुनिया बदलनेका हथियार | ... | ... | ३२६ |

भागो नहीं बदलो

अध्याय १

दुनिया नरक है

और जगह जानेकी क्या जरूरत है, सामने देखते नहीं, यह दुनिया नरक नहीं तो क्या है ?—दुखरामने सन्तोखीसे कहा। अभी दोनों हीकी बात यहीं तक थी, कि एक तीसरा जवान आया, जिसे दोनोंने “आओ भैया” कहकर पास बैठनेकेलिए कहा। अब फिर उनकी बात शुरू हुई। भैयाने ही पहल की—कहो क्या बात हो रही थी, मैं भी सुनूँ।

सन्तोखी—यही दुखराम दुनियाका गेना रो रहे थे, दुनिया नरक है, नरक।

भैया—तो इसमें कोई सक है ? देखते नहीं हमारे गाँवमें पचास घर हैं, लेकिन उनमें कितने घर हैं, जो पेट भर खा सकते हैं ?

दुखराम—मैं समझता हूँ, पाँचसे अधिक नहीं।

भैया—और वह पाँचभी सूखा-रूखा घास-पात खाकर किसी तरह पेट भर लेते हैं, बाकी पैतालीस घरमें किसीको एक साँभ खानेको मिलता है, किसीको दो दिन पर मिलता है। चैतमें जब फसल कटती है, तो एकाध महीना पेट भर खा लेते हों। छोटे-छोटे बच्चोंको देखते नहीं, कैंत उनका पेट कमरसे सदा हुआ है ! और किसीके लिए होगा कभी-कभी सूखा अकाल, लेकिन हमारे यहाँ के लोगोंकेलिए तो सदा ही अकाल रहता है, उन्हें सदा ही भूखा रहना पड़ता है।

भैया - जानते हो लोग जो इतना बीमार पड़ते हैं, वह भी भूखेही रहने के कारन।

दुखराम—क्यों नहीं भैया ! पेटमें जब अन्न नहीं रहता, तो जान पड़ता है, आग भभक उठती है और सारे सरीरमें लहर चलने लगती है।

भैया—ठीक कहा दुखरू भाई ! जब सरीरको अन्न नहीं मिलता, तो वह दुर्बल हो जाता है। और सुना नहीं है “दुर्बलो दैव घातकः”। कोई भी आस-

पाससे वीमारी जा रही हो, दुर्बल आदमीको देखतेही उसका मन ललचा जाता है। अकालमें जितने लोग भूखे मरते हैं, उससे तिगुने वीमारीसे मर जाते हैं। अभी जो बंगालमें अकाल पड़ा था, जानते हो वहाँ कुल्लुही महीनोमें साठ लाख आदमी मरे, जिनमें भूखसे मरने वाले २० लाखसे ज्यादा न होंगे। मालूम है साठ लाखके अकाल-मरनके सुननेसे तुम्हें वह रोमाचकारी दृश्य नजर नहीं आएगा, जो मरनेसे पहले उनपर बीता।

क्या ऐसी बीती भैया जी ?

भैया—कुछ न पूछो, यदि वह रातको सोते और सबेरे मरे पाये जाते, तो इतना दुख न होता। लेकिन उन्हें लाज छोड़नी पड़ी। सुना होगा तुमने कलकत्ताकी सड़कों पर पचास-पचास हजार भूखे नर-नारी बाल-बच्चे पड़े हुए थे। यह ऐसे लोग नहीं थे, जिन्हें भीख माँगनेकी आदत थी। कितने ही उनमें पढ़े-लिखे भी थे, कितनी ही औरत ऐसी थी, जिन्होंने घरके चौखटसे बाहर पैर नहीं रखा था।

मन्तोखी--और वह भी घरसे निकल कर शहरकी सड़कों पर चली आई !

भैया--सारा बड़प्पन, सारा पर्दा-पानी तीन ही दिन तक चलता है, चौथे दिन जब भूखसे अंतड़ियाँ तिलमिलाने लगती हैं तो सब लाज-सरम इज्जत-पानी हट जाता है। फिर एक दो आदमीके ऊपर आफत आई हो, तो हो सकता है, लाज-सरमके मारे आदमी घरमें बैठा ही बैठा जान दे दे। लेकिन बंगालमें यह एक घरकी बात नहीं एक गाँवकी बात नहीं, जिलेकी बात नहीं थी, बल्कि एक सूबेके दो-दो तीन-तीन करोड़ आदमियों पर यह आफत आई थी। अन्न परानसे भी महंगा था। पहले लोगोंने जेवर बचकर रुपये-दो-रुपये सेरका चावल खरीदा, लेकिन जेवर कितने लोगों के पास था? लोगोंने खेत बँचा। खेत अन्न देते, लेकिन तीन महीने बाद—तब तक घर के लोग जिएँ कैसे। इसलिए लोगोंने अपने खेतोंको माटीके मोल बेचा। बैल, गाय बेचा, घरभी बँच दिया तब भी अन्न दुर्लभ था, खरीदनेके लिए पासमें कुछ नहीं था। करोड़-करोड़ आदमी कुएँ, तालाबमें डूबनेके लिए तैयार नहीं हो सकते थे। जानते हो न जीवनका मोह ?

सन्तोखी—हाँ भैया ! जीनेके लिए आदमी क्या नहीं करता ?

भैया—वे लोग जीना चाहते थे, मुना कि कलकत्ता बड़ा सहर है। वहाँ देस-देसाउरसे अन्न आता है, वहाँ जानेमे क्या जाने, जीनेका कोई रास्ता निकल आए। इसलिए घरके घर खाली हो गए, लोग भूखे-प्यासे कलकत्ताकी ओर चल पड़े। सारे बगालके लोग कलकत्ता कैसे पहुँच सकते थे ? भूखोंके सरिरमे इतनी ताकत कहाँ थी कि साठ-सत्तर मीलसे ज्यादा चल सके। कितने ही रास्तेमें मर गए, कितने ही कलकत्ताकी सड़कोंपर भी पहुँच गए। जानते हो न कलकत्ताकी बरग्या।

दुखराम—हाँ भैया ! वहाँतो जान पड़ता है बारहों महीने बरखा ग्हती है।

भैया—लेकिन यह सन् १९४३के बरखाके ही महीने थे, जबकि भूखे नर-नारी कलकत्ताकी गलियोंमें पहुँचे। कितनोंके पास तन ढाँकनेके लिए कपड़ा नहीं था, वह सरिरमें फटे बोरे लपेटे थे। मूसलाधार बरग्या बरसती रहती थी और सड़कपर, पगडंडियों पर ये भीगते रहते थे।

सन्तोखी—क्या वहाँ धरमसाला-मुसाफिरखाना नहीं है ?

भैया—धरमसाला मुसाफिरखाना दो-चार हजारके लिए हो सकता है, लाख-लाख आदमियोंके लिए धरमसाला कहीं तैयार है। कलकत्तामें भी सबको कहीं खानेको मिलता। लड़के और सयानेभी कूड़ों परमे चीनकर दाना ग्वाते थे, सड़कपर फेके सूखे टुकड़ोंको भी कुत्तोंके मुँहसे छीन लेते थे। जीवनका लोभ ऐसाही है। आदमी कैसे भी जीना चाहते हैं, मैं समझता हूँ नरकमेंभी आदमी इसी तरह इच्छा जीनेकी रक्खेगा।

दुखराम—भैया इससे बढ़कर और नरक क्या होगा ?

भैया—हाँ, मुर्दे सड़कोंपर पड़े रहते थे, कोई उठानेवाला नहीं मिलता था। यह कलकत्ताकी बात थी, देहातमें तो और भी बुरी हालत थी, क्योंकि वहाँ कोई पूछ-ताछ करनेवाला न था, न डाक्टरी महकमा, न डाक्टर, न मुर्दोंकी तस्वीर खींचकर अखबारोंमें छापनेवाले। लाखों आदमी दिल मसोसकर चुपचाप अपने गाँवोंमें मर गए। और जानते हो, कलकत्ताकी सड़कों पर

कुत्ते-बिल्लीकी मौत मरनेवाले ये लोग कौन थे ?

दुखराम—नहीं भैया ! बत्ताओ, बगाली रहे होंगे ।

भैया—हाँ, बगाली, इनमें थे बाम्हन, इनमें थे कायथ, इनमें थे ग्वाले, इनमें थे सेख, इनमें थे सैय्यद, सब जाति, सब धरमके लोग थे । भूखने सबको एक जैसा पथका भिखारी बना दिया । इतना ही नहीं, भूखने उनसे इज्जत बेंचवा दी ।

संतोखी—क्या कहा भैया इज्जत बेंचवा दी !

भैया—हाँ ! जान पड़ता है, इज्जत भी आदमी तभी रखता है जब पेटमें दो ढाना पड़ता है । जवान लड़कियाँ जवान बहुएँ और अधेड़ औरते एक वक्त के भोजनके लिए अपनी इज्जत बेंच रही थी । कलकत्ताकी सड़को पर इज्जत बेंची जा रही थी । चटगाँव, नवाखाली, बरीसालकी गलियोंमें इज्जत विक रही थी, बाजारों नहीं हर जगह इज्जत विक रही थी । अन्न इज्जतसे बहुत महंगा था । माँ अपनी बेटीकी इज्जतका सौदा करती थी । पति अपनी स्त्रीकी इज्जत बेंच कर कुछ लानेका इशारा करता था । कलकत्तामें कितनी नारियाँ खानगी (बेसवा) बननेके लिए मजबूर थीं, जानते हो ?”

संतोखी—बहुत होंगी ।

भैया—बहुत कहनेसे वह दिल दहलानेवाला नजारा हमारे सामने नहीं आता । किसीने हिसाब लगाकर बतलाया था, कि एक समय तीस हजार औरते अपनी इज्जतसे चावल बदल रही थी ।

दुखराम—इससे तो एकही बार आँख मूँद लेना अच्छा होता ।

भैया—लेकिन यह एक आदमीके आँख मूँदनेकी बात नहीं थी, करोड़ करोड़ आदमी कैसे बिना हाथ-पैर हिलाए मरनेके लिए तैयार हो जाते । इसी लिए भूखने उनसे इज्जत बेंचवायी, ये कभी इज्जतके लिए मरते थे । साठ लाख आदमी मर गए, क्या उससे कम है यह लाखों औरतोंका इज्जत बेंचना ?

संतोखी—यह उससे भी बुरा है ।

भैया—और जब फसल हुई, लोगोंको थोड़ा-थोड़ा अन्न मिला, तो बरसात

जीतने भी न पायी कि मलेरियाने आ घेरा । घरके घर बीमार पड़ गए, कोई पानी देनेवाला नहीं रह गया । किसी-किसी गावमें दो तिहाई आदमी मलेरिया और महामारीमें मर गए । घरके घर सूने हो गए । मुर्दे सात-सात दिन तक घरके भीतर सड़ा किए ।

सन्तोखी—जीता ही देश मसान हो गया !

भैया—तो देखा न सन्तोखी भाई ! इससे बढ़कर नरक कहाँ होगा, जहाँ इस तरह धुल-धुल कर आदमीको मरना हो और बेइज्जत बे पानी । वह तो बगालकी बात है अभी इसी साल-१९४४-में जान रहे हो, बिहारमें क्या हो रहा है ?

दुखराम—बिहारमें भी कुछ हुआ है भैया ?

भैया—कुछ नहीं, बहुत । चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगाके सिरिफ तीन जिलों में और वह भी सिरिफ तीन-चार महीनेमें एक लाख से ऊपर आदमी हैजा और मलेरियासे मर गए और अभी (अगस्तमें) भी मर रहे हैं ।

सन्तोखी—मरना-जीना भगवानके हाथमें है ।

दुखराम—जो मरना जीना भगवानके हाथमें होता, तो दवा-दारू करने की जरूरत न होती । फिर सन्तोखी भाई ! तुम्हें खानेकी भी जरूरत नहीं; यदि भगवानको जिलाना होगा, तो तुम्हें हवा पिला कर भी जिला देगे ।

भैया—कोई आदमी बहुत बूढ़ा शरीरसे मजबूर होकर मरता है, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापेको कोई नहीं रोक सकता, बूढ़ेको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता । लेकिन बूढ़ेको भी बीमार पड़ने पर हम भागके ऊपर छोड़ नहीं देते । उसकी दवा करते हैं, पथ्य देते हैं । बिहारके तीन जिलोंमें एक लाखसे अधिक आदमी मर गए, वह बूढ़े नहीं थे । बीमारीने इसलिए उन्हें धर दबाया कि साल-साल तक आधा पेट और भूखे रहते-रहते उनके शरीरमें सकती नहीं रह गई थी, मलेरियाके कीड़ोंने जब उनके ऊपर धावा बोल दिया तो उन्हें रोकनेके लिए भीतर ताकत नहीं रह गई । हैजाके कीड़े जब पानीके रास्ते साँससे होकर भीतर पहुँचे, तो उन्हें निकालनेके लिए वहाँ कोई ताकत नहीं बच रही थी । तन्दुरुस्त आदमीको

बीमारी कम पकड़ती हैं ।

सन्तोखी—बीमारी न होनेसे आदमी तन्दुरुस्त होता है ।

भैया—नहीं सन्तोखी भाई ! यह बात नहीं है, पुस्टई वाले खान-पानसे आदमी तन्दुरुस्त होता है और तन्दुरुस्त होने पर बीमारी उसके पास नहीं आती ।

दुखराम—तो अन्नही मूल हुआ ?

भैया—अन्नही मूल है, अन्न ही पगन है, अन्नके मिलनेसे जीवन रहता है, अन्नके मिलनेसे इज्जत बेचती है ।

दुखराम—तो यदि अन्न मिले तो दुनियाका आधा नरक खतम हो जाएगा ।

भैया—हाँ दुखराम भाई ! इस बातको गॉटमें बाँध रखेगा । हम आगे बातलाएंगे कि क्यों अन्न रहते भी अन्न नहीं मिलता, पथ्य रहते भी पथ्य नहीं मिलता, दवा रहतेभी दवा मवस्सर नहीं होती ।

सन्तोखी—“सन्तोख परम् सुखम्,” हमने तो यही सुना था ।

भैया—तुम्हारे ऊपर भी वह आ सकती है आती और देशमें कौन बच सकता, कल बंगालकी बारी थी आज मिथिला तिरहुतकी और विहान हमारी तुम्हारीभी बारी आ सकती है । “सन्तोखं परम सुखम्” को उसने लिखा होगा, जिसे कभी भूखसे पाला न पड़ा होगा । उसका पेट भरा रहा होगा, वह निश्चित सोया रहा होगा । लेकिन इतनेहीसे दुनियाका नरक होना पूरा नहीं हो जाता ।

दुखराम—हाँ, खाना कपड़ा तो मूल है, लेकिन औरभी पचासो चिन्ताएँ हैं, पचासों त्रिपदाएँ हैं ।

भैया—ठीक है दुखराम भाई ! चिन्ताकी कुछ मत पूँछो । माँ बाप हैं, घर में चार बीघा खेत है, किसी तरह गुजारा चल जाता है, फिर हो जाते हैं चार लड़के और चार लड़कियाँ । अन्न चार बीघे खेतसे दस मुहोंका काम कैसे चल सकता है । फिर जैसे-जैसे उमर बीतती जाती है, वैसे-वैसे मुँह भी बढ़ते जाते हैं । आहार भी बढ़ता जाता है, लड़कोंका ब्याह करना, गरीब होने पर लड़की

खरीदने हीमें खेत विक जाएगा, इज्जतदार होनेपर एकही लड़कीके ब्याहमें सारा खेत चला जायगा, फिर परिवारको भी भूखा रहना पड़ेगा । दो हाथ की चादर सिर ढाँको तो पैर नंगा, पैर ढाँको तो सिर नंगा ।

दुखराम—चार बीघा क्या चालिस बीघा वालोंको भी चिन्ता खाये जाती है ।

भैया—क्यों न खायेगी चार लड़के हुए, तो दूसरी पीढ़ीमें दस-दस बीघा रह जायगा, मानो उनको कि एक पीढ़ी या पन्द्रह सालके लिए कुछ कम चिन्ता हुई, लेकिन तीसरी पीढ़ीमें तो फिर दो-दो बीघा खेत और आठ-आठ लड़के-लड़की । जिसके घरमें आज दाल भी है तो नमक नहीं है ।”

दुखराम—और फिर भैया ! गाँवमें आधेसे अधिक तो ऐसे घर हैं, जिनके पास खेती-पथारी भी नहीं है । दिन भर मजूरी करते हैं, सामको जो सूखा-रूखा मिल गया, तो लड़कों-बालोंके मुँहमें अन्न पड़ा । रोज कमाना, रोज खाना । एक दिन गाड़ी बैठ गई, तो हाहाकार । तीस दिन मजूरी भी तो नहीं मिलती और सालमें छ महीना भी करनेके लिए काम नहीं रहता । सिर्फ बोने काटनेके वक्त काम रहता है ।

भैया—मजूर-पेसा आदमियोंकी तो और आफत है । जेठ, असाढ़, सावनका दिन काटना मुस्किल हो जाता है । जो महुआ उस साल रहा, तो कुछ अवलम्ब लगा ।

दुखराम—और महुआभी तो अब नोहर (दुर्लभ) हो गया है । कहाँ पैसेका दो सेर और कहाँ वह भी अब दो आना सेर लग गया । आमकी गुठली जमा करके कुछ दिन रोटी पकाते खाते थे, और अब उसके खानेवाले इतने अधिक हैं कि सबको गुठली कहाँसे मिलेगी ?

भैया—दुखू भाई ! इसेभी क्या कोई जीना कहोगे ? यह नरककी जिन्दगी नहीं तो और क्या है ? फिर देखते नहीं, मजूर-घरोंकी क्या दसा है ? फूसकी छत भी उन्हें ठीकसे मवस्सर नहीं । एक बार छा पाये, तो चाहे सड़ गल जाय, बरसातका आधा पानी भीतर ही जाता हो, लेकिन फिर उसको नया करना मुस्किल है । कितनी छोटी छत, कितना छोटा दुआरा,

भीतर सीढ़ बाहर नावदान और कूड़े-करकटकी बंदू ! यह क्या आदमियोंके रहने लायक घर है ? इन्ही सड़ी भोंपड़ियोंमें बच्चे पैदा होते हैं । जब वह आँख ग्योलते हैं, तो उनके आस-पास क्या दिखलाई पड़ता है ? गरीबीका नगा नाच, तिलमिलाती अतड़ियाँ, सूखा मुँह नगा बदन !

दुखराम—आजकल लड़ाई के जमाने में दस-दस रुपयेकी साड़ी कौन खरीदेगा ? फटा चीथड़ा भी तो नसीब नहीं होता है । जान पड़ता है टाट भी पहिननेको नहीं मिलेगा ।

भैया—हाँ और बच्चा नङ्गा-भूखा-सरीर और वही गरीबी चारो ओर देखता है । सूखे थनोंसे दूध निकालना चाहता है । इसपर भी यदि हमारे देसके आधे बच्चे बचपन हीमें न मर जायें तो बड़े अचरजकी बात है लेखक ।

दुखराम—हाँ । भैया, सतमीके बच्चोको नहीं देखा ? दो तीन बरसोके भीतर उसका लडकोंसे भरा घर खाली हो गया ।

सन्तोखी—मैं समझता हूँ, बच्चोके लिए अच्छाही हुआ ! पेट भर खाना किसे कहते हैं, क्या इसे उन्होंने कभी जाना ? जाड़ेमें बेचारे यदि किसीके कोल्हुआड़ेमें आग तापने जाते, 'ऊख चुराकर ले जायगा' कह कर दुतकार दिये जाते । मानों वह आदमी नहीं कुत्ते थे । कोदोका पुआल या ऊखकी पत्तियोंमें घुस कर रात बिता देते । भूख लगती तो किसीके द्वार पर खड़े होते । दया आई, तो किसीने एक कौर दे दिया, नहीं तो फिर फटकार । जड़ैया, (मलेरिया) में सब गिर जाते, तिल्ली बढ़ती, पेट फूल कर कुंडा जैसा हो जाता मुँह पीला और आँखे फूल जाती । फिर एक-एक करके पके पकेकी तरह भड़ने लगते ! क्या यह आदमीका जीवन है ?

भैया —अब समझा न, यही नरकका जीवन है । शायद तुम समझते होगे कि सहरके साफ़ कुर्त्ता-धोती पहिननेवाले बाबू लोग अच्छी जिन्दगी बिताते होंगे ?

दुखराम—हाँ, भैया ! हम तो ऐसाही समझते हैं—वह तो पान भी खाते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, हम लोगोको देख कर गन्दा-गँवार कह कर हट जाते हैं ।

भैया—उन सफेद कपड़ोंके भीतर ही भीतर कितना धुआँ उठ रहा है, यह तुम्हे नहीं मालूम है। दुक्खू भाई ! पहिले कभी जमाना था कि विद्याका मोल ज्यादा था। इन्ट्रैन्सभी नहीं पास होते थे, कि लोग वकील, मुसिफ, सदर-आला हो जाते, लेकिन अब एम्० ए०, बी० ए० पास कर चालीस-चालीस रुपल्लीकी नौकरीके लिए इधर-उधर मारे-मारे फिग्नं हैं। डेढ़ सेरका आँटा, सवासेरका चावल, चार रुपया सेर घी, अढ़ाई रुपया मन ईंधन, बत्ताओ चालीस रुपयेमें तो अकेले आदमीका भी पेट नहीं भर सकता। फिर मकानका किराया तिगुना। पैर पसारने पर इस दीवारसे उस दीवार पहुँच जायँगे, ऐसी-ऐसी कोठिरियोंका किराया ! पाँच रुपया महीना कपड़ेका दामभी चौगुना। फिर बाबू अकेले नहीं होते। माता-पिता अपने पैर पर खड़ा करनेसे पहिले लडकेका ब्याह कर देते हैं और पच्चीस बरसके होते-होते बाबूके चार-पाँच बच्चे भी हो जाते हैं। अब बत्ताओ चालीस रुपयेमें वह क्या अपने खायँगे, क्या बीबी और बच्चोंको खिलायँगे ? कहाँसे घर भरके लिए कपडा ले आएँ ? मकान का किराया कैसे दे ? लडकोंकी फ़ीस कहाँसे आयेगी ? यदि लडके लडकियोंको पढ़ाया नहीं, तो उन्हें भीख भी नहीं मिलेगी। फिर लडकियोंके ब्याहके लिए दहेजका रुपया कहाँसे आये ? इनके घरके घर तपेदिकमें उजड़ जाते हैं। ठीकसे खाना नहीं, चिन्ताके मारे दिन-रात कलेजा मुलगता रहता है, दवाका भी ठिकाना नहीं है, इतने कमजोर सरीरमें तपेदिक क्यों न घुसे ? ठीक कहता हूँ दुक्खू भाई ! बाबू लोगोंके घरके घर साफ़ हो गए।

दुखराम—मैं तो समझता था भैया ! कि बाबू लोग बहुत अच्छी तरहसे होंगे; खूब लोगोंसे रुपया ऐंठते हैं।

भैया—सौ में पाँच तो सभी जगह अच्छे मिल जायँगे। जानते नहीं हो वकालत पास करके कचहरीमें आधे लोग सिर्फ़ मक्की मारने जाते हैं। इधर-उधरसे माँग-जाँचके पैस दो पैसेका पान खाकर मुँह पर रोब और रोसनी लाना चाहते हैं ? लेकिन दुक्खू भाई ! रोसनी मुँहमें खैर-चूना लपेटनेसे नहीं आती। जब आदमीको पेट भर खानेको मिलता है, निश्चिंत रहता है, रोसनी अपने आप भलकने लगती है। तुम समझते होगे कचहरीके मुहर्रिर, थाना

के मुसीबी — जिनसे तुम्हें भी कभी पाला पडा होगा—

दुखराम—हाँ, भैया ! वह तो अपने आपसे भी पैसा लिये बिना नहीं छोड़ते, हड्डी पर कर पैसा निकालते है ।

भैया—तो उनका ऐसा करना क्या हद दरजेका कमीनापन नहीं है ? गरीब आदमी किस्मतका मारा न्याय पानेके लिए थाना-कचहरी जाता है, और उसे जेवर बेच कर, खेत रेहन रख कर रुपया लानेके लिए कहा जाता है ।

दुखराम—देह बेच कर देना पडता है भैया ! क्या करे, नहीं तो जेल भेज दें, मुकदमा खराब कर दे ।

भैया—यह तो पापकी कमाई है न दुख्खू भाई ! लेकिन आदमी क्यों ऐसा करता है ? इसीलिए न कि तनखास उसका पेट नहीं भरता । उसे अपने बाल-बच्चोको पढाना है, और सबसे बड़ी आफत है, आजकल लड़कियोका ब्याह करना । बाबू लोगोके लड़के बिना पढ़ी-लिखी लड़कीसे ब्याह नहीं करते, इसलिए लड़कीको भी पढाना पडता है ।

सन्तोखी—बनारसमें हमारी अग्रवाल बिरादरीके हैं एक भाई, जिनकी लड़कीने एम० ए०, बी० ए० पास किया है ।

भैया—हाँ, कोई-कोई लड़कियाँ एम० ए०, बी० ए० भी पास कर लेती हैं । माँ-बाप तो चाहते हैं कि बारह-तेरह ही वर्षमें ब्याह हो जाय, लेकिन जानते हो न लड़कोका मोल-भाव ? तिलक-दहेज नहीं जुटता आजकल करते दिन बीत जाता है । लड़की पढ़नेमें लगी है, वह कहते हैं, चलो तब तक पढ़ती रहे । फिर जानते हो न विद्वाका चसका । जब आँख पर पट्टी बंधी रहती है, तो मरद हो चाहे मेहरी, उसको दुनिया-जहानका कोई पता नहीं रहता, लेकिन विद्वा आँख खोल देती है । कुछ पढ़ लिख लेने पर लड़कीको अपने विद्वाके घरमे सजाकर रखे जगमग जगमग करते रतन दिखाई देने लगते हैं । उसे खुद और पढ़नेका लोभ हो जाता है और जब बेचारी एम० ए० बी० ए० पास कर लेती है, तो ब्याह होना और मुसिकल हो जाता है ।

सन्तोखी—क्यों भैया ! जब बाबू लोगो को बहुत पढ़ी-लिखीसे ब्याह करनेके लिए तो और उतावला होना चाहिए ।

भैया—घबराते हैं, घबराते मेहरी जो एम० ए०, वी० ए० तक पढ़ी होगी, उसके दिमागमें गोबर नहीं न भरा रहेगा ? वह खुद अदबसे बात करेगी। लेकिन बाबूको भी अदब सीखना होगा। वहाँ “ढोल गँवार मूद्र पसु नारी” से काम नहीं चलेगा ! भूटा रोत्र भी नहीं गाँठा जा सकेगा।

दुखराम—एम० ए०, वी० ए० की क्या बात कर रहे हो भैया ! हमारी बुधुआकी माईको नही देखते, वलिस्टग बन जाती है वलिस्टग। मुँहसे बात नहीं निकलने देती। उसके सामने हम ढोल गँवारकी बात कर सकते हैं ?

भैया—इसीसे समझ जाओ, ज्यादा पढ़ी लिखी औरतको ब्याहनेसे बाबू-भैया लोग क्यों घबड़ाते हैं। अभीसे पचास-पचास वर्ष तक कुँवारी चैटी रहनेवाली मेहरियाँ देखी जाने लगी हैं, आगे न जाने क्या होगा।

दुखराम—तो माँ बापके लिए भी बड़ी चिन्ता है।

भैया—कुफुत है कुफुत, तीस ही पैतिस बरसमें बाबू लोग बूढ़े हो जाते हैं, इसी सब चिन्ताके कारण। लड़कियाँ तो ब्याहे बिना जवानी बिताने लगती हैं और लड़कोको जल्दी ब्याह कर देनेके लिए लड़कीवाले घरने लगते हैं। बापको ऐसे ही गिरस्ती चलाना मुस्किल है, ऊपरमे लड़केकी बहू बनकर एक और घरमें पहुँच जाती है।

दुखराम—और वह अकेलीभी तो नहीं रहती।

भैया—बस बरसही भर बादसे घर में नए-नए मुँह आने लग जाते हैं। पहिले जितने मुँह थे, उन्हींके खानेका ठिकाना न था, अब पोतानाती और बढ़ने सुरु होते हैं। फिरकी बात क्या पूछते हो ? हर बखत मन परेसान रहता है, फिर घरमें बिना बातहीका भगड़ा क्यों न होता रहे। मेहरी मर्दसे लड़ती है बाप बेटामे लड़ता है और सब आपसमें लड़ते हैं, मार-पीट, गाली-गलौज क्या कोई बात उठा रखते हैं ? सारा मुहल्ला सुनता है, ज्यादा सिर-विर फूटा या किसीने अफीम-सखिया खा ली, तो जेलकी भी हवा खानी पड़ती है। यह घर नरक नहीं तो क्या है ?

सन्तोखी—हाँ भैया ! मेरे भी सहरमें कुछ रिस्तेदार हैं। हमको तो गाँवका

गँवार समझ कर नाक-भौं सिकोडते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, कि चूनाकली किए उनके सफेद घरों, धोत्रीके घरसे, बगुलेके पर जैसे धुले कपड़ेके भीतर आग धाय-धाय जल रही है, चिन्ताके मारे परेसान हैं। व्यापार मन्दा, दिवाले का डर, सिर पर महाजन, घरमें लड़की सयानी। क्या करे बेचारे, यही सोचते हैं कि किसको लूटें, किसको मारे।

भैया—देखा न दुखू भाई ! जो सफेद दिखाई देता है, उसके भीतर भी ढोलकी पोल है। चालिस-पचास पानेवाले बाबुआकी बात नहीं, जो चार-सौ पाँच-सौ पानेवाले बड़े-बड़े हाकिम हैं, उनके घरमें भी नरककी आग धाय धाय जल रही है।

दुखराम—चार-पाँचसौ रुपया महीना जो पाएगा उसको क्या दुख होगा भैया ?

भैया—चार-पाँच सौ पानेवालेके घरमें मेहरी बच्चे मिलाकर चार-पाँच आदमी तो होंगे। कितना ही बच्चा पैदा करनेसे हाथ रोके, लेकिन घरमें इतनेसे कम परानी कहाँ होंगे ?

दुखराम—हाथ रोकनेकी बात क्या है भैया ! बाल-बच्चा देना भगवानके हाथमें है।

भैया—भगवान अपने कितनेही कामोमे इस्तीफा दे चुके हैं, हमारे सामने नहीं, उन लोगोके सामने, जो भगवानकी नस-नाड़ी पहचानते हैं। एक बुन्द पुरुषका और एक बुन्द तिरियाका दोनों मिलकर बच्चा पैदा होता है आजकल बहुतसे तरीके निकल आए हैं। जिनके इस्तेमालसे दोनो बुन्द मिलने ही नहीं पाते। लेकिन अभी हमारे देसमें पुरुषोंमें न हो, लेकिन तिरियोंमें पूतकी लालसा बेसी होती ही है। इसलिए चार-सौ पाँच-सौ पानेवाले हाकिमके घरमें भी चार पाँच परानी तो होते ही हैं। बेचारोको आदमीका धरम छोड़ना पड़ता है।

सन्तोखी—धरम क्यों छोड़ना पड़ता है भैया ?

भैया—माँ-बापने पढ़ाया-लिखाया कि लड़का कमाएगा, तो बुढ़ापेमें उनकी भी खबर लेगा। एक उदरसे पैदा हुए भाई-बहिनोंने समझ था कि

यह हमारे अपने हाड़-मांस हैं, लेकिन हाकिम बनते ही लड़केकी आँख बदल जाती है। उसे जज साहबसे हाथ मिलाना है उसे कलट्टर साहब के सामने पूँछ हिलाना है। अच्छा कोट चाहिए, अच्छा बूट चाहिए, नहीं तो दरसन मिलना मुसकिल हो जायगा। यहींसे लिवास और लिफाफा बढ़ना शुरू होता है। पाँच सौमें चार सौ तो बँगला-भाड़ा, टोप-कोट, घोड़ा-गाड़ी या मोटर ही पर खर्च हो जाते हैं—आजकल लड़ाईके दिनोंकी तो बातही मत पूँछो। फिर बत्ताओ सौ रुपयेमें अपने खाएँ, बीबी-बच्चोको खिलाएँ या नौकर चाकर को ?

सन्तोखी—तो वहाँ भी सचमुच लिफाफा ही है !

भैया—लिफाफा मत कहो, सन्तोखी ! वहाँ भी नरककी आग धाय-धाय कर रही है। बेचारे माँ बापकी भी आसा तोड़ते हैं, भाई-बहिनकी ओरसे भी तोताचसम बनते हैं ; सिरिफ अपना और अपने अडे-बच्चेका ख्याल करते हैं। तुम्ही बत्ताओ, बचे सौ रुपयेमें वह और क्या कर सकते है ? वह मजबूर हैं, पड़े-लिखे आदमीसे जानवर बननेके लिए। लोग कहते हैं कि यह परले दरजेकी खुदगरजी और कमीनापन है। लेकिन बेचारे करे तो क्या करे ? जो लिफाफामें कम करे तो बड़े अफसर ग्वास करके अँगरेज-घिनकी नजरसे देग्वेगे, फिर आगेकी तरक्की बरक्कीकी आसा गई। नहीं तो घूस रिसवत ले।

सन्तोखी—इतनी इतनी तनग्वाह पानेवाले हाकिमोंको तो रिसवत नहीं लेनी चाहिए।

भैया—मैंने लेखा-जोखा बतलाया न ? उसीसे लेना पड़ता है। पाँच सौ वाले भी लेते हैं, पाँच हजारवाले भी लेते हैं और पच्चीस हजारवाले भी, इस दुनियाँमें घूस-रिसवतका बाजार ही सबसे तेज है। सब इमे जानते हैं, सब एक दूसरेकी आँखमें धूल भोंकना चाहते हैं, कहीं-कहीं इस घूस-रिसवतका नाम है बड़ा-बड़ा भोज और मेम साहबकी अंगुलीमें हजारोंकी अँगूठी, लाखों की मोती रतन-माला।

सन्तोखी—भैया ! मैं क्या सुन रहा हूँ ?

भैया—चुपचाप सुनते जाओ, बड़े घरोंकी बड़ी पोल, बड़ी फिकर, बड़ी

दोज़्बकी आग । सब जानते हैं कि घूस-रिसवत बुरी चीज है । कभी-कभी पकड़े जानेपर सबसे बड़ी मछलियोंको तो कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी-मझोली मछलियों पर हाथ उठाना पड़ता है, आग्विर न्यायका ढोंग तो कुछ दिखलाना ही पड़ेगा । लेकिन दुक्खू भाई ! तुम खुद समझ सकते हो, कि जो मौकी आमदनीपर डंढ सौ खर्च करनेकेलिए मजबूर है और उसे घूस रिसवत, जैसे भी हो तैम, पूरा करना चाहता है, उसका चित्त सान्त होगा या असान्त, वह भयभीत होगा या निरभय ?

दुग्गाम—वह भीतर ही भीतर काँपता रहेगा भैया !

भैया—फिर उसकी जिनगी सुखकी जिनगी नहीं हो सकती, चाहे उसके मुँह पर मुस्कुराहट दीव्य पड़ती हो । चाहे उनके चारों ओर सुन्दरताई फैल रही हो । इन बड़े लोगोंके लड़के-लड़कियाँ बड़े टाटम पलते हैं । लड़कियोंको इन्द्रपुरीकी परी बनानेका उद्योग बचपन हीमें शुरू हो जाता है । जवानी में पैर रखते-रखते वह अप्सरा बनभी जाती हैं लेकिन कितना मँहगा सौदा ।

सन्तोखी—सहरमें जाता हूँ तो मैं भी कभी-कभी इसे देखता हूँ । मेरी ही जातिके लोग हैं, जातिके चौधरी हैं, उनकी ओर उँगली कौन दिखला सकता है । लेकिन जान पड़ता है सील-सकोच, धरम-करमसे उन्हें वास्ता नहीं ।

भैया—लेकिन सन्तोखी भाई ! तुम समझ रहे हो कि यह अपने मनसं ऐसा करते हैं । नहीं, ऐसा नहीं, बड़े दामाद चाहिए, दामाद अप्सराये पसन्द करते हैं, नाच गाना, हाव-भाव चाहते हैं । जो यह सब बातें लड़कीमें न हो, तो उसे कौन पूछेगा । इतना होनेपर भी तो कितनी ही लड़कियोंको कुँआरी ही जीनगा बिता देनेके लिए मजबूर होना पड़ता है ।

सन्तोखी—नहीं भैया ! मैं यहाँ तुम्हारी बातको नहीं मानता । जो साहब-बहादुर बन जाते हैं, उनमें बराबर एक दूसरेकी औरत भगा ले जानेका रोग होता है ।

भैया—रोगसे तुम्हारा मतलब है महामारी ? लेकिन ऐसी महामारी नहीं है । यह लोग हैं तो हमारे देसके, लेकिन इनका दिमाग सातवें आसमान पर

रहता है। कलट्टर हो गए, पन्द्रह सौ रुपयेमें अपनी देह और आत्माको विदेशियोंके हाथमें बेच दिया, इसके लिए उन्हें सरम होनी चाहिए थी; लेकिन यह हमारे भाई-काले साहब गोरोंका भी कान काटते हैं और हम लोगोंको जगली, उजड्ड गँवार समझते हैं। हमभी आदमी हैं, हमभी समझते हैं, आग्विर “हित अनहित पसु पच्छिहु जाना”। हम उनसे घिना करते हैं।

सन्तोखी—यह बात ठीक कहीं भैया।

भैया—और जब आदमीके दिलमें घिना हो जाती है, तो सदा छिद्र दूँदने लगता है, और जरा भी छिद्र मिल गया, तो बातका बतगड़ बना डालता है। मैं मानता हूँ कि इनमें कभी-कभी एक दूसरेकी औरतको भगाने की बात भी देखी जाती है। लेकिन वह भी क्यों? उन्हें अप्सरा बनाओ, उन्हें यूरुपवालोंके लिखे गन्दे-गन्दे उपन्यास पढ़वाओ या सिनेमाकी रासलीला दिखलाओ। पुरुषोंको तो कचहरीके दफ्तर में कुछ कामभी रहता है, इनकी तिरियोंको तो कोई काम भी नहीं रहता। काम करने लगे, तो मक्खनसं हाथ कहाँ रहें। बेकार रहनेका मतलब है, दिलमें हमेसा खुराफात पैदा करना, इसके बाद दूसरे भी लोभ होते हैं। किसीके पास दो हजारकी मोटर है तो किसीके पास दस हजारकी। किसीके पास इतना पैसा नहीं कि नैनीताल-मसूरी जाय और कोई वहाँ जाकर ५०) रोज खर्च कर सकता है। किसीके लिए २०) की साड़ी खरीदना मुस्किल है और कोई दो सौकी साड़ी ले सकता है, जो सिनेमा सुन्दरियोंके सरीर पर देखी जाती है। यह निठल्लापन लोभ और उपन्यासोंकी कामुकता कारण हैं। जिनसे तिरियोंके भागनेकी नौबत आती है। इनके घरोंकी लड़कियोंकी तो और दुरदसा है। वह सिर्फ माता-पिताके भरोसेपर पति नहीं पा सकती इसीलिए उन्हें अप्सराकी तरह सजना पड़ता है।

सन्तोखी—यह ठीक कहा भैया! हमने अब तक सुना था, कि महावर पंर में लगाया जाता है, लेकिन अब सुनते हैं, कि इनके घरकी लड़कियाँ ओटमें भी महावर लगाती हैं।

भैया—इनका सारा जीवन नाटक है सन्तोखी भाई! और सुखका नाटक सायद सौमें दो-चारका, बाकी सबकाही दुखका नाटक है। लड़कीको पढ़ाया-

लिखाया, बी० ए०, एम० ए० कराया । बंसी फेंकी जा रही हैं कि कोई कलट्टर मजिहटर या लाख-दो-लाख वाला आदमी फंसे, लेकिन यह सबके भागर्का बात तो नहीं है । उनके लडकोंकी तो और बुरी हालत होती है ।

दुखराम—लडकोंका मिजाज तो वापस भी बढ-चढ कर होता है ।

भैया—यही मिजाज तो उनके लिए और घातक होता है । यह पान-फूल की तरह पाले-पोसे जाते हैं, मेम लोगोंके इस्कूल-में पढ़नेके लिए भेजे जाते हैं, वह नहीं हुआ तो देवफोफी-समाज वालोंके इस्कूलमें जाते हैं ।

दुखराम—देवफोफी-समाज क्या है भैया ?

सन्तोखी—अरे सखीसमाजकी तरह कोई होगा ?

दुखराम—यह सखीसमाज क्या है सन्तोखी भाई ?

सन्तोखी—अरे तुम तो गाँवसे बाहर कहीं जाते भी नहीं ।

दुखराम—वही एक बार कलकत्ता गया था, बरस दिन चटकलमें काम किया, बीमार होकर घर पर आया, बचनेकी उम्मेद नहीं थी । अब यही पुरखों के गाँवमें मट्टी पीट-पाट कर चाहे आध पेट खायें चाहे भूखे रहें ।

सन्तोखी—अयोध्यामें एक बार हम गये थे, हमारे बनारसके रिस्तेदार थे, महात्माका दरसन कराने ले गये । लेकिन महात्माको देखकर देहमें आग लग गयी । मेहरीकी तरह सोलहो सिंगार करके बैठे थे—आँखमें मोटा-मोटा काजल, सिरमें टीका, मटक-मटक कर चलना, मीठा-मीठा बोलना । मैंने उनसे पूछा “वह महात्मा कहाँ है ?” उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कानमें कहा—“चुप, यही तो महात्मा हैं ।” पीछे बतलाया कि यह महात्मा रामजीमें मिल चुके हैं । रामजी रोज इनके पास आते हैं ।

दुखराम—धत्तरे की ! रामजी राजा रहे, उनको हजार-हजार सुन्दर जोरू मिल जातीं, लेकिन सीताजीको छोड़ कर किसीकी ओर नजर उठाकर नहीं देखा, वह भला इन जनखे मर्दोंके पास आयेंगे ! मैं होता, सन्तोखी भाई ! तो कुछ जरूर बोल उठता ।

सन्तोखी—कुफुत तो मुझेभी हो गई थी, क्या करता रिस्तेदार का ख्याल करके चुप रह गया । यह लोग अपनेको सखी कहते हैं ।

दुखराम—तो यही है सखी समाज, और देवफोफी समाज भी. इसी तरह का क्या कोई है भैया ?

भैया—कुछ फरक है, सखी समाज हमारे काले भाई लोगोंकी करतूत है और देवफोफी समाज गोरे लोगोंकी ।

सन्तोखी—किरिस्तानका धरम तो नहीं है ?

भैया—नहीं सन्तोखी भाई ! यह सतनजा है सतनजा । कुछ हिन्दू धरमसे लिया, कुछ किरिस्तानसे लिया, कुछ मुसलमानसे लिया । लेकिन इतना ही रहता तो कुछ काम चल जाता ।

सन्तोखी—तब तिननजा ही न रह जाता । सतनजा कैसे बना भैया ?

भैया—अरे इन्होंने ओम्हा-सोखा भूत-परेत, चुड़इल-डाइन सब मिलाकर बहुत बड़ा धरम खड़ा कर दिया ।

दुखराम—बहुत बड़ा धरम, यह तो ताड़से भी बड़ा धरम होगा । तो पड़े-लिखे लोग यह ओम्हा-सोखा, भूत-परेत वाली बात मानते हैं ।

सन्तोखी—देवफोफी सुना नहीं है, नाम देवता लोगोंसे बात करनेकी फोफी है, इसलिए न भैया ! नाम देवफोफी पड़ा है ?

भैया—नाम तो वह लोग थियोसोफी कहते हैं, लेकिन मतलब वही देवफोफीका ।

सन्तोखी—तो देवफोफीका भी अपना स्कूल है भैया ?

भैया—देवफोफीके स्कूलमें मामूली घरके लड़के थोड़े ही पढ़ सकते हैं, बड़े घरके लड़के जाते हैं । हवा-बतास धूप-घामसे बचाकर उनको रखा जाता है ।

दुखराम—तब तो एक ही भूकोरामें मुरभा जायेंगे ?

भैया—मुरभा तो जाते ही हैं । हाकिमके लड़के हैं तो हाकिम भी तो हजारों हैं और सबके घरमें दो-दो चार-चार लड़के हैं । एम० ए०, बी० ए०, तो किसी तरह ठोक-पीटकर खुशामद-बरामद करके बना लिए जाते हैं लेकिन सबको नौकरी कहाँ से मिले !

सन्तोखी—तब बैठे-बैठे मक्खी मारते होंगे ।

भैया—मक्खी मारना भी तो इन्होंने नही सीखा । लडकी होते, तो शायद कभी भाग भी खुल जाता । राजकुमारकी तरह पाले गये, मिजाज आसमान पर रहा । पढ़-लिखकर तैयार हुए, तो बड़ी नौकरी मिली नहीं, पचास-पचीस-की मुहर्ररीपर मन ही नही जाता । चापके मत्थे खाये । पेसिन ले ली, तो घर-का चलाना और मुश्किल और दो-चार वेटा-वेटी गलेमें लटक गये वस ।

दुखराम—जीते ही नरक ।

सन्तोखी—तो मालूम होता है सब जगह यही हाल है ।

दुखराम—हम तो अपना ही दुख देखकर दुनियाको नरक कहते थे ।

भैया—नहीं दुख्खू भाई ! नरककी आग घर-घर जल रही है, किसीका घर आज बचा हुआ है तो कल नहीं बच पायेगा ।

सन्तोखी—शायद राजा-महाराजा लोग अच्छी हालतमें होंगे, उनके पास बहुत धन...

भैया—बहुत रानी-महारानी रंडी-मुंडी नौकर-चाकर होते हैं, इसलिए उनके यहाँ बैकुंठ है यही न कहते हो सन्तोखी भाई ? लेकिन जानते हो न ? इन्दौर निकाले गये, अल्वरके महाराज निकाले गये, नाभावालें न जाने कहाँ जाकर मरे ।

दुखराम—बिल्लाइटके बादसाह तो बहुत सुखसे होंगे भैया ?

भैया—मैं कब कहता हूँ कि सौ में दो-चार आदमी भी सुखी नहीं मिलेगे । लेकिन कलके लिए निश्चित, ऐसा सुख तो दरंगी दुनियामें कही नहीं है । तुमने सुना नहीं है दुख्खू भाई ! अभी बहुत दिनकी बात तो नहीं है, बिल्लाइटके बादसाह प्रिंस आफ वेल्स निकाल दिये गये ।

सन्तोखी—हाँ, हाँ ! आजकल जो बादसाह हैं, इन्हीके तो बड़े भाई थे और सिर्फ ब्याह करनेके कसूरमें ।

दुखराम—ब्याह करनेमें कौन कसूर था भैया ?

भैया—कसूर तो नहीं था । बेचारा कुँआरा था, अपने मनकी स्त्रीसे ब्याह करना चाहता था ।

दुखराम—साहब लोग तो अपने मनका ब्याह करते ही हैं फिर इसमें क्या

बुराई थी ?

भैया—साहब लोग कर सकते हैं लेकिन बादसाह नहीं ।

दुखराम—कलकत्तामें सुना था कि टोप-टोप सब एक जाति होती है ।

भैया—बिलायतमें भी राजाका खून दूसरा होता है और परजाका दूसरा ।

दुखराम—तो राजाका खून लाल नहीं मुनहले रगका होगा ?

भैया—खून तो सबका ही लाल होता है लेकिन कोई समझता है हमें भगवानने दाहिने हाथसे बनाया है और दूसरेको बाएँ हाथसे ।

सन्तोखी—तो साहेब लांगोंमें भी वेवफ़ोंकी कमी नहीं है ?

भैया—चालाकोंकी कमी नहीं है कही, इसे मैं पीछे बताऊँगा । जैसे हमारे घर-घरमें नरक बन गया है वैसे ही बिलायतमें भी है ।

सन्तोखी—सुनते हैं कि अरब रुपया हर साल हिन्दुस्तानसे दूर बिलायत जाता है फिर वहाँके लोग इतने तकलीफमें क्यों हैं ?

भैया वह सब रुपया बिलायतके चारो करोड़ आदमियोंमें नहीं बाँटा जाता । वहाँ पाँच सौ-छः सौ परिवार हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं । ताल-तलैया ऊसर-डाबर, नदी-नाला, सबका पानी बहकर समुद्रमें चला जाता है; वैसे ही दुनियाके बहुतसे भागका और हिन्दुस्तानका भी धन पाँच सौ-छः सौ परिवारोके पास चला जाता है । बिलायतमें तो गरीबी और असह हो जाती है । १९५०-३१ में तीस-तीस चालीस-चालीस लाख आदमी बेरोजगार हो गए थे. दस-पाँच लाख आदमी तो वहाँ बराबर ही बेरोजगार रहते हैं । वहाँ बेरोजगार रहनेका मतलब और भी साँसत । बारह आनेमें जहाँ एक प्याला चाय और एक टुकका रोटी मिले वहाँ नातेदार-रिश्तेदार भी कैसे किसीकी खातिर कर सकते हैं । लोग बुरी तरहसे मरते हैं ।

दुखराम—जैसे बंगालमें साठ लाख आदमी मर गए ।

भैया—नहीं, वैसा हो तो दूसरे ही दिन उन छः सौ परिवारोंके महलों-दरबारोंको लोग जमीनसे खोदकर फेंक दें । इक्के-दुक्के करके हजारों आदमी मरते हैं । कोई रेलके नीचे कटककर मरता है, कोई गैसका पाइप खोलकर नाक रखकर मर जाता है, कोई टेम्स नदी या समुन्दरके हवासे

अपने शरीरको कर देता है । छः सौ परिवार और उनके साथी समाजी घबड़ा कर खैरात बाँटने लगते हैं !

दुखराम—खैरात खाके जीना तो और बुरा है ।

भैया—बुरा है, वह भी नरकका जीवन है, लेकिन जीवन बहुत प्रिय है, नरकवाले भी जीवनको छोड़ना न चाहते होंगे ।

दुखराम—तो घर-घर मट्टीका चूल्हा है, किसीके यहाँ सोनेका चूल्हा नहीं है ?

भैया—हाँ ज्यादातर मट्टीका ही चूल्हा है, और जिनके पास आज सोनेका चूल्हा है, उनके बेटे-पोतोंके लिए ठिकाना नहीं है कि मट्टीका भी चूल्हा मिलेगा ।

दुखराम—तो मैंने ठीक कहा न ? दुनिया नरक है ।

भैया—नरक है लेकिन बनानेसे नरक बनी है ।

अध्याय २

दुनिया क्यों नरक है ?

दुखराम—सन्तोखी भाई, कल रात तो बहुत देर हो गई थी, लेकिन भैया-ने बात खूब बतलाई ।

सन्तोखी—हम लोगोंको दुख्खू भाई ! दुनिया जहानका क्या पता है, हम तो गूलरके कीड़े हैं, हमारी दुनिया बस उतनी ही बड़ी है । लेकिन भैया रज-बली कितना समझा-समझाकर बतलाते हैं । नरक-नरक तो हम सुनते चले आए थे ।

दुखराम—लेकिन सुना न भैयाने क्या कहा था ?

सन्तोखी—हाँ, कि दुनिया नरक बनानेसे बनी है । अच्छा अब सावधान हो जाओ भैया आ गए ।

भैया—कहो, दुख्खू भाईको रातको तो सोनेका बखत बहुत कम मिला होगा ।

दुखराम—बखत ही कम मिला था भैया ! फिर दो घड़ी दिन गिरे तक हल चलाते रहे, हल छोड़कर एक घन्टा सो लिये हैं । तुम्हारी बात सुननेका बहुत मन रहता है भैया ।

भैया—मैं किस्सा-कहानी नहीं कहता दुखू भाई ' दुनिया नरक है, यह तो बहुत दिनसे सुनते आए हैं, लेकिन अब जानना है कि यह दुनिया नरक क्यों बनी । किसने बनाई । इसके बाद हमें यह भी जानना होगा, कि दुनिया अच्छी कैसे बनाई जा सकती है ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! हम वही सुनना चाहते हैं, और हमारी तागत ही क्या है, लेकिन जो बन पड़ेगा करेंगे । मुना है जब कन्हैयाजीने गोबरधन उठाया था, बालगोपालोंने भी अपनी-अपनी लाठी लगा दी थी ।

भैया—कन्हैयाजीका गोबरधन नहीं है सन्तोखी भाई ! यह है दुखू भाई-की छान ।

दुखराम—दस-पाँचका हाथ लगनेसे छान भी उठ जाती है भैया ।

भैया—बस यही बात है सन्तोखी भाई ! लाखों हाथ लग जाएँगे, तो बिगड़ी दुनिया बन जायेगी । लेकिन पहले तो यह देखना है कि दुनिया नरक कैसे बनी ! घाघकी कविता सुनी है न ।

“गेहूँक रोटी जड़हनेके भात ।

गल-गल नेमुआँ ओ घिउवा तात ।

तिरछी नजर परोसे जोय ।

ई मुख सरंग पैठिले होय ।”

दुखराम—हाँ भैया ! गेहूँकी रोटी महीन चावलका भात गरम घिउ हरख-प्रसन्नसे अपनी स्त्री परोसकर ग्विलाए, नीमूँ न भी रहेगा तो भी यही दुनिया बैकुंठ हो जायेगी ।

भैया—तो दुनियाको बैकुंठ बनानेके लिए कौन चीजकी जरूरत है ! पेट भर खानेको मिले अच्छा अब्र, घर भरको लाज ढॉकने जाड़ा गर्मीसे बचनेके लिए कपड़ा मिले; घरनीके मुँहपर चिन्ता और फिकिरकी छाँह न पड़े । इतना हो जानेपर दुनिया नरक नहीं न रह जायेगी ?

दुखराम—चिन्ता न रहे, घर भरको सुन्दर कपड़ा-खाना मिले, फिर क्या चाहिए भैया ?

भैया—दुखू भाई हमारे गाँवकी बगलमें यह गड़ही है न ?

दुखराम—हाँ भैया ! यह भी नरक है । जब माघ-फागुनमें पानी सूख जाता है, तो गाँव भरके पाखानेकी जगह बन जाती है, गाँव भरकी छुतहर हाँड़ी और सब गन्दी-गन्दी चीज इसीमें फेंकी जाती है, असाढ़में पानी यदि खूब जोरका नही बरसा, तो सब बज-बज करने लगता है ।

भैया—अभी हम बजबजकी बात नहीं कहते, यह गड़ही बनती क्यों है ?

दुखराम—हम लोग घर बनानेके लिए मिट्टी जो निकालते हैं ।

भैया—तो यह जो पासमें ऊँचे-ऊँचे घर खड़े हैं । इसीलिए न यह जमीन गड़ही बन गई ? इसी तरह तुमको जो खाना नही मिल रहा है, नगा रहना पड़ता है वह क्यों ? तुम जितना गेहूँ अपने खेतमें पैदा करते हो, यदि सब तुम्हारे पास रह जाय तो गेहूँकी रोटी मिलेगी कि नहीं ?

दुखराम—मिलेगी ! हम एक सालकी कमाई दो साल तक खाएँगे । लेकिन हमारे पास गेहूँ रहने कहाँ पाता है ? खलिहानमें उतनी बड़ी रासि देखते हैं, लेकिन त्रैसाख बीतते-बीतते घरमें चूहे डंड पेलने लगते हैं, न जाने कहाँ वह रासि अलोप हो जाती है ?

भैया—कहाँ अलोप हो जाती है, क्या तुम जानते नही हो ? जो सब रासी तुम्हारे पास रहे तो कुछ गेहूँको सुखू अहीरको देकर तुम घी भी ले सकते हो कुछसे अपने लिए कपड़ा भी खरीद सकते हो ! लेकिन आवेसे बेसीको बेचकर तो तुम मालगुजारी भी नहीं दे पाते । फिर जमींदारकी हर-हकूमत, जरिवाना-तलवाना, पटवारी-मुन्सीको घूस-रिसवत, थानेदारको मास-मलीदा, कचहरीके वकील-मुख्तारको मुँहसुँघाई, और सैकड़ों तरहके दूसरे खर्च किये बिना तुम्हारी जान नहीं बचेगी ।

दुखराम—और आजकल लड़ाईके लिए तो और पचास तरहके डंड लगे हुए हैं । सरकारको चन्दा दो, लड़ाईमें खर्चा दो, नही तो तहसीलदार साहब आँख निकाल लेंगे, थानेदार एक सौ दसमें चलान करनेकी धमकी देंगे । एक

आफत है हम लोगोंके सिर पर ?

भैया—तो तुम्हारे सामनेकी परोसी थाली खींच ली जाती है न ?

दुखराम—हाँ भैया ! यही कहना चाहिए । परोसी थाली तो खींच ली ही जाती है ।

भैया—दुनियामें जितना धन है उसको पैदा करते हैं कमेरे लोग । किसान न हों तो मिट्टीका सोना कौन बनावे ?

दुखराम—हाँ, गोहूँ सोनासे भी बढ़कर है । अनाज न रहेतो सोना खाकर कोई नहीं जी सकता है, न सोना पहनकर जाड़ा काट सकता है ?

भैया—मजूर न रहें तो चटकल-पटकलमें सूत कौन कातेगा ? तोत (करघा) कौन चलाएगा ? किसान कपास पैदा करता है, उसीका भाई मजूर कपड़ा तैयार करता है । ,लेकिन दोनोंको तन ढाँकनेके लिए पूरा कपड़ा भी नहीं मिलता ।

दुखराम—दस रुपया जोड़ा धोती कौन खरीदेगा भैया ?

भैया— दस रुपया नहीं कुछ ही दिन पहले पन्द्रह-सोलह रुपया जोड़ा धोती विकती रही है । आध सेर कपास लगा होगा, किसानको आठ आना दे दिया । मजूर ताँत पर दिनमें दो जोड़ेसे भी बेसी कपड़ा बुन सकता है । मँहगाई मिलाके तीस रुपया महीना मिलने पर धोतीके दाममेंसे आठ आना मिला ।

सन्तोखी—आठ आना आठ आना, एक रुपया तो भैया ! चौदह रुपयाके धोती जोड़ामें एक रुपया न मजूर किसानको मिला, बाकी तेरह रुपया ?

भैया—बाकी तेरहका हिसाब समझ लोगे तो पता लग जायगा कि इस दुनियाको नरक किसने बनाया । लड़ाईसे पहिले यह धोती जोड़ा साढ़े तीन-चार रुपयेमें मिलता था, उस वक्त किसान मजदूरको दस-बारह आना मुश्किलसे मिलता था, बाकी तीन सवा तीन रुपया उड़ जाते थे ।

सन्तोखी—पहले तीन सवा तीन रुपया उड़ जाते थे, अब तेरह-तेरह रुपये और धोतीके बनाने वाले हैं मजूर-किसान !

भैया—किसी चीजके पैदा करनेमें जो देह चलाता है, खून-पसीना एक करता है, वह है कमकर, कमेरा, कारीगर । घरके लोग काम कर रहे हों और

कोई आदमी छाँहमें बैठा रहे तो उसे क्या कहेंगे दुक्खू भाई ?

दुखराम—जांगरचोर कहेंगे, कामचोर कहेंगे, देहचोर कहेंगे और क्या कहेंगे भैया ? घरके लोग खून-पसीना बहा रहे हों और वह छाँहमें बैठा सोवे, वह भी कोई आदमी है ?

भैया—और, दुक्खू भाई ! जो वह कहीं शामको आकर कहे कि हम तो बासमतीका भात खायेंगे दालमें एक छटाँक घी डालकर, और उसके साथ आधसेर सजाव दही भी चाहिए, नेबुआ भी चाहिए, और छुम-छुम करके कोई गोरी परोसनेके लिए आए । तब क्या कहोगे दुक्खू भाई ?

दुखराम—कहनेकी बात पूछ रहे हो भैया ? उस कामचोरसे एक भी बात नहीं कहेंगे, उसका दोनों कान पकड़ेंगे, गाँवके सिँवानेके बाहर ले जाएंगे और गालपर खूब जोरसे दो-दो थप्पड़ लगाएँगे । फिर कहेंगे—“कामचोर, जा मुँह काला करके चला जा, फिर हमारे घरकी ओर मुँह नहीं करना ।”

भैया—तुम्हारा बेटा जीवे दुक्खू भाई । तुमने ठीक किया और ठीक कहा । किसान-मजूर, कमकर हैं, कामचोर नहीं हैं, उनके पल्ले पड़ा रुपया बारह आना और तेरह रुपया कामचोरोंके हाथमें गया, जो बासमतीका चावल खाते हैं, जिनकी थालमें गोरी छुम-छुम करके घी और सजाव दही परोसती है । वह तुमसे माँगने नहीं आते, तुम्हारे सामने हाथ नहीं पसारते कि तुम उनका कान पकड़कर गाँवकी सीमाके बाहर कर आओ ।

सन्तोखी—भैया ! हम लोग तो छोटी-मोटी दौरी-दूकान करते हैं, रुपयेपर एक पैसा मिल गया तो उसीको बहुत समझते हैं । लेकिन एक असली काम करनेवालोंको एक रुपया थमाकर तेरह रुपया अपनी जेबमें रख लेना यह रोजिगार नहीं है भैया ! यह तो सीधी लूट है !

भैया—लेकिन यह तेरहो रुपया एक आदमीकी जेबमें नहीं जाता सन्तोखी भाई ! इसमें बहुत लोगोंको हिस्सा मिलता है ।

दुखराम—चोरीका माल अकेले नहीं न पचता ।

भैया—अच्छा तीनका हिसाब बताएँ कि तेरह का ?

दुखराम—तीन-तेरह क्या भैया ?

भैया - अरे यही लड़ाईके पहले एक-एक जोड़ेपर तीन रुपयेकी लूट थी और अब तेरहकी ।

दुखराम—पहिले तीनके ही बारेमें बतलाओ भैया । पहिले हथौड़ीकी मार सह ले, फिर घनकी सहेंगे ।

भैया—तीन रुपयेमें जाते तो सभी कामचोरोंके पास हैं, लेकिन उनमेंसे चार आना चला जाता है कल-मशीन बनानेवालोंके पास । जानते हो न ? कल-मशीन बिलायतसे बन कर आती है ।

दुखराम - तो यह चार आना कल-मशीन बनानेवाले मजूरोके पास चला जाता है ?

भैया दुक्कू भाई ! क्या तुम समझ रहे हो बिल्लाइटमें सतयुग चल रहा है ? दुनिया भरमें सबसे ज्यादा जो परान देकर काम करते हैं, वही सबसे ज्यादा भूखे-नंगे रहते हैं । बिलायतके मजूरोंकी तनखाह बेसी है, उनको एक दिनका सात-आठ रुपया मिल जाता है ।

दुखराम - जनु हमारे यहाँका एक महीना और वहाँका एकदिन बराबर है ।

भैया - तो तुम समझते हो कि उनके पास रुपया रखनेकी जगह भी नहीं रह जाती होगी ?

दुखराम—हाँ भैया । दो-दो ढाई-ढाई सौ रुपया महीनेमें जिसके घर आता हो उसके घरमें तो तोड़ेका तोड़ा रुपया गंज जाता होगा ।

भैया—तोड़ा गाँजनेवाले दूसरे हैं, वे सब बिलायतके कामचोर हैं । मैंने बतलाया नहीं था, कि बारह आनामें तो वहाँ एक प्याला चाय और एक दुक्का रोटी मिलती है, और यह लड़ाईसे पहलेकी बात कह रहा हूँ ।

दुखराम - तो क्या बेचारोंके पास बचता होगा ?

भैया—तो धोती जोड़ेका चार आना जो बिलायत जाता है उसमें से एक-आना कलबनानेवाले मजूरोंको मिलता है, यानी तीन आना वहाँके कामचोरोंकी जेबमें ।

सन्तोखी-तीन रुपयेंमें चार आनेका हिसाब तो मालूम हुआ बाकी पौनेतीनका ?

भैया - चार आना और देना-पावना सूद-सादमें चला जाता है, आठ आना-

में सरकारी टिकस, खुदरा बेचनेवालोंके नफाको रख लो बाकी दो रुपया सीधा चटकलके मालिकके जेबमें जाता है ।

दुखराम—तब भी भैया ! बहुत है । मैं तो किसान हूँ ही, एक साल कलकत्तामें पटकलमें कामकरके मजूरोंके भी दुखोंको जानता हूँ । कमेरोंको दस-चारह आना मिले और सेठ लोग दो रुपया अपनी जेबमें रख ले यह क्या कम लूट है, लेकिन तेरह रूपयेकी लूटके सामने तो यह कुछ भी नहीं है । वह कैसे हुई भैया !

भैया—लड़ाईके पहिले जिस धोती-जोड़ेका दाम चार-साढ़े चार रुपये था, अब चौदह हो गया । वह इस तरहसे हुआ, सरकारने कलवाले मालिकोंसे कहा कि बहुत भारी लड़ाई हमारे सरपर आई है, उसके लिए हमें खर्च चाहिए, लड़ाईके कारण तुम्हे भी बहुत ज्यादा नफा होगा, इसलिए हम तुमसे टिकस लेंगे ।

सन्तोखी—एकम टिकस न भैया !

भैया—हाँ इनकम टिकट लेकिन लड़ाईवाला एकम टिकस । सरकारने कहा कि रुपयेमें पौने पन्द्रह आना हमारा और पाँच पैसा तुम्हारा ।

दुखराम—लेकिन यह सोरहो आना तो हम लोगोंके ही मत्थे न पड़ा ?

सन्तोखी—जो जो कपड़ा पहिनता है उसीके मत्थे पड़ा, इसमें भी कोई पूछनेकी बात है ।

भैया—सरकारने यह तो कह दिया कि सोलह आनेमें पौने-पन्द्रह आना हमारा और पाँच पैसा तुम्हारा, लेकिन यह नहीं हुकुम दिया कि धोती ४) जोड़ा ही बेचनी पड़ेगी ।

सन्तोखी—तो मिलवालों का हाथ खुला छोड़ दिया ?

भैया—चार रुपयाकी धोती बेचते तो साढ़े-उन्नीस आना सरकारके पास चला जाता, और पटकलवालेको मिलता दस पैसे । उसने धोती जोड़ेका दाम आठ रुपया लगा दिया । अब उसको मिलने लगा पाँच आना । फिर उसने सोचा कि जितना ही दाम बढ़ाओ, उतना ही हमारा पैसा ज्यादा होगा । सोलह रुपया करनेमें उसको दस आना मिलता । सरकारको भी नुकसान नहीं

था उसे भी सात रुपया छः आना मिल रहा था ।

दुखराम—अब मालूम हुआ भैया ! कैसे कमड़ेको इतना महँगा कर दिया ।

भैया—लासा या रबड़ ताननेसे बढ़ता है, लेकिन उसकी भी हद होती है कोस दो कोस तक कोई लासाको थोड़े ही तान सकता है ?

दुखराम—कोस दो कोस क्या हाथ दो हाथ भी नहीं खींच सकते ।

भैया—कारखानेवालोंने नफा कमानेके लिए चीजोंका दाम चौगुना-पचगुना कर दिया । अब तुम्ही बताओ, सोलह रुपया जोड़ा खरीदनेमें एक छोटी-मोटी भैंस बेचनी पड़ती न ? दस सेरका गेहूँ बेचते तो चार मन गेहूँ घरसे निकालना पड़ता । किसान गँवार होते हैं, उनको समझ नहीं होती । सब कहा जाता है; लेकिन जब वह देखते हैं कि बाजारमें जिस चीजपर भी हाथ लगाते हैं, उसीका दाम चौगुना-पचगुना है, तो वह गेहूँको दस सेरका कैसे बेचते ? गेहूँका दाम भी महँगा होने लगा । जब टाई दो सेरका होने लगा, तो पहिले उन लोगोंमें घबड़ाहट हुई, जो कि न किसान हैं, न सेठ हैं, न सरकार । अनाज महँगा होना उसके लिए उतना बुरा नहीं होगा जिसको देना-पावना बेचाकर करके खाने भरको घरमें अन्न रह जाता है । लेकिन जिसके घरमें ब्रैसाखमें ही अन्न नही रह जाता, वह क्वार तक कैसे काटगा ? बंगालमें यही हुआ, चावल रुपयेका दो सेर नहीं दो रुपये सेर हो गया । अब तुम बताओ जिसके पास ब्रैसाखमें ही अनाज खतम हो जाता है, वह दो रुपये सेर अनाज खरीदकर कितने दिनों तक खा सकता है ?

दुखराम—घरमें दस परानी हुए तो पेट जिलानेके लिए भी तीन सेर चावल चाहिए । छः रुपया रोज लगनेपर तो असाढ़ ही तक हल त्रैल, घर दुआर, जर जमीन सब बिक जायगी ।

भैया—सब बिक जायेगी तब घरवाले क्या करेंगे ?

दुखराम—वही भैया जो तुमने कहा है, लाज-सरम भी चली जायगी, इज्जत भी बिक जायगी, और तब भी नैया पार होगी कि नही इसमें भी सक है ।

भैया—तो जो साठ लाख आदमी बंगालमें मर गये उसका कारन तुम्हें मालूम हुआ ? उनका खून किसकी गर्दन पर है ।

दुखराम—कारखानेवालों और सरकारके ऊपर उन्होंने ही अन्धेर-गरदी की, तभी न अन्न का दाम बढ़ा ?

भैया—दो गरदन तो तुमने ठीक बतलाई लेकिन एक गरदन अभी और बाकी है। नहीं बल्कि एक मद कहो, यह चोरबजार का मद है।

सन्तोखी—साहु लोगकी बाजार लगती है यह तो सब जानते हैं, क्या चोरोंकी भी बाजार होती है भैया ?

भैया—होती है और सरकार बहादुरके राजमें दिन दहाड़े लग रही है। कपड़ेके कारखानेवालोंने देखा, यह तो दस आना हमारे हाथमे थमाकर सात रुपया छः आना सरकार ले लेती है, क्यों न हम अपने मालको चोरी-चोरी बेच लें। लाखो गाँठोंके बेचनेका सवाल था, सेर दो सेर चीनी नहीं थी कि लुका छिपाके काम चल जाता।

सन्तोखी—लेकिन सरकारने तो कारखानेवालोंका हाथ खुला छोड़ दिया था ?

भैया—खुला छोड़ दिया था कि जितना चाहें दाम रखे, लेकिन दामको विक्रीखातेमें लिखना पड़ता, फिर भोती पीछे दस आना और सात रुपये छः आनाका हिसाब रहता। मालिकोने सोचा, बिना खाताबहीपर लिखे माल बेच डालो।

दुखराम—न रहेगा बाँस न बजेगी बासुरी।

भैया—उन्होंने जाली बहीखाते रखे, बहुत अधिक मालको चोरी-चोरी बेचा, इसीको कहते हैं चोर बाजार। तुम कहोगे, बहीखाता जाली बनाना और सरकारी टिकिस अदा करनेमें धोखा देना यह तो बहुत भारी कसूर है। लेकिन जहाँ करोड़ोंका वारा-न्यारा हो, वहाँ लाखोंकी घूस रिसवन चलती है। फिर कौन है जो घर आई लक्ष्मीको लौटायेगा ? हजार दो हजार नहीं एक लाख एक मूठ घूस दिया जाता है ! बतानो कितने मिलेंगे इन्कार करनेवाले ? कालों हीके बारेमें नहीं कहता गोरे साहबोंकी भी बात पूछ रहा हूँ।

सन्तोखी—तब तो भैया ! सबका इमान-धरम डिग गया होगा ?

भैया—लाख ही नहीं सन्तोखी भाई ! करोड़की भी रिश्वतें चली है, उसने

हिमालयकी सबसे ऊँची चोटियों तकको भी ढाँक दिया है । लोग टुक-टुक देखते रहे, सब जानते हुए भी; लेकिन करें क्या किसके पास फरियाद ले जाएँ ?

दुखराम—चोर बजारवालोंने कहर किया भैया !

भैया—इन कपड़े और दूसरी चीजोंके कारखानेवालोंने करोड़ों रुपये बनाए, मालामाल हो गये । कितनोंने तो पाँच सौ पाने लायक नौकर पन्द्रह सौ रुपयेमें रक्खा, पाँच सौ उसे दिया, डेढ़ हजारकी रसीद लिखाई और एक हजार अपनी जेबमें रख लिया । बताओ इन करोड़पतियोंको कौन पकड़ सकता है, यहाँ कागज पत्तर भी ठीक है । फिर अनाजके चोरोंके अपराधको तो कोई भूल ही नहीं सकता ।

सन्तोखी—अनाज चोरोंने क्या किया भैया ?

भैया—जानते हो न ? चैतमें गेहूँ तैयार हुआ या अग्रहनमें धान । घर आया, दो महीनेके भीतर ही खाने या भूखे मरनेके लिए जो कुछ अन्न घरमें रह गया वह रह गया, नहीं तो सब झार-भूर कर बनिएके पास चला गया । सन्तोखी दास ! तुम भी अनाज खरीदते हो, बताओ उसे कितने महीने तक अपने घरमें रखते हो !

सन्तोखी—महीने और घरमें रखना ! हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं होता । किरानावाले बड़े-बड़े-से हैं, हम उनके लिए अनाज खरीदते हैं । रुपया पीछे पैसा दो पैसा बच गया तो बहुत है ।

भैया—तुम्हारे सेठ लाखवाले होंगे ?

सन्तोखी—हाँ, यही लाख दो लाखका रोजगार होगा और क्या ?

भैया—किरानाके असली मालिक लाख-दो लाख नहीं पाँच-दस करोड़का रोजगार करते हैं । चैतमें तुमने खरीदा, तो बैसाख-जेठमें वह अनाज करोड़-पति सेठोंका हो जाता है । और दाम तो असाढ़-सावनमें न बढ़ाकर आठ सेरके भावसे खरीदा और दो सेर तीन सेर कर दिया । अब यह दुगुना-तिगुना नफा किसके पेटमें गया ?

सन्तोखी—उन्हीं करोड़पति सेठोंके मुँहमें ।

दुखराम—लेकिन भैया ! अन्न तो जीवका अहार है । अन्नको महँगा करके यह तो लोगोंको जबह करना है । सरकार एक आदमी के खून करनेपर फाँसी चढ़ा देती है, फिर लाख-लाखके खूनपर चुप क्यों है ?

भैया—जब आदमी मरने लगे, हाय-हाय मचने लगी तो सरकारने भाव पका किया । लेकिन भाव पका करनेसे क्या होता है ? अनाज तो करोड़पतियोंके हाथमें था । जो एक करोड नफा हो तो बीस लाख घूस-रिसवत कौन नहीं दे देगा ।

सन्तोखी—तो छोटे-छोटे बच्चोंके बिलग्व-बिलग्वकर मरनेका ख्याल नहीं किया, पेटके लिए औरतोकी इज्जत बेचनेका ख्याल नहीं किया, ख्याल किया तो एक अपने ही नफेका ? छी ! धिक्कार है ऐसे पापियोंको !!

भैया—धिक्कार मत कहो सन्तोखी भाई । वे बड़े धर्मात्मा हैं । उनके बड़े-बड़े मन्दिर हैं, तीर्थोंमें सदाव्रत और धरमसाला चलती है, गोसालामें चंन्दा देते हैं । साधू-सन्त और पंडित पाधा लोग सेठकी जयजयकार मनाते हैं मौलवी लोग सौदागरके लिए दुआ माँगते हैं ।

दुखराम—तो इन कसाइयोंमें हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं ?

भैया—हाँ, सब अपने-अपने धरमके चौधरी हैं । हिन्दू सेठ दोनो साँभ ठाकुरजी का दरसन कर चरनामिरित लेते हैं; मुसलमान सेठ पाँच बेर नमाज पढ़ते हैं ।

दुखराम—भैया रजवली ! यह क्या है ?

भैया—मुँहमें राम बगलमें छूरी, और क्या ? लाखों औरतोंने अपनी इज्जत बेची, खानगी बनी; लाखों बच्चोंने तड़प-तड़प कर जान दी, साठ लाख आदमी मर गए लेकिन इन मोटी तोदवालोंके कानपर जूँ भी न रेंगी ।

• सन्तोखी—इनके कानपर न जूँ रेंगी, तो भगवानके कानपर तो जूँ रेंगनी चाहिए थी ? राछछ आततायी ! साठ-साठ लाख आदमियोंको तड़पा-तड़पा कर मार डाले ! भगवान अब भी अबतार न लें तो कब लेंगे ?

भैया—भगवान बहुत दूर रहते हैं सन्तोखी भाई ! कौन समुन्दरमें रहते हैं,

मुझे तो याद नहीं आता ।

सन्तोखी—छीर समुन्दरमें भैया ! सेसनागके ऊपर सोते हैं और लच्छिमी चरन दवाती हैं ।

भैया—एक तो दूर, बहुत दूर छीर समुन्दर न जाने कहाँ है, भूख के मारे बोल भी न सकनेवाले इन लाग्यों आटमियोकी सिसकीकी आवाज वहाँ तक पहुँचती भी कैसे ? फिर वह सेग्व (शेप) नागपर सोये हैं, गुलगुल बिछौने-पर नीद जल्दी आ जाती है ? तिसपरसे अपने नरम-नरम हाथोंसे लच्छिमीजी चरन दबा रही हैं, तो क्या मामूली नींद आएगी ?

सन्तोखी—लेकिन भैया ! प्रहलादके ऊपर गाढ़ पडा, तो तुरन्त खम्भ फाड़कर निकल आए, ध्रुवने पुकारा, तो तुरन्त दरसन दे दिया, द्रौपदीकी चीर खींची जाने लगी तो आके उसमें समा गये !

भैया—पहलाज और ध्रुव राजाके लडके थे द्रौपदी रानी थी । राजा-रानी कोई मरता, तो जरूर भगवानकी नींद टूट जाती, वह नंगे पैर दौड़ पड़ते ।

सन्तोखी—भगवानका राजा-रानीके साथ इतना प्रेम क्यों है भैया ?

दुखराम—मूर्ख चपाट । तुमको इतना भी पता नहीं है ? हमारे तुम्हारे बूतेका है कि भगवानके लिए मन्दिर बनवा दे । जो उनके लिए बड़े-बड़े मन्दिर बनाता है, छुपन परकारका भोग बनवाता है, दान-दच्छिना देता है; भगवान उसके लिए अवतार न लगे तो क्या तुम्हारे-हमारे लिए लगे ?

भैया—दुख्खू भाई ! तुमने बड़ी कड़ी बोली मारी !

दुखराम—बोलीकी चोट गोलीमें भी बढ़कर होती है भैया ! लेकिन सन्तोखी भाईका हम पैर पकड़ते हैं, वह हमारा अपराध जरूर छिमा कर देंगे ।

सन्तोखी—नाहीं दुख्खू भाई ! हम तुम्हारे ऊपर भला नराज होंगे ? हम दोनों लडकपनके सँघतिया ।

भैया—तनिक कड़ा कहा लेकिन दुख्खू भाई, कहा तुमने बावन तोला पाव रत्ती ठीक ही ।

दुखराम—भैया ! और तनिक आँख खोलो, चारों ओर मालूम होता है किसीने जकड़बन्द कर दिया है, साँस लेनेकी भी छुट्टी है । उधर सेठ लोगों की

धरमसाला और सदाबरत इधर अजोधियाजीका सखी समाज, फिर छीरसागर-के भगवान जो राजा-रानीके लिए नंगे पैर दौड़े-दौड़े आवें और पचास-पचास लाख गरीब कुत्तेकी मौत मार डाले जायें, और वह सुग बुगाएँ भी नहीं !

भैया—लेकिन दुक्खू भाई । यहाँ हमारे सामने भगवान नहीं हैं कि उनको गाली फजीहत दें । भगवान बेचारेका दुनिया के बनाने-बिगाड़ने में कोई हाथ नहीं है ।

दुखराम—तो वह हैं किस वास्ते ?

भैया—अभी हमें यह जानना है कि दुनिया को नरक किसने बनाया ।

सन्तोखी—हाँ ठीक तो है दुक्खू भाई ! राजवली भैयाने तो कह दिया कि भगवानका दुनियाके बनाने-बिगाड़नेमें कोई हाथ नहीं । हम लोगोको यह जानना चाहिए कि दुनिया को नरक बनाया किसने ? भगवानको लेकर हम क्या करें ।

दुखराम—सॉच ही कह रहे हो सन्तोखी भाई ! मुझे तो मालूम होता है कि भगवान-भगवान कोई नहीं है, यह केवल धोखाकी टट्टी है ।

भैया—भगवानके बारेमें फिर किसी दिन पूँछना दुक्खू भाई ! आज दुनिया को नरक बनानेवालोंकी बात सुनो । साठ लाख आदमियोंको किसने मारा ? कमेरों-कमकरो-किसान-मजूरोंने ? या कामचोरोंने ?

सन्तोखी—कामचोरोंने मारा । किसान-मजूरोंने तो अन्न-रुपड़ा तैयार करके रख दिया था, लेकिन इन सेठोंने, इन घूसखोरोंने और अर्धा लालची सरकारने यह सब कहर किया । लेकिन इन कामचोरोंके ऊपर साठ ही लाखोका खून नहीं, चार हजार बरससे इनके दाँतमें बेकसूरोंका खून लगा हुआ है ।

दुखराम—चार हजार बरससे ? न जाने कितने करोड़ कितने अरब बेकसूरोंका खून किया ?

भैया—इन्हींके जुलुमसे यह दुनिया नरक हो गई है । मैंने पहिले ही नहीं पूँछा था कि हमारे गाँवके पासमें गड़ही कैसे बन गई ? जो बड़े-बड़े कोठे-आदारी, मोटर-हाथी, लाव-लसकर, नोकर-चाकर और छप्पनछूरीका नाच तुम देख रहे हो, यह धन कहाँसे आता है ? लाख रुपया महीना लाट साहब और दो लाख

रुपया महीना बड़े लाटपर जो खरचा होता है, यह कहीं से आता है। पाँच-पाँच सालमें एक चीनीकी मिल खोलकर दस-दस लाख रुपया कमा लेना यह कहीं से आता है यह चिकने-चिकने गाल और लाल-लाल ओठ किसके खूनसे रंगे जाते हैं ?

सन्तोखी—कहते हैं, धन-वैभव भगवान देते हैं।

दुखराम—सन्तोखी भाई ! देखो हमारी-तुम्हारी बिगड़ जायेगी। चाहे तो पहिले ही भगवानके बारेमें फैसला कर लो, नहीं तो भगवानका नाम अभी मत लो।

भैया - भगड़ो मत दोनो जने। सन्तोखी भाई जो कहते हैं वह दूसरोंकी मुनी-सुनाई बात है। अच्छा दुक्खू भाई ! जो हमारे गाँवमें यह घर दीवार उठी है, इनके बारेमें कोई आकर कहे कि यह सब माटी भगवानने दी है तो क्या जवाब दोगे ?

दुखराम - पहिले जवाब नही दूँगा भैया। पहिले देखूँगा कि उसके आँख है कि नही। और आँख जो हुई, तो कान पकड़कर ले जाऊँगा गड़हीके पास और कहूँगा—“देख आँखके अंधे। यह जो जमीन गड़ही बन गई है, वह इन घरोंके कारण, यहाँकी माटी वहाँ गई है।

भैया - सन्तोखी भाई ! किसीके आँगनमें सोनेका पेड़ नही है कि हिला-दिया और आँगन भर गया, किसीके घरमें हम सोनेकी बरखा होते नहीं देखते फिर हम कैसे मान लें कि जो यह भोग-विलास करोड़-करोड़ रुपयेपर पानी फेरना हो रहा है, वह भाग और भगवानकी ओरसे उनके पास जाता है ? किसान ऊख पैदा करता है, मिलवाले ऊखका कितना मन देते थे दुक्खू भाई।

दुखराम—एक बार तो चार आना मन भी नहीं दे रहे थे, फिर हम सब किसानोंने एका किया तब कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, रजवली भैया ! तुमने ही तो मदद की थी ? तब जाकर आठ आना मन हुआ था।

भैया—मन भर ऊखमें जानते हो कितनी चीनी होती है, चार सेर।

दुखराम—तो हमें आठ आना थमाके चार सेर चीनी ले लिया न ? डाकू

कहीं का ।

भैया—तुम्हे भी लूटा और जो यह चार-चार आना मजूरीपर दस-दस घंटा खटते हैं, इन मजूरीको भी लूटा । उसका दस-चारह आनासे बेसी नहीं खर्च हुआ ।

सन्तोखी—और बेचा डेढ़ रुपयेपर न ? जतु दूनाका नफा ।

दुखराम—जो जेठ-बैसाखकी धूपमें खून-पसीना एक करे, जो मसीनमें हाथ-पैर कटावे, और देह भर कोइला-कालिख लगावे, उसको तो चार आना और आठ आना मिले और यह ठंडे-ठंडे घरमें बैठे घिना हाथ-पैर डुलाए आधा हमारा लूट लें ।

भैया—और जानते हो वह लूट रहे हैं दस-दस बीस-बीस हजार किसानोंको, सैकड़ों मजूरीको तब न एक-एक सालमें दो-दो तीन-तीन लाखका नफा करके रख देते हैं ? यदि यह कहें कि यह तीन लाख रुपया भगवानने क्षीरसागरसे भेजा है तो यह माननेकी बात है ?

दुखराम—नहीं भैया ! यह हमीं लोगोंके खूनको पीकर मोटे होते हैं ।

भैया—यह जोंक हैं जोंक दुक्खू भाई !

दुखराम—जोंक ! ठीक कहा भैया ! यह जोंकही हैं और कितनी होसियार जोंक है कि लाखों आदमीका खून पी रहे हैं और किसी को पता मी नहीं लगता । एक बात कहे रजबली भैया ! मैं तो समझता हूँ कि जोंकोंके छिपानेके लिए ही भाग-भगवानको किसीने गढ़ा है ।

सन्तोखी—मैंने भगवानका जब नाम लिया तो दुक्खू भाई ! तुम नाराज हो गये ?

दुखराम—अच्छा सन्तोखी भाई ! जीभ लुटपुटा गई क्षमा करना । हम फंछे ये बात पूछेगे ।

भैया—जबसे आदमियोंमें जोंक पैदा हुई, तभीसे यह दुनिया नरक बनी ।

दुखराम—जोंक माने, कामचोर, जाँगरचोर, सेठ, राजा, नवाब यही न ?

भैया—हाँ इन्हींने खून चूस-चूसकर किसानोंको, मजूरीको, गरीब बना दिया, उनको किसी लायक नहीं रहने दिया । सरकारमें सब जगह यही कामचोर

बैठे हैं, पलटन, पुलिस सब जोकोंकी रक्षाके लिए बनी है ।

दुखराम—जिसमें अपनी देहमें लगी जोकोंकी भी हम निकालकर फेंक न सकें ।

भैया—जोंकोंको निकालकर फेंक दोगे तो वह जियेगी कैम ? उनके हाथ-पैर भी नहीं, वह घासपात भी नहीं खाती. उन्हें चाहिए तुम्हारा गरम-गरम खून । इसीलिए तो यह सब सरकार-दरबार बनाया गया है, यह लावलसकर रखी गई है, कि जिसमें तुम जोकोंको निकालकर फेंक न सको । जिस दिन तुमने जोंकोंको निकाल फेंका, उसी दिन यह दुनिया नरकमें सरग हो जायगी ।

दुखराम—भैया रजवली ! अब आँख कुल्ल-कुल्ल खुलती है, कितना बड़ा पहर बाँधा हुआ था ।

भैया—एक पीढ़ीका नहीं डेढ़ सौ पीढ़ीका पहर, और हर पीढ़ीमें जोकोने नया-नया पहर तुम्हारी आँखों पर चढ़वाया ।

दुखराम—हाँ भैया, यह पहर उखाड़ फेंके बिना काम नहीं चलेगा ।

सन्तोखी—इतने जोके जिसके सरीरमें लगी हो, उसके पास कहाँसे खून बचा रहेगा ।

भैया—और जोके दिन पर दिन बढ़ती गई हैं सन्तोखी भाई ! पहिले एक अंगुलकी थी, फिर दो अंगुलकी और अब तो हाथ-हाथ भरकी हो गई हैं ।

दुखराम—पूरा भैसिया जोंक, देखके डर लगता है । जब भैसको लग जाना है तो यह नहीं पेट भर गवाके छोड़ दे ।

भैया—पेट भी तो उनका सरीरके छोटेसे कोने-आँतरेमें नहीं होता ।

दुखराम—हाँ भैया, जोंकका तो सारा सरीर ही पेट होता है । जितना पीता है, उससे भी ज्यादा खून तो बाहर गिरा देती है । लेकिन भैया एक अंगुलकी जोंक एक हाथकी कैसे बन गई ?

भैया—बतलाता हूँ, लेकिन यह भी मनमें रखना कि जैसे-जैसे जोंके बढ़ी वैसे-वैसे दुनिया और नरक बनती गई । लेकिन पहले एक समय था दुस्खू भाई ! जब आदमियोंमें जोंके नहीं थीं । और अब भी दुनियाका छुटा भाग जिसमें जोंके नहीं हैं ।

दुखराम—तब तो वहाँ नरक नहीं होगा भैया, लेकिन कैसी जगह है वह जहाँ जोंके नहीं हैं ।

भैया—रूसका नाम सुना है न ?

दुखराम—हाँ भैया, रूसका नाम किसने नहीं सुना होगा ? वही न जिसमें आदमी पीछे पाँच ग्रीषा (३ एकड़) खेत और गाय बाँटी थी !

भैया—हाँ वही, लेकिन बाँटनेकी बात सुरू-सुरू में रही, पीछे तो उन्होंने गाँवके गाँवका सारा खेत साभेमें जोतना सुरू कर दिया ।

सन्तोखी—वही न भैया जहाँ कि लाल सेनाकी वीरताकी खबर रोज अखबारोंमें सुननेमें आती है ।

भैया—हाँ सन्तोखी भाई ! जो लाल सेना नहीं रही होता और रूस बे-जोंकवाला राज न रहा होता तो आज दुनिया भरमें रावनका राज हो गया होता । लेकिन रूस और रावनके बारेमें फिर किसी दिन बात करेंगे । आज तो अभी जोंकोंके बड़ा होनेकी बात थोड़ी सुन लो ।

दुखराम—हाँ सुनाओ भैया !

भैया—हम जानते हैं रात ज्यादा हो गई है फिर कातिककी भीड़ है । कल फिर तुम्हें दुक्खू भाई हल नाँधना पड़ेगा । पहिले जोंके नहीं थीं, यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन लाख दो लाख बरस नहीं । किसी देशमें जोंकोंको पैदा हुए दो हजार बरस हुआ, किसी देशमें चार हजार और ज्यादासे ज्यादा सात-आठ हजार समझ लो ।

सन्तोखी—तो सात-आठ हजार बरस पहिले दुनियामें जोंकोंका कहीं नाम नहीं था ?

भैया—त्रिलकुल नाम नहीं था । जब आदमी इतना ही कमा पाता था कि दिन भरके खानेसे निश्चित हो जाय, तो जोंक कैसे पैदा हों ? कलमुँहा और ललमुँहा बानरोंको तुमने देखा है न दुक्खू भाई ?

दुखराम—कलमुहाँ बानर तो हमारे ही गाँवमें बहुत हैं ।

भैया—तो देखते हो न बानर पेड़से तोड़कर या जमीनसे बीनकर अपना पेट भरता है । वह जमा नहीं कर पाता । इसीलिए दूसरेकी पैदाकी हुई चीज-

को हड़पनेवाली जोंके वहाँ नहीं ।

दुखराम—हाँ भैया ! उनमें जो सबसे बलिष्ठ हनुमान होता है, उसे हम लोग वेग्वर कहते हैं । लेकिन खेखरको भी आहारके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, जितनी दूसरे बानर-बानरियोंको ।

भैया—लेकिन जिस समय आदमीमें जोंक नहीं थी, उस समय भी उसमें और बानरोंमें अन्तर था । आदमी अपने लिए पत्थर, सींग या लकड़ीका हथियार बनाता था । इन हथियारोंसे वह अपने शत्रुओंसे लड़ता और अपने लिए शिकार या फल गिरा करके आहार जमा करता ।

दुखराम—तो भैया ! उस समय लोहेका हथियार नहीं था ? तीर-धनुष भी नहीं था ।

भैया—लोहाको तो दुनियामें पैदा हुए चौतीस बरससे ज्यादा नहीं हुआ ।

दुखराम—और भैया उससे पहले खाली सींग, लकड़ी-पत्थरका हथियार चलता था ।

भैया—नहीं लोहासे पहले आदमीको तौबेका पता लग गया था लेकिन उसे भी पाँच हजार बरससे ज्यादा नहीं हुआ । और यह भी दुनिया भरमें एकही बरस जगह नहीं हुआ । अकबरके दादा बाबरके हिन्दुस्तानमें आनेके पहले हमारे यहाँ बारूदका कोई हथियार नहीं था, दूर तक मार करनेके लिए सिर्फ तीर-धनुष या तीरके मुँहपर तिकोना लोहा लगा रहता है, जिसको लोग चिन्गसे बुझाकर रखते थे । लेकिन जब तोप-तुक (बन्दूक) आई तो तीर-धनुषका रिवाज उठ गया, लेकिन भील-संथाल लोगोंमें अब भी तीर-धनुष चलता है ।

सन्तोखी—हाँ भैया, यह तो हम भी संथाल परगनामें देख आए हैं ।

दुखराम—तो पहले लोग शिकार और फलसे ही गुजारा करते थे क्या ?

भैया—हाँ दुम्बू भाई ! पहिले शिकार-फल फिर लोग पसु पालने लगे ।

दुखराम—गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी ।

भैया—हाँ, पसु पालने लगे और जानते हो शिकार एक दिनसे ज्यादा रखा नहीं जा सकता । फल भी बहुत महीनों तक नहीं रह सकता । लेकिन पसु

धनको सालों तक रखा जा सकता है और जितने ही दिन रखें वह उतने ही दिन और बढ़ते जाते हैं ।

दुखराम—सूअर तो भैया सालमें एकसे बीस हो जाती...

सन्तोखी—और दूसरे साल बीससे चारसौ ?

भैया—जो खाए-पकाएसे बच गया या मरे-बरे नहीं । हॉ तो जब आदमीके पास पसु-धन हुआ जो बरसों तक उसके पास रह सकता है तब पहिले पहल जॉक पैदा हुई । बल्कि वह पूरे रूपमें जॉक नहीं थी, वह ज्यादातर दूसरे आदमियों जैसी ही थी ।

सन्तोखी—यह कौन जॉक थी भैया, राजा या सेठ या कौन ?

भैया—अभी न राजा थे, न सेठ थे, यह पहिली जॉक थी पुरखा या पितर । जब आपसमें भगड़ा-भंभट होता तो एक पचाइत देखनेवाले की जरूरत पडती थी । जब बाहरसे भगड़ा होता तो सेना चलानेके लिए एक नेताकी जरूरत होती । ये दोनों काम जो आदमी करता उसे पितर या महापितर कहते थे । अभी उसके सिरपर मुकुट नहीं आया था, अभी भी वह चटाईपर साथ बैठनेवाला बिरादरीका चौधरी था । लेकिन उसके पास धीरे-धीरे पसु बढ़ रहे थे, धन बढ़ रहा था ।

सन्तोखी—तो भैया पसु पालनेसे पहिले ज्यादा दिन रहनेवाला धन तो किसीके पास था नहीं फिर धनी-गरीबका फरक भी नहीं रहा होगा ।

भैया—पसु पालनके युगसे पहिले मेरा-तेराका सवाल ही नहीं था एक जगह रहनेवाले लोग साथ मिलकर सिकार करते, साथ मिलकर फल जमा करते थे और साथ ही खाते-पीते थे ।

दुखराम—माँ-बाप, बहिन-भाई, चाचा-चाची सब न साथ रहते होंगे ? कितना बड़ा कुनबा रहता होगा ।

भैया—अभी बाप नहीं बना था दुखू भाई !

दुखराम—बाप नहीं था इसका क्या मतलब भैया ।

भैया—ब्याहका रवाज नहीं था । माँको तो सब जानते थे ।

दुखराम—माँको क्यों नहीं जानेंगे । माँके उदरसे तो बच्चा पैदा होते

देखा जाता है ।

भैया—तो जंगलमें गाय, घोड़े, भेड़, बकरी रहा करते थे, उन्हींमेंसे कुछ तो लोगोंने पालनू बनाया । आखिर रोज-रोजका सिकार मिलना तो आसान नहीं था । पशु पालनेका काम मर्दने शुरू किया, उससे पहले परिवारकी मुखिया माँ होती । अब अधिक धनवाला पुरुष मुखिया हो गया ।

दुखराम—जनुक तिरियाके राजकी जगह मरदका राज, माताके राजकी जगह पिताका राज शुरू हुआ ।

भैया—अभी इतना ही समझो कि स्त्रीको हटाकर मरद मुखिया बन गया । लेकिन अभी जोक नहीं तैयार हुई थी । जब पशुधन और बढ़ा, भीतरी और बाहरी भगड़े और बड़े तब मुखियाका जोर बढ़ा, और कभी-कभी घर बैठे लोग उसके पास खानपान पहुँचाने लगे । बस छोटे रूपमें जोंक शुरू हो गई । मैंने बतलाया था न कि जोकोने दुनियाको नरक बनाया ।

दुखराम—हाँ भैया ।

भैया—तो जोंकोंका अवतार कैसे हुआ यह मैंने तुमसे कहा । लेकिन पूरा जोंक-पुरान आज नहीं कह सकता ।

सन्तोखी—हाँ भैया आज रात बहुत हो गई है ।

भैया—कल रातको इसी वक्त जोंक-पुरानकी कथा होगी ।

अध्याय ३

जोंक-पुरान

सन्तोखी—भैया ! बेचारा दुखराम आज बड़ी देर तक हल चलाता रहा । कातिक की भीड़ है न, आता ही होगा ।

भैया—वह देखो पेट पर हाथ फेरते दुक्खु भाई आ रहे हैं । कहो दुक्खु भाई ! आज बहुत डकार लेते चले आ रहे हो ।

दुखराम—क्या पूँछते हो भैया, आज मलकिनने पूरी व खीर बनाई थी,

हम गरीबों को छुटे-छुमाहें कभी कुछ अच्छा खाना मिल जाता है तो अपनेको धन्न-धन्न समझने लगते हैं ।

भैया—जो जोके न रहें तो छुटे-छुमाहे क्यों रोज अच्छा-अच्छा भोजन मिल सकता है और तेलकी पूरी और गुड़की खीर नही खालिस घीकी बनी पूड़ी और दूध चीनीकी बनी खीर ।

दुखराम—हाँ भैया ! यह हो सकता है, इतनी-इतनी जोंकें जो हमारे गेहूँ घी-चीनीको छोड़ देगी, तो क्यों नही हम मौजसे खाये-पियेंगे ।

भैया—तो कल हमने जोंकका जनम बतलाया था ? अब उसकी बाल-लीला, जबानी, और मरनेकी घड़ीकी बात सुनो ।

सन्तोखी—मरनेकी घड़ी भी ? क्या भैया जोंकोंके मरनेकी घड़ी आ गई ?

भैया—मैंने बतलाया नहीं कि दुनियाके छः भागमेंसे एक भाग रूसमें अब जोंके नहीं है । वहाँ जोकोके मरनेकी घड़ी आजसे सत्ताईस बरस पहले बीत चुकी, लेकिन बाकी पाँच भागमें जोंके अब भी हैं और बड़े जोरसे । यही समझ लो कि सिर्फ एक सूत्रामें पाँच-छः महीनेके भीतर साठ-साठ लाख आदमियोंकी जान ले लेना बतला नहीं रहा है, कि वह कितनी भयंकर है ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! हम तो भगवानसे रोज मनाते हैं कि कब यह जोंके जाएँगी ।

दुखराम—फिर सन्तोखी भाई तुमने भगवान का नाम लिया ।

सन्तोखी—दुखू भाई, नाराज मत हो । न हमने भगवानसे अबतार लेनेके लिए कहा है और न पाव-पियादे दौड़नेके लिए । भैयाकी बात हमें ठीक मालूम होती है, भगवान इतनी गाढ़ी नींदमें सोये हैं, कि लाख दो लाख बरसमें भी उनके जागनेकी उमेद नहीं है ।

दुखराम—वह सदाके लिए सो गए है सन्तोखी भाई ! मैं तो यही मानता हूँ ।

भैया—तो दुखू भाई जोंकोंकी बाल-लीला और पहिलेकी कथा मैं बहुत सनछेपमें कहूँगा, पीछेकी कथाको तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए ।

दुखराम—हाँ भैया, पीछेही के जोंकोंसे तो हमे पाला पड़ा है ।

भैया—मैंने बतलाया था कि पहिले इसतिरी मुखया होती थी, सारा परिवार उसका होता था, सबको ठीक से रखना, सबकी देख-भाल करना उसीका काम था । पच्चीस, पचास यां सौका जो भी परिवार होता था उसकी मुखया या महामातर इसतिरी होती थी । कभी दो-दो परिवारोंमें खून-खराबी भी होती थी ।

दुखराम—खून-खराबी क्यो होती थी भैया, वहाँतो जोंके नहीं थी ।

भैया—जगलके लिए भगड़ा हो जाता था । जिसका परिवार बढ जाता था उसे अधिक शिकार, अधिक फल बटोरने की जरूरत पड़ती थी ।

सन्तोखी—तो वे उन्हीं पत्थर, सीग और लकड़ीके हथियारोंसे लड़ते होंगे ?

भैया—वही तो उनके पास हथियार थे, उन्हींसे वे चैल, हरिन और बालूका शिकार करते थे, लेकिन जानते हो न जिसके पास आदमी ज्यादा हैं वही लड़ाईमें जीतता था, हथियार तो सबके पास एकसे थे । इसी वास्ते बलवान परिवारसे बचनेके लिए कितने ही छोटे-छोटे परिवार एक हो जाते हैं । इसको कहा जाने लगा जन ।

सन्तोखी—हम लोग तो एक जन्म दो जन्म कहते हैं एक आदमी दो आदमीके वास्ते ।

दुखराम—और जन मजूर भी कहते हैं, कमकरके वास्ते ।

भैया—लेकिन पहले पहल जन एक आदमी या मजूरके लिए नहीं बोला जाता । उस वक्त कई परिवारोंको मिलाकर जो एक बड़ा परिवार बनता था उसीको जन कहते हैं ।

दुखराम—माने कई महामाताओंके परिवारको इकट्ठा कर दिया जाता था ।

भैया—हाँ, इसीको जन कहते थे । जनवाले जुगमें भी जोंके नहीं पैदा हुई थीं, जोंके तब पैदा हुईं जब पशुपालके मरद धनवाला बन गया, वह महा-पितर बन गया और दूसरोंकी कमाई उसे मुफतमें मिलने लगी । धीरे-धीरे आदमीने खेती करना सीखा, फिर चमड़ेका सीना, फिर सूत कातना, और आखिरमें कपड़ा भी बुनने लगा । अब उसके पास ऐसी चीजें आने लगी कि

जिन्हें बरस दो बरस रख सकता था। सिले चमड़ेको देकर खाने-पीनेकी चीजें बदल सकता था, कंबलसे भी अपने मनकी चीज़ बदल सकता था। जनके भीतर, या महापितरके बड़े गिरोहके भीतर कभी-कभी भगड़ा-वगड़ा हुआ तो उसका फैसला तो आपस ही में रह जाता था लेकिन बाहरके लोगोंसे जब-तब लड़ाई हो पड़ती थी। खेती शुरू करनेके बाद तो आदमी घरमें रहने लगा।

सन्तोखी—पहिले क्या घरमें नहीं रहता था।

भैया—पहिले सिकार और फलके पीछे एक वनसे दूसरे वनमें घूमता रहता था। जब दोरडंगर पोसने लगा, तो जहाँ चराईका सुभीता होता वहाँ चला जाता। लेकिन खेती मुरूकर देनेपर वह कैसे जाती ?

दुखराम—तो खेती आदमीके लिए खूटा हो गई, अब वह बँध गया।

भैया—हाँ बँध गया, अब उसने अपने लिए घर बनाया है, दूसरे गरोहसे बचनेके लिए सब लोगोंने अपना घर पासमें बनाया, जिसमें दुश्मनसे लड़नेके लिए जल्दी एक दूसरीकी मदद कर सके। पास-पासके घरोंको गाँव कहा गया, क्योंकि ग्रामका मतलब है भुन्ड।

दुखराम—घरोंका भुण्ड, यही मतलब है न गाँवका ?

भैया—हाँ, महापितरके जुगमें लड़ाई और बढ़ी क्योंकि दुश्मनको हरानेसे सब पसु, सारा धन उसे मिल जाता था। महापितर मुखिया था। उसको लूटका माल ज्यादा मिलता था और दूसरोंको थोड़ा-थोड़ा।

सन्तोखी—तो धनी-गरीबका फरक और बेसी हुआ। हारे लोगोंके बचे हुए आदमियोंको क्या करते थे ?

भैया—पहिले तो, जो आता सबको मारते जो औरते हाथ आती उन्हें अपनेमें बाँट लेते।

दुखराम—तो मरद कोई नहीं बचने पाता था ?

भैया—हाँ मरदका परान नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब पीछे खेतीके कामके लिए, चमड़े-जूतेके कामके लिए, कपड़ा-मिट्टी का बर्तन बनानेके वास्ते आदमियोंकी अधिक जरूरत पड़ने लगी।

दुखराम—बेसी माल पैदा हुआ तो बदलकर खूब बेसी माल हाथ लगेगा,

यही सोचकर न भैया ?

भैया—हाँ, इसीलिए पहिले लड़ाईमें हारे शत्रुको कैदी नहीं बनाते थे, कौन उसे घर बैठकर खिलाता। लेकिन जब देखा कि आदमी हाथसे मेहनत करके अपने खानेसे दुगुना-तिगुना पैदा कर सकता है तो हारे मरदोंको कैदी बनाने लगे। इनको दास या गुलाम कहा जाता।

दुखराम—तो यह गुलाम और दूसरे लोगोंमें बाँट दिए जाते होंगे ?

भैया—हाँ, अच्छे-अच्छे दास और दासी महापितरको मिलती, दूसरेको और लोग बाँट-चोट लेते।

सन्तोखी—तो यह दास-दासी भी ढोरकी तरह ही हुए ?

भैया—वह भी मालिकके धन थे, वह मालिकके लिए काम करते थे। यह जुग हुआ गुलामीका।

दुखराम—जनु तबसे गुलाम बनानेका रवाज हुआ।

भैया—गुलामको मालिक कपड़ा-खाना देता था। नहीं देता तो वह मर जाता। फिर उसका नुकसान होता। जानते हो न दुखू भाई ! गुस्सा होनेपर त्रैलको मारते भी है, लेकिन इतने नहीं मारते कि वह मर जाय।

दुखराम—हाँ भैया ! कौन अपना नुकसान करेगा।

भैया—गुलामोंके आनेसे अब कम्बल, जूता-चमड़ा और कई तरहकी चीजें बहुत इफरात बनने लगी। लोग उन्हें आपसमें बदलने लगे। बदलनेके सुभीताके लिए हाट लगने लगी। सब लोग अपना-अपना माल ले आते थे और जिसको जो लेता था, उसे अपनी चीजसे बदल लेते थे। लेकिन कभी-कभी हाटमें आदमीको अपने कामकी चीज जल्दी नहीं मिलती थी या अपनी चीजके खाहिस-बन्द नहीं मिलते। तब आदमीको बहुत हैरान होना पड़ता। सब काम-धन्धा छोड़कर दो-दो, तीन-तीन दिन हाट अगोरना पड़ता। फिर लोगोंने गाँव पीछे एक-दो आदमीके जिम्मे अपनी चीज लगाके छुट्टी ली। जो आदमी हाट अगोरता, उसने दूसरोंके लिए भी अपना काम-धन्धा छोड़ा, इसलिए सब लोग अपने मालमेंसे उस आदमीको दे देते थे।

दुखराम—जैसे भँड़भूजाको शूनाके लिए हम लोग थोड़ा-थोड़ा अनाज दे

देते हैं ।

भैया—हाँ, तो पहिले तो हाट अगोरनेवाला अपने गाँवके दो-चार घरोंकी जिम्मेवारी लेकर बैठता था और सो भी कभी-कभी । फिर वह गाँव भरकी जिम्मेवारी लेने लगा, और बराबर हाटमें बैठ रहता । उसका रूप अब कुछ-कुछ बनिया जैसा था । लेकिन अभी दो आदमियोंकी चीजोंकी अदला-बदलीमें वह खाली एक ओरका बिचवई था, फिर वह दोनों ओरका बिचवई बन गया । जब उसके पास वेसी नफा जमा हो गया तो वह हर तरहकी चीजोंको अपने पास रखने लगा । इस चीजको मँहगा किया और दूसरी चीजको सस्तेमें खरीदा अब वह पूरा बनिया हो गया ।

सन्तोखी—लेकिन रोजिगार तो था चीजका चीजसे बदलना ही न ।

भैया—लेकिन जब ताँबा मिल गया, लोगोंने देखा कि उसकी धारा पत्थर और हड्डीसे ज्यादा तेज है, उसकी मार आदमी और पेड़को काटकर गिरा सकती है, तो सभी लोग ताँबेके हथियार रखना चाहने लगे । लेकिन ताँबा थोड़ा पैदा होता था, चाहनेवाले ज्यादा थे । एक दूसरेने चढ़ा-ऊपरी करके ताँबेका दाम और बढ़ा दिया । दस मन गेहूँके लिए दस सेर ताँबा काफी समझा जाने लगा, अब बहुतसे लोग दस मन गेहूँ टोकर ले जानेकी जगह दस सेर ताँबा ले जाने लगे । एक छुट्क ताँबा भी पास रहनेसे अढ़ाई सेर गेहूँ टोनेका काम नहीं था ।

सन्तोखी—तो ताँबा कैसे-रूपयेका काम देने लगा ।

भैया—हाँ, पहले-पहल कैसे-रूपयेने इस सरूपमें औतार लिया । महापितर गुलामोंके कमाए धनसे और मोटी जोंक बन गया और इधर बनिया दूसरी जोंक तैयार हो गई ।

दुखराम—उस बखत जो जोंकें न पैदा हुई होतीं भैया ?

भैया—तो बहुत बुरा हुआ होता दुस्खू भाई ! गाड़ी ही रुक जाती । आदमी पत्थर और सींगके हथियार ही चलाता रहता और हारे दुसमनको बीन-बीनकर मारता रहता ।

सन्तोखी—तो जोंकोंने कुछ फायदा भी किया था ।

भैया—जो फायदा न पहुँचाया होता, तो जोंके पैदा ही नहीं होतीं । लेकिन देख रहे हो न जोंकोंकी दो जाति अब तैयार हो गई ।

दुखराम—गिरोहका सरदार और बनिया, यही दोनों न भैया ।

भैया—ठीक ! गुलामोंके जुगसे हम और आगे बढ़े । महापितर या सरदार तो भी अभी साथ चटाईपर बैठनेवाले चौधरी थे, लेकिन उसके पास धन ज्यादा था, लौंडे गुलाम ज्यादा थे, खिला-पिलाके त्रिरादरीके लोगोंमेंसे भी कितने हाँको फोड़ लेनेमें सफल हुआ । वही आगे चलकर राजा बन गया ।

सन्तोखी—तो अब राजसीठाट और हजार-हजार रनिवासोंका युग आ गया ।

भैया—अब बड़ी ही मोटी और बड़ी ही भयंकर जोक तैयार हो गई । वह सभी छोटी-बड़ी जोंकोंको अपने छतरल्लायामें रखने लगी । लेकिन लोग तो समझते थे कि यह कल तक हमारी त्रिरादरीका चौधरी था, एक साथ चटाईपर बैठता था, राजाने समझा कि हमारी नींव अभी मजबूत नहीं है जातिका चौधरी होनेसे, तैनीसों कोटि देवताके सामने बलि देना, पूजा करना, महापितर हीका काम था । वह ओम्हा भी था, पुरोहित भी था और जातिका चौधरी भी ।

दुखराम—ओम्हा भी था ! जोक जो ओम्हा भी हो जाय, यह खैरियत नहीं ।

भैया—ठीक कहा दुक्खू भाई ! महापितर अपने कामकी जो कोई बात कर्गवाना चाहता तो आँख लाल-लाल करके सिर हिला देवताके नामसे कह देता; और उस समय आजकलसे बहुत बेसी देवता थे ।

दुखराम—लोग भी बहुत सीधे-सादे रहे होंगे भैया ?

भैया—बहुत सीधे-सादे लेकिन जब लड़ पड़ते तो उनका दिल भी बहुत कठोर होता । लेकिन महापितर या जातिका बड़ा चौधरी एक खूनकी त्रिरादरीका ही अगुआ होता था । राजाकी तागत ज्यादा थी, हथियार भी चोखे थे, अपने धनका लोभ दिखा त्रिरादर्याम बेसी फूट डलवा सकता था । उसको एक त्रिरादरीपर सन्तोख नहीं हुआ, वह कई त्रिरादरियोंको हराकर उनका राजा बन गया ।

दुखराम—तो जमात बढ़ती ही रही ?

भैया—हाँ, माईसे महामाईकी जमात बड़ी थी, महामाईसे पितरकी जमात बड़ी थी, पितरसे सैकड़ों गुलाम रखनेवाले महापितरकी जमात बड़ी हुई। और महापितरसे भी बड़ी जमात राजाकी थी। लेकिन महापितर तक कुछ भाई-चारा था। अब राजाने बिरादरियोंसे अपनेको ऊपर कहना शुरू किया। लेकिन लोग कैसे मान लेते इसलिए उसने ओम्हा सोखासे मदद ली। किसी बड़े होसियार ओम्हाको अपना पुरोहित बनाया, उसने देवताके नामसे राजाको देवता बनाना शुरू किया इसके लिए राजा पुरोहितको भेट चढ़ाने लगे।

दुखराम - तो भैया ! पुरोहित एक और बड़ी जोर पैदा हो गया ?

भैया—देखा न दुक्खू भाई ! कैसी हमारी-तुम्हारी आँखपर एककं वाद एक नए-नए पहर बाँधे जाने लगे।

सन्तोखी—जोंकोने चारों ओर अपना जाल फैला दिया।

भैया—और कमेरे उस जालमें फंसने लगे। उनका बल घटने लगा। कमेरे देस भरमें बिखरे हुए थे, उनका कोई मजबूत दल नहीं था। राजाने लोभ देकर कमेरोके बहुतसे लड़कोंको सिपाही बना लिया।

दुखराम—इसीको कहते हैं काँटेसे काँटा निकालना। कमेरे जिसमें कान पूँछ न हिलाए इसलिए उन्हीके लड़कोंके हाथमें तलवार दे दी।

भैया—दुनियामें राजा लोग खूब मजबूत होने लगे। अपना राज बढ़ानेके लिए, और बेसी लोगोका खून चूसनेके लिए एक दूसरेसे लड़ने लगे, फिर बड़े-बड़े राज कायम हुए। दूर-दूरके देसों पर हाथ फैलाने। पुरोहितोंका बल और धन भी बढ़ा, व्यापारियोंको व्यापार भी खूब चमका। इसी बीचमें लोहा निकल आया और खूब तेज-तेज तलवारें बनने लगीं। पत्थरके रूपमें पड़ा सोना-चाँदी भी अलग करके निखालिस रूपमें तैयार होने लगा। असरफी, रुपया और ताँबेका पैसा बनने लगा, व्यापारमें और तरक्की हुई लखपती सेठ जगह-जगह दिखलाई देने लगे। सेठ, पुरोहित और राजाका खूब गठबंधन था।

दुखराम—चोर-चोर मसियौत, सभी जोंकें मिलकर कमेरोंका खून चूसने लगीं।

भैया—व्यौपारी, कारीगरों, किसानोंके पैदा किए हुए धनको दुगुने-तिगुने

दामपर दूर-दूर देसोंमें ले जाकर बेचने लगे । गंगामें बड़ी-बड़ी नाँव, समुन्द्रमें बड़े-बड़े जहाज चलने लगे । बढिया कपड़ा, बढिया गहना और सौककी हजार तरहकी चीजोंकी माँग बढी । कमेरो, मजूरों, किसानोंको इतनी ही मजुरी मिलती कि जिसमें उनका बंस खतम न हो जाय, लाख दो लाख भूखे मर जायें तो उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन देसके देसमें कोई दिया-बर्त्ता जलाने वाला न रह जाय इस बातको जोंकें पसन्द नहीं करती । जब जोके प्रजा पर दया करनेकी बात कहती हैं तब उसका मतलब यही है कि चिरागन बुझ जाय ।

सन्तोखी—उनको अपना मतलब पूरा होना चाहिए दुनिया जाये चूल्हा भाँड़ में !

भैया—व्यौपारसे बनियोको खूब फायदा होने लगा जिसमें राजाको भी भाग मिलता था । हर राजा अपने बनियोकी सहायता करनेके लिए तैयार रहता था । काठके बड़े-बड़े जहाज कपड़ेके बड़े-बड़े पाल उड़ाते समुन्द्रको छान डालते थे । नफाकी कुछ न पूछो । टाका का मलमल बिलायतमें जाकर दुगुने-तिगुने नफेमें बिकता था । यूरुपके बनियोने देखा कि इस व्यौपारसे हमें भी नफा उठाना चाहिए । पहिले इटलीवाले व्यौपार करने लगे फिर पुर्तगालवाले बनिए चढ दौड़े । उसके बाद तो हालैण्ड भी, फ्रांस भी, इंग्लैण्ड भी कैसे पीछे रहता । सब जगहके बनियोने अपनी-अपनी गुट्ट बनाई । उनके राजाओंने मदद दी । वह काले लोगोंके देसकी ओर दौर पड़े । लेकिन जो समुन्द्रमें जहाज दौड़ाने और मोल-तोल करनेकी ही चतुराईसे ही काम चल जाता तो हिन्दुस्तान के बनिए भी पीछे नहीं थे ।

सन्तोखी—तो उनके पास और कौनसी बात थी भैया, जिससे वह दुनियाके राजा बन गए ।

भैया—उनके पास बारूदका हथियार था, अच्छी-अच्छी तोपें, बन्दूकें, तमन्चे ।

दुखराम—क्या हमारे देसके लोग बारूदको नहीं जानते थे ?

भैया—हमारे देसवाले तो नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी चानवाले जानते थे ।

सन्तोखी—तो चीन वालोंने क्यों नहीं बारूदसे काम लिया ।

भैया—वह समझते थे कि यह आतिसबाजीके खेलके ही कामकी है । चंगेजगवाँ नामका एक मंगोल सरदार था उसने अपने घुड़सवारोंकी मददसे चीनको जीत लिया । बारूदकी बन्दूकें पहले-पहल उसीने बनवाईं । उसकी फौज दुनिया को जीतती हुई यूरोपमें घुस गई । मंगोलसे ही यूरोपवालोंने बारूदका भेद पाया, मंगोलसे ही यूरोपवालोंने किताब छापनेका ढंग सीखा ।

सन्तोखी—तो किताब छापनेकी विद्या यूरोपवालोंको पहले नहीं मालूम थी ?

भैया—चीन छोड़ कर किसीको नहीं, हिन्दुस्तानको भी नहीं मालूम था । हमारे यहाँ भी उल्टा अच्छर पोतकर लोग अपनी-अपनी मुहर बनाते थे, लेकिन उन्हें यह सूझ नहीं आई कि पूरी किताबको लकड़ी पर उलटा खोदकर छपा जा सकता है ।

सन्तोखी—तो चीनी लोग लकड़ीपर उलटा अच्छर खोदकर किताब छापते थे ।

भैया—हाँ, फिर यूरोपवालोंने सोचा कि लकड़ी पर एक किताबको उल्टा खोदनेसे यह अच्छा होगा कि एक-एक अच्छर उल्टा बनाकर रख लिया जाय और उतने ही अच्छरोंके जोड़नेसे तो बड़ी से बड़ी पोथी बन जाती है, इस तरह एक बारके बनाए उल्टे अच्छर बहुतसी किताबोंके छापनेका काम देंगे । लकड़ीका अच्छर टिकाऊ नहीं होता, इसीवास्ते उन्होंने सीसेका अच्छर बनाया ।

सन्तोखी—तो यूरोपवालोंने दूर तक सोचा ?

भैया—बारूदके हथियारोंके बारेमें भी यूरोपवालोंने बहुत दूर तक सोचा और अच्छे-अच्छे हथियार बनाए । आज-कलके इतने अच्छे-अच्छे हथियार तो नहीं है, लेकिन उस समय जो हथियार दुनियामें बनते थे उनसे यह बहुत अच्छा था ।

दुखराम—तो भैया । पत्थर-लकड़ीके हथियारसे ताँबेकी तलवारोंका जमाना आया, फिर लोहेकी तलवारें, तीर और भाले, फिर बारूदकी तोपें ढलने लगीं ?

मैया—लेकिन दुक्खू भाई ! ताबे, लोहे और बरूदके हथियारोंपर जोकोंने हा प्रो कबजा किया ।

दुखराम—तभी तो हजार आदमीकी नकेल एक आदमीके हाथमें है ।

मैया—बिलायतके व्यौपारी भी हिन्दुस्तानके व्यौपारीके साथ व्यौपार करने लगे । खूब दुगुना-चौगुना नफा कमाने लगे । हमारे यहाँके राजा, नवाब आपस-में लड़ रहे थे । उन्होंने बिलायतवालोंके हथियारोंको बहुत मजबूत देखा और वह गोरोको लड़नेके लिए किरायेपर रखने लगे । गोरे व्यौपार भी करते थे और किरायेपर लड़ते भी थे ।

सन्तोखी—हमारे देसवाले अपने ही क्यों नहीं उन हथियारोंको बनाने लगे ?

मैया—हमारे यहाँ तो सनातन धरम चलता है न ! जो चीज जितनी ही पुरानी है, उतनी ही ठीक है । जब नाक तक पानो आ जाता है, तब सनातन धरम का नसा टूटता है । लेकिन 'अब पञ्जाये होत क्या जब चिड़िया चुग गईं खेत' । गोरोने कुछ लड़ाइयोंमें अपने हथियारोंका मफलता देखी, हिन्दुस्तानवालोंको एक-दूसरेके साथ खूब लड़ते देखा; फिर बिलायती बनियोंकी कम्पनीने व्यौपारके साथ-साथ देस जीतनेका काम भी अपने हाथमें लिया ।

सन्तोखी—इम तरह हिन्दुस्तानमें कम्पनी बहादुरका राज कायम हा गया ?

मैया—हाँ, बिलायती बनियोंके गुटको कम्पनी बहादुर कहत हं ।

दुखराम—मं तो समझता था कि कम्पनी बहादुर कोई राजा हं ।

मैया—कम्पनी कहत हं, गुटका दुक्खू भाई ! १७५७ ई० में कम्पनीने हिन्दुस्तानमें अपने राजकी नाँव मजबूत कर ली थी और तबसे आज तैरह कम दो सौ बरस हुए ।

दुखराम—राजा भी जोक, बनिया भी जोक और जब वही आदमी राजा और बनिया दोनों हां, तो देहमें कहाँसे खून बच पाएगा ।

मैया—आज सौ बरस हुआ मरकस बाबाने लिखा था कि हिन्दुस्तानके लू: करोड़ आदमी जो कुछ साल भरमें कमाने हैं, वह सब बिलायती कम्पनी बिलायत दो ले जाती है ।

सन्तोखी—छः करोड़ आदमीकी सारी कमाई ।

भैया—उस समय हिन्दुस्तानमें तीस करोड़से कम ही आदमी रहते थे; इसलिए हर तीन आदमीमें एक आदमी बिलायतवालोंके लिए कमाता था । और इस रकममें वह धन सामिल नहीं हैं, जो कम्पनीके नौकर घूस-गिसवत, चोरी-ठगीसे जमा करते थे ।

दुखराम—यह मरकस बाबा कौन हैं भैया ?

भैया—मरकस बाबाके बारेमें दुक्खू भाई ! फिर हम किसी दिन बताएँगे । मरकस बाबा हीने जॉक-पुरानका परदा खोला । उनके ही परतापसे कमेरोंकी आँखका पट खुला । उन्होंने ही बतलाया कि दुनियाको नरक बनानेका कारन यही जॉकें हैं, उन्होंने ही रास्ता दिखलाया कि कैसे जॉकोसे पिण्ड छूटेगा, और दुनिया नरकसे सरग बनेगी ।

सन्तोखी—तबतो मरकस बाबा कोई औरतार हैं भैया ।

दुखराम—किसके औरतार हैं सन्तोखी भाई ? उन्हीके तो नहीं जो छीर सागरमें सदाके लिए सो गए हैं ।

भैया—सन्तोखी भाईका मतलब है कि मरकस बाबा बहुत भारी परउपकारी जीव रहे हैं और उनकी सूझ ऐसी रही, जैसीकि और आदमियोंमें देखनेमें नहीं आती ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! यही मतलब है, क्या करे जो लबज लोग बोलते हैं, जान पड़ता है उसीमें बहुत खामी है ।

दुखराम—खामी ही नहीं बहुत धोखा है सन्तोखी भाई ! और यह सब धोखा जोकोंका फैलाया हुआ है । अपने जान जॉकोंने हमें साँस लेनेका भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा था । लेकिन उनको क्या पता था कि कमेरोंका पच्छ करनेवाले मरकस बाबा दुनियामें पैदा होंगे । भैया ! तो जो तुम हम लोगोंके आँखका पट्ट खोल रहे हो, यह सब मरकस बाबा हीने बताया है ?

भैया—हाँ, दुक्खू भाई ! दुनियामें इतना बड़ा नबज पहचाननेवाला कोई वैद नहीं हुआ । उसने दुनियाके रोगका कारण बतलाया. फिर दवाई भी बतलाई । उस दवाईको दुनियाके छठे भागके लोगोंने खाया, वह आज निरोग हो गए

हैं । मरकस बाबाने यह भी बतलाया कि अब तक जितनी जोंके पैदा हुईं थीं, अब उन सबकी कान काटनेवाली सबसे बड़ी जोंक दुर्नियामें आ गई । इसको घड़े दो घड़े खूनसे सन्तोख नही हो सकता, इसके लिए समुन्दरका समुन्दर खून चाहिए ।

सन्तोखी—वह सबसे बड़ी जोंक कौन है भैया ?

भैया—पहले जनम होता है तब नाम रखा जाता है । मुनो जनमकी बात । बिलायती बनिये हिन्दुस्तानमें राज और व्यौपार दोनों करने लगे—बल्कि राज भी वह व्यौपार हीके लिए करते हैं । हिन्दुस्तानका माल वह खरीद-खरीदकर और बहुत कुछ नजर-सौगातमें टो-टोकर बिलायत ले जाने लगे । हिन्दुस्तानका कपड़ा आजसे सौ बरस पहिले भी बिलायत बहुत जाता था । हिन्दुस्तानके धनसे बिलायत कितना धनी हो गया, यह इसीसे समझ सकते हो, कि जहाँ १८१४ई०-में बिलायतकी सारी सम्पत्ति ३० अरब रुपया (२३० करोड़ पौण्ड) थी वहाँ ६१ साल बाद १८७५ ई०में बढ़कर ११ खरब ५ अरब रुपया (८५०० करोड़ पौण्ड) हो गई । इस धनकी जो इतनी वृद्धि हुई उसमें थोड़ा ही बहुत और जगहसे आया, बाकी अधिक भाग हिन्दुस्तानसे गया ।

दुखराम—माने अरब-खरब रुपया हमी लोगोके देहका खून न खींच करके गया ?

भैया—इसे भी क्या पूछना है ? कम्पनी बहादुरने धरम कमानेके लिए थोड़े ही हिन्दुस्तानको अपने हाथमें लिया है । बंगालमें कम्पनीका राज कायम होनेके बाद १७६४-६५ ई०में जहाँ १ करोड़ ६ लाख ३४ हजार रुपया (८ लाख १८ हजार पौण्ड) मालगुजारी आई थी वहाँ दूसरे ही साल वह पौने दो गुना कर दी गई । (१४ लाख ७० हजार पौण्ड) और कम्पनीके ६३ वर्षोंके राज्यमें मालगुजारी बीस गुना बढ़ गई । और जानते हो इसका फल ? अकाल हर दूसरे-तीसरे साल दौड़ने लगे । कम्पनी बहादुरके राज कायम होनेके छठवे ही साल (१७७०)में बंगालमें एक करोड़ आदमी भूखों मर गए ।

दुखराम—भैया तुम चाहे कुछ भी दबाओ और सन्तोखी भाई कितना ही नाराज हों मै तो समझता हूँ कि भगवान कहीं भी नहीं हैं, क्षीर सागरमें भी नहीं हैं, कभी पैदा भी हुए हों तो उनको मरे-मिटे हजारों बरस हो चुके ।

सन्तोखी—इतना तो मैं भी कहूँगा दुक्खू भाई कि एक-एक सालमें एक-एक करोड़ या साठ-साठ लाख आदमियों को जोंकें चूसकर मार डालें फिर भी भगवान औताग न ले तो उनके सब औतारोंकी कथा भूठी है ।

भैया—हिन्दुस्तानसे जो धन दुहा जाता था उसमें कपड़ेका भी बहुत भाग रहता था । त्रिलायतके कुल्लू व्यौपारियोंने सोचा कि यदि हम हिन्दुस्तानसे भी सस्ता और अच्छा कपड़ा दे सके तो उल्टी गंगा बहा देगे ।

सन्तोखी—माने कपड़ेके नइहरमें कपड़ा बनाकर भेजेंगे ।

भैया—इतना ही नहीं, नइहरकी ही रुई लेकर, क्यो कि त्रिलायतमें कपास नहीं पैदा होती है । विचार करनेवालोंने बुद्धि लड़ानी शुरू की । अठारहवीं सदीके अन्त तक भापके इ जनका पता लग गया और कपड़े बुननेके करघे भापसे चलाये जाने लगे । मशीनकी चीज हाथकी बनी चीजसे सस्ती होती है ।

दुखराम—यह क्यो होता है भैया । हम देखते है कि मिलकी बनी चीज देखनेमें बुरी नहीं होती मजबूत भी होती, फिर सस्ती क्यो होती है ?

भैया—आदमीका जाँगर (परिश्रम या मेहनत) जितना लगता है, चीजका दाम भी उतना ही होता है । गाढ़ा कपड़ा सस्ता होता है और बनारसी किमखाव बहुत महगा क्यो कि गाढ़ेमें उतना आदमीका जाँगर नहीं लगता जितना कि किमखावमें । अब हाथके करघेपर पुराने ढंगसे कपड़ा बुननेमें एक आदमी पाँच गजसे ज्यादा कपड़ा नहीं बुन सकता और वह भी हाथ सवा हाथ अरजका । और कपड़ेकी मिलमें एक आदमी दोसे चार करघे तक सँभाल सकता है ।

दुखराम—हाँ भैया उसमें हाथसे ढरकी थोड़े ही चलानी पड़ती है । सब तो अपने ही आप होता है, कहीं सूत टूट जाता है तो उसे जोड़ देना होता है ।

भैया—कितनी तेजीसे बुनाई होती है ! एक दिनमें एक आदमी करघोंके मुताबिक सौ, डेढ़ सौ, दो सौ गज तक कपड़ा बिन सकता है । १०० गज लेने पर भी हाथके करघेसे जितना काम १० आदमी करेंगे मशीनपर उतने कामके लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए । अब तुम्हीं बतलाओ १० आदमी के जाँगरसे बना कपड़ा सस्ता होगा या एक आदमीके जाँगरसे बना उतना ही कपड़ा ?

सन्तोखी—एक आदमीके जाँगर वाला भैया ! क्यो कि उसमें मजूरी कम

देनी पड़ेगी ।

भैया—कलवाले कारखानोंने हाथकी कारीगरीको तवाह कर दिया, इसी-लिए कि कल लगानेसे थोड़े ही आदमी ज्यादा काम कर सकते हैं । कुछ दिनों पहले जानते हो न, चीनी और गुड़ करीब-करीब एक भाव बिकते थे वह भी इसीलिए कि मिलोंमें चीनी बनानेमें बहुत कम आदमी लगते हैं । देखा नहीं है एक ओरसे बोझाकी बोझा ऊख खींची जा रही है और पच्चीसों कलोमें होते दूमेरे छोर पर दानांदार सफेद चीनी बोरेमें बन्द होती जा रही है ।

दुखराम—कल-मसीनसे भैया चोज बहुत सस्ती तैयार होती है, यह तो हम रोज देखते हैं ।

भैया—सस्ती ही नहीं होती दुखू भाई ! वह इतनी इफरात होती है कि अगर मिलवालोंको सस्ती पड़ जानेसे घाटा होनेका डर न होता तो थोड़े ही जोर लगानेसे आदमी पीछे एक मन चीनी हर साल हिन्दुस्तानमें बाँटी जा सकती है । कल-मसीनने आदमीके खाने, पहिनने, रहनेकी चीजोंको इतना इफरात कर दिया है कि जो जोकेँ बाधा न डाले तो दुनियामें एक भी आदमी भूखा नगा नहीं रह सकता । लेकिन इस बातको अभी हम आगे कहेंगे दुखू भाई ! अभी तो यही हम बतला रहे थे कि सबसे बड़ी जाँक कैसे पैदा हुई । जब कल-मसीनों को दिमागवालोंने सोचकर बनाया तो व्यौपारी तुरंत दौड़ पड़े । उन्होंने सोचा कि अब धुनिया, जुलाहा, लुहाराके पीछे दौड़नेकी हमें कोई जरूरत नहीं । हम रुई खरीद कर कारखाने लाएँगे और कल उसका सूत कात कपड़ा बना देगी । इसी समय रेल और जहाजवाले इजन भी बन गये इसलिए माल एक जगहसे दूसरी जगह भेजना भी सस्ता हो गया । व्यापारियोंके पास करोड़ों की पूँजी थी, दिमागवालोंकी सोची चीजको तुरंत ले लिया और सब तरहके लाखों कारखाने खोल दिये । अब नफाका क्या ठिकाना ! किसानसे रुई खरीद रहे हैं उससे भी कारखानेवालेको नफा । रेलसे भेजते हैं, रेल भी कारखानेवालोंकी है उसका भी नफा । जहाजसे सामान बिलायत भेजते हैं उसका किराया लगता है, जहाज भी कारखानेवालोंका फिर कपड़ेकी मिल भी कारखानेवालोंकी है, उसका भी नफा है उन्हींको । उसके बाद कपड़ा हिन्दुस्तानको लौटता है वहाँ

भी हर जहाज और रेल हर जगह पूँजीपतिका नफा धरा हुआ है। पुराने व्यापारी इतना नफा नहीं कमा सकते थे क्यों कि वह सिर्फ तैयार मालको एक जगहसे दूसरी जगह भेजते थे और आजके यह पूँजीपति कच्ची रुईमें हाथ लगानेसे लेकर हर पग पर नफा कमाते हैं।

सन्तोखी—यह ठीक कहा भैया ! हम लोग रुपया पीछे पैसा दो पैसा बहुत समझते हैं और यह तो आठ आनेके कपासमें चौदह रुपयेकी धोती बेचते हैं, फिर इनके नफेका क्या पूँछना।

भैया—बिलायतवाले पूँजीपति...

दुखराम—पूँजीपति क्या है, सो अच्छी तरह नहीं समझा भैया ?

भैया—पूँजी तो समझते हो दुखू भाई ?

दुखराम—रुपया-पैसा, जमा-पूँजी यही न भैया ?

भैया—हाँ, यही रुपया-पैसा लेकिन जो रुपया-पैसा कल कारखानेमें लगा है जिसके कारण पूँजीवाला आठ आनेकी कपासको चौदह आनेमें बेचता है उसे पूँजी कहते हैं और जो अपनी पूँजीसे इन कल-कारखानोंको खड़ा करते हैं उसीको कहते हैं पूँजीपति। पूँजीपतियोंके नफेके सामने व्यौपारियोंका नफा कुछ नहीं है।

सन्तोखी—ठीक कहा भैया। जो मारवाड़ी, सेठ लोग खाली व्यौपार करते थे, अब सब अपनी चीनी मिल, कपड़ा मिल, जूट मिल, सीमेन्ट मिल, कागज मिल खोलते जा रहे हैं। अब उनका ध्यान कोई दूसरी ओर जाता ही नहीं।

भैया—बिड़ला, डालमिया, सिंघानियाँ, एक ही पीढ़ी पहले खाली व्यौपारी थे, दूसरे कारखानेका माल खरीद कर बेचते थे। थोड़ासा उन्हें भी नफा हो जाता था। लेकिन अब देख रहे हो न ? बिड़लाके कितनी ही चीनीकी मिलें, कपड़ा और जूटकी मिलें हिन्द बाइसिकल कारखाना और अब मोटरका भी कारखाना खुल रहा है। पूँजीपतिके नफेके सामने व्यौपारीका नफा कुछ भी नहीं है दुखू भाई !

दुखराम—मैंने तो एक ही बात गाँठ बाँध ली है। जो आठ आनेके कपासको लेकर उसे १४ की धोती बना सकता है, उसके नफेके बारेमें क्या कहना है।

मैया—ब्रिलायतवाले पूँजीपति दुनिया भरका धन लूटकर अपने घरमें गाँज रहे थे, इसे देखकर दूसरे मुल्कवाले कैसे चुप रहते ! फ्रांसने भी कारखाने खोले, अमेरिकाने भी कारखाने खोले, रूसने भी कारखाने खोले ।

सन्तोखी—जापानने भी कारखाने खोले ।

मैया—हाँ जापानने भी खोले लेकिन अभी हमको जो समझाना है, उसमें जापानका उतना काम नहीं है । ब्रिलायतने कारखाना खोला था । पहिले तो दुनियामें और किसी मुल्कमें कारखाने खुले ही न थे इसीलिए । ‘ चारो मुल्क जगीरीमें ’ उसीके था । लेकिन जब फ्रांसने कारखाना खोला तो दुनियामें जिन-जिन मुल्कोंको फ्रांसीसियोंने अपना गुलाम बनाया था वहाँ फ्रांसके कारखानेका ही माल बिक सकता था । अमेरिकाके पास अपना ही बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए कितने ही सालों तक माल बेचनेके लिए उसे गाहक ढूँढ़नेकी जरूरत नहीं थी । जर्मनीके लिए आफत थी वह सबसे पीछे कारखाने खोलने लगा, लेकिन अपनी विद्या-बुद्धिसे वह बहुत तेजीसे बढ़ा । माल टालका टाल जमा हो गया, बेचनेके लिए दुनियामें जहाँ भी जाते हैं, जवाब मिलता है—हटो-हटो यह तो हमारा राज्य है । अफ्रीकामें जाते हैं यही बात, हिन्दुस्तानमें आते हैं यही बात, अब तुम्हीं बतलाओ, जो चुप लगा जाए तो उसका क्या मतलब होगा ?

सन्तोखी—कारखाने बन्द हो जाएंगे, पूँजीपतियोंका दिवाला निकल जाएगा और क्या होगा ?

मैया—और यह भी समझो कि अब दुनियामें राजाओंका राज नहीं है ।

दुखराम—क्यों मैया, राजाओंका राज नहीं है तो किसका राज है ?

मैया—पूँजीपतियोंका राज है, कल-कारखानेवाले करोड़पतियोंका राज है । आजसे तीन सौ बरस पहले (३० जानवरी १६४६ ई०)को ब्रिलायतके व्यापारियोंने अपने राजा चार्ल्सका सिर कुल्हाड़ेसे काट डाला था, उसी दिनसे प्रभुता व्यापारियोंके हाथमें चली गई लेकिन कारखानोंके खुलने और पूँजीपतियोंके पैदा होनेमें अभी डेढ़ सौ साल और लगनेवाले थे । व्यापारियोंमें से ही पूँजीपति पैदा हुए और पूँजीपतियोंको सिर काटने भरसे सन्तोख नहीं हो

सकता था बल्कि वह सिर काटनेको नुकसानकी बात समझने लगे !

दुखराम—नुकसानकी बात क्यों मानने लगे ?

भैया—जोंक हें न ! जोंकोंको बहुत परदाकी जरूरत होती है नहीं तो—
“उधरे अन्त न होहि निवाहू”, राजाके रहनेपर खूब बड़ा-बड़ा दरवार लगेगा,
भंडा पताका निकलेगा, सहर सजाया जायगा, हीरा-पन्ना जड़े मुकुटको दिखला-
कर लोगोंकी आँख चौधियायी जायगी, राजपुरोहित भगवानके नामसे उसके
सिरपर मुकुट रखेंगे और अबूभ कमेरोकी आँखमें धूल भोंककर बतलाया
जायगा कि यहाँ कोई जोंक है नहीं है यह सब भगवानकी दया-माया है ।

सन्तोखी—तो पूँजीपतियोने माटीकी मूर्त्ती बनाके रखना चाहा ।

भैया—हाँ, देखा नही आठवँ एडवर्डको किसने निकाला ? वह बाल्डविन
था बाल्डविन ! !

सन्तोखी—बाल्डविन कौन था भैया ?

भैया—बाल्डविन इङ्गलैंडका महामंत्री था । लेकिन उससे भी बढ़कर वह
था गेस्ट, कीन, आदि बड़ी-बड़ी कम्पनियोका करोड़पति, पूँजीपति ।

दुखराम—तब तो भैया राजा कोई रहे बिलायतके असली राजा तो यही
असली पूँजीपति हैं ।

सन्तोखी—और हिन्दुस्तानके असली राजा ?

भैया—जब बिलायतके राजाको ही उन्होने गुड़िया बना दिया तो हिन्दु-
स्तानके बड़े लाट, छोटे लाट, हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूरके बारेमें क्या पूँछना
है ? यह सब उन्हींके वरदान पर हिल-डुल रहे हैं ।

दुखराम—यह तो कठपुतलीका नाच मालूम होता है ।

भैया—ठीक कहा दुखू भाई ! है यह कठपुतलीका नाच ही । सब सूत
बिलायतके छः सौ परिवार — पूँजीपतियों—के हाथमें है और “सबहि नचावै राम
गोसाईं ।” तो मैं बतला रहा था कि जर्मनीने अपने यहाँ कारखाने
ठीक किये । मालको बेचनेके लिए जिस देशमें भी गये वहाँ धक्का मिला तो
वहाँके पूँजीपति चुप कैसे रहते ? उन्हींने कहा कि जो खुसीसे दरवाजा नही
खोलोगे तो हम दरवाजा तोड़कर भीतर चले आवेंगे । यही कारण था जो

आजसे तीस बरस पहले जर्मनीने लड़ाई छेड़ दी । उसने सोचा था कि दुनियाके चार हिस्सामें एक हिस्सा भूमि और आदमी अगरेज लोगोंके हाथमें है जो इनको खतम कर दिया, तो सब जगह हमारा राज होगा, हमारा माल बिकेगा । फ्रान्सने भी दुनियाका बहुत-सा हिस्सा घेर लिया । उसके खतम होने पर हमारे मालके लिए और भी बाजार मिलेगी ।

दुखराम—तो भैया ! गयाके परडे बन गये । जैसे वह जजमानके लिए लड़ जाते हैं वैसे ही ये गाहकोके लिए लड़ गये ।

भैया—हाँ, यह गाहकोके लिए लड़ाई हुई । जितना ही अधिक गाहक मिलेगे उतना ही अधिक माल बेचेगे और यदि गाहक अपने ही गुलाम हुए, तब उनसे खाली कपास पैदा कराना जैसा सस्ता-सस्ता काम करायेगे । और आठ आनाका चौदह रुपया बनायेगे । पूँजीपति तभी इच्छा भर खून पीने पायेंगे । बल्कि इच्छा भर मत कहो, यदि समुन्द्र भर भी खून मिले तो भी इन जोकोंकी इच्छा पूरी नहीं होगी । और इन जोंकोंके खूनके प्यासके लिए तीस साल पहिलेवाली लड़ाईमें इतने लोग मरे और घायल हुए:—

| | मरे | घायल |
|---------------|-----------|-----------|
| अंगरेजी राज्य | १० ८६,६१६ | २४,००,६८८ |
| फ्रान्स | ३०,६३,३८८ | ४०,६०,००० |
| जर्मनी | २०,५०,४६६ | ४२,००,०३० |
| अमेरिका | १,१५,६६० | २,०५,७०० |

यह है जोंक पुरानका भयानक अध्याय लेकिन यही आखिरी अध्याय नहीं है ।

अध्याय ४

जोंकोंके दुसमन मरकस बाबा

दुखराम—आज तो भैया मरकस बाबाके बारेमें कुछ बताओ !

सन्तोखी—हाँ, भैया जोंकोंकी बात सुनकरके तो हमारा दिल खौलने लगा ।

उनके सामने गाय, भैंसकी देहमें लगनेवाली जोंके' तो कुछ भी नहीं ।

भैया—देखा न सन्तोखी भाई, जोंकोंकी सकल-सूरत चाहे कितनी ही देखनेमें सुन्दर हो, उनके आस-पास कितनी ही दया-धरमकी बात चलती हो, लेकिन उनके चारों ओरकी धरती खूनसे लथपथ हो रही है ।

सन्तोखी—इनके बड़े-बड़े महलोंके नीचे न जाने कितनी जिन्दा लासें पड़ी हुई हैं और हर पग-पगपर उनके खूनकी प्यास बढ़ती ही गई है ।

भैया—हाँ पहिले बिरादरी-बिरादरीकी छोटी-मोटी लड़ाई होती थी फिर राजाओंकी बड़ी-बड़ी लड़ाई हुई । लेकिन इन जोंकोंकी लड़ाइयोंके सामने तो पहिलेकी लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं । आज भी जो इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है सो भी उन्हीं जोंकोंके कारन । जबसे जोंकोंका त्रास बढ़ा तभीसे कितने ही दया रखनेवाले महात्मा सोचने लगे कि कैसे दुनियाका दुख कटे । उन्होंने सोचा कि जब तक धनी-गरीब रहेगे तब तक लोगोंको सुख-चैन नहीं मिलेगा, क्यों कि धनी होते ही हैं बहुतसे लोगोंको गरीब बनाकर । जो धनी-गरीबका भेद मिटा दिया जाय तो दुनियामें इतना दुःख नहीं रह जायगा ।

दुखराम—क्यों भैया, ऐसे महात्मा लोग दुनियामें पहिले भी पैदा हुए हैं ?

भैया—पैदा हुए, लेकिन उन्हें ठीकसे नबज नहीं मालूम । वह रोगके असली कारणका पता नहीं लगा सके ।

दुखराम—कारणका पता नहीं लगेगा तब दवा कैसे बतायेगे !

भैया—खूनके भीतरके रोगको पानीसे धोनेसे क्या होता है ? अट्टाई हजार बरस पहले हमारे ही देसमें बुद्ध नामके महात्मा हुए थे ।

सन्तोखी—वही बौधायतार भैया ?

दुखराम—बस सन्तोखी भाई ! मालूम पड़ता है कि औतार तुम्हारे मुँहसे नहीं छूटेगा । कौन औतार ? किसका औतार ? कहीं उसका पता भी है ? बिलायती बनियोंने एक बरसमें एक करोड़ आदमियोंको मार डाला, लेकिन औतारका कहीं पता नहीं ! जोंकोंने पारसाल साठ लाख आदमियोंको तड़पा-तड़पाकर मार डाला, लाखों तिरियोंसे इज्जत बेचवाई, तब भी उस औतारका पता नहीं ! छोड़ो औतारकी बात । औतार होता है राजाओं-रानियोंका । दुनिया

भरकी जोंकोंको बचानेके लिए हमें औतारसे कोई मतलब नहीं ।

भैया—हाँ दुक्खू भाई ! बुद्धने अपनेको किसीका औतार नहीं कहा, वह मानुख थे और मानुखोका हित चाहते थे । उन्होंने सोचा कि सारी दुनियाको धनी-गरीबका भेद मिटानेके लिए तैयार करना मुशिकल होगा, राजा और सेठ दोनो बड़ी-बड़ी जोंके खिलाफ हो जायेंगी; इसलिए उन्होने चाहा जो थोड़ेसे समझदार और त्यागी आदमी अपने भीतरसे धनी-गरीबका भेद मिटाकर अपने सुन्दर जीवनसे दिखला दें तो क्या जाने दूसरे लोग भी पसन्द करे और उसी गस्तेपर चले ।

सन्तोखी—तो बुद्धने ऐसे लोगोंकी जमात बना ली थी कि जिसमें धनी-गरीबका कोई भेद न था ?

भैया—हाँ, ऐसे औरत-मरदोंकी जमात बनाई थी जिसमें न कोई धनी था न गरीब था । उनका घर-द्वार, खटिया-बिछौना, खाना-पीना सब साभेमें रहता । बाभन हो या चंडाल उनके भीतर कोई जात-पातका भेद न था, सब एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक दूसरेके दुख-मुग्धमें सरीक होते ।

दुखराम—बड़ी अच्छी जमात बनाई थी भैया !

भैया—लेकिन जोकोका इससे क्या बिगाड़ा । बड़ी बड़ी जोंकोंने इस जमातके लिए बड़े-बड़े महल बनवा दिए थे, गाँव और जमीन दे दी, खाने-पीनेका आराम कर दिया । फिर कहने लगे यह तो महात्मा लोग हैं, संसारत्यागी भिच्छु सन्यासी हैं, इनमें सब सामरथ हैं ।

सन्तोखी—माने उनके चारों ओर दीवार घेरकर उसीमें उनको बन्द कर दिया, जिसमें उनके आचरनका दूसरोंपर कोई असर न पड़े ।

भैया—और असर नहीं पड़ा, क्यों कि लोग समझने लगे कि ऐसा जीवन तो साधू-सन्यासी ही बिता सकते हैं, सारी दुनियाके लिए सम्भव नहीं । इस तरह बुद्धकी उवा सारी दुनियाके लिए नहीं रह गई और फिर जोंकोंने उस जमातको बिगाडना शुरू किया । बुद्धने कहा था कि जिस किसीको कुछ दान देना हो तो सारी जमातको दे, एक आदमीको नहीं । लेकिन बुद्धके देह छूटनेके बाद जोंकोंने बड़ा-बड़ा दान जमातके नाम नहीं, आदमीके नाम देना शुरू किया । जमातमें फूट पड़

गई, धनी-गरीबका भेद फिर शुरू हो गया, जोंकोंका बाल भी बॉका न हुआ । जैसे बुद्धने हमारे देसमें किया वैले दूसरे देसों चीन, ईरान, यूरूप-में भी कितने ही महात्मा पैदा हुए जिन्होंने धनी-गरीबका भेद मिटाना चाहा पर कोई सफल नहीं हुआ । अन्तमें कल-मसीनकी विद्याका पता लगा । व्यौपारियोंने कारखाने खोल लिये, एक-एक कारखानेमें एक छतके नीचे हजार-हजार दो-दो हजार मजूर काम करने लगे । कारीगरोंका रोजगार कलोंने चौपट कर दिया । धुनिया, जुलाहा, बढ़ई, लोहार, रंगरेज, कुम्हार, लहेरा, ठठेरा कलकी चीजोंके सामने सबको हार माननी पड़ी । सबका घर उजड़ा और कारखानेमें मजूरी करना छोड़ जीनेका कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया । लाखो मजूर बिलायतके कारखानोंमें मजूरी करने लगे । मालिक तो गुलाम चाहते हैं, मजूर नहीं चाहते । गुलामको चाहे मारो-पीटो उसको कहीं ठौर नहीं है । उसकी देह तो मालिकके हाथमें बिक चुकी है । मजूरोंके साथ भी मालिक ऐसा ही सलूक करना चाहते थे । जब चाहा किसीको नैकर रख लिया, नराज हुए तो निकाल दिया । लेकिन कारखानेवाले मजदूरोंका घर तो पहले ही उजड़ गया था. अब मालिकके निकालने पर जाये तो कहाँ जायें ! अपने भाई मजूरके ऊपर जुलूम करते देग्व दूसरे मजूरोंका भी दिल पसीज गया । वह यह भी समझने लगे जो आज इसकी गति है वही कल हमारी होगी । मजूरोमें एका होने लगा, उन्होने कहा कि हमारे भाईको कामसे निकालना ठीक नहीं, निकालोगे तो हम काम नहीं करेंगे ।

दुखराम—हड़ताल करेंगे ।

सन्तोखी—हड़ताल क्या दुखू भाई ?

दुखराम—सब तुम्हीं समझ लोगे ? मजूर कारखानेका काम छोड़ देते हैं, इसीको हड़ताल कहते हैं ।

भैया—पूँजीपति जोंकोंको यह पता नहीं था । उन्होंने समझा कि जिनका घर-द्वार नहीं, ठौर-ठिकाना नहीं, उनकी क्या मजाल है कि हमें आँख दिखाये । लेकिन उन्हें यह नहीं समझमें आया कि जिन कल-कारखानोने उनके घरोंमें करोड़ोंकी बरसा की उन्हींने इन हजारो मजदूरोंको एक जगह कर दिया, एक नावमें बैठा दिया । अब सबका अच्छा-बुरा एक ही तरहका था । एकके ऊपर संकट पडनेपर

दूसरे चुप कैसे रह सकते थे । मजूरोंकी एक विरादरी बन गई । उन्होंने हड़तालें की, हड़ताल करने पर उनके बाल-बच्चोको भूखा मरना पड़ता लेकिन मालिकका भी लाशको नुकसान होता । सरकार भी मालिकोकी । पुलिस और पलटन भी पूँजीपतियोंकी । सबने मजूरोंको एक ओरसे दबाया, कितने ही गोलीसे मरते, कितनोहीको जहलखाना भेजा जाता और कितने ही भूखके मागे तड़पते; लेकिन यह एक दिनकी आफत तो नहीं थी कि मजूर सिर नवा देते । 'बुढियाके मरनेका डर नहीं था, डर था जमके परक जानेका' । हारते, तकलीफ सहते भी मजूरोंकी बहूतसी माँगोको पूँजीपति माननेके लिए मजबूर थे । यह अठारह सौ ईसवीसे कुछ पहिले और कुछ पीछेकी बात है । इसके बाद ही आजसे सवा सौ वर्ष (५ मई १८१८ ई०) पहले मरकस बाबाका जनम जर्मनीमें हुआ । एइनलैड इलाकेके ट्रेवेज नगरमें उनके पिता एक यहूदी वकील थे । मरकस यह खानदान का नाम था । बाबाका नाम था कारल ।

दुखराम—पूरा नाम कारल मरकस हुआ न भैया ?

भैया—हाँ, लेकिन दुनियामें मरकस नाम हीको सब जानते हैं ।

दुखराम—और यहूदी क्या है ?

भैया—यहूदी एक जाति है, जिसमें बड़े-बड़े पूँजीपति भी हैं, बड़े-बड़े पंडित भी हैं लेकिन सबसे अधिक मजूर हैं । दुनियामें हर जगह वह विखरे हुए हैं । ईसा मसीहको १९४४ बरस पहले कुछ यहूदियोने चुगली करके फाँसी पर चढ़वा दिया, इसी वास्ते ईसा मसीहके माननेवाले किरिस्तान लोग यहूदियोसे घिनाते हैं । मरकस बाबाके पिता वकील थे, जब मरकस बाबा छ् ही बरसके थे तभी उनके पिता यहूदी धरम छोड़ कर ईसाई हो गए थे । मरकस बाबा लड़कपन हीसे बुद्धिके बड़े तेज थे ।

दुखराम—तेज न होते तो जोंकोंके चार हजार बरसके जालको तोड़ पाते !

भैया—मरकस बाबाने अपने सहरके इसकूलमें पढा । कभी-कभी अपने पिताके दोस्त एक तालुकदारसे भी सतसंग होता था । तालुकदार विद्वान थे और विद्याका आदर करते थे । इसकूलकी पढ़ाई खतम करके सत्रह बरसकी उमरमें वह बोन सहरके विश्वविद्यालयमें वकालत पढ़ने लगे । लेकिन एक

साल बाद मरकस बाबाका मन उचट गया। तब वह जर्मनीके सबसे बड़े सहर बर्लिनके विस्सविद्यालयमें चले गये। वकालतका पढ़ना छोड़ दिया अब वह पढ़ने लगे इतिहास, कविता और दरसन।

दुखराम—दरसन क्या है भैया !

सन्तोखी—दरसन भी नहीं जानते ? रोज हम लोग दरसन-परसन करते हैं।

दुखराम—तो इस दरसन-परसनमें पढ़ना क्या है, यह कोई दूसरा ही दरसन होगा। सखी-समाजवालोंको जैसे भगवान दरसन देते हैं वैसा दरसन तो नहीं है भैया !

भैया—हाँ, कुछ वैसा ही है ! है तो यह अंधेरी कोठरीमें काली विल्लीका पकड़ना। बल्कि खाली अंधेरी कोठरीमें काली विल्लीका पकड़ना। लेकिन इसको लोग समझते हैं कि वहीं जाकर विद्याका ओर होता है।

दुखराम—यहाँ भी तो जोंकोंकी माया नहीं है भैया ?

भैया—बहुत भारी माया है। दरसनवाले कहते हैं कि यह दुनिया सब माया है।

दुखराम—उनके सामने जब थाली परोसकर रख दी जाती है तो वह अपना हाथ उधर फैलाते हैं कि नहीं ?

भैया—फैलाते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं।

दुखराम—बस-बस हो गया भैया ! यह भारी धोखा है, जोंकोंका बड़ा भारी जाल है, जोंकोंका छुपन परकार तो छिनाएगा नहीं। उनका सराब और परियोंका नाच चलता ही रहेगा। वह लोगोंका खून पी-पीकर सालमें करोड़-करोड़ आदमी मारते रहेंगे। उनके भोग-विलासमें यह दरसन कोई टखल नहीं देगा। वह बस यही चाहता है कि जोंकोंके जुलूमको लोग माया समझें। दुनियाको नरक बनानेका सारा कसूर जोंकोंका है, लेकिन वह लोगोंको बतलाना चाहते हैं कि यह सब माया है।

भैया—तुम्हारा कहना ठीक है दुखू भाई ! लोगोंको भूल-भुलैयामें डालनेके लिए हिन्दुस्तानमें भी दरसनवाले ग्यानी पैदा हुए, यूरुपमें भी पैदा हुए। मरकस बाबाने जबानीमें दरसन पढ़ा तो अच्छा ही किया। जब मरकस बाबा

उन्नैस सालके ये तभी काट और फिकटे जैसे चोटीके पंडितोका दरसन उन्हें थोथी कल्पना मालूम होने लगी, फिर मरकस बाबाको एक और दरसनके पंडित हेगलकी किताब पढ़नेको मिली । हेगलकी यह बात मरकस बाबाको बहुत पसन्द आई कि दुनिया जो यह चित्तर-विचित्तर दिखाई दे रही है वह इसीलिए कि वह हर छन बदल रही है । दुनियाकी कोई चीज छोटीसे छोटी या बड़ीसे बड़ी नहीं जो न बदले । हमारे यहाँ भी हेगलसे चौबीस सौ बरस पहले बुद्ध महात्माने यह कहा था ।

दुखराम—चौबीस सौ बरस पहिले ! और बुद्ध महात्मा भी तो धनी-गरीब-का भेद मिटाना चाहते थे । वह भगवानको मानते थे कि नहीं भैया !

भैया—नहीं, बिल्कुल नहीं । वे कहते थे कि है कहकर जिसे हम पुकारते हैं वह सभी चीजे छन-छन बदलती हैं । जो बदलती नहीं है ऐसी दुनियामें कोई चीज नहीं ।

दुखराम—जो सन्तोखी भाई बुद्ध महात्मासे पूछते कि भगवान हैं कि नहीं तो क्या जवाब देते ?

भैया—पहले सन्तोखी भाईसे पूँछते कि भगवान बदलते हैं कि नहीं, माने बिल्कुल मर जाते हैं कि नहीं और फिर उनकी जगह कोई दूसरा बिल्कुल नया भगवान पैदा होता है कि नहीं ? पहले बुद्ध महात्मा सन्तोखी भाईसे यह सवाल करते ।

दुखराम—सन्तोखी भाई ! बताओ तुम क्या जवाब देते ?

सन्तोखी—जा भगवानको मानता है, वह उन्हें जनम-मरनसे परे'मानता है ।

भैया—तो ऐसी चीजके बारेमें बुद्ध महात्मा कहते कि वह अफीमचीकी पिनक है । ऐसी चीज दुनियामें कोई नहीं हो सकती ।

दुखराम—तो सब चीज बदली रहती है । दुनियामें न बदलनेवाली चीज कोई नहीं है, यही बात मरकस बाबाको पसन्द आई न भैया ?

भैया—वरलिनसे फिर मरकसबाबा जेना सहरके विश्वविद्यालयमें गए और तेईस बरसकी उमरमें विद्या—पारंगत होनेके लिए उनको डाक्टरकी पदवी मिली ।

दुखराम—दवाई देनेवाला डाक्टर भैया ? .

भैया—ज्ञानका डाक्टर भाई दुःखू ! मरकस बाबाने ज्ञान तो सब पढ़ लिया, लेकिन दुनियामें देखा, सब जगह नरककी आग धोंय-धोंय जल रही है । उनकी कलममें ब्रज्जकी ताकत थी । उनकी नजर इतनी पैनी थी कि गहरीसे गहरी जगहमें घुस जाती थी । त्रिसविहालयमें पढ़कर निकलनेके बाद मरकस बाबा एक अखबारके सम्पादक हो गये ।

दुखराम—सम्पादक क्या है भैया ?

भैया—अखबारके सब लेखोंके परखने और रास्ते दिखलानेके लिए मुख्ख लेख लिखनेकी जिसपर जिम्मेवारी हो उसे ही सम्पादक कहते हैं । इसी सम्पादक रहते वक्त मरकस बाबाको मजूरीकी दुख तकलीफ जाननेका और मौका मिला फिर दो-साल तक उन्होंने उसके कारण ढूँढने और दवाइका पता लगानेके लिए खूब सोचा, खूब पढ़ा, खूब गुना । जब मरकस बाबा पच्चीस बरस (१८४३)के थे तभी अपने एक दोस्तकी खत लिखा था—“बटोरने और व्यौपार करनेका जो ढंग दुनियामें चल रहा है, मानुख जातिको गुलाम बनाने और खून चूसनेका जो ढंग चल रहा है वह सारे समाजकी जड़को भीतर ही भीतर जल्दी-जल्दी कुतर रहा है; जितनी जल्दी-जल्दी आदमियोंकी तादाद बढ़ रही है उसमें भी जल्दी-जल्दी कुतर रहा है । इस घावको पुराना (जोकोवाला) ढंग भर नहीं सकता । क्यों कि उसके पास भरनेकी कोई तागत ही नहीं । वह (जोंकोंका ढंग) तो सिरिफ भोग करना और अपने जीना, बस इतना ही जानता है ।” मरकस बाबाने उसी साल अपने पिताके दोस्त तालुकदारकी लड़की, जेनीसे ब्याह किया ।

दुखराम—जोककी लड़कीसे ब्याह किया ?

भैया—जोक आदमीसे पैदा हुई है और जोंकोंमें भी कोई-कोई आदमी पैदा हो सकता है कि नहीं ?

दुखराम—हो सकता है भैया ।

भैया—जेनी उसी तरहकी आदमी थी । जोंकोंके घरमें उसने जनम लिया । तेइस-चौबिस बरस तक जोंकोंके सुख और भोगमें पली लेकिन बाकी सारा

जीवन उसने कितनी तपेस्सा की, कितना कष्ट सहा, उसको सुनकर रोआँ खड़ा हो जाता है। पच्चीस बरसके ही मरकस बाबा हो पाये थे कि जर्मन सरकार उनके विचारोंको जानकर घबराते लगी। जानते हो न कि दुनिया भरकी सरकारें जोंकोंकी सरकार हैं। जोंकोंके स्वारथको बचाना ही उनका सबसे पहला काम है। जर्मन सरकारने मरकस बाबाको जेहलमें डाल देना चाहा। लेकिन बाबा और जेनी दोनों उनके हाथमें नहीं आये वे फ्रासकी राजधानी पेरिसमें चले गये।

दुखराम—चावस (शावास) ! बाबा जर्मन जोंकोंके पंजेसे बच गये।

भैया—लेकिन जर्मन जोंकोंकी सरकारने फ्रासकी जोंकोंके सरकारपर दबाव डालना मुरु किया। और डेढ़-दो साल बाद फ्रासकी सरकारने अपने देससे निकल जानेका हुकुम दिया। बाबाको वहाँसे (१८४५में) बेल्जियमके सहर ब्रूसेल्समें चला जाना पड़ा। दो बरस बेल्जियममें रहे। बड़ी गरीबीकी जिन्दगी बिताई। जेनीको सब काम अपने हाथ करना पड़ता, बाबा खाली जोंकोंसे कमेरोंकी मुकती कैसे हो इसीपर सोचते और लिखते रहे। १८४३में न्याव-वाल्लों की सभा—(जिसे पहले ही से विदेसमें भागे जर्मन मजूरोंने कायम किया था) की बड़ी सभा लन्दनमें हुई थी, उस सभामें मरकस बाबा और जिनगी भरके साथी ऐङ्गल बाबा भी बुलाये गये थे। मरकस बाबासे वहीं सभा-वाल्लोंने कहा कि हम लोगोंका एक टिंदोरा पत्तर (घोषणापत्र) लिख दीजिए जिससे जोंकोंको भी पता लग जाय कि कमेरे क्या करना चाहते हैं और दुनिया भरके कमेरोंको भी पता लगे कि दुनियाके इस नरकको दहानेके लिए उनको क्या करना है। जोंकोंको देहसे छुड़ानेके लिए कौनसा रास्ता पकड़ना है 'मरकस बाबाने बत्तिस सालकी उमरमें यह टिंदोरा पत्तर लिखा, जो हिन्दीमें भी कम्यूनिस्ट घोषणा'के नामसे छप गया है। बीस-पच्चीस पन्नेकी इस छोटी-सी पोथीमें जो ताकत है वह दुनियाकी किसी बड़ी-सी-बड़ी किताबमें भी नहीं देखी गई। दुनियाके कमेरोंकी आँख खोलनेमें इस टिंदोरा-पत्तर जितना काम किसीने नहीं किया। किताब खतम करते हुए बाबाने कहा "कमेरो ! अपने पैर-की बेड़ियोंको छोड़कर तुम्हारे पास खोनेके लिए रखा ही क्या है (जोंकोंको खतम कर देनेपर) यह साग संसार तुम्हारा है। सभी देसोंके कमेरों ! एक

हो जाओ ।”

दुखराम—बाह रे बाबा, आज तू मिलता, तो अपने आसुओंसे नेरा पैर पोंछता ।

भैया—अगले साल (१८४८) फ्रांसमें बड़े जोंकराजाके तखतको उलट दिया गया । दुनियाके मुकुटधारी काँपने लगे । फ्रांसके लोगोंने पंचायती राज कायम किया । मरकस बाबाको सरकारके मुखियाने (१ मार्च १८४८के) बड़े आदरभावसे आनेके लिए बिनती की । बाबा पेरिस सहरमें आये । जर्मनीमें भी कमेरोने जोंकोके खिलाफ बगावत की । उसके लिए एडग्ल बाबा और दूसरे कई साथियोंको बाबाने जर्मनी भेजा और अपने भी राइनलैण्ड इलाकेमें पहुँच गये वहाँसे कमेरोको रास्ता दिखलानेके लिए एक अखबार निकाला । जोंकोंकी सरकार दब गई थी, इसलिए मरकस बाबाकी ओर उसने हाथ नहीं बढ़ाया । डेढ बरस अखबार निकालनेमें बाबा और जेनीमाईके पास जो कुछ भी कौड़ी-पैसा था सब चला गया । जर्मन जोंकोंकी सरकारका फिर कुछ हौसला होने लगा, इसलिए बाबा और जेनी पेरिस चले आये । लेकिन पेरिसके कमेरोने जोंकोंके स्वभावको ठीकसे पहचाना नहीं उन्होंने जोंकोंको अँगूठेसे दबाया खून निकल जानेसे वह सुटुककर पतली हो गई । कमेरोने समझा अब यह कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें उठाकर फेंक दिया ।

दुखराम—जोंकोंका जीव बढ़ा कड़ा होता है भैया ! उनको तो जव-तक गत्तर गत्तर काट-चीथकर न फेंका जाय तब-तक वह मरती नहीं ।

भैया—पेरिसमें फिर जोंकोंका जोर बढ़ गया और १८४९में मरकस बाबाको फ्रान्ससे निकल जानेका हुक्म हुआ । बाबा और जेनी कमेरोकी भलाईके लिए सब दुख सहनेके लिए तैयार थे, घर छोटा, देस छोड़ाया गया और जिस देसमें भी जाते वहाँकी जोंके उनके पीछे पड़ जातीं । अब वह लन्दन चले गये । १८३६से १८८३ तकके लिए (चौतीस बरखोंके लिए) लन्दन ही मरकस बाबाका घर बना ।

दुखराम—लन्दन तो सबसे बड़ी-बड़ी जोंकोंकी सजधानी है, वहाँ मरकस बाबाको कैसे जगह मिली ।

भैया—जोंक सरकारोंका आपसमें भी भगड़ा है, यह तो तीस साल पहले-वाली लड़ाई और आजकी लड़ाईसे तुम्हें मालूम है। इसलिए भी अपने मुद्दई जर्मनी और फ्रान्सकी जोंकोंके दुसमन मरकसको अपने यहाँ रहने देनेमें उन्हें कोई हरकत नहीं मालूम हुई, और सारे अंगरेजोंके गुलाम देसोंका इतना अधिक धन आता था कि अपने यहाँके मजदूरोंको वह कुछ दे दिवाकर संतुष्ट कर देते थे। मरकस बाबाने बड़ी-बड़ी पोथियाँ लिखी दुनिया भरके कमरोंपर उनकी नजर रहती थी।

दुखराम—हिन्दुस्तानके रहनेवाले हम कमरोंके बारेमें बाबाने कुछ सोचा और लिखा ?

भैया—हाँ दुखू भैया ! बाबाके सामने आजसे ६१ साल पहले भी हिन्दुस्तानका कोई रोग छिपा नहीं था। बाबाने उस वक्त लिखा था—“काहे अंगरेज हिन्दुस्तानके मालिक बन गये ? मुगल सूबेदारोंने मुगलाई राज-संगठनको तोड़ा। सूबेदारोंकी तागतको मराठोंने तोड़ा, मराठोंकी तागतको (पाँनीपतकी लड़ाईमें) अफगानोंने तोड़ा और जब यह सभी सबके खिलाफ लड़ रहे थे तो अंगरेज चढ़ दौड़े और उन्होंने सबको दबा दिया। (क्यों दबा सके ?) यह देस सिर्फ हिन्दू, मुसलमानोंमें ही बँटा नहीं है बल्कि खोम-खोम और जाति-जातिमें बँटा है। यहाँके समाजका ढाँचा इस तरह कसकर बाँधकर रखा गया है कि आदमी-आदमीके बीच बिल्ख-राव और बेमेलपन फैला है। जो देस, जो समाज ऐसा हो, वह हारनेके लिए, गुलाम होनेके लिए नहीं बना तो किस लिए बना था। चाहे हिन्दुस्तानका पुराना इतिहास हम न भी जानते हों, तो भी इस बातमें तो कोई दोमत नहीं है कि इस छुन भी हिन्दुस्तान अंगरेजोंकी गुलामीमें जकड़बन्द है। और उस जकड़बन्दीका काम करती है हिन्दुस्तानी फौज, जिसका खर्च भी हिन्दुस्तान ही देता है। ऐसा भारत गुलाम होनेसे कैसे बच सकता है।

दुखराम—भैया ! बाबाने सचमुच हम लोगोंके रोगको पहिचाना।

भैया—बाबाने एक और भी बात लिखी है। उन्होंने हिन्दुस्तानके पुराने जमानेमें गाँवका जो पंचायती इन्तजाम था उसके बारेमें कहा था—“ये सुन्दर

(गाँवके) प्रजातन्त्र सिर्फ पड़ोसी गाँवसे अपने गाँवकी सीमाकी रच्छाके लिए मुस्तैदी दिखा सकते थे । लेकिन वहाँके राजाओंकी मनमानीको रोकनेकी उनमें जरा भी ताकत नहीं थी ।”

दुखराम—क्यों भैया ! गाँवका पंचायती राज क्या बुरा था ।

भैया—पंचायती राजको बुरा कोई नहीं कहता । बाबाने भी कहा न कि जो कनैलाकी कोई जमीन या तालपोखरीका हक भदया छीनने लगे, तो कनैलावाले कितना मनसे लड़ेंगे ?

दुखराम—भैया ! गाँवका बच्चा-बच्चा लाठी लेकर दौड़ पड़ेगा । कोई घर बैठा रह सकता है ? न जाने कितनी बार कनैला नरेहतासे लड़ा, उमरपुरका दाँत खटा किया, भदयाको सिवानामें घुसने नहीं दिया ।

भैया—बाबा यही कहते हैं कि जब देसमें इतना बिखराव हो जाता है कि लोगोंको सारा देस तो भूल जाता है, याद रहता है सिर्फ अपना गाँव; तो गाँवकी सीमाकी रच्छा भले ही हो जाय, लेकिन देसकी सीमाकी रच्छा नहीं हो सकती । क्यों कि लोग अपनेको उतना ही मनसे देसका बासी नहीं समझते, जितना मनसे कि गाँवका बासी समझते हैं । इसीलिए हिन्दुस्तानकी सीमाकी रच्छाकी जिम्मेवारी सिर्फ राजाओंको रह गई । राजाओंका जुल्म और मनमानापन लाखों गाँवोंके पंचायती राज्योंमें बँटे हिन्दुस्तानी लोगोंके रोकनेकी चीज नहीं रह गया । गाँवकी पंचायतोंने कारीगरोंको हजारों बरस पुराने बसूले और रुखानियोंसे चिपके रहने दिया, किसानोंको हँसुआ, फालोसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया । जबकि दूसरे मुल्कवाले अपने जुल्मी राजाओंकी गरदन कुल्हाड़ेसे काट रहे थे, उस वक्त सब जुलूम, सब अन्याय बरदास करते हिन्दुस्तानी लोग कहते थे, “कोउ नृप होइ हमै का.हानी” इससे वह यही दिखलाते थे कि हमारा हाथ-पाँव बँधा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते । हमारे इस गाँव-गाँवके बिखराव, जाति-जातिके बिखराव, धरम-धरमके बिखरावने हमें बिलकुल कमजोर बना दिया । हम हिल-डोल नहीं सकते । हम समय देखकर अपनेको बदल नहीं सकते । हम अचल मुरदा बने रहना चाहते थे लेकिन यदि कोई दूसरा न छेड़ता तब न ? मुसलमानोंने राज किया, उससे पहिले सकों और यूनानियोंने

भी राज किया था, लेकिन हिन्दुस्तानके समाजके पुराने ढाँचों, गाँव-गाँवके अलग-बिलग संगठनों और जाति-पाँतिको कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन वह काम अँगरेजोंने किया। उन्होंने मुरदेको खूब भकभोरा, जो बिलकुल मुरदा नहीं था। उन्होंने हजारों वरसमे चले आये हमारे चरखों को तोड़ डाला। पुराने करघेको विदा किया। यह सब कैसे किया? अपने यहाँके मिलके बने सस्ते कपड़ोंको भेज कर। बाबाने लिखा—“अँगरेजोंने कपासकी जनम-भूमिमें कपड़ेकी बाढ ला दी। १८१८में उन्होंने जितना कपड़ा भेजा था उससे ५२ गुना कपड़ा १८ वरस बाद १८३६में अँगरेजोंने हिन्दुस्तान भेजा। १८३७में मुस्कलसे दस लाख गज विलायती मलमल हिन्दुस्तानमें आया था लेकिन उस ही वरस बाद १८४७में ६ करोड़ ४० लाख गजसे ऊपर मलमल हिन्दुस्तान आया। लेकिन इसी बीचमें ढाका सहर उजड़ गया वह इंदू लाखकी जगह सिर्फ २० हजारकी बस्ती रह गया। इस तरह अपनी कारीगरीके लिए दुनिया भरमें मसहूर हिन्दुस्तानके सहर बरबाद हो गये।”

दुखराम—जोंकोने बड़ा जुलूम किया भैया !

भैया—बाबाने भी लिखा था—“यह सब देखकर आदमीका दिल व्याकुल हो जाता है। हिन्दुस्तान जो अनगिनत पंचायती गाँवोंमें सान्तीके साथ जिन्दगी बिता रहा था, उसके सारे संगठनको जोंकोने तितर-बितर कर दिया, लोगोंको कस्टोके समुंदरमें फेंक दिया। पीढ़ियोंसे चले आते जीविका कमानेके रास्त बन्द कर दिये। यह सब ठीक है, और गाँवोंका पुराना पंचायती संगठन बहुत सुन्दर था, वह देखनेमें (दुधमुँहे बच्चेकी तरह) बहुत ही भोला-भाला था। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि पूरबी देसोंमें (जोंकोको) मनमानी करनेमें सबसे बड़ी मदद इसी भोले-भालेपनने की। इसने आदमी के दिमागको नन्ही-नन्हीं कोठरियोंमें बन्द कर दिया। गणो और भूठे विस्वासोंको चुपचाप माननेके लिए वहाँके लोगोंको तैयार किया, उन्हें पुराने रवाजोंका गुलाम बनाया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटी-सी जमीनकी टुकड़ीमें ही जब सारी ममता बंदुर गई हो, तो विसाल देसका विधंस क्यों नहीं होता। इसी छोटी ममताने कितना जुलूम सहनेके लिए लोगोंको मजबूर किया। बड़े-बड़े सहरोंमें

भयंकर हत्या करवाई, (जिसमें लाखों बालक, बूढ़े नर-नारी गाजर-मूलीकी तरह काट डाले गये) हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह अपमान-भरा जीवन, मुरदे कीड़े-मकोड़ेका जीवन ही, विलकुल जड़ जीवन ही था जिसको देखकर जंगलियों, अत्याचारियों, सत्यानासियोंको वैसा करनेकी हिम्मत हुई। हमें यह न भूलना चाहिए कि भारतकी यह (गाँव-गाँवमें) बिखरी छोटी-छोटी जमात भी सैकड़ों जातोंमें बँटी थी, गुलामीके रोगमें फँसी थी। जहाँ मानुख का काम है ऊपर उठकर जो भी रास्तेमें बाधाएँ आएँ उनको परास्त करना, वहाँ हिन्दुस्तानियोंको परिस्थितियोंका गुलाम बनना पड़ा। उसीके कारण मानुख-समाजको जहाँ बहती गंगाकी धाराकी तरह बराबर बढ़ते रहना चाहिए था, वहाँ वह अचल बनकर जमानेके हाथकी कठपुतली बन गई। मानुख अन्धे जमानेका दास हो गया। जिस मानुखको जमानाका राजा बनना था वह इतना पतित हुआ कि बानर हनुमान और कपिला गायके सामने घुटने टेकने लगा।”

सन्तोसी—क्यों भैया ! बाबाको हनुमानजीकी पूजा और गोमूत्र पीनेकी बात मालूम थी ?

दुखराम—खूब मालूम थी सन्तोखी भाई और बाबाने हम मूढ़ोंके गाल-पर खूब चपत लगाया लेकिन यह चपत ऐसे माँ-बापका था, जिसका हृदय भीतर ही भीतर रो रहा हो।

भैया—बाबाने और कहा “हिन्दुस्तानमें अंगरेज जो समाजमें उलट-पुलट कर रहे हैं उसके पीछे उनका एक बहुत ही नीचा स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन हम पूछेंगे कि क्या, एसियावासियोंके समाजको बिना उलटे-पुलटे मानुख जाति अपने पहुँचनेकी जगह पहुँच सकती है ? अगर नहीं पहुँच सकती है तो अंगरेजोंने चाहे जितना भी पाप किया, उन्होंने अनजाने ही इस हितकारी उलट-पुलटको करनेमें सहायता की फिर चाहे (हिन्दुस्तानमें) टूट-टूटकर गिरती हुई पुरानी जिंदगीको देखकर हमारा दिल कितना ही विकल क्यों न हो जाय, उसके खिलाफ हमारे दिलमें कितना ही आग क्यों न लग जाय लेकिन उसने उलट-पुलट करके हिन्दुस्तानका नया इतिहास बनानेमें मदद की है।”

दुखराम—बात तो भैया ! बाबाने सच्ची-सच्ची कह डाली चाहे किसीके

गले उतरे या न उतरे ।

भैया—बाबाने एक और जुगोंसे चले आये हिन्दुस्तानको लाखों गाँवोंमें छिन्न-भिन्न देखकर उसे बुरा कहा । गाँई संगठन और उलट-पुलटको आगेकी भलाईके लिए जरूरी बतलाया । और यह भी कहा—“अंगरेजोंने तलवारसे जो एकता हिन्दुस्तानके ऊपर जबर्दस्ती लाद दी है उसे बिजलीके तार और भी मजबूत और बहुत दिन तक रहनेवाली बना रहे हैं । अंगरेज सरजन्ट जो हिन्दुस्तानी सेनाको परेड सिखला रहे हैं, उसका संगठन कर रहे हैं वह हिन्दुस्तानी सेना विदेशियोंके हमलेसे ही देसको नहीं बचाएगी बल्कि वह देसको छुटकारा दिलानेका काम करेगी । अखबार व छापाखाना नया हिन्दुस्तान बनानेके बड़े ही जबर्दस्त हथियार हैं । जो हिन्दुस्तानी अंगरेजोंसे पच्छिमी विद्या सीख रहे हैं, वह राज चलानेके काम और पच्छिमके सायंसमें चतुर हो रहे हैं । यह भी हित करनेवाला है । भापके इंजनने हिन्दुस्तानकी यूरोपके साथ आने-जानेमें और सहायता की है । हिन्दुस्तानके मुख्खि-मुख्खि बंदरगाह अब इंग्लैण्डके बंदरगाहोंसे जुड़ गए हैं जिसके कारन अब हिन्दुस्तान अलग-बिलग नहीं रह सकता और यह जड़ताईको जड़मूलसे उखाड़ फेंकेगा । वह दिन दूर नहीं है जब भापसे चलनेवाली रेल और जहाज मिलकर इंग्लैंडको आठ दिनके रास्ते पर ले आ देगे, उस समय हिन्दुस्तान भी पच्छिमी देसोंका पड़ोसी देस बन जायगा बिलायतकी राज करनेवाली जमातने हिन्दुस्तानमें जो कुछ तरक्कीका काम किया है वह अनजाने और सिरिफ अपने स्वारथसे किया । बिलायती सरदार हिन्दुस्तानको जीतना चाहते थे, बिलायती थैली साह (बनि ए) उसे लूटना चाहते थे और मिल साह (पूंजीपति) गलाकट्टी कर रहे थे ।... . अब मिल साह सारे भारतमें रेलोंका जाल बिछाना चाहते हैं । और वह ऐसा करके रहेंगे ।... मैं जानता हूँ कि अंगरेज मिलसाह (पूंजीपति) हिन्दुस्तानमें रेल सिरिफ इसीलिए बिछाना चाहते हैं कि बहुत थोड़े खर्चमें हिन्दुस्तानके कपास और दूसरे कच्चे मालको अपने कारखानोंमें ले आएँ, लेकिन अंगरेज ऐसे देसमें कल-मसीनको ले जा रहे है, जहाँ कोयला और लोहा मौजूद है । फिर कोयला लोहाके धंधेको आगे बढ़नेसे कौन रोक सकता है ।... (हिन्दुस्तानियोंमें ऐसे बहुत

लोग हैं जो कल-मसीनकी इलिमको समझ सकते हैं, वह पूँजी भी जमा कर सकते हैं, उनमें बड़ा दिमाग भी है। यह इसीसे मालूम है कि गिनती (हिसाब) जैसे इलिममें वे बहुत चतुर होते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी तेज है।”

दुखराम—बाबाने देव लिया था कि हिन्दुस्तानी लोगोंकी आखें जरूर खुलेगी और वह अपनी विद्वाको अपनी भलाई, अपनी मुकतीके लिए इस्तेमाल करेंगे।

मैया - बाबाने यह भी सोच लिया था कि हिन्दुस्तानको आजाद करने, उसके आगे बढ़नेमें विलायतके कमरोकी भी सहायता जरूरी होगी।

दुखराम—विलायतके कमरोमें भी क्या बाबाके माननेवाले लोग हैं ?

मैया—बाबाने उनकी भी आँख खोल दी है दुखू भाई ! विलायतमें एक लाख तो बाबाके पाटीके खास लोग हैं और वहाँकी जाँके बहुत घबरा रही हैं कि लड़ाई खतम होते कहीं उनका भी तखता न उलट जाय। बाबाने ६१ बरस पहले लिखा था—“जब तक खुद विलायतमें वहाँके कमरे अपने जाँके राजको हटाकर अपना राज न कायम कर ले या खुद हिन्दुस्तानी ही इतने मजबूत न हो जायें कि अंगरेजोंके जूँको उतार फेंके (तब तक हिन्दुस्तानके लिए वह सुन्दर दिन नहीं आ सकता)। चाहे कुछ भी हो थोड़े या अधिक दूरके समयमें वह दिन जरूर आएगा जब विमल मनोहर हिन्दुस्तान देसका नया जनम होगा। वह देस जिसके नरम सुभाववाले निवासियोंमें आजकी गुलामीमें भी एक तरहकी साँति और अभिमान है। आलसीसे दिखाई देनेपर भी जिन्होंने अपनी बहादुरीसे अंगरेजोंको चकित कर दिया, जिनका देस हमारी भाखाओंका हमारे धरमोंका मूल रहा; जिसके जाट अपनी बहादुरीमें पुराने जर्मनों जैसे हैं जिसके बाम्हन ग्यानमें पुराने यूनानियों जैसे हैं उस देसका जरूर उद्धार हो कर रहेगा।”

सन्तोखी—बाबा क्या हिन्दुस्तानमें आये थे मैया !

मैया—हिन्दुस्तान नहीं आये थे लेकिन सैकड़ों बरसोंसे अंगरेज लोग हिन्दुस्तानके बारेमें लिख-लिख कर जो ढेर किये हुए थे, उस सबको बाबाने ढाढ़ा, हिन्दुस्तानसे जानेवाले आदमियोंसे बात चीत की; उसीसे उनको सब बातें

मालूम हुईं । हम कहते थे कि बाबाको असली रोग और दवाका पता लगा । उन्होंने समझा कि रोग है यही जोंकें, जिनमें सबसे बड़ी हैं यह पूँजीपति, मिल-मालिक, कारखानेवाले जो ॥)का १४) बनाते हैं और दुनिया भर राज करते हैं । विलायतके मजूरोंने इन जोंकोंसे लड़ाई ठानी । जब पेट काटा जाय, बेकसूर आदमी निकाल बाहर किये जायें, तो भला कैसे चुप रहें । जोंकोंका अपार धन, उनकी पलटन, पुलिस, धरम और पुरोहित सब कमरोंको पीस देना चाहते थे; लेकिन वे तीस चालिस बरससे बराबर लड़ते रहे । तोंद पचकती देख जोंकोको कितनी बातें माननी पड़ी और कमरोंका बल घटने की जगह और बढ़ता गया । बाबाने समझा कि जोंकोंकी असली दवा यह कल-कारखानेके मजूर हैं । जो यह हजारो लाखों गाँवोंमें बिखरे रहते तो यह जोंकोंका मुकाबिला नहीं कर सकते । अपने कारखानोंको चलानेके लिए जोंकोंने उन्हें सहरोमें एक जगह जमा कर दिया । यह बड़ी तागत है । जोंको हीने इन्हें अपने स्वारथके लिए इकट्ठा किया और यही जोंकोंको तबाह करेगे ।

दुखराम—हाँ मैया ! चटकल-पटकलमें लाखों मजूर काम करते हैं । जब मालिक कोई जुलुम करने लगते हैं, तो सब एका करते हैं । दस-दस बीस-बीस दिन काम छोड़नेपर मजदूरोंको तो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन मालिकोंको मानना पड़ता है ।

मैया—मानना क्यों न पड़े, जो मजूरोंका चार आना जाता है तो जोंकोंका तेरह रुपया । लेकिन बाबाने कहा कि मजूरी बढ़वाने और छोटे-मोटे जुलुमको हटवानेसे काम नहीं चलेगा, दुनिया भरके किसानों मजूरो—सभी कमरोंको एका करके जोंकोंका राज खतम करना होगा । पुलिस-पलटन, अदालत-कचहरी, कल-कारखाना सबको जोंकोंके हाथसे छीन लेना होगा । हवा-पानीकी तरह धरती-धन सब कुछ सबका साभेका करना होगा; तब जाकरके दुनियाका यह नरक खतम होगा ।

सन्तोखी—हाँ मैया ! बाबाने बड़े कामकी बात बतलाई ।

मैया—अब सुनो बाबाका बाकी जीवन चरित्तर । ३१ सालकी उमरमें बाबा कहाँ-कहाँकी जोंक सरकारोंसे बचते लंदन पहुँचे । और वहीं ६५ बरसकी उमरमें

बाबाका देह छूटा । बाबाने अमेरिका, यूरोप सब जगहके मजूरोंको जॉकोंसे लड़नेमें मदद दी । रास्ता बतलानेके लिए किताबें लिखीं । कोलोनके कमूनिस्टोंके ऊपर मुकदमा चल रहा था ।

दुखराम—कमूनिस्ट कौन हैं भैया ।

भैया—बाबाके चेला लोगोंको, बाबाके पार्टीवालेको कमूनिस्ट कहते हैं । दुनिया भरकी जॉके कमूनिस्टोंसे बहुत डरती हैं । कमूनिस्टोंने कमेरोंकी लड़ाइयाँ खूब बहादुरीसे लड़ी हैं, अपना सर्वस होम दिया है । रूससे जॉकोंका राज उन्होंने ही खतम किया ।

दुखराम—तो भैया ! हमारे देसमें भी ऐसे कमूनिस्ट होने चाहिएँ । बाबाके चेला हम लोगोंको रास्ता नहीं बतलाएँगे तो हम कैसे लड़ पाएँगे ।

भैया—हमारे यहाँ भी बाबाके चेला हैं दुख् भई ! लेकिन ४० करोड़की आबादीमें, २५, ३० हजार कमूनिस्ट तो बहुत कम होते हैं न ? सरकारने अब भी एक हजार कमूनिस्टोंको जेलमें बन्द करके रखा है और जॉक और पुलिस दोनों उन्हें फूटी आँखसे भी नहीं देखना चाहती; लेकिन वह रकतबीजकी तरह बढ़ते रहे । सहर-दिहात सबने छा जायँगे । बाबा का पंथ कौन कमेरा है जिसको पसन्द न होगा ?

दुखराम—हाँ भैया ! वह अभाग ही होगा । बाबाने सब दुख-तकलीफ सहकर हमारे ही फायदाके लिए न काम किया ?

भैया—बाबाने कमूनिस्टोंके मुकदमोंके लिए किताब लिखी लेकिन छापनेके लिए कागज, नहीं था, उनके पास एक कोट बच रहा था । उसे भी उन्होंने बंधक रख दिया ।

दुखराम—तो बाबा बिना कोट हीके रह गए ? सुनते हैं, बिलायतमें हाड़ चीरनेवाला जाड़ा पड़ता है ।

भैया—बाबा अपने लिए कस्ट सहनेको तैयार थे ! और जेनी माईकी तकलीफको सोचो दुख् भई ! एक तालुकदारकी लड़की, बड़ी लाड़-प्यारसे पली, वह भी बाबाके साथ गली-गली मारी-मारी फिरती रही । लेकिन उसने एक दिन भी अफसोस नहीं किया । बाबा इतने पंडित थे कि हजार दो हजार

कमा सकते थे और अपने बाल-बच्चोंको आरामसे रख सकते थे। लेकिन बाबाने कमरोंकी सेवाके लिए अपना जीवन दे दिया था। बाबाके दो लड़के चार लड़कियाँ हुईं लेकिन दोनों लड़के और एक लड़की ज्यादा दिन नहीं जी सके। बीमार पड़ते तो दवाई और पथका पाना मुसकिल होता। बाबाने कमरोंके लिए गरीबीकी जिन्दगी बिताई, जोंकें उनको फूटी आँखों नहीं देखना चाहती थीं। गरीबीके कारन बाबाके तीनों बच्चे मर गये लेकिन बाबाने सोचा, हजारों बरसोंसे जोंकें कमरोंके करोड़ों बच्चोंको मार चुकी हैं, उन्हीं बच्चोंमें मेरे भी तीनों बच्चे गये।

सन्तोखी—बाबा जैसी तपेस्सा कौन करेगा भैया ! दूसरे तपेस्सा करनेवाले तो जोंकोंकी जड़में पानी डालते हैं, जोंकोंको और मजबूत करते हैं।

दुखराम—बाबाने भी जोंकोंकी जड़में पानी डाला, लेकिन खूब खौलाकर गरम-गरम पानी।

भैया—बाबाके साथी एङ्गल बाबाने भी बड़ी तपेस्सा की। उन्होंने ब्याह नहीं किया। और कमा-कमाकर हर साल साढ़े तीन सौ गिनी मरकस बाबाको देते गए। जो एङ्गल बाबाने यह तपस्या न की होती तो बाबाके ऊपर और आफत आती। बड़े बाबाने एङ्गल बाबाको एक चिट्ठीमें लिखा था—तुम्हारे बिना मैं कभी अपने कामको पूरा न कर सका होता। सिर्फ मेरे लिए तुमने अपनी जबरजस्त बुद्धिको बेकार जाने दिया, और गलाघोट्टे व्यौपारी-जिनगी अपनायी।

सन्तोखी—क्या एङ्गल बाबा व्यौपारी थे भैया ?

भैया—हाँ, उनके बापका कारखाना था, उसीको एङ्गल बाबाने सँभाला कि वह कितना ऊत्र गये उनकी इस चिट्ठीसे यह मालूम हो जाता है—“मैं किसी चीजको उतना नहीं चाहता जितना कि इस व्यौपारीकी जिनगीसे भाग निकलनेको।” बाबाके जीवनमें ही (१८ मार्च १८७१में) पेरिसके कमरोंने वहाँसे जोंकोंका राज कुछ महीनोंके लिए उठा दिया। कमरोंकी तागत अभी उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए जोंकोंने फिर हजारों मजूरोंको कतल करके अपना राज जमा लिया। लेकिन पेरिसके कमरोंने जितना अच्छी तरहसे

अपना राज चलाया उससे यह पता लग गया कि कमेरे जोंकों को हटा सकते हैं और अच्छी तरह राज चला सकते हैं। पेरिसके कमेरोंने क्या गलती की थी इसे बाबाने लिख दिया था। फिर ४६ वर्ष बाद जब रूसके कमेरोंने जोंकोंका राज उलटा तो उस बखत बाबाकी वही सिच्छा बड़े काम आई। ४१ साल तक कमेरोंकी लड़ाई लड़ते लड़ते बाबाने आखिर ६५ सालकी उमरमें (१४ मार्च १८८३को) देह छोड़ा। लन्दनके हाईगेटके कवरिस्तानमें अब भी बाबाकी समाधि है। कौन होगा जो बाबाकी समाधि पर फूल चढ़ानेकी लालसा न रखता हो। बाबाके मरनेपर एङ्गल बाबाने लिखा था—“मानुख जातके पास जितने दिमाग हैं, उनमें सबसे बड़ा दिमाग आज खो गया। कमेरा दलकी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन वह दिमाग चल बसा जिसकी ओर फ्रांस, रूस, अमेरिका, और जर्मनीके कमेरे गाढ़ेके समय आँख दौड़ाते थे और वह दिमाग सदा बहुत साफ दो टूक सलाह देता था।’

दुखराम—धन्न है भैया ! मरकस बाबा और धन्न है सती जेनी माई।

भैया—सती जेनीकी तपेस्साकी बहुत-सी बातें हैं ? जिनको सुननेपर आँसू रोकना मुसकिल है। अब दुख्लू भाई, बाबाकी मोटी-मोटी सिच्छा सुनो।

दुखराम—हाँ भैया ! वह जरूर सुनाओ।

भैया—बाबाने पहली बात यह बतलाई कि रोटी, कपड़ा, घर आदमीको सदासे जरूरत रहे हैं, इनको पैदा करना मानुखका सबसे पहला काम रहा है। मानुख इनके पैदा करनेके लिए नये-नये हथियार, नये-नये ढग सोचता रहा है, जिससे रोटी-कपड़ा घरके पैदा करनेका ढग बदलता रहा है। वह पहले सिकार करके जीता था, फिर खेती करने लगा, खेतीसे फिर कारीगरीकी ओर बढ़ा, कारीगरीसे व्यौपार होने लगा, व्यौपारसे कारखानेके ढगपर चला आया। पैदा करनेका ढग जैसे-जैसे बदलता गया, वैसे-वैसे मानुखकी जमात भी बदलती रही और पहिली जमातबन्दी टूटती गई। सिकार और फल जमा करके जीविका करते समय माईका राज और सबका एक परिवार चल सकता था। लेकिन जब खेती आई, ताँबा आया। तब वह पुराना ढाँचा नहीं चल सकता था। रोटी-कपड़ा वगैरह पैदा करनेके ढगके बदलनेके साथही मानुख समाजके ढाँचेको

बदलनेसे रोका नहीं जा सकता । और जब ढाँचा बदलता है तो उसका कानून आचार-विचार सब बदलता है आदमीका मन तक बदल जाता है । बाबाने एक जगह लिखा है कि रोटी-कपड़ा इत्तादिके पैदा करनेका ढंग बदल गया । और जहाँ मानुख पुराने ढर्रेको छोड़ना नहीं चाहता, पुराने ही तरहका मालिक मिलिक्यतका ख्याल रखता है वहाँ तो दोनोंका संग्राम छिड़ जायगा ।

दुखराम—भैया ! थोड़ा समझाके कहो ।

भैया—देखो, जब कपड़ा चरखा और करघासे बनता था, घर-घरमें लोग चरखा लगाते थे और गाँवका जुलाहा कपड़ा बुन देता था; उसी तरह बढ़ई लोहार भी अपना-अपना काम करते थे । तब गाँव अपने कामकी करीब-करीब सभी चीजोंको पैदा कर लेता था, सबको चीज भी मिल जाती थी, सबको काम भी मिल जाता था । यह उस समयकी बात है जब रोटी-कपड़ाके पैदा करनेका ढंग खाली हाथसे किया जाता था । इसके बाद भापकी कल-मसीन बनी ! कल-मसीनने इतना सस्ता कपड़ा और चीज तैयार किया कि हाथकी कारीगरी चौपट हो गई ।

दुखराम—यह तो देखा भैया ! हमारे देसके सब जुलाहे करघा छोड़-छोड़के चटकल-पटकलमें भाग गए ।

भैया—तो अबका पौनी-परजा मालिक जजमान ओगैरहवाला गाँवका ढाँचा टूटने लगा कि नहीं ।

दुखराम—बहुत टूट गया भैया ! और टूटनेके लिए लोग हाय-हाय करते हैं, कलजुगका दोख देते हैं । लेकिन जान पड़ता है भैया ! यह किसीका दोख नहीं है । पत्थर, ताँबा, लोहा, कल, मसीन जैसे-जैसे नई चीज, नया ढंग आदमीके हाथमें आता गया वैसी ही मानुख जातिका ढाँचा भी बदलता गया, टिटिहिरीके पैर रोपनेसे असमान ऊपर नहीं टँगा रहेगा ।

भैया—इसी तरहका एक और भी संकट आया है । कल-मसीनसे अब भी बेसी पैदा किया जा सकता है । रूस और अमेरिकामें नई-नई खाद और मोटरका हल लगाकर बिगहा पीछे चालिस-चालिस पचास-पचास मन अनाज पैदा करते हैं और एक-एक खेतमें, समूचा देसमें । इसी तरह चीनी, कपड़ा, लालटेन

दुनियाकी सभी खाने-पहनने और रहनेकी सभी चीजें कल-कारखानोंमें इतनी पैदा की जा सकती हैं कि सारी धरतीके दो अरब लोग एक सालकी उपजसे दो-दो साल तक खूब आरामसे रहें लेकिन हो क्या रहा है ? दुनियामें गरीबी बढ़ रही है । लोग और ज्यादा नंगे-भूखे रह रहे हैं ।

दुखराम—इसका कारण तो जोकें ही न हैं भैया ?

भैया—हाँ, जोकें ही हैं दुख्खू भाई ! लेकिन उसको इस तरह समझो । अब एक-एक बढ़ई लोहार अपना-अपना हथौड़ा बसुला लेकर अलग-अलग काम तो नहीं कर सकता । कारखानोके कारण अब सभी काम साभेमें एक दूसरेसे मिलकर करना होता है । यह छोटी-सी सुई जो बनकर आती है, वह भी सैकड़ों हाथोंमें होते तैयार होती है । काम साभे—सबको मिलकर करना होता है लेकिन चीजोंका मालिक है जोक । जोक कहती है यह हमारी चीज है इसलिए हम १४)की चीज बनानेवाले मजूरको १) देंगे, किसानको उसके कपासका ॥) देंगे । और बाकीको वह अपने पास रखना चाहता है । लेकिन सूईवाली जोक नफेमें सूई अपने पास नहीं रखना चाहती । वह चाहती है कि उसका सब माल बिक जाय लेकिन बिकनेके लिए पैसा चाहिए । किसानको उसने ॥) दिया मजूर को १) दिया कमेरोके हाथमें कुल मिलाकर रुपया ही दो रुपया गया है । अब बत्ताओ १४)की चीज कैसे खरीदे ।

दुखराम—तो भैया ! यही न हुआ कि जोकें हमारे पास पैसा भी नहीं आने देतीं और बेसी माल पैदा करके खरीदनेको कहती हैं ।

भैया—हाँ, इसीलिए तो जोकोंका दिवाला निकलता रहता है । जब माल बेसी हो जाता है और खरीदनेवालोंके पास पैसा नहीं रहता तब भारी सस्ती लग जाती है । याद है न तेरह-चौदह बरस पहिलेकी बात ?

दुखराम—मत कहो भैया ! उस वक्त तो अनाज इतना सस्ता लग गया था कि बेचकर जमींदारकी मालगुजारी भी बेजाक नहीं कर सकते थे । कितनोंकी जमीन नीलाम हो गई । बड़ी साँसत हुई ।

भैया—एक ओर लोग सस्ती होनेपर भी पैसा बिना कपड़ा नहीं खरीद सकते थे और दूसरी तरफ कपड़ा गोदामोंमें सड़ रहे थे । जब पहिले हीका कपड़ा

गँजा हुआ है तो नया कपड़ा क्यों बनवाया जायगा ? जोंकोंने उस मंदिके दिनोंमें करोड़ मजदूरोंको कामसे निकाल दिया । काम बन्द हो गये ।

सन्तोखी—तब तो भैया ! इन करोड़ों मजूरोंके पास भी पैसा नहीं कि मालको खरीदे, इससे तो माल गोदाम हीमें सड़ेगा न, कौन उसे खरीदेगा ?

भैया—इसीको कहते हैं कबीर साहबकी उलटवाँसी 'पानीमें भी मीन पियासी ।' एक ओर उसी अमरीकामें बेरोजगार होनेसे करोड़ों मजूर भूखे मर रहे थे दूसरी ओर अमरीकाकी जोंकोंकी सरकारने १९३३में पचास लाख सूअर खरीदकर मारकर फेकवा दिया—भूखोंको खानेको नहीं दिया ।

दुखराम—आततायी ! जोंकोंको क्या दया माया होगी !

भैया—डेनमार्क देसमें हर हफ्ता १५०० गाएँ मारकर उनका मास जमीनमें गाड़ दिया जाता था । अर्जन्तीन देसमें लाखों भेड़ोंको मारकर नस्ट कर दिया । अमेरिकामें लाखों मन गेहूँको आगमें भ्त्तक दिया, जहाजों भरी नारंगियाँ समुन्दरमें फेक दी गईं ।

सन्तोखी—भैया ! क्या दुनिया बौरा गई !

भैया—दुनियाकी बात मत कहो सन्तोखी भाई ! दुनिया तो भूखी मर रही है । यह जोंकोंका कसाईपन है, वह सोचते थे कि २ रुपया मन गेहूँ है जो ५० लाख मन गेहूँ और बाजारमें चला गया तो वह और सस्ता हो जायगा, फिर नफा कहाँसे मिलेगा इसलिए पचास लाख मन गेहूँ या पचास लाख सूअरोंको बरबाद कर दिया जिसमें कि वह बाजारमें बाकी जो चीजे भेजेंगे उसका दाम ज्यादा मिलेगा ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! बाजारमें माल कम और ग़्रहक ज्यादा हो तो दाम चढ़ जाता है ।

भैया—यही दाम चढ़ानेके लिए जोंकोंने आदमीके मुँहका आहार, तनका कपड़ा सब चीज बरबाद किया ।

दुखराम—और नये गाहक ढूँढनेके लिए जर्मन जोंकोंने तीस साल पहले-वाली लड़ाई छेड़ी ।

भैया—और आजकलकी लड़ाई भी जोंकोंने उसी मतलबसे छेड़ी है दुखराम

भाई ! बाबाने कहा कि जैसे सब दुनिया भरकी चीजे मिलकर पैदा करते हैं । उसी तरह सबको मिलकर उन चीजोंका मालिक बनना चाहिए तभी दुनियामें सुख-सान्ती होगी ।

दुखराम—मिलकर मालिक बनना कैसे होगा भैया ?

भैया—जैसे दुखू भाई ! तुम्हारे घरमें पचास परानी हैं कोई खेती देखता है, कोई गाय-भैंस देखता है, कोई रसोई बनाता है, मतलब कि परिवारका हर आदमी रोटी-कपड़ा आदिके लिए कोई न कोई काम करता है । घरमें तो कायदा है न कि सब लोगोंके खाना-कपड़ा इत्तादिका काम किया जाय । अब तुम ऐसा कायदा चलाओ कि—नहीं, हम तो सबके कामकी मजूरी देंगे और दो रुपयाके कामकी चार आनासे बेसी नही । अब इसका फल क्या होगा ? जितना काम लोगोंने किया है उसका आठवाँ ही हिस्सा मजूरीमें उनके पास है, वह सब चीजको खरीद नहीं सकते हैं । अब वही जोंकोंवाली बलाय आएगी कि नहीं ?

दुखराम—हाँ भैया ! आठ भागमें सात भागको खरीदनेके लिए किसीके पास पैसा ही नहीं है तब वह चीज सड़ेगी कि नहीं । लेकिन ऐसा परिवार कहाँ होगा ?

भैया—हाँ, यह जोंकें ही कर सकती हैं, मरकस बाबा कहते हैं कि यह नफा-की बात उठा देनी चाहिए और लोग एक परिवारकी तरह साथ ही चीज पैदा करें और साथ ही भोगे ।

दुखराम—तब जोंकें कहाँ रहेंगी भैया !

भैया—इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि जोंकोंका काम खतम हो गया, उन्होंने राजाओंकी ताकतको नष्ट करके कल-कारखानोंका गस्ता दिखला दिया । अब उनका एक दिन भी जीना करोड़ों आदमीको भूखों मारने और लड़ाइयोंमें कतल होनेके लिए होगा ।

दुखराम—यह बात बहुत पक्की है भैया !

भैया—दूसरी बात बाबाने बताई कि मानुख जातिमें जबसे जोंकें पैदा हुईं तभीसे जोंकों और कमेरोंका भगड़ा सुरू हुआ और यह तब-तक बन्द नहीं

होगा जव-तक कि जोंके खतम न हो जाएँगी । जोंके अहिंसा और दयाका ढोंग भले ही करे, लेकिन वह अहिंसा दयाका कभी विस्वास नहीं करती । सौमें पंचानवे कमेरे (मजूर) हैं और पाँच जोंके हैं । उन्होंने पंचानवे आदमियों-को पुलिस-पलटन-जेलके बल पर दबाकर रक्खा है । एँड़ीसे चोटी तक जोंके हथियारसे लैस हैं, उनका सारा राज-पाट हिंसा, खून, लूट, भूठ और धोखापर है । वे किसी साधू-महात्माकी वचनमें आकर गलेमें कण्ठी बाँध लेंगी यह सोचना पागलपन है । जोंकोंको और बड़े हथियारसे और बड़े संगठनसे और बड़े त्यागके कल-बलसे पछाड़ना होगा, उनका हथियार छीनना होगा और पूरी तरह मीस-मास देना होगा ।

दुखराम—देखता हूँ भैया ! मरकस बाबाने जो भी कहा है वह एक-एक बात मेरे दिलमें घुसती चली जा रही है । बाबाने धोखेवाली बात नहीं कही है । मुनते हैं महात्मा गांधी तालुकदारों-जमींदारों, सेठो-साहूकारोंको कंठी पहिनाना चाहते हैं और कितने लोग तो कहते फिरते हैं कि गांधी महात्माने सेर-बकरीको एक जगह पानी पिला दिया । लेकिन मुझे यह बात तो धोखेकी मालूम होती है । बच्चा जव नहीं सोता है, तो माँ लोरी गाती है, जिससे वह सो जाय । मुझे तो यह लोरी ही जैसी बात मालूम होती है ।

भैया—गांधी महात्माके रास्तेके बारेमें मैं फिर कहूँगा दुक्खु भाई ! और गांधी बाबाने कोई नई बात नही कही है । महात्मा-बुद्ध, ईसामसीह और भी सैकड़ों महापुरुष कण्ठी बाँधकर सेरको भेड़ बनानेकी कोसिस करते रहे लेकिन कोई सफल नही हुआ । जोंकोंको कहीं कंठ भी है कि उसमें कण्ठी बाँधी जायगी, थोड़ा घाससे यारी करेगा तो जिन्दा रहेगा । जोंकोंको खतम कर देना बस यही एक रास्ता है ।

अध्याय ५

वह देस जहाँ जोंके नहीं हैं

दुखराम—सन्तोखी भाई ! देख रहे हो न कैसी-कैसी बात सुननेमें आ रही है । हम लोग समझे थे कि धनी-गरीब भगवानने बनाया है अब मालूम हो रहा है कि यह सब जोंकोंका जाल है । इस जाल-फरेबसे जोंकोंको ही फायदा है । बढ़िया खाना खाते और बढ़िया कपड़ा पहनते हैं । और हम लोग जो टेला फोड़-फोड़कर मर जाते, भर पेट अब भी नहीं मिलता—

सन्तोखी—हम लोग छोटी-छोटी दुकान खोलकर जो दिन-रात चिन्तामें रहते हैं, यह भी तो जोंकोंकी ही ताबेदारी है । दिन-रात फिकरमें मरते हैं । सब नफा तो जोंकोंके पास चला जाता है । चारकी धोती चौदह रुपयापर जो दूकानदार बेचता है तो गिरस्त समझता है कि सब हम लूट रहे हैं । सब गाली हम लोग सुनते हैं और जिसके पास पौने चौदह रुपया चला जाता है उसको कोई नहीं पूछता ।

दुखराम—वह तो कलकत्ता बम्बईमें बैठे हुए हैं, उनसे कौन पूछने जायगा । लेकिन मजूर उनकी भी खबर ले रहे हैं । अब मोटी तौंद ज्यादा दिन नहीं चलेगी । अच्छा, भैया रजवली आ गये ।

भैया—दुखू भाई ! कमरोंकी जीतका रास्ता बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है, उसको समझना-समझाना और भी मुश्किल है । मैं जो कुछ कहता हूँ यदि सोलह आनामें आठ आना भी तुम्हारी समझमें आ जाय तो बड़ी बात है ।

दुखराम—आठ आना नहीं भैया, मैं तो पन्द्रह आना समझ रहा हूँ । बात तो सब याद नहीं रहेगी, लेकिन एक-एक चीज दिलमें बैठती जा रही है ।

भैया—याद होनेकी जरूरत नहीं है, बस दिलमें बैठना चाहिए । मरकस बाबाने बतला दिया था कि पूँजीपतिके राजमें हर दसवें साल भाव गिर जाना, मन्दी पड़ना, करोड़ों मजूरोंका बेकार होकर भूखों मरना, करोड़ों किसानोंका अनाजके सस्ता होनेसे उजड़ जाना, और सबके ऊपर संसार भरको लड़ाईमें

भोक देना यह बातें रोकी नहीं जा सकतीं इन सबसे बचनेका उपाय यही है कि जोंकोंकी सरकारको हटाकर कमेरोंकी सरकार बँटाई जाय, और देश भर एक परिवार बना दिया जाय। बाबाने जो रास्ता दिखलाया था, उसीसे चलकर पेरिसके कमेरोंने जोंकोंको उलट दिया। लेकिन पेरिसके मजूरोंने यह नहीं समझा कि किसानोंको भी वही दुख तकलीफ है। उन्हें भी हमें अपने साथ मिलाना है। किसान ज्यादा भोले-भाले होते हैं, गाँवमें एक कोनामें रहते हैं, दुनिया जहानका उन्हें पता नहीं रहता है, अलग-बिलग रहनेसे उनका एका करना भी मुश्किल होता है। उनको पचास तरहसे भड़काया जा सकता है। जोंकोंने इसी तरह भड़काया। मजूर बड़ी बहादुरीसे लड़े, लेकिन जोंकोंने सारे फ्रांस भरकी पल्टनको उनके ऊपर भोक दिया। उसी समय (१८७०-७१) जर्मन जोंकोंने फ्रासीसी जोंकोंकी सरकारको हरा दिया। लाग्यो सिपाहियोंको कैद कर लिया लेकिन जैसे ही मालूम हुआ, पेरिसमें मजूरोंने अपना राज कायम कर दिया तो वह ध्वरा गई, जर्मन जोंकोंने फ्रांसके सभी कैदी सिपाहियोंको छोड़ दिया जिसमें कि वह पेरिसमें जाकर मजूरोंके राजको बरबाद कर दे।

दुखराम—एक दूसरेके खूनकी प्यासी जोंके आपसमें मिल गईं जैसे ही उन्हें कमेरोका डर मालूम होने लगा।

भैया—तीस साल बाद जो महाभारत जर्मनोंने छोड़ा था पता है न, वह जर्मन जोंकोंके फायदाके ही लिए। इस वक्त तक मरकस बाबाके एक परतापी चेला लेनिन पैदा हो गए थे।

दुखराम—लेनिन कौन थे भैया—कहाँके थे ?

भैया—लेनिनका जनम रूसमें हुआ था, मजूरों-किसानोंको उन्होंने मरकस बाबाका रस्ता बतलाया, मजूरोंके ऊपर होनेवाले जुलुमके लिए वह जोंकोंसे लड़ते रहे। जोंकोंकी सरकार और पुलिसने उनके बड़े भाईको फाँसी चढ़ा और उनको भी काला पानी भेज दिया। लेनिन जहाँ भी रहते, वहाँसे कमेरोंको रास्ता बतलाते रहते। जेहलखाना और काला पानीमें रखकर भी जोंक उन्हें रोक नहीं सकती थी। ३६ वर्ष पहिले (१९०५) लेनिन अगुआ बने और कमेरोंने जोंकोंके खिलाफ तलवार उठाई। उस वक्त इनकी ताकत उतनी मज-

बूत नहीं थी इसलिए जॉक सरकारने दवा दिया। हजारोंको गोलीसे उड़ा दिया गया, उनसे भी ज्यादा जेलोंमें ठूँस दिए गये। जॉके 'जीत गईं', कमेरे हार गए। लेकिन जॉकोंका एकवारका हारमा सदाके लिए उनका खतम हो जाना है, कमेरेका एकवार हारने से कुछ नहीं होता, वह तो धूल भाड़कर फिर-फिर लड़ते रहेंगे। कमेरे लड़ते हैं रोटी-कपड़ेके लिए, रोटी-कपड़ेका जब दुख मिटेगा तभी न वह लड़ाई करना छोड़ेंगे ?

दुखराम—अंगरेजोंके राजमें रोटी-कपड़ा सबको कहाँसे मिल सकता है।

भैया—लेनिन महात्माको रूसकी जॉकें जो पकड़ पार्टी तो फाँसी चढ़ा देती, इसलिए वह रूससे बाहर चले गए थे, लेकिन उनके बहुतसे साथी देशके भीतर रहकर कमेरोमें काम करते थे। लेनिन उनको रास्ता बतलानेके लिए किताबें लिखते थे और लोग जोखिम उठाकर उन किताबोंको रूसके भीतर ले जाते थे।

दुखराम—जोखिम क्या भैया !

भैया—पकड़े जाते तो फाँसी-डामलकी ही सजा होती।

दुखराम—किताब कौन इतने खतरेकी चीज थी, भैया ?

भैया—सरकस बाधा और उनके चेला लोगोंकी किताबोंको जॉके तोप बन्दूकसे भी ज्यादा डरती थीं। वह समझती है गोला, गंठा तो गरीबोंके लड़कोंके ही पास रहता है। जॉकोंके लड़के थोड़े ही पन्द्रह रुपयेके सिपाही बनते हैं ? इसीलिए जॉके समझती हैं कि जिस दिन गरीबों और उनके लड़कोंको जॉकोंके पापका पता लग गया उस दिन फिर खैरियत नहीं। जब लेनिन महात्मा रूससे बाहर कभी लंडन, कभी फ्रांस, कभी स्वीजरलैण्ड इत्यादि देशोंमें मारे-मारे फिर रहे थे उनके साथ उनकी स्त्री (कुरपसकाया) क्रुप्सकाया भी दुख भेल रही थी, उसी वक्त १९१४में जर्मन जॉकोंने अपना माल बेचनेका कहीं रास्ता न देखकर दूसरी मोटी-मोटी जॉकोंपर धावा बोल दिया। इंग्लैण्ड फ्रांस और रूस और पीछे अमेरिका एक ओर हुए, जर्मनी-आस्ट्रिया एक ओर हुए। जर्मन जॉकें कमजोर रहीं, और उनके दुसमन जीत गए। लेकिन जॉकोंके हारनेसे-जीतनेकी बात नहीं समझाना है। समझाना यह है कि

कैसे रूसमें लेनिन महात्मा और उनके कमेरे साथियोंने जोंकोंका टाट उलट दिया ।

दुखराम—हाँ भैया ! यह हमारे बहुत कामकी बात है ।

भैया—रूसकी जोंके जर्मन जोंकोसे भिड़ रही थीं । नफा नुकसान तो जोंकोंका था, लेकिन लड़नेवाली जोंके थोड़े ही होती हैं । जैसे भड़भूजा भाड़में पत्ती भोकता है, उसी तरह रूसी जोंके अपने देसके कमेरों और उनके लड़कोंको जर्मन-तोपोंके मुँहमें भोकने लगी । लेकिन जर्मन ज्यादा मजबूत थे । वह रूसियोंको हराने लगे । रूसी जोंके घबराने लगी, उन्होंने और कमेरोंको और उनके बच्चोंको लड़ाईमें भेजा । कितनोंको तो बन्दूक भी नहीं दिया ।

सन्तोखी—बन्दूक बिना लड़ते कैसे भैया ।

भैया—जोंकोने कहा कि वहीं जाके, जो सिपाही मरें उनकी बन्दूके ले लो । जोंकोंके अपने लड़के नहीं न थे गरीबोंके लड़कोंको भाड़में भोकनेसे क्यों हिचकिचाते ! गरीबोंके बच्चे समझने लगे कि जोके उनके साथ चाल चल रही हैं । उधर लेनिन महात्मा भी किसानो, मजूरो और उनके लड़के सिपाहियोंकी आँख खोलने लगे । जोंको-जोंकोंकी लड़ाईमें नाहक गरीबोंका बध कराया जा रहा है । लेनिन महात्माने कहा कि जवानों ! तुम्हारे दुसमन बाहर नहीं तुम्हारे घरकी जोके है । बन्दूकें खूब हाथमें आ गईं, बन्दूकोंका मोहरा फेर दो और घरकी जोकोको खतम कर दो ।

दुखराम—मरकस बाबाके चेला लेनिन महात्मा भी कम नहीं थे ।

भैया—लेनिन महात्मा मरकस बाबाके बड़े लायक चेला थे दुकखू भाई ! हाँ, तो मजूर-किसान उठ खड़े हुए, उन्हींके लड़के सिपाही थे. सबको वह तेईस बरससे समझा रहे थे । अब (नवम्बर सन् १९१७) उनको बात समझमें आ गई । उस वखत पेत्रोग्रात सहर रूसकी राजधानी रही । जिसका नाम पीछेसे लेनिनग्राद हो गया । लेनिन महात्माने पेत्रोग्रातमें कमेरोंकी सरकार कायम की । पेत्रोग्रातमें लाखों मजूर कारखानोंमें काम करते थे । वह लेनिन महात्माको खूब जानते थे और परानसे भी अधिक प्यार करते थे । जब मजूर बन्दूक लेकर अपना लाल भंडा गाड़ रहे थे तो जोंकोंने पलटन-पर-पलटन उनके खिलाफ

भेजी । लेकिन सिपाही अपने भाई-बहनोंको पहचानते थे वह जोंकोंकी बातमें नहीं आये । वह अपनी बन्दूक लिये दिये कमेरोंके साथ मिल गये । पलटनके अफसर जोंकोंके लड़के थे । लेकिन हजार सिपाहीमें दस अफसर क्या करते ? अफसर सिपाही बन गये और उन्होंने कमेरोंकी पलटनपर गोली चलाई लेकिन गोली जल्दी खतम हो गई और वह भी ठंडे हो गये । फिर जोकोंने लड़ाईके मैदानसे पलटनें मँगवाईं, और उन्हें कमेरोंके साथ लड़नेके लिए भेजा ? पचास-पचास हजार पलटन कृच करती चली आतीं लेकिन जहाँ पेत्रोग्रात राजधानीकी सीमामें पहुँचती कि जेटकी दुपहरियामें मक्खनकी तरह पिघलकर लोप हो जातीं ।

सन्तोखी—लोप कैसे हो जाती भैया ।

भैया—लोप हो जानेका मतलब है कि सब सिपाही कमेरोंकी पलटनमें मिल गये । अफसरोंमें जिन्होंने तीन-पाँच क्रिया वह वहीं मार दिये गये बाकी भाग निकले । कमेरोंके राज सँभालनेकी खबर जहाँ-जहाँ पहुँची, वहाँ-वहाँ जोंकों और कमेरोंका दो-दल हो गया और सब जगह जोकोंको निकाल बाहर किया । कमेरोंकी सरकारने तुरन्त कानून बना दिया कि जितने तालुकदार-जमीदार, राजा-नवाब हैं, उनकी सारी जमीदारी आजसे सारे रूसके कमेरोंकी हुई । जितने कल-कारखाने हैं, आजसे जोक उनके कुछ नहीं हैं, अब सारे कमेरे उनके मालिक हैं; जितने रेल, जहाज औरगैरह कंपनियों हैं, वह सब अब कमेरोंकी है; जितनी कोयलेकी खानें, तेलकी खानें, हर तरहकी खानें हैं, वह सब कमेरोंकी हैं, जितने बँक और उनके पास करोड़ों, अरबोंका खजाना है, वह कमेरोंका है; जोंकोंके जितने महल-कोठा, आटारी, बाग, बँगले हैं वह सब कमेरोंके हैं ।

दुखराम—तो मरकस बाबाने जो बात बतलाई थी उसे लेनिन महात्माने पूरा कर दिया ।

भैया—हाँ, पूरा कर दिया । पेत्रोग्रात राजधानीमें आधेके करीब गरीब लोगोंके रहनेका कोई ठौर-ठिकाना नहीं था । लोग सड़ी गन्दी गलियोंमें रहते थे, लाखों मजूर तो फटे टीन और कनस्तरकी छतों-दिवारोंवाली सूअरकी खोभार

जैसी छोटी-छोटी भोपड़ियोंमें रहते थे । पाँच हाथ लम्बी, चार हाथ चौड़ी भोपड़ियोंमें दस-दस आदमियोंका परिवार रहता था । रूसका जाड़ा बहुत कडा तिसमें पेत्रोग्रातका तो और ज्यादा । सरदीके मारे वहाँ नदी, समुन्द्र सब जमकर बरफ हो जाते हैं ।

सन्तोखी—पत्थर जैसी बरफ ?

भैया—सन्तोखी भाई ! यदि तुम जाड़ामें वहाँ पहुँच जाओ तो सॉस लेनेसे जो भाप नाकसे बाहर निकलेगी वह पहले पानी बनकर तुम्हारी बड़ी-बड़ी मूँछोंमें समा जायगी और लून भर हीमें मालूम होगा कि तुम्हारी मूँछे सीमेके भीतर जमी हुई हैं । इतनी सरदीपर भी मजुरोंको उन्ही टीनोंकी खोमारोंमें रहना पड़ता, उनके पास आग जलानेके लिए कोयला भी नहीं रहता ।

दुखराम—जोंकोंका कदम जहाँ गया वहाँ नरक छोड़ और क्या होगा ?

भैया—कमेरोंकी सरकारने तुरन्त हुकुम निकाला और जोंकोंके बड़े-बड़े महलों और कोठोंको कमेरोंके लिए खोल दिया । उन्होंने जोंकोंसे कह दिया कि जो कमेरोंकी सरकारके खिलाफ हैं, उनके ही ऊपर हम हाथ उठावेंगे । जो जोंकका धरम छोड़कर आदमी बननेके लिए तैयार हैं, उनको हम भाई मानेंगे और काम देगे । जोंकोंमें जो मानुख बन गये उनको, उन्हीके घरोंकी एक कोठरी दे दी और बाकी मकानमें सूअरकी खोमारमे निकालकर कमेरोंको ला बसाया । कमेरोंका राज कायम होते ही रानियो, तालुकदारनियो और मेठानियोकी लौड़ियों काम छोड़कर अलग हो गईं ।

सन्तोखी—जब जमीन, मकान, बंकका रुपया और कल-कारखाना सभी छीन लिया गया तो लौड़ियोंको कैसे रखतीं ?

भैया—नौकर-चाकर भी जोंकोंको छोड़कर हट गये ।

दुखराम—अब रानी भरती होंगी पानी !

भैया—बिना देह हिलाये हरामका पैसा थोड़े ही मिल सकता था ? कमेरोंकी सरकारने सबको काम देनेका इन्तजाम किया । जब इङ्गलैण्ड, फ्रान्स अमेरिका, जापान और दूसरे देसोंकी जोंकोंको पता लगा तो उनकी नींद हराम हो गई, रूस छोटा-मोटा देस नहीं है दुनियाके छ भागमें एक भाग रूसका

है । उसके पूरबी किनारेसे पच्छिमी किनारे तक डाकगाड़ीसे जायँ तो १५ दिन १५ रात लगती है ।

दुखराम—बम्बईमें प्रयाग तो भैया ! एक दिन एक रात हीमें चले आते, रूस बहुत भारी देस होगा ।

भैया—हाँ, हिन्दुस्तान ऐसे सात देसोंकी धरती इकट्ठा जोड़ी जाय तो रूसके बराबर होगी । इसीलिए बाहरी देसोंकी जोंके बहुत घबराईं लेकिन साल भर तक वह बहुत नहीं कर सकीं । जब जर्मनी हार गया तो जीतनेवाली सारी जोंके इतनी घबराईं जितना कंस भी कन्हैयाके पैदा होनेसे नहीं घबराया होगा । उन्होने अपनी फौज; गोला-बारूद सब लेकर बोलसेविकोंके ऊपर धावा बोल दिया ।

दुखराम—बोलसेविक कौन भैया ?

भैया—रूसमें मरकस बाबाके सेवकको बोलसेविक कहा जाता है ।

दुखराम—तो बोलसेविक भी कमनिस्तोंकी तरह हम कमरोंके आदमी हैं ।

भैया—बोलसेविक कमनिस्त एक ही हैं । चर्चिल उस वक्त विलायतका युद्ध मंत्री था, वह तो बोलसेविकोंको कच्चा खा जाना चाहता था ।

दुखराम—यही चर्चिल न भैया ! जो आजकल विलायतका महा मंत्री है ।

भैया—हाँ, यही जो चाहता है कि परलय तक हिन्दुस्तानकी छातीपर कोदो दरें । इसने भी अपनी पलटन और गोला-बारूद रूसमें उतारी । फ्रान्सने भी अपनी पलटन भेजी । अमेरिकाने भी । जापानने भी । चौदह बादसाहोंने अपनी-अपनी पलटन कमरोकी सरकारको बरबाद कर डालनेके लिए रूस भेजा. क्यों भेजा, क्या रूसके कमरे, किसीकी एक अंगुल भी जमीन लेना चाहते थे ?

दुखराम—दुनिया भरकी जोंकोंने समझा कि जो धरती के छ भागमेंसे एक भागकी जोंकोंको खतमकर कमरोने अपना राज कायम कर लिया, तो बाकी पाँच भागके कमरोका भी मन बिगड़ जायगा, फिर बकरीकी माँ कै दिन खैर मनायेगी ?

भैया—बड़े संकटकी बेला थी । दुनिया भरकी जोंके गला फाड़-फाड़कर

चिल्ला रही थीं अखबारोंमें छाप रही थी कि वे अधरमी है, वे बच्चोको मार डालते हैं और वूठोंको भी नहीं छोड़ते । उन्होंने सभी औरतोंको बेसवा बना दिया । मसजिदों-मदिरोको तोड़ दिया हराम हलालकी बात उठा दी इत्तादि हजारो भूठ फैलाये जाने लगे ।

दुखराम—हिन्दुस्तानमें भी भैया यही बात करेगे, जोके समझती हैं कि कमेरे मूरख अनपढ होते हैं, उनके सामने भूँठ-साँच कहकर मरकस वावाके रास्तेके खिलाफ कर देगे । भैया ! हम लोगोंको बहुत सजग रहना होगा तुम भगवानकी बातको दबा देते रहे, अब उसका फायदा मुझे मालूम हो रहा है । भगवान और धरमसे हमें पहिले नहीं भगड़ना है पहिले हमें जोंकोसे निपट लेना है । कमेरे भाई बहुत दिनोंसे जालमें फँसे हैं, हम लोग धरम और भगवानके खिलाफ बोलनेमें ही ताकत लगा देगे तो जोंके उन्हें बहकाने लगेंगी ।

भैया—हाँ दुक्खू भाई ! सबकी जड़ यही जोंके है, जड़ काटना अच्छा है कि पत्ता नोचना अच्छा है ?

दुखराम—जड़ काटना अच्छा है भैया !

भैया—लेकिन जोंके सभी कमेरोंकी आँखमें धूल नहीं भोंक सकतीं, विलायतके मजूरोंको जब मालूम हुआ कि हमारे देसकी जोंके रूसके कमेरा राज्यको सत्यानास करनेके लिए तोप-बन्दूक, गोला-बारूद भेज रही हैं, तो उन्होंने जहाजपर माल लादनेसे इनकार कर दिया । खलासियों-मल्लाहोंने जहाज छोड़ दिया । फ्रांसकी पलटनें लड़नेके लिए रूस पहुँचीं और सभी कमेरोंने जान जोखिममें डालकर फ्रासीसी सिपाहियोंके पास पहुँच सब बात कही तो पलटनें बिगड़ चलीं । अँगरेजी पलटनोंमें भी यही बात दिखाई देने लगी रूसी कमेरे अब जोंकोंके लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे थे, इसलिए जानपर खेलना उनके लिए खेल था । बाहरकी जोंक सरकारोंने समझ लिया कि अपनी पलटनको जो वहाँ लड़नेके लिए भेजा, तो बोलसेविकोंकी बीमारी हमारे देसमें चली आयेगी । उन्होंने अपनी पलटनें लौटा लीं । लेकिन हाथपर हाथ धरकर बैठते कैसे ? रूसी जोंकोंके कितने ही जरनैल और बच्चे कमेरोंके राजसे जहाँ-तहाँ लड़ रहे थे । बड़े-बड़े महंत भी तो जोंक ही हैं न ? उन्होंने धरमके नाम-

पर कितने ही किसानोंको बहकाया । विलायत और दूसरे मुल्कोंकी जोंक सरकारोने सोचा कि रूसी जोंक जरनैलो और उनके आदमियोंको ही सिखण्डी बनाकर टट्टीकी आड़में सिकार करें । चर्चिल साहब और दूसरे भी देसोके जोंकराजोके मंत्रियोने जोंक जरनैलोको रुपए-पैसे, गोला-बारूद, हवाई जहाज आदिसे खूब मदद किया । जोंके आग्विर रूसमें रह न सकी: लेकिन चलते-चलते भी उन्होंने रूसको भयानक नरक बना दिया । सहर और गाँव तवाह कर दिया । जोंक जरनैलोने औरतो और बूढ़ोंपर दिल ग्योल कर हाथ साफ किया ।

दुखराम—वह तालुकादारी, राजा-नवाबो, सेठ-साहूकारोके लडके थे न ? वह सोच रहे होंगे कि अब हमारे महल और अप्सरायें फिर कहाँ मिलेगी ?

भैया—हाँ, और यह बात सभी जगह दुहराई जायगी । जोंके जल्दी हार नहीं मानेंगी । जोंक जरनैलोने खेती बरबाद कर दी, अनाज जला दिया । बाहरके किसी मुलुकसे कमरोकी सरकार कोई चीज न मँगा ले इसके लिए विलायत और दूसरे मुल्कोंके जहाज पहरा देते थे और जहाँ कोई जहाज कमरोके लिए आता या जाता दिखाई दिया उसे डुबा देते । जितने लड़ाईमें नही मरे थे, उससे कई गुना ज्यादा आदमी-बच्चे-औरते भूखके मारे मर गई । एक करोड़से ज्यादा आदमी मरे थे ।

दुखराम—जब बिना लड़ाईके बगालमें साठ लाख आदमी बलि चढ़ गये तो वहाँके बारेमें क्या पूछना है ?

भैया—पाँच बरस तक (१९१७-२२) रूसके कमरोने अपने यहाँकी जोंकों और बाहरवाली जोंकोके साथ लोहा लिया । लाखोने हँस-हँस कर जान दी, अन्त में जयमाला कमरोके गलेमें पड़ी । लाल भंडा अचल होकर गया और लाल पलटनके नामसे जोंके घबड़ाने लगीं ।

दुखराम—लाल भंडा और लाल पलटन क्या है भैया ?

भैया—लाल भंडा तुमने देखा नही है दुखखू भाई ! कलकत्ताके मजूर भी जब कोई अपना जलसा या सभा करते होंगे तो लाल भंडा ही लेकर चलते होंगे !

दुखराम—देखा तो था भैया, लेकिन मैंने समझा था महावीरी भंडा है ।

भैया—तुम्हारी चटकलके मुसलमान मजूर उस भंडेके साथ-साथ थे कि नहीं ?”

दुखराम—थे भैया ! जुम्मन काका सुकरू भैया बहुतसे थे । और अब मुझे समझमें आता है उस भंडेपर महावीरजी की मूरत नहीं थी ।

भैया—कमेरोका भंडा लाल चौकोर होता है । उस पर हंसिया और हथौडाका चीन्ह बना रहता है । हंसिया है किसानोका हथियार और हथौडा है मजदूरोका । भंडेका लाल रंग कमेरोका खून है ।

दुखराम—अब मालूम हुआ लाल भंडेका मतलब । हमें भी अपने भंडेको खूनसे लाल करना होगा । भैया यह लाल रंग कमेरोका अपना लाल रंग तो नहीं है ।

भैया—हाँ, अपना रंग है, इसी वास्ते रूसके कमेरोकी पलटनका नाम है लाल पलटन ।

दुखराम—उस दिन भैया ! तुमने अग्वचारमें पढ़कर सुनाया कि लाल पलटनके सामनेसे भागते-भागते जर्मन जाँकोकी फौजे अपने घरमें घुस गईं ।

भैया—हाँ, और लाल फौज उनके घरमें घुसकर जाँकों और उनकी सेनाका संहार कर रही है । रूसमें १८२ कौमें बसती हैं ।

दुखराम—तो वहाँ एक खोम नहीं है ?

भैया—एक खोम नहीं है, लेकिन कमेरोका राज्य है न इसलिए सभी १८२ खोमें रहती हैं । बाहरकी जाँकोने बाकी खोमोंको बहलानेमें कोई कोसिम नहीं बाकी रखी । किसीको मुसलमान कहके बहकाया, किसीको किरिस्तान कहकर, किसीको यहूदी कहकर, किसीको बौद्ध कहकर अलग करना चाहा, लेकिन कमेरे-कमेरे सब एक हो गये । लेनिन महात्माकी पारटीने लड़ाईसे पहिले ही बात पक्की कर दी थी कि रूसमें १८२ खोमें हैं, १८२ भासा है, चार-चार धरम हैं, काले लोग भी हैं गोरे लोग भी हैं । लेकिन कोई छोटा-बड़ा नहीं है सब बराबर है । जमीन-मकान, कल-कारखाना, रेल-खान सब १८२ खोमोंके हैं । जो किसी खोमको दबाया जाय, तो वह जब चाहे तब अपना देस अलग कर सकती है ।

दुखराम—दिल साफ था भैया ! छल-कपटकी कोई बात नहीं थी ।

भैया—इसीलिए दुक्खू भाई १८२ कौममेंसे किसीने अलग होनेका नाम नहीं । बल्कि पाँच खोम बाहरसे आकर फिर मिल गईं ।

दुखराम—बड़ा भारी परिवार है भैया !

भैया—चीस करोड़का परिवार है, और सब एक दूसरेके वास्ते प्रान देते हैं । लड़ाई-भगड़ा करना खून चूसनेवाली जोंकोंका काम है । कमेरोंको तो खूब मेहनत करके अधिक अन्न उपजाना है, अधिक कपड़ा पैदा करना है, अच्छा घर बनवाना है, सबके पढ़ने-लिखनेका, दवाई-दरपनका इंतजाम करना है ।

दुखराम—जिसमें सब सुखी रहें, कहीं नरकका निशान न रह जाय । दुनिया भरकी जोंकोंके मुंह पर कालिख पुत गया न भैया ।

भैया—कालिख तो पुत गया, लेकिन उनका दिल भी थरथर काँपने लगा । वे सँभलने लगीं कि जब तक रूसमें कमेरोंका राज रहेगा तब तक हमारी जान हर वक्त खतरेमें है । लेनिन महात्मा पर उन्होंने गोली चलवाई, घाव तो भारी था लेकिन उस वक्त वह बच गए, तो भी वह दिनपर दिन कमजोर होते गए । और कमेरोंके राजके कायम होनेसे सात बरस बाद (जानवरी १९२४) मर गये ।

दुखराम—हत्यारे पापी !

भैया—लेकिन दुक्खू भाई ! मरकस बाबाका रास्ता इतना कच्चा नहीं है कि एक नेताके मार देनेसे वह खतम हो जाएगा । लेनिन महात्माने रूसके कमेरोंको सिच्छा दी थी कि एक-एक कमेरा पुरुष या नारीको राज चलानेका ढग सीखना होगा । कमेरे लेनिन महात्माकी एक-एक बात पर जान देनेके लिए तैयार थे । रूसकी जोंकोंसे तो अब कोई आसा नहीं रह गई थी, इसलिए बाहरी देशोंकी जोंकोंने दूसरा रास्ता लेना चाहा । रूसके कमेरोंकी बातको सुनकर हंगरी देसमें भी कमेरोंका राज कायम हुआ । लेकिन इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिकाकी जोंकोंने उसे दबा दिया । इटलीमें भी जब कमेरोंने जोर लगाया, तो राजा-तालुकदार, सेठ-महाजन काँपने लगे । उन्होंने एक गुण्डेकी पीठ ठोक दी जिसका नाम मुसोलिनी था और राजकी लगाम उसके हाथमें दे दी, मुसोलिनी-

ने कमेरोका पच्छ लेनेवाले एक-एक कम्निस्तको चुन-चुनकर मारा । बिलायती जोंके खूब खुश हुईं । उनके बड़े-बड़े मंत्री तक मुसोलनीको बधाई देने इटली गये । मुसोलनीने लाखों कमेरो और कम्निस्तोंके खूनकी होली खेली, लेकिन दुनियाकी जोंकोंने मुसोलिनीको महापुरुष और क्या कह-कह कर तारीफ की । जर्मनीके भी कमेरे जोंकोंके पीछे पड़े । इसको देख कर भीतर और बाहरकी जोंके खूब घबराईं । वह चारों ओर आँख फाड़-फाड़कर सहारा ढूँढने लगी । जब जर्मनीमें भी मुसोलिनीकी तरहका एक दूसरा गुंडा हिटलर पैदा हो गया, तो जोंकोंका दिल ठंडा हुआ । बिलायतकी जोंकोंने हिटलरकी हिम्मतको खूब बढ़ाया । हिटलर कहता था कि दुनिया भरके सबसे बड़े दुसमन यही सोलमेविक हैं ।

दुखराम—दुनिया भरके दुसमन नहीं, जोंकोंके दुसमन हैं ।

भैया—लेकिन दुख्-भाई ! सच्ची बात वह कैसे कहता ? जर्मनीके करोड़-पति पूँजीपतियोंने हिटलरके लिए थैली खोल दी, तालुकदार पहले कुछ सन्देह करने लगे ।

सन्तोखी—तालुकदार क्यों सन्देह करने लगे ? पूँजीपति और तालुकदार तो एक ही तरहकी जोंके हैं ।

भैया—बिलायतमें जैसे बड़े-बड़े जमींदार बड़े-बड़े पूँजीपति कारखानेदार भी हैं जर्मनीमें अभी उतना नहीं हो पाया है । जर्मनीमें नवाब-तालुकदार अपनी अकड़में रहते थे और उनमें से बहुत कम कारखानेदार बनना चाहते थे । कारखानेदार पूँजीपति हिटलरकी पीठपर थे, इसमें वह समझने लगे कि कहीं पूँजीपतियोंका पलरा भारी न हो जाय । पूँजीपतियोंके पास जो करोड़ोंके कारखाने थे, उनके पास रुपयेका बल था; तो जर्मनीके तालुकदार-नवाबोंके हाथमें सारी सेना थी । जर्मन फौजके बड़े-बड़े अफसरोंमें सभी और छोटोंमें भी अधिक तालुकदार घरानेके लड़के थे । इधर पूँजीपतियों और तालुकदारोंमें अभी गठबन्धन नहीं हो पाया था, उधर कमकरोकी ताकत बढ़ रही थी । बाहरकी जोंकोंने भी समझाया, तालुकदारोंने भी भ्रम मारा । और कमेरोके भारी स्वतरेको देखकर जर्मनीके प्रेसीडेन्ट और एक बड़े तालुकदार हिन्डन

वर्गमें हिटलरके हाथमें राज दे दिया। अब गुंडा राज पूरीतरसे अपना रूप दिखलाने लगा। कमरोंकी सभाओं और जमात बन्दीको खूनी हाथोंसे बन्द कर दिया गया। गोली और फाँसीसे मारे जानेवालोंकी गिनती नहीं हो सकती थी। हजारों हजार मरद मेहरारू नरकसे भी बुरे जेलोंमें डाल दिये गये जहाँ उनमें से अधिक भूखे रहकर या पागल होकर मर गये।

दुखराम—तो हिटलर सबसे बड़ा खूनी निकला भैया ! और उस दिन वह सफेद टोपीवाले आबू हिटलरको देवता बना रहे थे।

भैया—वह क्या, दुनिया भरकी जोंके हिटलरको देवता बना रही थीं। यह तो प्रंगरेज, फ्रांसीसी और अमेरिकावाली जोकोपर जब हिटलरने हल्का बोल दिया तब उसे गाली देने लगे। लेकिन हिटलरको मजबूत करनेमें सबसे बड़ा हाथ त्रिलायतकी जोकोका है। उन्होंने उसे दिल ग्योलकर धन और वरदान दिया।

सन्तोखी—तो भैया सिउजीसे वरदान पाकर भसमासुर उन्हींके सिरपर हाथ रखने चला ?

भैया—हाँ दुखू भाई ! हिटलरने जर्मनीके लोगोंका कान भरना शुरू किया कि भगवानने नीली आँखों और भूरे बालोंवाली जातिको ही दुनियामें राज करनेके लिए पैदा किया। ऐसी जाति जर्मनीसे बाहर कहीं नहीं। जर्मन ही वह आर्य जाति है, जिसे भगवानने दुनिया का राजा बनाया।

सन्तोखी—तो हिटलर अपनेको अरिया कहता है भैया।

भैया—हाँ, वह अपनेको अरिया कहता है और स्वस्तिक (सतिया)का चीन्ह अपने भंडे पर लगाता है।

सन्तोखी—अब पता लगा उस दिन महासय भड़ामसिंह उपदेसक बड़े जोर जोरसे कह रहे थे कि जर्मनीने भी अरिया धरमको मान लिया।

भैया—लेकिन महासय भड़ामसिंहको यह मालूम नहीं है कि हिटलर हिन्दु-स्तानियोंको काला पसु जैसा मानता है, उसने अपनी किताबमें लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग सिर्फ गुलाम रहनेके लिए पैदा भये हैं। वह तो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे गोरे-गोरे लोगोंको भी बरनसंकर कहता है।

दुखराम—बड़े-बड़े बहे जायँ गदहा कहै कितना पानी; भड़ामसिंह अरिया समाजी है और हिटलर अरिया है। छिः ! छिः !! भड़ामसिंहने समझा होगा कि हिटलर और जर्मनीके अरिया बननेकी बात कहनेसे सारा हिन्दुस्तान अरिया समाजी बन जायगा।

भैया—उसने जर्मनीके लोगोकी आँखोंमें धूल भोकनेके लिए यह भूठी-भूठी बात गढ़ी थी। पिछली लड़ाईमें जर्मन हार गये थे. •हिटलरने हजारों स्वयं सेवकोंको भूरी उरदी पहनाकर सड़कोपर परेड कराना शुरू किया। जोंकों और उनके पिट्टुओंने सोचा कि राजा विलियम तो दुम दबाकर भाग गया अब क्या जाने हिटलरके हाथसे जर्मनीका भाग फिर पलटे। इसमें कमेरोके नेताओंने विश्वासघात करके उसको मदद दी।

दुखराम—कमेरोके नेताओंने कैसे धोखा दिया भैया ?

भैया—इसमें हमेसा खतरा रहता है दुखू भाई ! मरकसबाबा और लेनिन महात्मा दोनों कह गये हैं कि कमेरोको अपने नेताओंकी सदा परख करते रहना चाहिए। जोंकोंके पास करोड़ोंका धन है, वह लाखोंकी घूस-रिसवत दे सकते हैं। इसलिए यदि कमेरे सजग नहीं रहेंगे तो बेईमान नेता उनको धोखा दे देंगे। बिलायतमें ऐसा ही हो रहा है। मजूर नेताओंको हिन्दुस्तानके कमेरोका ख्याल होना चाहिए, क्यों कि हिन्दुस्तान और बिलायत दोनों जगहके कमेरे एक ही नाव पर बैठे हुए हैं। यदि बिलायतके कमेरोने अपने यहाँ जोंकोंका राज खतम किया तो उनके पिट्टू हिन्दुस्तानमें राज नहीं कर सकते। जो हिन्दुस्तान-पर जोंकोंका राज मजबूत रहा तो बिलायतके कमेरे आजाद नहीं हो सकते। सात ही बरस पहले हमने असपेन देसमें देखा है कि जब वहाँके कमेरे जोंकोंका राज खतम करने लगे तो असपेनकी गोरी जोंकोंने मराको (अफ्रीका)की काली फौज लेकर असपेनी कमेरोपर धावा बोल दिया और फिर जोंकोंका राज कायम किया।

सन्तोखी—तो भैया ! तुम समझते हो कि जो कभी बिलायतके कमेरोने अपने यहाँसे जोंकोंका राज हटाया तो बिलायती जोंके यहाँसे हिन्दुस्तानी फौज-को अपने भाइयोंके साथ लड़नेके लिए ले जायँगी ?

भैया—कमेरे जोंकोंके भाई-बन्द नहीं हैं । जहाँ वे अपना महल, कल-कारखाना करोड़ों रुपया हाथसे निकलते देखेगी तो जानते हो वे चुप बैठे रहेंगी ? वह कोई बात उठा न रखेंगी ।

दुखराम—हाँ भैया ! जोंकोंको न कोई लाज-सरम न दया-माया; उनके लिए तो टका ही भगवान है ।

भैया—जर्मनीके कमेरोंके नेताओंमें कुल्लने तो अपनेको जोंकोंके हाथमें बेच डाला था, और कुल्ल हिजड़े थे । वह मरकस ब्रावके नामकी माला जपते थे, इसलिए बहुतसे कमेरे धोखेमें पड़ गये । एक बार कमेरोंके हाथमें राज आया तो उनको चाहिए था कि जोंकोंका सब कुल्ल छीन लेते, उन्हें पीस-पास कर रख देते, लेकिन नकली सियारोंसे कहना मुरु किया कि जल्दी मत करो, बहुत खून-खराबी होगी । धीरे-धीरे सब हो जायगा । जर्मनीमें कमनिस्त भी थे, लेकिन कमेरोंके दूसरे नेताओंने कमेरोंके भीतर फूट डाल दी थी । सब एक नहीं हो सके । लोग कितने बरस तक इन्तजार करते !

दुखराम—और बीचमें जोंके चुप नहीं रही होंगी भैया !

भैया—चुप कैसे रहतीं, उनके मरने-जीनेका सवाल था । उधर हिटलरने जोंकोंके पैसेसे अपना बल बढ़ाया, इङ्गलैण्डके जोकोसे खूब मदद मिली । अन्त-में तालुकदारोंने भी राज उसके हाथोंमें दे दिया । राज हाथमें आते ही उसने अपनी सेना और हथियार बढ़ाना मुरु किया । उसने कहा—मक्यन खानेसे बन्दूक रखना अच्छा है । फ्रान्सकी जोंके कुल्ल घबड़ाई क्योंकि पिछली लड़ाई-में जर्मनोंने उनका बहुत नुकसान किया था लेकिन विलायतकी जोंकोंका हाथ बराबर हिटलरकी पीठपर रहा, उनको यह ख्याल नहीं था कि कहीं हिटलर हमारे ऊपर न दौड़ आये । हिटलरने राज सभालते ही कमेरोंको बेदरदीसे दबा दिया, लेकिन विलायतकी जोंकोंकी नजर रूसके कमेरोंपर थी । उन्होंने समझा था कि जर्मनीमें सात, आठ करोड़ आदमी रहते हैं, जो हिटलरने सबको तैयार करके रूस पर हमला कर दिया, तो बोलसेविकोंका राज नष्ट हो जानेसे दुनिया भरकी जोंके चैनकी बन्सी बजायेंगी । लेकिन रूसके कमेरोंका नेता स्तालिन वीर-गाफिल नहीं था ।

दुखराम—स्तालिन वीर कौन है भैया !

भैया—लेनिन महात्माका सबसे लायक चेला, लेनिन महात्माके मरनेपर उसीको रूसके कमेरोने अपना अगुआ माना । स्तालिनका मतलब है, फौलाद ।

दुखराम—तो स्तालिन वीर फौलाद ही जैसा होगा भैया !

भैया—उसका मनसूत्रा फौलाद ही जैसा है दुखू भाई ! और उसके ऐसा दूर देखनेवाला तो आज दुनियामें कोई नहीं है । उसने रूसके कमेरोसे कहा, दुनियाकी जोंके चार बरस तक आपसमें लड़कर बहुत कमजोर हो गईं, उन्होंने कमेरोके राजको खतम करना चाहा, लेकिन वह उसे कर न सके । तो भी जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वह कमेरोके राजका गला घोटनेके लिए एक होकर दौड़ पड़ेंगे ।

सन्तोखी—फिर स्तालिन वीरने क्या इन्तजाम किया भैया ?

भैया - रोटी-कपड़ा और पढ़ने-लिखनेके साथ-साथ अपने देसको कल-कारखानासे इतना मजबूत कर दिया कि जिसमें जोंकोके हमला करनेपर हमें बाहरका मुँह ताकना न पड़े । पहिले तो राज हाथमें लेते ही लेनिन महात्माने और कामोंके साथ यह काम जरूरी समझा कि रूसमें जितने नर-नारी हैं उनमें कोई अनपढ़ न रह जाय । लेकिन पढ़ाई कौन भाखामें हो ? दूसरेकी भासामें पढ़ाई हो तो भासा ही सीखनेमें बहुत दिन लग जायेंगे । लेनिन महात्माने कहा कि हमारे यहाँ १८२ खौम हैं । सौमें नब्बे, पंचानबे अनपढ़ हैं; लेकिन कोई खौम गूँगी नहीं है ।

दुखराम—एकाध आदमी गूँगा हो सकता है, सारीकी सारी खौम गूँगी कैसे होगी ?

भैया—हाँ, उन्होंने कहा कि एकसौ बयासी, खौमोंकी सबकी अपनी बोली है । बस जो-जो बोली बोलता है उसे उसी बोलीकी किताब पढ़ाना चाहिए । कमेरा राजसे पहले पाँच-छः खौमोंको छोड़कर किसीकी बोलीमें कोई किताब नहीं लिखी गई न उनका कोई अच्छर था । पंडितोंने हरेक आवाजके लिए अच्छर चुना और फिर इसके बाद किताब लिख-लिखकर छापने लगे ।

दुखराम—अपनी भासा हो तब क्या सीखनेमें देर लगेगी भैया ! दूसरेकी

भाखामें पढ़ाई करनेका नतीजा देख रहे हो न ! हम चार दरजा हिन्दी पढ़े हैं लेकिन घरमें तो हिन्दी बोलते नहीं हमारी अपनी बोली है, उसीको बोलते हैं, और बड़ी मीठी बोली है भैया ! हम लोग जो बोली बोलते हैं इसका नाम क्या है भैया ?

भैया—आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, मिरजापुर, जौनपुर ये सब पुराने जमानेमें कासी देस कहा जाता था । इसलिए हमारे यहाँकी भासाको कासिका कहना चाहिए ।

दुखराम—हमारे यहाँ भी भैया ! जो कासिका बोलीमें पढ़ाई होने लगे तो क्या कोई अनपढ़ रह जायगा ? खाली अच्छर सीखना है और अच्छर तो आदमी तीन दिनमें सीख सकता है । लेनिन महात्माने ठीक कहा भैया ! कि कोई खौम गूँगी नहीं है । लेकिन हम लोगोंको गूँगा बना दिया गया । हँसते, रोते, बोलते, गाते हैं हम अपनी कासिकामें और हमको पढ़ाई जाती है अरबी, फारसी भाखा ।

भैया—हिन्दी पढ़ना खराब नहीं है दुक्खू भाई ! लेकिन सुरूहीसे अपनी भाखाको छुड़ाके हिन्दी पढ़ानेका यही नतीजा होता है कि लड़के मिडिल पास कर जाते हैं । लेकिन तो भी न सुद्ध हिन्दी लिख सकते हैं न हिन्दीकी बड़ी-बड़ी किताबें समझ सकते हैं । आठ बरस पढ़ना अकारथ ही गया न ?

सन्तोखी—अपनी भाखामें पढ़ाई होगी तभी भैया कोई मरद-औरत अनपढ़ नहीं रहेगा और सब किताब, अखबार पढ़ समझ लगे ।

भैया—लेनिन महात्माने सोचा कि अब हमारा राज जोंकोका राज नहीं है, कमेरा लोगोंको अपना राज चलाना है, और कमेरा मरद-औरत, जो अनपढ़ रहेंगे तो राज-काज कैसे चलायेंगे । इसलिए उन्होने पंडितोको इस कामके लिए बैठा दिया । उन्होंने रोमन अच्छरका क ख बनाया और किताबें छाप-छापकर स्कूलोंमें भेजना सुरू किया । लेनिन महात्मा और स्तालिन वीरका कहना सुनते ही समूचे देसके लोग बिहारथी बन गये । सत्तर सालके बूढ़े-बूढ़ियों तकने अपने पोतोके साथ बैठकर अच्छर सीखा ।

दुखराम—अपनी बोलीमें जो पढ़नेका इन्तजाम नहीं हुआ होता तो बूढ़े-

बूढ़ियों छोड़ जवानोंको भी पढ़नेकी हिम्मत न होती। हमारे यहाँ देखो न, अपनी भाखाको तो कोई पूछता ही नहीं, हिन्दी पढ़ाई जाती है, लेकिन वह भी नाम करनेके लिए, नहीं तो बड़ी-बड़ी पढ़ाई तो सब अँगरेजीमें होती है।

भैया—और अँगरेजी चौदह बरस पढ़नेके बाद भी बहुत थोड़े ही आदमी लिख-बोल सकते हैं।

दुखराम—हमको तो मालूम होता है कि जोंकें हमें पढ़ने देना नहीं चाहतीं। अपनी भाखामें पढ़ाई हुई तो सब मरद-औरत पढ़ जाएँगे तब वह दुनिया जहानकी बात जानने लगेँगे फिर उनकी आँखमें धूल कौन भोकेगा। हम लोग तो भैया अपने ही देसमें पराए हो गए हैं। न थानामें हमारी बोली, न कचहरीमें, न इसकूलमें, न इस्टेसनमें। बेसी तो अँगरेजी ही है फिर जो हिन्दी-उर्दू है उसमें जो चार आना भी हम लोग समझ जायें तो धन भाग है। रूसमें तो ऐसा नहीं होगा भैया !

भैया—वहाँ चार आना नहीं सोलहो आने समझ जाते हैं दुख्खू भाई ! जौन इलाकामें जो बोली लोग बोलते हैं वहाँ उसी बोलीमें इसकूल लगता है। थाना, डाकखाना, कचहरी, इस्टेसन सब जगह वही बोली चलती है। अखबार भी उसी बोलीमें छपते हैं, सिनेमा भी उसी बोलीमें चलता है। जो कोई दूसरी बोली भी सीखना चाहता है उसके सीखनेका इन्तजाम है। १८२ भाखा बोलने-वाले सभी कमेरे तो अब सगे भाई हैं। इसलिए वह एक-दूसरेसे बात भी करना चाहते हैं इसके लिए रूसी भाखा जो पढ़ना चाहिए, उसका इन्तजाम है।

दुखराम—उसी तरह यदि हमारे यहाँ हिन्दी पढ़ना हो तो कोई हरज नहीं। हम लोग सब कुछ अपनी कासिका भाखामें पढ़ें, ऊपरसे हिन्दी भी कुछ सीख लें, तो अच्छा ही है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जानेपर बात-चीतमें सुभीता होगा।

भैया—अपनी बोलीमें पढ़ानेका यह फायदा हुआ कि आठ ही नव बरसके भीतर वहाँ एक भी आदमी अनपढ़ नहीं रह गया।

दुखराम—हिन्दुस्तानसे सात गुना बड़ा है न भैया ! और बीस करोड़ आदमी बसते हैं। तो सारे रूसमें अब कोई मूरख बेपढ़ नहीं है न !

भैया—इस बातको तो कई बरस हो गया।

दुखराम—यह बहुत बड़ा काम है भैया, अन्धेको आँख देना है !

भैया—जोंके लोगोंको अन्धा रखना चाहती हैं। जितने कल-कारखाने लड़ाईके वक्त टूट गये थे, जितनी रेलकी सड़के और खाने बिगड़ गई थीं स्तालिन बीरने सबको फिरसे तैयार करने कहा। रूसके सारे मर्द-औरत सभी मिसतिरी इन्जिनियर जुट गये और कमेरा राज कायम हुए दस साल भी नहीं बीता कि कल-कारखाना, रेल, खान सब पहिले इतना माल पैदा करने लगे। खेत भी फिरसे आबाद हो गया, और उतना ही अनाज पैदा होने लगा। अब स्तालिन बीरने कहा कि पैर बढ़ाके चलनेसे काम नहीं चलेगा, अब सारे देसको दौड़ना होगा, जिसमें हमारे देसमें सब जगह हजारों नये बड़े-बड़े कार-खाने खुलें। तेल, कोयला, लोहा इतना पैदा हो कि कोई जोंकोंका देस हमारा मुकाबला न कर सके। गाँव-गाँवमें बिजली और पानीका नल लग जाय। और खेतमें दिनमें दस बिस्वा (कट्टा) जोतनेवाले हल नहीं सौ बीघा जोतनेवाले मोटरके हल चले। सिंचाईके लिए जहाँ नदीसे नहर निकल सके वहाँ नहर निकालें, जहाँ धरतीमें पाइप गाड़नेसे पानी निकले, वहाँ पाइप गाड़कर सीचनेका इन्तजाम किया जाय।

दुखराम—लकड़ीके हलकी जगह मोटरका हल ! और वह इतना बेसी खेत जोतता है भैया !

भैया—मोटरके हलमें सात-सात फार होते हैं और फार एक-एक हाथ गहरी जुताई करता है। तुम्हारे खेतमें जितनी जंगली घास कुसकास जमती है, उसकी जड़ खोदकर देखें कि वह धरतीमें कितने नीचे तक गई है फिर फालको उतना ही बड़ा लगा दें। एक बार खेत जोत देनेपर सब घास जड़ मूलसे निकल जाएगी। और तीन बरस तक तो खेतमें कोई जंगली घास नहीं निकलेगी। गहरी जुताईका यह भी फायदा है कि सीड़ बनी रहती है, गोहूँ-चनेकी जड़ धरतीमें नीचे तक पैठती है, और बरसा-बुन्दी कम भी हो तो भी नीचेकी सीड़से काम चल जाता है। नई-नई तरहकी खाद तैयार करनेके लिए भी स्तालिन बीरने हजारों कारखाने खुलवाए। उन्होंने किसानोंको समझाया कि हजारों टुकड़ोंमें बँटे गाँवके खेतोंमें मोटरका हल नहीं चल सकता।

दुखराम—१०० बीघा रोज जोतनेका मोटरवाला हल छोटे-छोटे कोलेमें कैसे चलेगा भैया ?

भैया—इसीलिए स्तालिन वीरने किसानोंसे कहा —गाँव भरका खेत इकट्ठा कर दो, मेंडें तोड़ दो, गाँव भरके लोग एक पग्वारकी तरह मिलकर साभेमें खेती करें ।

सन्तोखी—किसीके पास कम और किसीके पास बेसीखेत होता है भैया !

भैया—स्तालिन वीरने कहा कि जो साभे की खेतीमें नहीं सामिल होते हैं उनको खेत अलग दे दो और गाँवके जितने लोग इकट्ठा खेती करना चाहते हो, उनके खेतोको एक जगह कर दो, परतीसे खेत बनानेका हक उन्हींको हो । ज्यादा खेतवाले किसान कुछ समय अलग जोतते-चोते रहे, लेकिन उनके पास चार अगुल खुरचनेवाला हल सतजुगसे चला आया था । उनके पास खाद और सिचाईका उतना इन्तजाम नहीं था जबकि उनकी बगलके बड़े-बड़े खेतोंमें मोटरके हल चल रहे थे, पाइप से सिंचाई होती थी, कल खेत काटती और ढाँवती थी । उन्होने देखा कि बेसी खेत रहनेपर भी हम उतना नहीं पैदा कर पाते, जितना साभ्नीवाले किसानको मिलता है फिर वे किसान भी आकर पंचायतके पैरों पड़े ।

दुखराम — वहाँ सब काम पंचायतसे होता है भैया ।

भैया—रूसमें लोग अपने देसको अब रूस नहीं कहते उसे सोवियत कहके पुकारा जाता है और सोवियतका मतलब वही जो हमारी भाखामें पंचायतका । वहाँ एकसौ बयासी खौमें बसती हैं, उनमेंसे एक है रूसी खौम इसीलिए स्तालिन वीरने कहा कि हमें कई तरह की खौमोंवाले देसको किसी एक खौमके नामसे नहीं पुकारना चाहिए । दुख्खू भाई ! आसानीसे समझानेके लिए अब रूस-रूस कहते रहें नहीं तो अब उसका नाम है साम्यवादी पंचायती प्रजातन्त्र-संघ ।

दुखराम—सामवादी क्या है भैया ?

भैया—मरकस बानाने जो सिच्छा दी है न कि देस भरके कमरोंका एक साभ्ना परिवार हो, और देस भरकी धन-धरतीका मालिक कोई एक आदमी

नहीं बल्कि वही बड़ा परिवार । इसी सिञ्छापर जो चले उसे सामवादी कहते हैं ।

दुखराम—पंचायती तो हम समझ गये लेकिन परजातंतर क्या ?

भैया—जहाँ राजाका काम न हो, प्रजा ही अपना राज चलाती हो, उसको प्रजातन्त्र कहते हैं ।

सन्तोखी—और संघ तो जमातको कहते हैं न भैया ?

भैया—हाँ, वहाँ साम्यवादी पंचायती प्रजातन्त्र एक-एक खौमका अलग-अलग है । और सब प्रजातन्त्र एक जमात बन गया । इसीलिए संघ कहा गया ।

दुखराम—तो वहाँ पक्का पंचायती राज है ।

भैया—गाँव, जिला, देस और सारे १-२ खौमोंका, मुलुकका, इन्तजाम पंचायतें करती हैं । मरद हो चाहे औरत, सहर हो चाहे गाँव, अठारह बरससे बेसी जिसकी उमर है वह वोट देकर पंचायत—सोवियत चुनता है । गाँवके पंचायतमें पच्चीस-तीस या चालिस मेम्बर चुने जाते हैं । फिर इन मेम्बरोंकी पाँच-छकी छोटी पंचायतें बना ली जाती हैं । इन छोटी पंचायतोंमें किसीका काम होता है आपसी भुगड़ोंका फैसला करना और पुलिसका इंतजाम देखना, किसीका काम होता है अस्पताल और बीमारोंका ध्यान रखना, किसीका काम होता है इसकूल, सिनेमा, पुस्तकालय आदिका परबन्ध करना । किसीका काम होता है खेतीबारीका इन्तजाम करना ।

दुखराम—तो भैया ! सोवियतवालोंने इस कहानीको भूटा कर दिया “साभे कै सुई सगन्डासे उठे” लेकिन भैया ! मुझे तो मालूम होता है कि जोकोने जान बूझकर ऐसी ऐसी कहावतें गढ़कर कमेरोंके भीतर फैला दीं । कमेरोंमें एक-के पास उतना धन और नौकर-चाकर है नहीं कि उसके बलपर कोई बड़ा काम उठावे । साभे का काम करनेसे उनका बल बढ़ता है, उसीको तोड़नेके लिए जोकोने कहावत गढ़ी छोटी-सी सुई भी साभेके होनेपर बड़े-बड़े चाँसके उठानेकी तदबीर सोची जाती है ।

भैया—हाँ दुक्खू भाई ! कमेरोंको पैर फूँक-फूँक कर रखना है हजारों बरसोंसे जोके राज कर रही हैं । उन्होंने हर जगह अपना जाल बिछा रखा है ।

दुखराम—भैया ठीक कह रहे हो । मैंने ही न जाने कितनी ही बार दुहराया

होगा और मैं समझता था कि यह कोई विधि-बर्खाका बचन है लेकिन अब न मालूम हो रहा है कि जोंकोंने इसे गढ़कर हमारे भीतर फैला दिया है जिससे मिलकर हम कोई काम कर न सकें ।

भैया—जुलाहा अकेले ही न कपड़ा बुनता था, और चटकल-पटकलमें कितने सौ जुलाहे एक साथ काम करते हैं ! देखो साभेवाला काम कितना जोरसे चल रहा है और अकेले काम करनेवाले जुलाहे उजड़ गये ।

दुखराम—तो भैया ! सोवियत देसके किसानों और उनके गाँवोंकी सकल ही बिलकुल बदल गई होगी ?

भैया—पहिली बात तो यह है कि वहाँ अब छोटे-छोटे खेत नहीं रह गये हैं । तीन-तीन सौ चार-चार सौ बीघाके खेत हैं जिनको जोतनेके लिए पाँच लाखसे ज्यादा मोटरहल और डेढ़ लाखसे ज्यादा काटने-दॉवनेवाली कल हैं ।

दुखराम—और यह मोटर और कल कहाँसे आती है भैया ?

भैया—१९२८ ई०से पहिले रूसमें एक भी मोटरहल नहीं बनता था, जोंकोंके राजमें कोई मोटर कारखाना नहीं था । लेकिन स्तालिन वीरने कहा कि हमें सब चीजे अपने यहाँ बनानी होंगी नहीं तो किसी वक्त बाहरकी जोंके गला दबाकर हमें मार डालेगी । अब खाली एक गोरकी सहरके कारखानेमें हर साल एक लाख मोटरे बनती हैं । मोटरलासी, मोटरहल, हवाई जहाज, सब सोवियतके कारखानोंमें बनते हैं । हर बारह-बारह चौदह-चौदह गाँवपर एक-एक मसीन मोटरहलका इस्टेसन; उसे बड़ा गाँव समझो दुखू भाई ! उस गाँवमें जितने लोग हैं सब मोटर मसीन चलाना, उनकी मरम्मत करना, बस यही काम करते हैं । गाँवकी पंचायत अपने गाँवका लेखा करती है; कितना बीघा खेत एक हाथ गहरा खोदना है, कितना बीघा पौन हाथ और कितने बार जोतना है । इसका हिसाब करके मोटर इस्टेसनमें जाती है । जोताई आदिकी दर बँधी हुई है, दोनो ओरसे कागज-पत्तरपर दखत हो जाती है, फिर मोटरहलवाले आकर खेत जोत-बो देते हैं । छोटे-मोटे कामके लिए एकाध मोटरहल गाँवमें भी होता है ।

दुखराम—तो गाँव घरके साभे खेती होती है और काम कैसे बाँटा

जाता है ?

भैया—हर कामका नाप बँधा हुआ है। जैसे समझ लो एक आदमीको एक दिनमें दस बिस्वा जोतना चाहिए जो किसीने पन्द्रह जोत दिया, तो एक ही दिनके कामके लिए उसे डेढ़ दिन समझा जायगा। यदि कोई पाँच बिस्वा ही जोत सका उसका आधा ही दिन होगा। हर आदमीके कामका बहीखाता होता है, जिसमें रोज-रोजका काम लिखा जाता है।

दुखराम—तो बड़ा हिसाब-किताब रखना पड़ता होगा ?

भैया—सैकड़ो आदमियोंका काम, हिसाब-किताब नहीं रखा जायगा तो गड़बड़ी नहीं मचेगी ? मान लो हमारे घरमें सौ औरत और एकसौ पचास मरद काम करनेवाले हैं। दस-दस आदमीकी एक-एक टोली बन जाय, टोली अपना मुखिया बनायेगी। फिर दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह टोलीकी एक बड़ी जमात होगी। जिसको वहाँ बिरगोड कहते हैं। बिरगोड अपनेमेंसे सबसे लायक औरत या मरदको अपना मुखिया चुनता है जिसको बिरगोडियर कहते हैं। टोलीका मुखिया अपनी टोलीके साथ काम करता है, लेकिन बिरगोडियरको बहुत काम देखना-भालना होता है, आजके काममें कितना हुआ, कितना नहीं हुआ इसका हिसाब देखना और तनेही करनी पड़ती है। इसलिए उसे और आदमियोंके साथ अपने हाथ जोतने-बोनेका काम नहीं करना पड़ता। लेकिन बिरगोडियर लोग उन्हीं कुदाल, फावड़ा चलानेवाले लोगोंमें बनते हैं।

सन्तोखी—खाद, पानी, अच्छी जुताई, अच्छा बीजका इन्तजाम होनेसे वहाँ पैदावार भी ज्यादा होगी।

भैया—देखते नहीं गाँवको, गोएड़ेके खेतमें फसल कितनी पैदा होती है ?

दुखराम—सुतर जाय तो मकईमे तीन-तीन मोटी बाल लगती है भैया !

भैया—वहाँ भगवानके भरोसेपर खेती नहीं करते, कहते हैं जब आसमानसे पानी नहीं बरसा तो धरतीमें तो पानी है ही। पाइप लगाकर धरतीके भीतरके पानीसे खेत सींच डालते हैं। और फसल कितनी होती है, यह इसीसे समझ सकते हो कि एक-एक बीघा (३ एकड़) में बीस-बीस मन तक चीनी उन्हींने पैदा किया है।

दुखराम—एक-एक बीघामें बीस-बीस मन चीनी ! हमने तो बीस मन गेहूँ भी पैदा होते नहीं देखा ! वहाँकी ऊख बहुत मोटी होगी ?

भैया—वह बहुत ठंडा मुल्क है दुक्खू भाई ! वहाँ ऊख नहीं पैदा होती । हमारे यहाँ जैसे सकरकंद होता है वैसे ही वहाँ एक चीज पैदा होती है जिसको चुकंदर कहते हैं, वह बहुत मीठा होता है, उसीसे चीनी बनाई जाती है । ऊखकी चीनी जैसी वह भी मीठी, दानेदार और सफेद होती है और कपास बीघामें बारह-तेरह मन खूब बारीक रेशावाला बिनौला निकालकर पैदा होता है । तीस-तीस मन बीघा धान पैदा कर लेते हैं और जानते हो न दुक्खू भाई ! खाली हाथसे कुदाल चलानेसे ही काम नहीं चलता । जब कुदालके साथ दिमाग भी लगता है, तो धरती सोना उगलने लगती है । वहाँ ऐसा-ऐसा गेहूँ निकाला है कि एक बार बोनेपर चार-चार साल तक फसल काटते हैं । धानका बीज ऐसे तैयार किये हैं कि अगहनी धान कातिकहीमें कट जाता है ।

दुखराम—भैया ! जो ऐसा बीज हमको मिलता तो हमारी दस बीघाकी धानकी कियारी भी दोफसला हो जाती । चढ़ते कातिकमें धान कट जाय तो खेत जोत-जातकर कातिकके अन्तमें गेहूँ बो सकते हैं ।

भैया—जोंकोंका राज बिना हटाये यह नहीं हो सकता दुक्खू भाई ! वहाँ जिस फसलको तीन-चार हफ्ता पहले काटना चाहते हैं उसके बीज भिगोकर बड़े-बड़े गोदाममें फैलाकर रखते हैं और जानकार पंडित गरमी-सरदी नापते रहते हैं । दो दिन वैसा करके फिर बीजको सुखा लेते हैं । हिन्दुस्तानमें कहाँ उतने-उतने बड़े गोदाम, सरदी-गरमी नापनेकी कल और लाखों रुपयेकी दूसरी चीजे हैं, यहाँ भी सरकारने जो बड़े-बड़े खेतीके कालेज खोले हैं उसमें पाव-आध सेर बीज तैयार करके देखा गया है कि रूसी ब्रिदियामानोंका कहना गलत नहीं है । लेकिन जोंके अगर करोड़ों रुपया लगाकर देहातमें वैसा इंतजाम करने लगे, तो उनकी तौंद नहीं पचक जायगी ?

दुखराम—ठीक कहा भैया ! बिना जोंकोंके हटाये हमारा दुख दूर नहीं हो सकता । जहाँ इतना अन्न, धन पैदा होता है वहाँके लोग तो बड़े खुसहाल होंगे ।

भैया—खुसहाल ! वहाँ किसीकी हड्डि निकली दिखलाई नहीं पड़ेगी ।

आज जो अपने गाँवमें तुम आधे लड़कोंको हाड़-हाड़ निकले, फटी लँगोटी पहिने देखते हो इसका कोई वहाँ पता नहीं। पहर भर रातसे आधीरात तक जो मरद-औरतको यहाँ खटना पड़ता है, वह भी वहाँ नहीं है। विरगोडियरको इस फसलमें कितना काम करना है यह पंचायत बता देती है और देखती रहती है। विरगोडियर हर टोलीको हफ्ते-हफ्तेका काम बँट देता है और देखता रहता है कि काम ठीक-ठीक चल रहा है न ? टोली भी अपने कामका हिसाब मिलाती रहती है। टोली-टोलीमें होड़ लगी रहती है। एक टोली जब पाँच दिनमें सोहनी खतम करना चाहती है तो दूसरी चार ही दिनमें खतम कर चाब्रस्सी (सान्नासी) लेना चाहती है। फिर एक गाँवके दूसरे गाँवसे, एक परगनेसे दूसरे परगनेकी होड़ रहती है कि कौन अपने काम अच्छी तरह और जल्दीसे खतम करता है।

दुखराम—गाँव-गाँव और परगने-परगनेमें होड़ (लागडाट) लगती है, हमारे यहाँ तो कुरतीमें, कभी-कभी दौड़ने और कूदनेमें होड़ लगती है।

भैया—वहाँ जिलाकी ओरसे लाल भंडा रखा जाता है, कि जो परगना सबसे पहले काम करे सबसे अधिक फसल पैदा करे उसको लाल भंडा दिया जाय इसी तरह गाँवके लिए भी लाल भंडा रहता है। मर्द-औरत सब जी छोड़कर काम करते हैं कि भंडा उनके गाँवमें आये और भंडा जब किसी गाँवको मिलता है तो मेला लग जाता है आस-पासके गाँवोंसे हजारों मर्द-औरत अपने-अपने गाँवोंकी लारियोंपर चढ़कर आते हैं !

दुखराम—तो वहाँ गाँव-गाँवमें लारियाँ हैं भैया !

भैया—न अब वहाँ बैलवाले हल रह गये और न गाड़ियाँ। हर गाँवमें आठ-आठ सात-सात बड़ी-बड़ी लारियाँ रहती हैं। काम भी आदमीको ७ घण्टेसे बेसी नहीं करना पड़ता। और काम करनेमें आनन्द आता है दुख्खु भाई ! लोग तरह-तरहका गाना गाते हुए काम करते हैं। खानेका वक्त हुआ तो किसी पेड़के नीचे खाना लेकर लारी आ गई। सब लोग बैठ गये रोटी-तरकारी, भात, मांस-मछली, दूध-दही सब तैयार है। परोसनेवाले परोस रहे हैं, औरत-मर्द सब बैठकर भोजन कर रहे हैं। एक ओर रेडियो बाजा लगा दिया और दुनिया भरकी खबर और मीठे-मीठे गीत सुन रहे हैं !

दुखराम—रेडियो बाजा क्या है ? क्या यह कोई फोनोगिलाफ है ?

भैया—जानते हो न दुक्खू भाई । पत्थर हड्डीके हथियारों और तीर-धनुषके जुगसे मानुख-जाति अब बहुत आगे चली आई है । यह मानुखके दिमागकी करामात है, लेकिन, अफसोस है कि इस करामातका फायदा जोंकोंहीको मिल रहा है । रेडियो बाजा होता तो है एक चौकोर बाक्स, लेकिन उसमें विलायत, अमेरिका, रूस, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली सब जगहका गाना और खबर चली आती है ।

दुखराम—क्या वह तारकी तरहसे है भैया ?

भैया—तार नहीं लगा रहता दुक्खू भाई । यहाँ कनैलामें जो रेडियो-बाजा आज आ जाए तो यहीं सब तुम्हें सुनाई देने लगेगा ।

दुखराम—बड़े अचरजकी बात है भैया ! सोमार राउत सुनेंगे तो कहेंगे कि इसमें जरूर कोई जादू है ।

भैया—जादू नहीं है दुक्खू भाई ! हम तीन हाथ परसे बोल रहे हैं हमारे मुँहसे जो आवाज निकल रही है, वह तुम्हारे कान तक पहुँच रही है न ?

दुखराम—हाँ पहुँच रही है, मैं सुन रहा हूँ ।

भैया—जो मैं सौ हाथसे बात करूँ, तो तुम्हें आवाज सुनाई दैगी कि नहीं ।

दुखराम—बहुत कम, और शायद नहीं भी सुनाई दे ।

भैया -- आवाज तो तुम्हारे कानमें आती है दुक्खू भाई, लेकिन कान कुछ ऊँचा सुनता है, माने कान अच्छी तरह पकड़ नहीं पाता, कानकी तागत कम-जोर हो जाती है । कानकी तागत और बढ़ा दी जाय, या आवाज को और तेज कर दी जाय तब तुम सुनने लगेगे दुक्खू भाई ! कलकत्ता, दिल्ली या मास्को, लंदनसे जो आवाज निकलती है वह हवा पर तैरते हुए हमारे गाँवमें भी पहुँचती है लेकिन वह इतनी मन्द हो जाती है कि हमारा कान उसे पकड़ नहीं पाता । रेडियो बाजाका यही काम है कि जो आवाज दुनिया भरसे चलके हमारे यहाँ आई है उसे पहले पकड़े और फिर तेज करके फोनोगिलाफ बाजाकी तरह निकाले । और कोई जादू-वादू नहीं है । रूसमें किसान जब खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त रेडियो बाजा गाना सुनाता है, देस-देस की खबरें सुनाता है और

अब तो वह ऐसी तदवीर कर रहे हैं कि आवाज ही नहीं रूप भी दिखलाई पड़ने लगे और लोग बैठे-बैठे मास्को और लन्दनका नाच और नाटक देखें ।

दुखराम—क्या भैया ! ऐसा भी होने लगेगा ?

भैया—देखते नहीं दुखू भाई ! दस हाथपर खड़े रहते हो और तुम्हारा मुँह दरपनमें दिखाई पड़ता है रूपवाला बाजा भी तैयार हो गया है लेकिन अभी रूप उतना साफ नहीं आता । कुछ दिनोंमें वह भी ठीक हो जायगा ।

दुखराम—होगा भैया ! लेकिन हम लोगोंको तो रेडियो बाजा भी देखनेको नहीं मिलता । कब जोंकोंका नास होगा ? और वहाँ भैया ! सब मेहरारू काम करती हैं ?

भैया—बड़े-छोटे सब घरकी मेहरारू ? यही न पूछ रहे हो दुखू भाई ? लेकिन हमने ब्रतलाया वहाँ कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई जात-पाँत नहीं, सब बराबर हैं । भाई-भाई हैं । जोंकोंके राजमें मन्वन् जैसे मुलायम हाथकी तारीफ की जाती है, सोवियतमें घटा पड़े कड़े हाथोंकी तारीफ होती है । जोंकोंके मुक्कमे कामचोर देहचोरकी इज्जत की जाती है, सोवियतमें मेहनती मजूर-किसान काम करनेवाले लोगकी इज्जत होती है, बीमार, बूढ़े, बच्चेको वहाँ काम करना नहीं पड़ता । नहीं तो जो कोई रानी बनकर बैठी तो दूसरे दिन भूखा मरने पड़ेगा ।

दुखराम—तो रानी फूलमती कुँअरके लिए तो आफत हो जायगी, भैया !

भैया—इसीलिए न राजा-रानी, सेठ-सेठानी, महंत-महथिन, मोलवी-मोलवियानी सब एक ओरसे मरकस बाबाकी सिच्छाको बुरा कहते हैं, रूसको गाली देते हैं । लेकिन दुखू भाई ! वहाँ जो काम करना पड़ता है वह तकलीफ-का काम नहीं होता । गाँव भरकी औरतोंको काम करना पड़ता है लेकिन बच्चा पैदा होनेसे महीना दो महीना पहलेहीसे उन्हें छुट्टी मिल जायगी और बच्चा होनेके बाद भी डेढ़ दो महीने छुट्टी रहेगी । उस बखत भी दूध-दवाई, डाक्टर-दाई सबका खर्च पंचायतकी ओरसे मिलता है । औरते खेत काटनेके लिए आती हैं तो बच्चोंका तम्बू पहले ही पड़ जाता है और दाइयाँ बच्चोंको सँभाल लेती हैं । वहाँ बच्चोंके लिये खिलौना रहता है, पालने रहता है,

दाइयाँ कहानी सुनाती हैं ।

दुखराम—तो वहाँ बच्चोंको पीटा नहीं जाता ।

भैया—बच्चोंके पीटनेका काम नहीं, क्योंकि जब माँ-बाप काम करते हैं तो बच्चे दाइयोंके पास रहते हैं । जब काम नहीं रहता तब बच्चोंको ले आते हैं उनके साथ खेलते हैं, कहानी सुनाते हैं, लाड़-प्यार करते हैं ।

दुखराम—सपना जैसा मालूम होता है भैया ।

भैया—सरगको किसीने नहीं देखा लेकिन हजारों सालसे सरगके नामपर टगे जा रहे हैं । लेकिन मैं जिस सोवियतकी बात कर रहा हूँ वह सरग जैसी सपनेकी चीज नहीं । जो जोंकें हमारा रास्ता न रोके तो यहाँसे पाँचवे दिन उस देसमें पहुँच सकते हैं ।

दुखराम—हवाई जहाज, सुनते हैं, दो घंटेमें कलकत्तेसे चला जाता है ।

भैया—हवाईसे नहीं दुक्खू भाई । दो दिनमें रेलसे पेशावर और वहाँसे काबुल होते तीसरे दिन कमेरोके राजमें पहुँच जाएँगे । किराया भी ४०)से बेसी नहीं लगेगा ।

दुखराम—तब तो भैया बहुत नजदीक है ।

भैया—नजदीक है, लेकिन जोंकोने हजार तरहकी पहरा चौकी बैठाई है, जिसमें बाहरके कमेरे रूसको आँखोंसे न देख सके न वहाँकी बात ठीक तौरसे समझ सके । वहाँके लोग बहुत खुशहाल हैं दुक्खू भाई । गाँव-गाँवमें स्कूल है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, सिनेमाघर है ।

दुखराम—सिनेमाघर भी है गाँव-गाँवमें भैया ?

भैया—हाँ काम सब पंचायती होता है इसलिए हर गाँवमें एक इतना बड़ा घर होता है कि वहाँके सारे नर-नारी बैठ सकें । उसी घरमें सभा होती है जो बड़े गाँव हैं उनमें तो रोज सिनेमाका तमासा होता है, लेकिन छोटे गाँवोंमें सिनेमा मोटरसे घूमता रहता है । आज कनैलामें आया, और दो तरहका तमासा यहाँ दिखला दिया फिर तीसरे दिन यहाँसे भदया चला गया, वहाँ भी दो तमासा दिखलाया । इसी तरह वह आगे बढ़ता गया, दूसरे हफ्ते दूसरी सिनेमा-मोटर आई और वह भी उसी तरह दो-दो तमासा दिखाती चली गई । गाँवमें

पंचायतकी ओरसे दूकान होती है, जिसमें पचासों तरहकी चीजें विकती हैं, और नफाका सवाल नहीं, क्योंकि दूकान गाँव भरकी है। गाँव भरके लोगोने मिलकर खेती की, कपड़ा, जूता, मोजा, सिलाईके भी कारखाने गाँवोंमें होते हैं, उनमें भी जितना काम किया सबका काम बही-खाता पर लिखा हुआ है और कितना पैदा किया वह भी सामने। मान लो दस लाख रुपयाका सामान गाँव ने पैदा किया और दो लाख दिन गाँव भरके लोगोने मिलकर काम किया तो इसका मतलब हुआ एक दिनके कामका ५)। लेकिन पाँच लाखमेंसे पहिले साभेका खर्च, अस्पताल, दाई-घर, पुस्तकालय, नाटकमंडली आदिके लिए दो लाख या जितना हो, निकाल दिया जायगा। अब एक रोजके काम की ४) पैदावार हुई। गाँवमें जिसने जितना दिन काम किया है, उसोके अनुसार पंचायत उन्हें पैसा दे देगी। उससे आदमी घर-घरके लिए कपड़ा बनवायेगा, जूता खरीदेगा या फोनोगिलाफ बाजा खरीदेगा, मेला-तमासा देखेगा, खाना खायेगा।

दुखराम—गाँव भरका चूलहा एक नहीं हो गया है ?

भैया कहीं-कहीं हो गया है, लेकिन बहुत जगह नहीं हुआ है। सहरोंमें ऐसा बहुत हुआ।

सन्तोखी—सहरोंकी भी एकाध बात बतलाएँ भैया !

भैया—सहरोंमें जानते हो न सन्तोखी भाई, सब मकान-जमीन बड़ी-बड़ी, जोंकोंके होती है। राज संभालते ही कमेरोंकी सरकारने जोंकोंकी जायदातको छीन लिया। सहरोंके सब घर कमेरोंके सरकारके। जो भोंपड़ियाँ और गन्दी गलियाँ पहिले थी, उन सबको तोड़करके पाँच-पाँच छः-छः तल्लाके बड़े-बड़े मकान बन गये। जोंकोंके राजमें राजधानीमें तेरह लाख आदमी बसते थे जिनमें आधे सूअरकी खोभारोंमें रहते थे, आज आनादी दुगुनासे भी अधिक तीस लाख है, लेकिन अब उन खोभारोंका पता नहीं है अब सबके लिए अच्छे-अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें, जगह-जगह लड़कोंके खेलनेके लिए बगीचे तथा खेलके मैदान हैं। मकानकी मरम्मत, बिजली-पानीका इंतजाम लोगोंकी चुनी हुई छोटी-छोटी पंचायतें करती हैं। महल्ले-महल्ले रसोई-घर हैं, जिनमें हजार दो हजारसे दस-

दस बारह-बारह हजार आदमियोंका खाना बनता है। सिरिफ दाल-भात उबाल कर रख नहीं दिया जाता बल्कि पचास-पचास साठ-साठ तरहके भोजन बनते हैं। जिन औरत-मर्दोंको रसोई बनानेका काम है वह रसोई-घरमें जाते हैं। सबेरेका जलपान और दोपहरका भोजन करा दिया बस छुट्टी, तिपहरीका जलपान और रातका भोजन बनानेका इंतजाम आकर दूसरी टोली करेगी।

दुखराम—औरतोंको तो वहाँ और भी आराम है भैया ! हमारे यहाँ तो बेचारी पहर भर रात रहते ही चक्की पीसने लगती है, चौका-वासन करना, खाना बनाके खिलाना, बीचमें लड़का रोने लगा तो उसे दो थप्पड़ लगाना, चावल कूटना, दाल दरना, फिर चौका-वासन करना, गोएठेकी धूँ से आखे फोड़ते खाना बनाना, खिलाते-पिलाते आधी रात हो जाती है। बेचारियोंको फिर पहर भर रात हीसे जागना पड़ता है, वहाँ तो इतना काम नहीं पड़ता। भैया।

वहाँ इतना काम कहाँ, बतलाया नहीं, सबेरे ६ बजे ड्युटी पर गईं तो बारह एक बजे तक उनकी छुट्टी। आठ पीसना चावल कूटना तो कल-मसीनका काम है। बरतन धोनेके लिए भी बहुत जगह कल लगी हुई है। मसीन घूम रही है, एक ओरसे बर्तन डालते हैं, एक साबुन लगा देती है, बुरुसवाली मसीन मल देती है, दूसरी मसीन गरम पानीसे धो देती है फिर साफ बर्तन दूसरी ओरसे बाहर चला आता है। औरतने जाकर छः-७ घंटे रसोई घरमें काम कर दिया अब उसे अपने लड़केको लाड़-प्यार करना, मित्रोंसे बात चीत करना, किताब पढ़ना या कोई और मन बहलाव छोड़कर कोई दूसरा काम करना है रके लोग चाहे रसोई-घरके बड़े-बड़े मकानोंमें जाकर खाना खा सकते हैं और चाहें तो गरमागरम भोजन अपने घरमें लाकर खा सकते हैं।

सन्तोखी—दुकान-उकान तो वहाँ भी होगी भैया।

भैया—दुकान बहुत है सन्तोखी भाई और इतनी बड़ी-बड़ी कि जिसमें हजार-हजार आदमी गाहकोंको सौदा बेचते हैं। लेकिन सब दुकानें पंचायती हैं, कमरोंके पंचायती राजकी, चाहे छोटी-सी सिगरेटकी दुकान हो चाहे बड़ीस बड़ी दुकान हो जो लोग बेच रहे हैं वह किसी साहु महाजनके नफाके लिए नहीं कर रहे हैं। सब लोगोंकी ब्युटी है। घंटेसे काम करना पड़ता है वही

६-७ घंटा । फिर अपना मौज करें । बीमार होनेपर डाक्टर मुफ्त, दवा मुफ्त, पथ मुफ्त, और तनखाह भी नहीं कटती । बूढ़ा होनेपर सबको पेन्शन ।

सन्तोखी—तब काहेको वहाँ किसीको चिन्ता होगी ।

भैया—चिन्ता बिलकुल नहीं ! लड़के-लड़कियोंके पढ़नेके लिए फीस नहीं देना पड़ता, और सात बरस तक सबको पढ़ना होता है । दोपहरका खाना लड़कोंको स्कूलसँ मिलता है और डाक्टर जैसा खाना बतलाए वैसा खाना । दो बच्चोंके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे उनका सब खर्च कमेरा सरकार देती है । अढ़ाई रुपया रोजसे कम किसीकी मजूरी नहीं । जो घरमें मरद-औरत दो ही कमानेवाले हों तो भी पाँच रुपया रोज या डेढ़ सौ रुपया महीना तो जरूर ही आएगा । बताओ उनको क्या चिन्ता हो सकती है ?

सन्तोखी—तभी तो भैया ! रूसवाले इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं ? उन्होंने अपने हाथसे धरतीपर सरग रचा, जर्मन जोंकोंके रूसमें बैठनेका मतलब क्या होगा, इसे वह अच्छी तरह समझते थ ।

भैया—स्तालिन वीरने कह कर नहीं दिखाया करके दिखाया । वीस बरससे रूसके कमेरोंका अगुआ है स्तालिन वीर । मरकस बाबाने जोंकोंके जाल-फरेब को देखनेके लिए आँख दी और लड़नेका ढंग बतलाया । लेनिन महात्माने कमेरोंको को लड़नेके लिए तैयार किया फिर पाँच बरस तक लड़ाई लड़ी और दुनियाके छठे भागसे जोंकोंका नाम मिटा दिया । स्तालिन महात्माने सरगको धरतीपर उतारा । गाँवोंको बदल दिया । कारखानोंसे देसको भर टिया । लोगोंको दिखला दिया कि जोंकोंके हटानेसे दुनिया नरकसे सरग बन जाती है । लेकिन स्तालिन वीरने यह भी आगेसे सोच लिया था कि जोंकोंसे हमें लड़ना पड़ेगा । इसीलिए अपने हथियारको मजबूत किया, हर नौजवानके लिए फौजमें दो-तीन बरस रहना लाजिमी कर दिया । सब विद्या सिखाई गई । करोड़ोंकी पलटन तैयार हो गई । मरद ही नहीं औरतों तकने भी हथियार चलाना सीखा । हवाई जहाज उड़ाने लगौं । बच्चे बचपनहीसे सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ हाथ ऊँचे मीनारोंपर से छतरीके सहारे कूद करके निडर होने लगे, जिसमें कि हवाई जहाजसे कूदनेमें उन्हें भय न मालूम हो । मोटरके हलोंको ऐसा बनाया कि ऊपरके थोड़ेसे हिस्सेको

हटाकर दूसरा रख देनेसे वह टंक बन जाता था ।

दुखराम—टंक क्या है भैया !

भैया—टंक आज-कलकी लड़ाईका बहुत जबर्जस्त हथियार है, जिसपर बन्दूककी गोली क्या तोपका गोला भी असर नहीं करता । उसके पहिएमें रबड़की टायर नहीं, मोटी जंजीर होती है । चारों ओर तीन अंगुल मोटे फौलादकी चद्दर लगी रहती है, भीतर ही तोप रहती है । ऊँची-नीची सब जमीनपर चला जाता है । बड़े-बड़े पक्के मकानोंको तोड़ते हुए तो ऐसे घुसता जाता है जैसे सूखे पत्तोंके ढेरमें लोहेका लाल छड़ । स्तालिन बीरने लड़ाईके लिए कमरोंको पहले हीसे तैयार कर लिया ।

सन्तोखी—स्तालिन बीरका तो बहुत बड़ा दिमाग है भैया !

भैया—कमेरोंके लड़कोंमें कितने ही बड़े-बड़े दिमाग पैदा होते हैं लेकिन उनको काम करनेका मौका ही नहीं मिलता । आज जब सारी दुनियाको पछाड़नेवाली हिटलरी फौजको लाल फौजने तहस-नहस किया । भगाकर उसे जर्मनीके भीतर जाकर उसका सत्यानास कर रही है तो सारी दुनियामें लाल फौजके महासेनापति वीर यूसुफ स्तालिनका नाम लिया जा रहा है, सब उसकी बुद्धि और बहादुरीका लोहा मानते हैं । लेकिन स्तालिन वीर मजूरी करके खानेवाले एक चमारका लड़का है और गोरे भी नहीं काले चमारका लड़का है । स्तालिनने चौदह बरसकी उमरसे ही जॉकोंकी जड़ काटनेका काम शुरू किया । चौदह-चौदह बार उसे कालेपानीकी सजा हुई तो भी वह जेलसे निकल भागता रहा और भेस बदलकर कमरोंमें काम करता रहा । कमरोंने जो रूसकी जॉकोंसे पाँच साल लड़ाई लड़ी उसके जीतनेमें लेनिन महात्माके बाद जो सबसे बड़ा दिमाग था वह इसी चमारके लड़केका ।

दुखराम—हमारे यहाँ भी भैया ! हम चमार कहकर अछूत कहकर पशु बनाकर रखे हैं और जिनके साथ जरा भी दया-मायाकी बात कहनेपर पंडित लोग पोथी लेकर मारने दौड़ते हैं । जो जॉकें न रहें, तो उनमें भी न जाने कितने-कितने वीर-बहादुर निकलेंगे कितने दिमागवाले दिखाई पड़ेंगे ।

अध्याय ६

भसमासुर भूतनाथपर चढ़ दौड़ा

भैया—उस दिन दुख्खु भाई तुमने ठीक कहा था, सचमुच ही हिटलरने चही किया जो भसमासुरने भूतनाथके साथ किया । विलायतकी जोंकोंने हिटलरको अपना लाडला बेटा बनाया था । जब (३० जनवरी १९३३को) जर्मनीका राज जोंकोंके इस गुण्डेके हाथमें आ गया तो विलायतकी जोंकें फूली न समाती थीं । उन्होंने सोचा कि हिटलरको इतना मजबूत कर दिया कि वह रूसके बोलसेविकोंपर टूट पड़े और हमारा यह सबसे बड़ा दुसमन बरबाद हो जाय । 'पिछली लड़ाईमें जर्मनीने जो खूनी जंग छेड़ा था, उसको देखकर अंगरेज, फ्रान्सीसी और उनके दूसरे मित्रोंने जर्मनीसे ऐसी-ऐसी सरतें मनवाई थीं कि जिसमें वह फिर सिर उठाने लायक न रह जाय । हिटलर एक ओर अपने देसवालोंसे कहता था कि हमें पगु नहीं रहना चाहिए । दूसरी ओर बाहरी देसोंकी जोंकोंको खुस करनेके लिए वह बोलसेविकोंके सत्यानास करनेकी बात करता था । जर्मनी और फ्रांसके सरहदपर राइन नामकी एक नदी है । जर्मनीने यह शर्त मानी थी कि वह राइनके इलाकेमें कोई फौज नहीं रखेगा और यह भी कि लोगोंको जबरजस्ती फौजी बिदा सिखाकर अपनी सेनाको नहीं बढ़ायेगा । हिटलरने कमरोंको अपनी तरफ खींचनेके लिए भी भूठ बोलना शुरू किया था कि हम भी अपनी खोमका सामवाद (जोंक बिना राज) चाहते हैं । कुछ लोग आसा रखते थे कि हिटलर कमरोंकी भलाईके लिए कुछ करेगा लेकिन हिटलर तो जोंकोंके हाथकी कठपुतली था, उसने तो कमरोंपर ही खूब जुलुम किया । इसपर भूठी आसावाले लोग कुछ तिलमिलाने लगे फिर तो राज सँभाले डेढ़ बरस भी नहीं हुआ कि उसने ३० जून १९३४को हजारों अपने ही साथियोंको बढ़ी बेरदारीसे कतल करवा डाला । इनमें उनके ऐसे भी साथी थे जिनकी मददके बिना वह इतना बढ़ न सकता था । विलायतकी जोंकें और भी खुस हुईं ।

सन्तोखी—क्यों न खुस होतीं, उन्होंने सोचा होगा कि हिटलरके आस-पास जो थोड़े-बहुत जोकोके विरोधी रह गये थे वह भी खतम हो गये ।

भैया—हिटलरने दो साल और तैयारी की और मार्च १९३५में जबरजस्ती सेना बढ़ानेवाली सर्त भी तोड़ दी । पड़ोसी फ्रास बहुत घबराया । विलायती जोके कहने लगीं कि जो फौज न बढ़ायेगा तो बोलसेविकोसे लड़ेगा कैसे ? हिटलरने अब बड़े जोर-सोरसे मेना और हथियार बढ़ाना मुरू किया । साल भर और बीता और ७ मार्च १९३६को राइनके इलाकेमें उसने एक बहुत बड़ी फौज भेज दी । फ्रास बहुत फड़फड़ाया । लेकिन विलायती जोके समझने लगीं कि बोलसेविकोसे लड़नेके लिए हिटलरको ऐसा करना ही चाहिए । दुनियाके लोग आँख मलमलकर देखने लगे । उन्हे साफ मालूम होने लगा कि अब फिर दूसरा महाभारत होगा । बूढ़े वाल्डवीन विलायतकी जोकोके बड़े सरदार वहाँके महामंत्री थे । बुढ़ापेके कारण उन्होंने गद्दी छोड़ी और उनकी जगहपर जोकोका सरदार नेविल चेम्बरलेन ३१ अगस्त १९३७को विलायतका महामंत्री बना । जोकोका सरदार होनेके लिए जितने गुनोंकी जरूरत है वह सब इस आदमीमें थे । और उसके साथी भी उसीकी तरह एकसे एक छूटे थैलीसाह थे । साइमन, होर, और हेलीफॉक्स (जो पहिले हिन्दुस्तानका बड़ा लाट इरविन था) सभी एक ही हॉड़ीके नहलाये हुए थे, “कोउ बड़ छोट कहत बड़ दोसू ।”

सन्तोखी—इरविन वाइसराय ! ऐसे ही ऐसे न हिन्दुस्तानमें बड़ा लाट बनकर आते हैं ।

भैया—और क्या ? जोके बेवकूफ थोड़े ही हैं, छूटे आदमियोंको वह हिन्दुस्तान भेजती हैं । चेम्बरलेन और उसकी गुटका यही मंत्र था, “थैली माता, थैली पिता, थैली बंधू, थैली सखा । चेम्बरलेनने हिटलरको और बढ़ावा दिया । वह समझ गया कि विलायतकी जोके हमारे रास्तेमें कोई बाधा न डालेंगी । उसने १२ मार्च १९३८को आस्ट्रियाके राजपर कब्जा कर लिया । विलायतकी कुछ जोके घबड़ाईं लेकिन उनके सरदारोंकी चंडाल-चौकड़ी तो आसा बाँधि हुए थी कि हिटलर बोलसेविकोंके नासु करनेकी बड़ी भारी तैयारी कर रहा है । हिटलरने पाँच बरसोंमें अपने सारे कारखानोंको लड़ाईका सामान तैयार करनेमें

लगा दिया था, और नौजवानोंको फौजमें भरती कर लिया था। उसके टंक, तोप, हवाई-जहाज और लाखोंकी पलटनका तमासा देखनेके लिए विलायतकी भी जोंकें जर्मनी जाती थीं, और बहुत खुस होती थीं। छः महीने और बीते। सितम्बर १९३८में हिटलरने अपने पूरबके पड़ोसी चेकोस्लोवाकियापर लाल-लाल आँख की। चेम्बरलेन विलायतसे दो-दो बार उड़कर हिटलरके दरबारमें गया। और अन्तमें १९ सितम्बरको उसने, दलादिए (फ्रांस) आदि जोंक सरदारोंने चेकोस्लोवाकियाकी बलि दे दी। पहले उसने थोड़ा-सा हिस्सा लिया, फिर १५ मार्च १९३९को सारे चेकोस्लोवाकियाको हड़प लिया।

सन्तोखी—दूसरे-दूसरे मुल्कोंको हिटलर हड़पता जा रहा था, तो क्यों विलायती जोंकोंको भय नहीं हुआ, आखिर यह देस भी तो जोंकों हीके थे।

मैया—चेम्बरलेन जैसे जोंक सरदारोंका ख्याल था कि चेकोस्लोवाकियासे ही रूस नजदीक है, इसलिए बोलसेविकोंको नास करनेके लिए हिटलरको वह मिलना ही चाहिए। चर्चिल जैसी कुछ जोंकें घबड़ा रही थीं, क्योंकि वह समझती थीं कि जर्मनीकी तागत बहुत बढ़ जानेपर जो कहीं उसने हमारी तरफ मुह मोड़ा तो कैसे जान बचेगी।

सन्तोखी—यह बात चेम्बरलेन और उसकी चंडाल-चौकड़ीकी समझमें क्यों नहीं आई।

मैया—स्वारथी अन्धा होता है। चंडाल-चौकड़ी करोड़पतियोंकी गुट थी। चेम्बरलेनका बाप अपने समयमें विलायतका एक मंत्री था। उसका अपना एक लोहेका कारखाना था। १९०० ई०में दक्षिणी अफरीकामें लड़ाई हो रही थी, चेम्बरलेन मंत्री भी था, उसने कारखानेकी चीजोंका दाम दुगुना-तिगुना कर दिया। फौजके लिए उसीके यहाँसे सामान खरीदा जाता। उसने दोनों हाथसे खूब लूटा। उस वक्त विलायतमें कहावत थी, जितना ही अँगरेजी राज बढ़ता है, उतना ही चेम्बरलेनका ठेका बढ़ता है। यह तो बाप चेम्बरलेनकी बात हुई। बेटे चेम्बरलेनकी भी सुनिष्ट। उसके हथियारके एक कारखाने (बर्मिंघम स्माल आर्म्स)को १९३५में दो-सौ गिन्नी नफा हुआ था लेकिन

उसी कम्पनीने १६३८में साढ़े चार लाख पौंड नफा लूटा—इस वक्त चेम्बरलेन विलायतका महामंत्री था ।

सन्तोखी—सरम होनी चाहिए थी भैया ! अपने ही सरकारका मुखिया और सरकारी खजानेसे इतना-इतना रुपया अपने रोजगारको दिलवाना ।

भैया—जोंकोंके समाजमें ऐसी बातको सरम नहीं कहा जाता, इसे कहते हैं ईमानदारीका व्यौपार ! चेकोस्लोवाकियापर हिटलरने जब दाँत गड़ाया था उस वक्त चंडाल-चौकड़ीको थोड़ा डर तो लगा, लेकिन चेम्बरलेन, वाल्डविन, होर, साइमन, बरसोंसे रुपया बटोरनेमें लगे हुए थे । तोप, बन्दूक, टक, हवाई-जहाज बनानेके लिए करोड़ों रुपया चाहिए और यह रुपये जोंकोंकी ही तोंद काटनेसे न आते, इसलिए वह उसके लिए क्यों तैयार होते । उधर हिटलरके पास पलटन और हथियार अनगिनत थे, वहाँ विलायती समझौने मुट्ठी बाँध ली थी, और अपने कारखानोंसे चौगुने दामपर खरीदे थोड़ेसे हथियार दिखलानेके लिए रखे हुए थे । हिटलर जानता था. कि यह बंदरभभकी देनेसे और अधिक कुछ नहीं कर सकते । अब हिटलरने यूरपके एक बड़े भागपर कब्जा कर लिया था । जर्मनी, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया सभी देशोंके हथियारोंके कारखाने उसके लिए काम कर रहे थे । बीस बरससे सिर भुकाए हुए जर्मनोंको यह सब जादू जैसा दिखाई पड़ने लगा । हिटलरने जर्मन अरिया जातिको सारी दुनियापर राज करनेके लिए भगवानकी ओरसे भेजा गया कहा था, और साथ ही यह भी कि हर जातिमें नेता भी भगवान ही भेजते हैं । हिटलर सारी मानुख जातिपर राज करनेके लिए भेजा गया था, जर्मन जातिको इसका गर्व होने लगा । हिटलरने मक्खनकी जगह बन्दूक बनवानेकी बात कह-कहकर जर्मनोंको आलू खानेके लिए मजबूर किया । उसने दिलासा दिया था कि जब संसार भरपर जर्मन जातिका भंडा गड़ जायगा तब दुनियाके सभी लोगोंका धरम जर्मन जातिके आराम और भोगके लिए काम करना होगा । हिटलर उतावला हो रहा था संसार विजयके लिए । अब उसके सामने दो रास्ते थे एक तो अपने पहले कहे मुताबिक बोलसेविकोंके ऊपर दौड़े और दूसरा रास्ता था बाहरी जोंकोंके ऊपर भपटनेका । फ्रांस, इंग्लैंड सब जगहकी जोंकोंने पैसा बचा-

बचाकर रखा था, फौजके मदमें जो रुपया मंजूर भी किया था, उसे भी चौगुने दामपर रद्दी-सद्दी हथियार देकर लौटा दिया था। जोंकोंके पास न हथियार था, न पलटन थी, जो हिटलरकी फौजका सामना कर सकती। लेकिन बोलिसेविकोंके यहाँ आँखमें धूल भोंकनेकी कोई बात नहीं थी, वह समझते थे कि दुनियाकी जोंकें हमें खा जानेके लिए तैयार त्रैटी हैं। हमारी तभी रच्छा हो सकती है जब हमारे पास अच्छे-अच्छे हथियार और पलटन हों। उन्होंने बीस बरससे बराबर इसके लिए तैयारी की थी। जिस वक्त जर्मनीको निहत्था बना दिया गया था, और वह नाम मात्रके लिए थोड़ी-सी पलटन रख सकता था और जर्मन जरनैल टके-टकेपर मारे-मारे फिरते थे उस वक्त बोलिसेविकोंने उन्हें अपने यहाँ नौकर रखा और लड़ाईकी विद्या सिखानेके लिए कहा। यह जरनैल कई-कई साल रूसमें रह चुके थे। उन्होंने वहाँकी लाल फौजको बहुत नजदीकसे देखा था। हिटलरको मालूम था कि लाल फौजकी और बढ़ना अक्लमंदी नहीं है।

दुखराम—बेचारी जोंकें ताकती ही रह गईं।

भैया—पोलैंड जर्मनी और रूसके बीचमें पड़ता है। पोलैंडने बीस सालसे अपने यहाँ तालुकदारोंका खूनी राज कायम कर रखा था और किसानों और मजूरोंको हर तरहसे पीसना ही अपना काम समझा था। हिटलरने दो-चार मरतबे इन तालुकदारोंको चाय पीनेके लिए बुलाया, फिर क्या था इनका मिजाज आसमानपर चढ़ गया। यह भी तीसमारखाँ बन गए। जब हिटलरने चेको-स्लोवाकिया पर कब्रजा किया, तो इन तालुकदारोंने भी बढ़कर एक परगना पर झपट्टा मारा। हिटलर मुस्करा रहा होगा, मेढक मच्छरको निगलनेके लिए मुँह बा रहा है उसे यह मालूम नहीं कि उसकी पिछली टाँगें साँपके मुँहमें हैं।

दुखराम—तो हिटलर पोलैंड लेनेका निहचय कर चुका था क्या ?

भैया—हिटलर जानता था कि अब आगेका कदम ऐसा होगा कि बिलायत और फ्रांसकी जोंकें चुप नहीं बैठ सकेंगी। वह फ्रांसपर हमला कर सकता था लेकिन फ्रांसकी पलटनके बारेमें बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही जाती थीं। अंग्रेज कहते थे कि दुनियामें तो दो ही पलटन हैं—धरतीकी पलटन फ्रांसके पास और

समुन्दरकी पलटन हमारे पास ।

दुखराम—और धरतीकी सबसे बड़ी पलटन हिटलर से कितने साल तक ठटी भैया !

भैया—तीन हफ्ता ।

दुखराम—तीन साल भी नहीं, तीन महीना भी नहीं, तीन हफ्ता ! और लाल पलटनके बारेमें क्या कहते थे ।

भैया — वह लड़नेवाली पलटन नहीं है, वह खाली तमासा देखनेके लिए है । लेकिन आखिरमें विलायत और फ्रांस और दुनियाकी सभी जोंकोंको लाल पलटनका लोहा मानना पड़ा । विलायती जोंकोंके सरदार चर्चिलने कहा कि लाल पलटन न होती तो हमारा कहीं ठौर-ठिकाना न रहता । लेकिन हिटलर ऐसा नहीं समझता था वह सोचने लगा कि वाकी दो रास्ते हैं पोलैंडकी ओर दौड़ा जाय तो पच्छिमकी जोंके गला फाड़ती भले ही रहें लेकिन वह मदद कुछ भी नहीं कर सकतीं । फ्रांस, वेल्जियम या हालैंडकी ओर बढ़नेपर इन जोंकोंको कुछ करनेका मौका मिलेगा ।

दुखराम—कॉत (दाव) बैठ रहा था ।

भैया—लेकिन पास डालनेसे पहिले उसे कुछ और भी सोचना था । बोलसेविकोंने मुरुसे ही दूसरी सरकारोको समझाया था कि दुनियाकी सांतीके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए । लेकिन जोंकोंको सान्तीसे क्या मतलब ? जब तक अपने घरमें नही लगती तब आग बेसन्तर होती है लेकिन जब हिटलरका खतरा साफ दिखाई देने लगा तब फ्रांस और इंग्लैंडने रूसको अपनी ओर मिलाना चाहा । रूसने सोचा कि जोंकोंका गुंडा ज्यादा खराब होता है, इसलिए इस गुंडे हिटलरको ग्वतम करनेके लिए कुछ किया जा सके तो अच्छा है । फ्रांस और इंग्लैंडने अपने अफसर मास्को भेजे । लेकिन वह हिटलरसे लड़नेके लिए वात करने नही गए थे बल्कि चाहते थे कि हिटलर उतावला होकर रूसपर दौड़ पड़े । लेकिन कमेरोंके नेता कच्चे गुंड्याँ नहीं हैं । स्तालिन बीरने कह दिया कि हम दूमरेकी आगमें जलनेके लिए तैयार नही हैं । जोंकोंके मुखिया मास्कोसे खाली हाथ लौट आए । उधर हिटलरने १३ अगस्त

१९३६ को अपने लड़ाईके मंत्रीको मास्को भेजकर बोलिसेविकोंसे कहा कि न हम तुमपर हमला करें न तुम हमारे ऊपर करो । कागजपर दोनों औरकी दस्तखत हुई । ११ दिन बाद ३ सितंबर १९३६को हिटलरने पोलैंड पर हमला कर दिया । विलायत और फ्रांसकी जोंकोंके लिए कोई चारा नहीं था, उन्होंने भी हिटलरके खिलाफ लड़ाई छोड़ दी लेकिन पोलैंडके तालुकदारोंको कोई मदद नहीं पहुँचा सके । कुछ ही दिनोंमें सारे पोलैंडको हिटलरने ले लिया । लेकिन पोलैंडने २१ साल पहिले रूसके कुछ जमीनको दबा लिया । जब हिटलरकी फौज उधर बढ़ना चाहती थी तो लाल फौजने आगे बढ़कर अपने पुराने इलाके को ले लिया । हिटलर मुँह ताकता रह गया । विलायती जोंकें बकने लगीं कि बोलसेविकोंने तो पोलैंडकी जमीन ले ली और घायल पोलैंडकी बेवसीको देखकर ऐसी कायरता दिखलाई । लेकिन इन जोंकोंको यह कहनेमें जरा भी सरम न आई कि उन्हींके सरदार लार्ड कर्जनने रूसकी सीमा जहाँ तक ठीक की थी, लालसेनाने उतना ही लिया । हिटलरको इस तरह बढ़ते हुए देख बोलिसेविकोंको अपनी सीमाकी रच्छाका पूरा ख्याल करना ही था । रूसकी पुरानी राजधानी और मास्कोके बाद सबसे बड़ा सहर लेनिनग्रात खतरेमें था । फिनलैंडकी सीमा उससे १४ ही मीलपर थी । फिनलैंड भी तालुकदारोंके हाथमें था, उन्होंने ४० हजार कमेरोंके खूनसे अपने हाथको रंगा था और हिटलरके छुटभैया बननेके लिए बराबर तैयार थे । सोवियतने फिनलैंडसे कहा कि इस सीमाको थोड़ा और पीछे हटाओ, हम तुम्हारी बगल हीमें तुम्हें तिगुनी जमीन बदलेमें देते हैं । लेकिन वह इसके लिए क्यों तैयार होने लगे ? वह भी तो समझते थे कि जब तक पड़ोसमें कमेरोंका राज है तब तक हमारी गद्दीकी खैरियत नहीं । फिनलैंडने जब किसी तरह बात नहीं मानी और सरहदकी लाल फौजपर गोली भी चला दी तब कोई रास्ता नहीं था । लाल फौजकी फिनलैंडके तालुकदारोंसे लड़ाई छिड़ गई । उस वक्त चेम्बरलेनको फिर जोश आया ।

दुखराम—हिटलरसे लडनेके लिए ?

भैया—हिटलरसे नहीं, रूससे लडनेके लिए । लाखसे ऊपर पलटन फ्रांस और इंग्लैंडसे भेजी जानेवाली थी लेकिन बीच हीमें फिनलैंडका दिमाग

ठंडा हो गया और उसने सोवियतकी बात मान ली। कमरोंका राज कायम होने-पर चार जातियाँ और बिलुड़ गई थीं, जिनमें एस्तोनियाँ, लतविया, लिथुआनियाँ इन तीनों देसोंकी जोंकोंने अपने मतलबके लिए अपने देसको अलग किया था। वहाँके कमरोंने देखा कि उनके सीमाके उस पार कैसा सुरंग तैयार हो रहा है। तीनों देसोंके कमरोंने अपने यहाँकी जोंकोंको बिदा किया और वोट देकर तय किया कि हम भी सोवियत राजमें सामिल होंगे, और वे १९४०में सोवियतमें सामिल हो गए। दक्खिन-पच्छिममें बेसरावियाका इलाका था जिसे रोमानियाँकी जोंकोंने दखल कर लिया था। सोवियतने रुमानियाँसे अपनी जमीन लौटानेके लिए कहा। रुमानियाँकी जोंके पसंद तो नहीं करती थीं लेकिन करे क्या ? बेसरावियाको छोड़ना पड़ा। सोवियतमें अब सब मिलाकर सोलह बड़े-बड़े पंचायती राज हैं।

दुखराम—नाम क्या-क्या है भैया।

भैया—(१) रूस, (२) उक्रेन, (३) बेलोरूसिया, (४) फिनो-उगुर, (५) एस्तोनिया, (६) लतविया, (७) लिथुवानिया, (८) बसराविया, (९) जार्जिया, (१०) आरमेनिया, (११) आज़ुरबाइजान, (१२) तुर्कमानस्तान, (१३) उज्बेकिस्तान, (१४) ताजिकिस्तान, (१५) किरगिजिस्तान, (१६) कजाकस्तान।

दुखराम—यह तो बड़े-बड़े परजातंतर हैं और कितने ही छोटे-छोटे होंगे ?

भैया—हाँ, लेकिन इनका नाम देनेसे क्या फायदा कभी नकसा मिलेगा तो तुम्हें दिखला देंगे।

दुखराम—हिटलरने आगे क्या किया भैया !

भैया—हिटलर चुप तो नहीं बैठ सकता था। वह जानता था कि जब तक फ्रांस और इंग्लैंडको नहीं पछाड़ते तब तक दुनियाके आधे भागको हम अपनी जोंकोंको चूसनेके लिए नहीं दे सकते।

सन्तोखी—तो हिटलर भी जोंको हीके लिए सब कुछ कर रहा था ?

भैया—जोंकोंका ही तो वह आखिरी नायक था। इंग्लैंड और फ्रांसकी पूँजीपति जोंकोंने अपने यहाँके तालुकदारों (सामंतों)को पछाड़नेके लिए

जनताकी गुहार उठाई थी। काम बन जानेपर तो उन्होंने जनताको चूसनेके सिवाय और कोई काम नहीं किया लेकिन यह काम वह परदा डालकर करते आए थे और वोट और चुनावका नाटक करते थे।

सन्तोखी—नाटक क्यों भैया ?

भैया—जानते हो न, जोंकोंके राजमें वोटकी विक्री होती है। कोई करोड़पति कौन्सिल एम्बलीके लिए खड़ा होगा वह वोटरोको रुपया बँटता फिरेगा। अपने दलालोंको रुपया देकर वोट लेनेकी कोशिश करेगा। उसके सामने कोई किसान-मजूर कैसे खड़ा हो सकेगा।

दुखराम—उसकी जमा-पूँजी तो मोटरके तेलमें ही बिक जायगी।

भैया—इसीलिए मैंने कहा कि जोंकोंके राजमें ईमानदारीसे वोट कैसे दिया जा सकता है। लेकिन, कभी-कभी इस वोटसे जोंके घबराती भी हैं। जर्मनीमें हिटलरने कहा—नेताको भगवान चुनते हैं, इसलिए उसको किसी पाखंडकी जरूरत नहीं लेकिन तब भी अपनी गीत सुनानेके लिए वह कभी-कभी वोटका नाटक खेलता था। उसके गुंडे देखा करते थे कि कोई आदमी वोट देनेसे जी तो नहीं चुराता या गड़बड़ तो नहीं करता। जहाँ पता चला तो बेचारेपर आफत है।

सन्तोखी—गुंडोंको भी भैया जोंके ही पैदा करती हैं ?

भैया—हिटलरने डेनमार्क और नारवे जीता। फिर विल्जियम और हालैंडको खतम किया और तीन ही हफ्तेमें फ्रांसकी जबरजस्त सेनाने भी हथियार रख दिया।

दुखराम—जबरजस्त सेना होनेपर इतना जल्दी हथियार क्यों रख दिया भैया ?

भैया—सुना है, हिन्दुस्तानके किसी राजाका अफसर अंगरेजोंसे मिल गया और उसने किलेमें बारूदकी जगह भूसी भरवा दी थी।

दुखराम—इसी तरहका त्रिसवासघात हुआ फ्रांस में क्या ?

भैया—फ्रांसका राज दो सौ जोंक परिवारोंके हाथमें था। यही वहाँके करोड़पति थे। फ्रांसमें तीन बार कमेरोने अपना जोर दिखलाया था और आखिरी

वार तो कई महीने पेरिसमें राज भी किया था । फ्रांसकी जोंकोंको डर था कि फिर कहीं कमेरे उठ खड़े न हों, इसलिए भीतर ही भीतर वह जरमन जोंकोंसे मिल गए । फ्रांसीसी बहुत बहादुर जाति हैं । वहाँ सिपाही डरना नहीं जानते लेकिन उनके हथियार निकम्मे थे और जरनैल तो और निकम्मे थे । जो तीन महीने में हिटलरने फ्रामको हरा दिया तो इसमें हिटलरी फौजकी बहादुरी उतना कारन नहीं थी, जितना कि फ्रांसकी जोंकोंका विसवासघात । फ्रासके खतम होनेके बाद तो अब जर्मन गुंडोंको दौड़ लगानेकी जरूरत थी । मसोलिनी पहिले ही गिद्धकी तरह ताक लगाए हुए था । अभी वह इंग्लैंड और फ्रांसके जंगी जहाजोंसे डरता था । लेकिन अब पीछे रहनेका मतलब था लूटमें हिस्सा न पाना इसलिए वह भी हिटलरके साथ सामिल हो गया । हंगरी, रुमानियाँ और बोल्गारियाने बिना लड़े ही हिटलरकी गुलामी मान ली । यूगोसलाविया और यूनानको उसने पीस दिया । लड़ाई अफ्रीकामें चली आई । अब सोवियतसे बाहरका सारा यूरोप हिटलरके हाथमें था । सभी मुल्कोंके कल-कारग्याने उसके लिए काम करते थे ।

सन्तोखी—तो यूरोपमें कोई नहीं बच रहा था ।

भैया—बच रहा था इंग्लैंड क्योंकि वह यूरोपसे बाहर समुन्दरके बीचका टापू था । हिटलरके पास उतने जंगी जहाज नहीं थे । अपने हवाई जहाजोंको वह भेजकर लन्दन और दूसरे सहरोंको तहस-नहस करता रहा ।

सन्तोखी—फ्रांसकी जोके तो हिटलरके जूते चाटने लगी, लेकिन चेम्बरलेनका क्या हुआ ?

भैया—जानते हो न जोकोंमें भी बेसी धनी और कम धनीका फरक होता है । दोनो एक-दूसरेसे घिन करते हैं । हाँ, जब जोंकोंके धनपर कमेरे दाँत गाड़ने लगते हैं तब सभी जोंकें एक हो जाती हैं । हिटलर और इंग्लैंडके बीचमें एक पतलीसी खाड़ी रह गई थी । विलायतकी जोंकें घबरा गई । फ्रांसकी दसा क्या हुई, इसको उन्होंने अभी-अभी देखा था । उन्होंने समझा शांतिके समय जिस जोंकसे काम चल सकता है, लड़ाईके समय उसीमे काम नहीं चल सकता । चेम्बरलेनका पाप एक-एक करके गिनाया जाने लगा । बेचारेको गद्दी छोड़नी पड़ी और चर्चिल उसकी जगह महामंत्री बना ।

दुखराम—चर्चिल भी तो जोंक है भैया !

भैया—बड़ी जोंक और हिन्दुस्तानके लिए तो वह काला साँप है । लेकिन इसके बारेमें हम फिर किसी दिन कहेंगे । इतनी बात जरूर है कि हिटलरको बहुत आगे बढ़ते देखकर चर्चिल पहिलेसे ही बोलने लगा था, हमें लड़नेके लिए तैयार होना चाहिए । जोंकोंमें वही आदमी था जो इंग्लैण्डको कुछ आसा दिला सकता था । वह पिछली लड़ाईमें भी लड़ाईका मन्त्री था ?

दुखराम - उसीने न कमेरोंके सज्जको खतम करनेके लिए पलटन भेजी थी ?

भैया—और वह बीस बरस तक सोवियतको गाली देता रहा । लेकिन ब्रिलायत पारलियामेंट सभामें जोंकोंका ही जोर था । इसीलिए उसको महामन्त्री बना दिया गया ।

अध्याय ७

पागल सियार गाँवकी ओर

भैया—दुखू भाई ! बहुत नाम कहनेसे समझनेमें गड़बड़ मच जाती है । यूरपके छोटे-मोटे कितने देसोंका नाम मैंने गिना दिया है । कहनेसे नकसा दिखानेमें जल्दी समझमें आती बात । देखो जो कहीं नकसा मिल गया, तो मैं ले आकर दिखलाऊँगा । लेकिन एक नाँव और सुन लो । अमेरिका, नाम सुना है ?

दुखराम—हाँ भैया ! नाम सुना है सोमारू काका कहते थे कि परागराजमें अमेरिकाकी पलटन आई है । लेकिन भैया ! अमेरिका अंगरेजोंकी इतनी मदद क्यों करता है ?

भैया—कमाके खानेवालोंमें सच्ची दोस्ती हो सकती है, लेकिन लुटेरोंमें कभी नहीं हो सकती । जब हिटलर इतना बढ़ने लगा, तो अमेरिकाको भी भय लगने लगा । उसने समझा जो फ्रांस और इङ्ग्लैण्डको चित करके आधी दुनियापर कबजा हो गया और फिर दलबलके साथ वह हमारे ऊपर भपटा तो

तेरह करोड़ आबादीका अमेरिका उसके सामने कितने दिनों तक ठटेगा । इसीलिए अमेरिका पहिले हीसे इङ्गलैण्ड और फ्रांसको हथियार बँच रहा था ।

सन्तोखी—बेंचनेमें तो नफा ही है न भैया ?

भैया—और खतरा भी है । जो कहीं हिटलर जीत जाता, तब तो पहिले हीसे उसे नराज कर लिया न ! अमेरिकाके परमुख परधान रूजवेल्टने कई बार हिटलरको जली-कटी भी सुनाई ।

दुखराम—दोनोंकी भेट हुई थी क्या भैया ?

भैया—दोनोंके भेंट होनेका क्या काम है दुखरू भाई ! रेडियो बाजा एक-की बात दूसरी जगह पहुँचानेको तैयार ही है । अब सुनो, हिटलर क्या सोच रहा था सारे फ्रांस और सारे यूरोपके ले लेनेके बाद अब वह सोचने लगा कि इङ्गलैण्डकी ओर बढ़े या क्या करें । अमेरिका इङ्गलैण्डकी ओरसे लड़ाईमें कूदनेके लिए तैयार दिखाई पड़ता था । उसने सोचा जो मैं इंग्लैंड और अमेरिकासे भिड़ गया तो अमेरिकाकी तागत बहुत बड़ी है । उसके पास इतने बड़े-बड़े कारखाने हैं कि वह पतंगकी तरह चुटकी बजाते-बजाते हवाई जहाज बनाते जायेंगे । जर्मनीसे करीब-करीब दूनी उसकी आबादी है । वहाँ तक पहुँचनेमें मुश्किल पड़े । और जो कही लड़ाई ज्यादा दिन चली और लड़ते-लड़ते जर्मनी बहुत थोस (निरबल) हो गया । और इधर बोलसेविक चुप-चाप अपनी फौज बढ़ा रहे हैं, हथियारपर सान लगा रहे हैं, फिर तो सब कुछ कर-धरके भी हमें मरना ही होगा । बोलसेविकोंकी कोई ऐसी नियत नहीं थी । हाँ, वह हिटलरकी बातपर कभी विसवास नहीं कर सकते थे ।

दुखराम—जब जोंकोंपर ही विसवास नहीं करते थे तब जोंकोंके गुंडेपर कैसे करते ।

भैया—यूरोप जीतनेसे हिटलरका डिमाग फिर गया । उसने सोचा फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकियाके बड़े-बड़े गोला-बारूद बनाने-वाले कारखाने हमारे लिए हथियार बना रहे हैं, हमारे सामने फ्रांस तीन हफते नहीं ठहर सका । अब हमारी ताकत इतनी है कि बोलसेविकोंको पीस सकते हैं । उसके जरनैलोंमेंसे कुछने समझाया कि लाल पलटनके बारेमें ऐसा सोचना

अच्छा नहीं है। लेकिन वह जरनैलोंकी बातको। माननेके लिए तैयार नहीं था।
दुखराम—क्यों मानेगा ? भगवानने दुनियापर राज करनेके लिए जरनैलोंको भेजा है या हिटलरको ?

भैया—हिटलर यह भी ख्याल करता था, कि चारों खूँट तक विजयपताका गाड़े बिना तो मेरे लिए खैरियत नहीं, जो इतने दिनों तक मक्खनकी जगह आलू खाते आये हैं वह मुझे ही खाने लगेंगे। और इंग्लैंड, अमेरिकाके हरानेमें कमजोर हो जानेपर फिर बोलसेविकोंका कुछ नहीं कर सकेगे।

दुखराम—और बोलसेविकोंके हरानेकी आशामें जर्मनीवाले पचोसों साल तक न आलू खानेके लिए तैयार होंगे और न यही आशा थी कि हिटलर अमिरतकी घरिया पीकर आया है।

भैया—हिटलरके लिए कागजपर दसखत करना कोई चीज नहीं। वह कह ही चुका है, कागजपर दसखतकी जाती है फाड़नेके ही लिए।

दुखराम—जोंकोका यही धरम है।

भैया—आखिर २८ जून १९४१को हिटलरने कमेरोंकी धरतीपर हमला कर दिया। हिटलरने जितनी तैयारी की थी, अभी लाल सेना उतनी तैयार न थी। लाल सेनाको पीछे हटना पड़ा। और कभी-कभी तो दस-दस बारह-बारह मील एक दिनमें पीछे हटना पड़ा। लाल सेना बहुत बहादुरीसे लड़ी। कितने ही बार ऐसा देखा गया कि किलेको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि एक सिपाही जिन्दा रहा लेकिन उसे अपार हानि उठानी पड़ी।

सन्तोखी—उस वक्त तो भैया ! मैंने भी सुना था कि रूस कुछ ही दिनोंमें खतम हो जाएगा।

भैया—हिटलरने खुद कहा था कि मैं तीन मासमें रूसको पीस दूँगा। रूसके ऊपर हमला होते ही चर्चिलके जानमें जान आई। चेम्बरलेन बेचारा तब तक मर गया था नहीं तो न जाने उसे क्या होता। चर्चिल अभी तक आसावान नहीं था। लेकिन अब उसे विस्वास होने लगा कि रूसके कारण इंग्लैंड बच जायगा। हिटलरने अपने दाहिने हाथ हेसको त्रिलायत भेजा था। हेस जिस बड़ी जोंकके घरके पास उतरना चाहता था, वहाँसे दूर किसी जगहमें

उसे हवाई जहाजसे उतरना पड़ा । लोगोंने पकड़ लिया । बात पहिले हीसे खुल गई । तब भी विलायतकी जोकोंको उसने बहुत समझानेकी कोसिस की—हिटलर इंग्लैंडसे दोस्ती करना चाहता है, वह सिर्फ बोलसेविकोंको खतम करना चाहता है । वह पक्का बचन देनेको तैयार है कि वह कभी इंग्लैंड और उसके राजकी ओर आँख नहीं लगायेगा । लेकिन आप लोग हिटलरसे दोस्ती कर लें । उसने बहुत समझानेकी कोसिस की कि बोलसेविक ही हम सबके सबसे बड़े दुसमन हैं । हिटलरके इस काममें सबको मदद देनी चाहिए ।

दुखराम—तो विलायती जोकोंने हिटलरकी बात क्यों नहीं मानी भैया ! वह तो उन्हींकी भलाईकी बात कह रहा था ।

भैया—हिटलरकी बातपर कैसे विसवास कर लेते । चर्चिल जानता था कि जो रूस भी खतम हो गया तो हम अकेले हिटलरसे कभी नहीं बच सकते । उस उक्त अकेले लडना अपने ही हाथों अपने गलेमें फाँसी लगाना होगा ।

सन्तोखी—यह तो ठीक है लेकिन विलायती जोकों बोलसेविकोंको भी तो अपना दुसमन समझती थीं ।

भैया—रूसपर हमला होते ही चर्चिलने रेडियोवाजामें तुरन्त कहा कि इंग्लैंड तन-मनसे रूसके साथ है । साथ ही उसने कहा था कि बीस बरसमें मैंने बोलसेविकोंके खिलाफ जो कुछ कहा है, उसमेंसे एक अच्छर भी लौटानेके लिए तैयार नहीं । यह सब कहते हुए भी चर्चिल इतना जानता था कि बोलसेविक हिटलरकी तरह दूसरे देशोंमें अपनी फौज भेजकर वहाँ के सहरोंको उजाड़कर बच्चों-बूढ़ोंको मारकर रूसका राज कायम करने नहीं जायेंगे । इसीलिए चर्चिलने उस बखत हिटलरके छुटभैया हेसकी बातको टुकरा दिया और स्तालिनसे हाथ मिलाया ।

सन्तोखी—और हिटलरकी फौज जोरसे आगे बढ़ती गई !

भैया—जोरसे बढ़ती गई, और मैं कहीं सन्तोखी भाई ! मुझे एक छनके लिए भी कभी मनमें नहीं आया कि हिटलर लाल सेनाको हरा सकेगा, किन्तु जितनी तेजीसे वह मास्को और लेनिनग्राडकी ओर बढ़ रहा था उससे दिल घबरा रहा था । और मास्कोके बीस मील नजदीक पहुँचनेपर जब लाल पलटन-

की मार पड़ी और जिस बखत जॉक गुंडेको पीछे हटना पड़ा तो लोगोंको पता लगाने लगा कि लाल पलटनने पहिलेसे अपने लड़नेका ढंग सोच लिया था ।

सन्तोखी—लेकिन भैया ! लाल पलटन इतना पीछे क्यों हटती गई, पहिले ही क्यों नहीं पूरी तागतसे लड़ी ।

भैया—सन्तोखी भाई ! जो कोई आदमी जोरसे बेल फेंक रहा हो, और तुम सीधे अपनी हथेलीपर ओढ़ने (रोकने) जाओ, तो पत्थरकी तरह चोट लगोगी; लेकिन तुम दोनों हथेलीके बीचमें उसको आने दो और जैसे ही हाथको छुए वैसे ही हाथको बित्ता दो बित्ता पीछे हटा लो, तो फिर बेलका सारा जोर खतम हो जायगा । इसी तरह लाल पलटनने सोचा कि हिटलर अपनी सारी तागतसे हमला कर रहा है और कहाँ ज्यादा हमला करना है और कहाँ कम यह बात भी वही जानता है, इसलिए इस बखत सरबसकी बाजी लगाकर लड़नेमें हमारा नुकसान ज्यादा पड़ेगा । इसलिए वह हिटलरकी चोटको सहते हुए पीछे हट गई लेकिन कहाँ पहुँचकर फिर पीछे नहीं हटना है, यह भी वह जानती थी । हिटलरने गाल बजाया था कि रूसको तीन महीनेमें खतम कर दूँगा । मास्को पहुँचनेका दिन तक धर दिया था और सिपाहियोंमें बाँटनेके लिए ढेरके ढेर तमगे भी ढाल लिए गये थे । लेकिन मास्कोके नजदीक पहुँचते ही जैसे लाल पलटन अपना पंजा बाहर निकालकर झपटी कि हिटलरको लाखके करीब बढ़िया जवानवाली अपनी मजबूत पलटनको मरवाकर पचासों मील हट जाना पड़ा । लेनिनग्राटसे दस मीलपर हिटलरी पलटन पहुँच गई । और दो बरस तक घेरा डालकर बैठी रही, लेकिन मजाल क्या कि एक कदम आगे बढ़े । इन दोनों बातोंने बतला दिया कि लाल पलटनका पीछे हटना हारे हुए जोधाका भागना नहीं है ।

दुखराम—तो यह उसकी दाँव-पेंच न थी भैया ?

भैया—हाँ, दाँव-पेंच थी । इसी तरह हिटलरको जब सीधे मास्कोपर चढ़ाई करनेकी उम्मेद न रही, तो वह आगेसे घेर लेनेके लिए अब्रोरनेजपर कचकचाके पड़ा, लेकिन लाल पलटनने दाँत तोड़ दिया और हिटलरी गुंडोंको पीछे हटना पड़ा । यह तीसरी जगह थी, जिसने बतला दिया कि लाल फौजके तरकस-

में अभी बहुत तीर है ।

दुखराम—सचमुच ही भैया ! हिटलर और उसकी सेना गुंडोंकी है, नहीं तो इस तरह बचन देकर तोड़ते ।

भैया—बचन तोड़नेकी ही बात नहीं है दुख्खु भाई ! हिटलरने जो जुलूम रूसमें किया है वैसा कभी नहीं सुना गया । वीरका काम है लड़नेवालोंसे लड़ना कि बरस-बरसके बच्चोंको मारते जाना ?

दुखराम—क्यों भैया ! हिटलरने बच्चोंको भी मरवाया ?

भैया—एक दो नहीं, पचासों हजारको । कितनोंको बिखवाली हवा देकर मारा, कितनोंका खून निकाल-निकालकर मारा ।

सन्तोखी—खून भी क्या पीते हैं भैया ?

भैया—वह पीने ही जैसा था । लड़ाईमें जो बहुत घायल होते हैं उनको ताजा खून पिचकारीसे देना पडता है । सब जगह आजकल खून जमा करनेका इन्तजाम है । जवान हट्टे-कट्टे आदमीके शरीरसे खून लिया जाता है । दस सेर खूनमेंसे छटाँक दो छटाँक खून लेनेसे आदमी नहीं मरता । मै भी दो-तीन बार खून दे आया हूँ ।

दुखराम—तो भैया ! तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ?

भैया—तुमने कभी दवाईकी सूई ली है दुख्खु भाई !

दुखराम—हाँ भैया ! एक बेर तिल्ली (बरवट, पिलही) बढ़ गई थी, उसीके लिए चार-पाँच सूई ली थी ।

भैया—तो सूई देनेमें तकलीफ हुई थी कि नहीं ?

दुखराम—क्या तकलीफ होगी, जरा-सा चुन्न-सा काँटा-सा लगा, और फिर सूईके पीछे पिचकारीमें दवा भरी थी, जिसे नसमें डाल दिया ।

भैया—उसी तरह सूई चुभाकर पिचकारीमें खून निकालनेसे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो ज्यादा खून निकाल लिया जाय तो आदमी मर जाता है ।

दुखराम—तो राच्छसोंने ज्यादा-ज्यादा खून निकालकर बच्चोंको मार डाला ?

भैया—हजारों बच्चोंको खून निकालके मारा, हजारों बच्चोंको गोली लगाके

मार दिया, हजारों बेकसूर बूढ़ोंको मारा और औरतोंको तो लाखोंकी तादादमें मारा। हाथ बाँधकर लोगोंको सहरके बाहर ले जाते थे और हुकुम देते थे कि खाईं खोदो। खाईं खोदनेपर, फिर तड़-तड़ गोली चला देते थे, और सब उसी खाईंमें गिर जाते।

सन्तोखी—कैसे आदमीका दिल इतना राच्छस जैसा हो सकता है ?

भैया—मैं भी सन्तोखी भाई ! इन बातोंपर विश्वास नहीं करना चाहता था। जानते हो न लडाईंमें भूठ-साँच भी बहुत चलती है लेकिन जब लाल फौजने हिटलरी गुंडोंको पीछे टकेलना सुरू किया और कमेरोंके सहर और गाँव फिर आजाद होने लगे, तो उन खाइयोंको खोदा गया। पिघली हुई बरफके नीचेसे सैकड़ों लासें निकलीं। उनका फोटो लिया गया। मैंने उन फोटुओंको बंबईमें देखा, तो सच कहता हूँ दिल खौलने लगता है। नन्हे-नन्हे बच्चे, दो बरस, तीन बरस, चार बरसके नन्हें-नन्हें एक नहीं, दो-दो नहीं, पाँच-पाँच, सात-सात सौ मरकर सूखे पड़े हुए हैं। औरतोंको पेट फाड़कर बेइज्जती करके मारा गया। सैकड़ों बेकसूर आदमियोंको फाँसीपर झुलाकर महीने-महीने तक सहरके चौरस्तेपर लटका छोड़ दिया।

दुखराम—तो इन राच्छसोंको गुंडा ही कहनेसे काम नहीं चलेगा, और कोई नाम ढूँढना चाहिए।

भैया—उनका जुलुम भी ऐसा है दुक्कू भाई, कि जुलुम कहनेसे वह पूरा समझमें नहीं आ सकता लेकिन जब गुंडोंने इस तरह जुलुम करना सुरू किया एक-एक सहरमें चालिस-चालिस पचास-पचास हजार निहत्थे आदमियोंको मार डाला। सोवियत निवासियोंने भी जानपर खेलना सुरू किया। बारह बरसके लड़केसे सौ बरसके बूढ़ों तकने जान हथेली पर रखकर गुंडेके साथ मुकाबिला करनेका निहचय किया। जो इलाका जर्मनोंके भी हाथमें चला गया था वहाँके कितने ही नरनारी जंगलोंमें भाग गए और उन्हें तो अपने इलाकेका कोना-कोना मालूम था। गाँवकी गली-गली अँगुलीपर थी। ~~इस~~ रातको जिस वक्त भी मौका मिलता जर्मन पलटनियोंपर छापा मारने लगे। छापा मारके सिपाहियोंके बन्दूक मसीनगन सब छीन लेते थे। कुछ ही समयमें सारा इलाका छापामारोंसे

भर जाता और जर्मनीको अपनी छावनियोंसे बाहर निकलनेकी हिम्मत न होती ।

दुखराम—छापामार क्या भैया ?

भैया—अपने दुसमनोंसे बदला लेनेके लिए जो यह बहादुर लोग दिन या रातको, इक्के-दुक्के या गफलतमें पाकर हमला करते, इसीको छापामारना कहते हैं । इसीलिए इन बहादुरोंको छापामार कहते हैं ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! जब बराबरका जोर नहीं हो और एकके पास बड़े-बड़े हथियार और दूसरेके पास मुसकिलसे कहीं एकाध बन्दूक हो फिर यह छोड़ दूसरा रास्ता क्या था ?

भैया—हाँ सन्तोखी भाई ! जर्मनोंके पास हजार-हजार पन्द्रह-पन्द्रहसी मनके टंक थे, अनगिनत हवाई जहाज थे, बड़ी-बड़ी तोपें थीं, मिनट-मिनटमें हजार गोली चलानेवाली मसीनगने थीं । उबर लाल पलटन पीछे हट गई थीं, और वहाँ रह गये थे गावों-सहरोंके निहत्थे नर-नारी । किन्हीं-किन्हीं गावोंमें तो बन्दूकें भी न थी, क्योंकि जर्मन गाँवमें पहुँचते ही बन्दूक छीन लेते थे, फिर खाने-पीने की चीजे, रुपया-पैसा सब छीन लेते थे । लेकिन सोवियतके कमेरे जानते थे कि हमारे संरगमें यह राञ्छस घुस आए हैं । इनको सान्तिसे नहीं बैठने देना होगा । कभी-कभी तो बिना एक भी बन्दूकके छापामारोंने अपना काम सुरू किया । जंगलमेंसे आकर कहीं अंधेरेमें छिपे रहते । जोखिम तो था, लेकिन गाँवके लोग जंगलमें छिपे छापेमारोंके पास खाना पहुँचाते थे । गुन्डे कहाँ-कहाँ हैं, इसकी खबर देते थे । गुन्डे सिपाही चौबीस घन्टा तो सजग नहीं रह सकते और न चौबीसों घन्टा एक जगह एक हातेमें बन्द रह सकते थे । छापेमार अचानक उनके ऊपर कुल्हाड़ा, कुदाल, भाला कोई चीज लेकर टूट पड़ते । चार गुन्डोंको मारा, तो चार बन्दूक और गोली-गन्ठा मिला ।

सन्तोखी—फिर तो सूद-मूर लेकर इसी तरह बढ़ता चला जायगा ।

भैया—हाँ, दो बन्दूक छीनी, फिर अब दो बन्दूक लेकर छापे मारे और चार नई बन्दूकें हाथमें आईं । इस तरह सैकड़ों, हजारों बन्दूकें, मशीनगने हाथके बम, पिस्तौल और बहुतसे हथियार छापामारोंके हाथमें चले आए । टैंक और बड़ी तोप भी कभी-कभी पकड़ लेते थे, लेकिन उनको जंगलोंमें

ले जाकर छिपाना आसान नहीं था। बाकी हथियारोंको छापेमार खूब चलाते थे।

दुखराम—खूब जवाब दिया भैया ! रूसके कमेरोने और खूब बहादुरी दिखलाई।

भैया—दुनिया चकित है दुखू भाई ! उनकी बहादुरीसे। जर्मन सिपाहियों हीको वह नहीं मारते बल्कि रास्तेकी सड़कों, पुलों, रेलोंको तोड़ देते थे जिसके वजहसे जर्मनोंको सामान पहुँचाना मुश्किल होता था। उनके सामनेसे लाल पलटन लड़ रही थी, और पीछेसे लड़ रहे थे लाखो छापामार और छापामारिनें। इतने बहादुर लड़नेवाले साथी अँगरेजोंको मिले, तब उनका भी हौसला बढ़ा।

सन्तोखी—भैया, रूसके कमेरोकी बहादुरी और उनका मरकस बाबाके रास्तेपर चलनेकी बात देखकर तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भरके कमेरे उनके साथ प्रेम करते हैं, और सगे भाईकी तरह समूची दुनियाके कमेरोका दुख-सुख एक-सा है, और हैं भी वे सगे भाई। लेकिन अँगरेज जोंके जो अबकी बच गईं, यह अच्छा नहीं हुआ।

भैया—जब पहिले जोंको ही जोंकोकी लड़ाई थी तो सन्तोखी भाई, मैं तुमसे क्या कहता था ?

सन्तोखी—यही कि तालुकदारों-तालुकदारोंके झगड़ेमें हमको मरनेकी जरूरत क्या ? भले दोनों लड़ मरें।

भैया—हाँ, तो उस वक्त लड़ाई जोंको-जोंकोकी थी, विलायती जोंके दो सौ बरसोंसे हमारा खून चूस रही हैं, उन्होंने हमारी छातीपर कितना कोदो दला है, उस सबको देखकर हम क्यों इन जोंकोकी मदद करने जायँ। लेकिन जब गुन्डा हिटलर कमेरोके राजपर चढ़ दौड़ा तो बिलकुल रंग बदल गया। पानीकी नाली बह रही हो, तुम उसमेंसे अँजली भरकर पियोगे, प्यास बुझाओगे। लेकिन, उस नालीमें जैसे लाल जहरकी पुड़िया डाल दी गयी उस पानीका गुन बदल गया न ?

दुखराम—हाँ भैया, हिटलरने जिस दिन हमारे कमेरे भाइयोंपर हमला

किया, बच्चोंको खून निकाल-निकालकर मारा, निहत्थोंको उनके हाथ कबर खुदवाकर गोली चलवाई तो दुनियामें कौन कमेरा—किसान, मजूर होगा जिसके आँखसे आग न निकलने लगे और हिटलरको कच्चा खा जानेके लिए तैयार न हो ।

भैया—ठीक कहा दुक्खू भाई ! हिटलरने जिस दिन सोवियतके कमेरोंपर हमला किया, उसी दिन दुनिया भरके मजूरों-किसानोंपर हमला कर दिया । हिटलर जोंकोंका सबसे बड़ा खूनी राज कायम करना चाहता है, उसने अपने यहाँ के किसानों-मजूरोंको पीसा । पहिले हीसे हम यह सब जानते थे और हिटलरको फूटी आँखों भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब तक उसकी लड़ाई सिर्थ जोंकोंसे रही तो एक जोंकको छोड़कर दूसरी जोंकको हम कैसे पसन्द करते । लेकिन अब बात वैसी नहीं थी । जो हिटलर रूसको जीत लेता तो दुनियासे मजूर-किसान राज खतम हो जाता । हजारों बरसोंसे बड़े-बड़े महात्माओं और त्यागियोंने सपना देखा था कि एक ऐसा मानुख समाज हो जिसमें जोंकोंका नाम न रहे । उनका सपना ठीक था लेकिन रास्ता वह ठीक नहीं जान सके ।

दुखराम—रास्ता तो भैया मरकस बाबा हीने बतलाया ।

भैया—हाँ, मरकस बाबा हीने बतलाया । फिर पेरिसमें लाखों मजूरोंने प्राण दिया कमेरा राज्य कायम करनेके लिए ; फिर रूसमें करोड़ों कमेरोँने लड़ाई और भूखसे जान दी तब जाकर दुनियामें पहले-पहल एक मजबूत कमेरा राज कायम हुआ । पच्चीस बरसमें उसने दुनियाके छूटे हिस्सेको बहुत कुछ सरग बना दिया । उसको देखकर दुनिया भरके कमेरोँकी हिम्मत बढ़ी कि हम भी किसी दिन जोंकोंको निकालकर बाहर करेंगे । जो रूससे कमेरा राज खतम हो जाता तो दुक्खू भाई ! यह सारी दुनियाके कमेरोँका नुकसान होता कि सिर्फ रूस ही वालोंका ।

दुखराम—सारी दुनियाके कमेरोँका भैया ! मैं तो जानता हूँ कि खूँटेके बलसे बछरू (बछड़ा) कूदता है । जब हमने रूसके कमेरा राजके बारेमें सुना तो उसीसे हमारी भी हिम्मत न बढ़ी, और हम भी लाल भूएडा लेकर

कूटने लगे ।

भैया—एक सड़ी मछली तालाब गन्दा कर देती है, दुनियामें एक भी जोक बच जाय, तो भी कमरोंके लिए खतरा है । और एक बार मानुख जातिमें जोंकोंकी इतनी भारी हारके बाद वह फिर पहिलेकी तरहसे सारी दुनियापर छा गई तो लाल भण्डा फहराना सैकड़ों बरसकी बात हो जायगी । दुनिया जोंकोंके लिए अकण्टक हो जायगी ।

भैया—इसीलिए दुखू भाई, जिस दिन हिटलरने सोवियतपर धावा बोला उसी दिन मैंने अपने दोस्तोंसे कह दिया कि अब जोंकों-जोंकोंकी लड़ाई नहीं है । हिटलरके हरानेका मतलब है कि जोंकोंके सबसे बड़े गुन्डोंको खतम करना, ऐसे गुन्डेको खतम करना जिसकी ओर सारी दुनियाकी जोंके आसा लगाये बैठी थीं । सोवियतका जीतना दुनिया भरके कमरोंकी जीत है ।

सन्तोखी—यह बात साफ मालूम हो रही है भैया !

भैया—हिटलरने जब मासको-लेनिनग्राडका रास्ता बन्द देखा तो दक्खिन-से बढ़ा और बढ़ते-बढ़ते बोल्गा-गंगाके किनारे बसे स्तालिनग्राड सहर तक पहुँच गया । स्तालिन वीरने अपने लाल जरनैलोंको हुकुम दिया कि अब एक कदम भी पीछे नहीं हटना है और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटे । यहींपर हिटलरको सबसे बड़ी हार खानी पड़ी । उसके दो लाख सिपाही मारे गये और एक लाख सिपाहियोंको लाल पलटनने कैद किया । हिटलरको जो वहाँ हार नहीं हुई होती, तो वह बाकू होते बाकूकी तेलक्री खानोंको लेते ईरानमें पहुँचता और फिर उसके बाद हिन्दुस्तान ही रह जाता था ।

दुखराम—तब तो भैया स्तालिनग्राडकी लड़ाई रूसके ही कमरोंके लिए खतरेकी चीज नहीं थी बल्कि हिन्दुस्तानके लिए भी खतरा हो गया था ।

भैया—फिर हिटलरी गुंठे हिन्दुस्तान भी आते । यहाँ भी वे लाखों औरतोंकी इज्जत लूटते, बच्चों-औरतोंके खूनसे अपने हाथ रंगते और सैकड़ों सहर और गाँव जलाकर छार कर जाते । लेकिन लाल पलटन पूरी तैयारीके साथ हिटलरका दाँत खट्टा करनेके लिए तैयार थी । स्तालिनग्राडपर मार खाकर जो हिटलर पीछेकी ओर भगा, तो भागता ही गया । फिर उसका पैर कहीं नहीं ठहरा ।

हिटलर एक हजार मील तक सोवियतकी धरतीमें घुस आया था । लेकिन अब पिटाई सुरू हुई । एक-एक जगहसे पिटता वह घरकी ओर भगा । पागल सियार गाँवकी ओर आया, जब लाठी पड़ने लगी तो अपनी माँदकी ओर भगा । सोवियतकी अंगुल-अंगुल धरतीसे पापी निकाले गए । अब वह अपनी धरतीपर भगकर गये, लेकिन लाल फौज इन पागल सियारोंकी माँदमें बैठकर भी जीने नहीं देगी । उसने तय किया है कि पागल सियारोंमेंसे एकको भी नहीं छोड़ा जाय ।

दुखराम—और भैया, इन गुंडोंने जो बच्चोंको मारा है, औरतोंको इज्जत त्रिगाड़कर गोली मारी है, इसका भी बदला खूब लेना चाहिए । इन गुंडोंको कुत्तेकी मौत मारना चाहिए ।

भैया—लाल पलटन बदला लेगी दुखू भाई, लेकिन पागल बनकर बदला नहीं लेगी । स्टालिन वीरने कह दिया है कि जर्मनीके कमरोंको वहाँकी जनताको हम अपना दुसमन नहीं मानते । राच्छस आततायी हैं हिटलरी गुंडे, हम इन्हीं गुंडोंको उनके कियेका मजा चखायेंगे । फिर जर्मनीकी जनता गुंडोंके हाथसे छुट्टी पायेगी ।

सन्तोखी—तब तो भैया, जर्मनीमें भी अब जोंकोंकी खैरियत नहीं है, वहाँ भी हिटलरी गुंडोंके खतम होनेके बाद कमरों हीका राज कायम होगा, लेकिन त्रिलायत और अमेरिकाकी जोंके इसको क्या पसन्द करेंगी ?

भैया—जोंके क्यों पसन्द करने लगीं ? लेकिन स्टालिन वीरने कह दिया है कि वहाँ ऐसा राज कायम हो कि इसे वहाँ हीके लोगोंपर छोड़ देना चाहिए और न लाल पलटन अपने मनका राज कायम करनेकी कोशिश करेगी और न इंग्लैंड-अमेरिकाको ऐसी कोशिश करनी चाहिए ।

सन्तोखी—लेकिन भैया, बाहरकी जोंकोंने जो मदद नहीं किया और उधर जर्मनीकी बड़ी-बड़ी जोंके और उनके पायक हिटलरी गुंडे खतम हो गये, तो वहाँ कमरोंका राज छोड़ दूसरा कौन राज कायम हो सकता है ।

भैया—लेकिन सन्तोखी भाई इंग्लैंड और अमेरिकाकी जोंके चुप तो नहीं रहेगी । सोवियत और लाल पलटनको देखने हीसे उनका प्राण निकल रहा

था, जो सात करोड़के जरमनीमें भी कमेरा राज, कायम हो गया, तो दुनियामें जोंके' कै दिन टिकेंगी ।

दुखराम—तो कहीं ऐसा न हो भैया, कि जोंके' हिटलरसे सुलह कर लें ।

भैया—सुलह नहीं कर सकतीं सन्तोखी भाई ! जिस दिन चर्चिल सुलहकी बात भी जीभपर लायेगा, उस दिन ही विलायतके जोंकोंकी खैरियत नहीं । विलायतके लांगोंने तीस साल पहिलेकी लड़ाईमें भी अपने लाखों बेटोंको मरवाया उस वक्त भी विलायती जोंकोंने उनके सामने बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कहीं, जिनसे मालूम होता था कि अब कमेरोंकी जिन्दगी सरगकी जिन्दगी हो जायगी । लेकिन जब वह लड़ाई खतम हुई उसके बादके इक्कीस सालोंमें उनकी जिन्दगी और अधिक नरक बन गई । तीस-तीस, चालिस-चालिस लाख तक आदमी बेरोजगार हो गए, उन्हें भूखे मरना पड़ता था और वाल्डविन चेम्बरलेन जैसी जोंकोंने हजारोंकी जगह लाखोंका नफा कमाया । जब तक हिटलर खतम नहीं हो जाता तब तक विलायती जोंकोंको पैतरा बदलनेके लिए कोई जगह नहीं है ।

सन्तोखी—लेकिन हिटलरके खतम होनेके बाद सायद वह रूससे लड़ पड़े ।

भैया—तुम यही खयाल करके कह रहे हो न सन्तोखी भाई ! कि जोंके' नहीं चाहेंगी कि जरमनी जैसे बड़े मुल्कमें कमेरोंका राज हो जिससे सारी दुनिया की जोंकोंके आगे अंधेरा छा जाय । लेकिन इस लड़ाईका फल क्या होगा, इसके बारेमें हम किसी दूसरे दिन बतलायेगे । अब तुमको यह जानना चाहिए कि क्या बात थी कि हिटलरो फौजके सामने फ्रासकी जैसी जबरदस्त सेना तीन हफ्ते भी नहीं ठहर सकी । वहाँ हिटलर तीन महीनेमें रूस ले लैनेकी बात कहकर गाल बजाता ही रहा, लेकिन अब उसको रूसकी धरती छोड़कर अपने घरमें लडना पड़ रहा है ।

सन्तोखी—और अब तो जान पड़ता है भैया कि गुंडे बहुत दिन तक नहीं ठट सकते, उनके सिरपर काल नाच रहा है ।

भैया—ठीक है और इसका कारण यही हुआ कि पागल कुत्ता रूसकी

ओर दौड़ा। मैंने बतलाया न कि सोवियतके कमेरे कितने तैयार हैं। लाल सिपाही तनखाहके लिए नहीं लड़ता।

दुखराम—तनखाहके लिए लड़ते हैं जोंकोंके सिपाही। जोंकें तनखाह छोड़कर कोई ऐसी चीज उनके सामने नहीं रखती हैं कि जिसके लिए वह जी-जानसे लड़ें।

भैया—रूसमें कमेरे अपने ही अपनी पंचायत चुनते हैं और यही पंचायत राज चलाती है। गाँवमें भी १८ वरससे बेसीके मर्द-औरत वोट देकर पंचायत चुनते हैं, जिलेकी भी पंचायत वही चुनते हैं, अपने-अपने प्रजातंत्रकी भी पंचायत उन्हींको चुननी होती है। फिर हिन्दुस्तान ऐसे सात देसोंके बराबर सारे सोवियत देसकी सबसे बड़ी पंचायत वही चुनते हैं।

दुखराम—तो नीचेसे ऊपर तक सब पंचायती ही काम है भैया !

भैया—हाँ, सब पंचायती है। सबसे बड़ी पंचायत (महासोवियत)के लिए तीन लाख आदमीपर एक लाख आदमी चुना जाता है। उस पंचायतके दो हिस्से या घर हैं, एक घरके लिए हर तीन लाखपर एक आदमी चुना जाता है। दूसरे घरके लिए हर खोमका आदमी चुना जाता है, चाहे कोई खोम पचास ही हजार आदमियोंकी हो। रूसी खोमकी आबादी बारह करोड़के करीब है। और हिन्दुस्तानके पड़ोसमें रहनेवाली ताजिक खोम चौदह ही लाख है, लेकिन दोनों पचीस ही पचीस पंच चुनते हैं। इसीलिए कि जिसमें ज्यादा आदमी रहनेवाली खोमके ही पंच न अधिक चुन लिए जायें। यही बड़ी पंचायत सारे सोवियत देसके मंत्रियोंको चुनती है। स्टालिन वीरने सोवियतको जितना धनवान, बलवान बना दिया है, उसके कारन सोवियतका बच्चा-बच्चा उसे प्रानसे भी अधिक प्यारा समझता है। लेकिन इस लड़ाईके पहिले स्टालिन वीरने कोई सरकारी दर्जा नहीं लिया था। जब लड़ाईका खतरा बहुत बढ़ गया तो बड़ी पंचायतने स्टालिनको ही अपना महामंत्री और महासेनापति बनाया।

दुखराम—और स्टालिन वीरने वह करामात दिखाई कि सोवियत क्या दुनिया भरके कमेरे कभी उनका उपकार नहीं भूलेंगे।

भैया—सोवियतने अपनेको फौलाद जैसा मजबूत बनानेका काम बहुत

पहलेसे सुरु कर दिया था। जरनैल, जानते हो, पलटनका सबसे बड़ा अफसर होता है, उसके ऊपर मार्शल होता है। जॉकोंके राजमें पचास बरसकी उमरसे पहिले कोई जरनैल बननेका सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन सोवियतमें बत्तिस-बत्तिस तैतिस-तैतिस बरसके जरनैल हैं। पैतिस-छत्तिसके तो वहाँ मार्शल हैं। चार साल पहिले जो यह बात सुने होते, तो बिलायतकी जॉकें जानते हो क्या कहतीं।

दुखराम—क्या कहतीं भैया !

भैया—कहतीं कि जिनको अभी माँका दूध पीना चाहिए उन. छोंकरोंको जरनैल बना दिया।

दुखराम—तो जॉकोंके यहाँ बूढ़ों हीका मान ज्यादा है ?

भैया—सोवियतमें भी बूढ़ोंका मान करते हैं लेकिन जवानोंपर उनका विसवास ज्यादा है। जानते हो न लड़ाईके हथियार और लड़ाईके दाँव-पेचमें रोज नई बातें निकलती आती हैं। नई बातोंको नया दिमाग जितनी जल्दी पकड़ सकता है उतना जल्दी बूढ़ा दिमाग नहीं पकड़ सकता।

दुखराम—हाँ भैया ! तीर-धनुसके जमानेके जरनैल जो आजकी लड़ाईमें जरनैल बना दिए जायँ तो उनके दिमागमें तीर-धनुस ही ज्यादा रहेगा, उनकी पैतराबाजी भी उसी जुगकी होगी। जुमराती दादाको देखते नहीं, नब्बे बरससे इधरकी कोई बात ही नहीं करते। लड़के साबुन लगाते हैं तो उसपर भी गाली देते हैं। बहुओंके साबुन लगानेकी बात सुनते हैं तो कह देते हैं बस सब बेसया हो गई। बूढ़ोंका दिमाग ऐसा ही होता है न। मैं तो समझता हूँ भैया ! फ्रांसके इतना जल्दी हारनेके भी कारण ऐसे बूढ़े जरनैल रहे होंगे।

भैया—यह बात बिल्कुल ठीक है दुखरू भाई ! बिलायतके जरनैलोंकी भी वही हालत है। पाँच हिस्सामें चार हिस्सा हिटलरकी फौज लाल सेनासे लड़नेमें लगी हुई है। लेकिन पाँचवे हिस्से पलटनसे भी लड़नेमें यह बूढ़े जरनैल चीटीकी चालसे बढ़ते हैं। अफरीकामें यही देखा, इटलीमें यही देख रहे हैं और फ्रांसमें भी अँगरेजोंकी पलटन यही कर रही है। एक तो इनके जरनैल पचास-साठ बरसके बूढ़े होते हैं ऊपरसे तालुकदारों और करोड़पतियोंके बेटे।

दुखराम—एक तो करैला (तितलौकी) दूसरे नीमपर चढ़ा, लेकिन जोंकोंका इसमें भी मतलब होगा कुछ भैया !

भैया—कुछ नहीं, बहुत मतलब है। एक तो बिलायतके तालुकदारों-जमींदारोंमें बापकी मिलिकयतका मालिक सिर्फ बड़ा लड़का होता है। छोटे लड़कोंको कोई नहीं पूछता। उनके लिए भी खाने-चबानेका कोई इन्तजाम होना चाहिए। दूसरे जोंकें भी समझते हैं कि सिपाही तो कमेरोंके बेटे हैं जो अफसर भी कमेरोंके बेटे हो गये, तो पलटन हमारे हाथमें न रहेगी। पलटन हीके बलपर न जोंकें कमेरोंका खून चूस रही हैं। इसी वास्ते तालुकदारों और जोंकोंके ही लड़कोंको अफसर बनाया जाता है। जो कहीं मामूली आदमी किसी तरह घुसकर छोटा लफटेन्ट हो भी गया, तो बिना बड़े अफसरोंके सिफारिसके तरक्की होगी नहीं और बेचारेको कस्तान और मेजर तक ही जिन्दगी बिता देनी पड़ती है। दूसरी ओर सिफारिसके बलपर तालुकदारोंके नालायक लड़के भी खट-खट ऊपर चढ़ते चले जाते हैं।

दुखराम—तब तो भैया पलटनमें भी जोकोन 'छीया-छीया' कर दिया ?

भैया—ऊपर-भीतर, अगल-बगल सब जगह जोंकोंकी लास सड़ रही है। नाक बिना लोग परख नहीं पाते। यही भाग समझो कि लाल पलटन लड़नेके लिए चली आई, नहीं तो ये नवाब कहीके नहीं रहते। अंगरेज कमेरोंके लड़के लड़नेमें किसीसे कम नहीं हैं। लेकिन सोवियतका कुछ दूसरा ढंग है। वहाँ जवानोंपर पूरा विसवास किया जाता है। तालुकदार, नवाब जोंकें रह ही नहीं गई हैं कि उनके लड़के पलटनमें आवे और सिफारिसके बलपर जरनैल बन जायें। वहाँ सिपाहीसे लेकर जरनैल-मार्शल तक सभी कमेरोंकी सन्तान हैं। तरक्की होनेमें कोई देर नहीं लगती यदि आदमी लायक है। कोयलाकी खानका मजूर वोरोसिलोफ आज मारसल है। सोवियतमें लड़कोंके पढ़ने-लिखनेका इन्तजाम ही ऐसा है कि जिसमें जिस कामके लायक काबिलियत है वह वहाँ पहुँच जाते हैं।

सन्तोखी—क्या बात है भैया ?

भैया—मैंने पहले बतलाया है न कि वहाँ हर लड़के-लड़कीको जबरदस्ती

पढ़ाया जाता है। मास्कोमें नौ बरसकी पढ़ाई है और बाकी सारी सोवियत भूमिमें सात बरसकी। सातवें बरससे पढ़ाई सुरू होती है और चौदहवेंमें खतम होती है।

सन्तोखी—हिन्दुस्तानसे सातगुना बड़ा सोवियत देस है न भैया ? तो क्या सब जगह एक-एक गाँवमें मदरसा है ?

भैया—हाँ, जैसे हवा, पानी, अन्न वैसे ही वहाँ पढ़ाई समझी जाती है। फिर लड़के तो मदरसामें सात बरसके होकर जाते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई पैदा होते ही होने लगती है।

दुखराम—पैदा होते कैसे लड़का पढ़ेगा भैया ?

भैया—हमने कहा था न कि वहाँ बच्चोंके रखनेके लिए दाईघर बने हुए हैं। माँ जब काम करने जाती है तो बच्चेको दाईघरमें दे आती है। दाइयाँ बेपढ़ औरतें नहीं हैं। वह भी पढ़ी-लिखी रहती हैं और यह भी सीखे रहती हैं कि बच्चोंको कैसे रखना चाहिए। पालनेवाला बच्चा पालनेमें भूलता है, आँखसे जिस चीजके देखने, कानसे गाना सुनने या तरह-तरहके खिलौनोंको देकर उनको बहलाया ही नहीं जाता बल्कि हर तरहको चीजका ज्ञान कराया जाता है। जब लड़के कुछ बोलने और बात समझने लगते हैं, तब उन्हें ज्ञान बढ़ानेवाली छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लड़कोंके खेलनेके लिए हरेक दाई घरमें सैकड़ों खिलौने होते हैं, मोटर होती हैं जो चाभी देनेसे चलती हैं। रेल और हवाई जहाज होती हैं वह भी चलते हैं। कुछ बड़ा हानेपर लड़कोंके अपनी रेलवेलाइन हैं जिसमें इञ्जन चलानेवाला भी लड़का है, गाड़ भी लड़का ही है और तीन-तीन चार-चार मील तक वह अपनी रेल चलाकर लौटाते हैं।

दुखराम—भैया ! इतने छोटे-छोटे बेबूझ लड़कोंको इञ्जन थमा दिया जाता है, तो खतरा नहीं होता ?

भैया—खतराकी बात उनको पहिले बतला दी जाती है। और उनका इञ्जन भी पाँच-छः मीलसे बेसी घन्टेमें नहीं चल सकता। लड़के तो देखते ही सो कि पहिले खड़े होते हैं तो गिरते ही हैं तो क्या पैर टूटनेके डरसे उनको

खेलने न दिया जाय । कितने माँ-बाप लड़कोंको पेड़पर चढ़ने नहीं देते, पानीमें तैरने नहीं देते लेकिन यह ठीक नहीं है । आदमीका बच्चा पान-फूल बनाकर रखनेके लिए नहीं है । जवान होनेपर न जाने वह कहाँ-कहाँ जाएगा, कहीं जंगलमें जान बचानेके लिए उसे पेड़पर चढ़ना होगा, नाव डूबनेपर तैरना पड़ेगा ।

दुखराम—लो सन्तोखी भाई तुम भी सामूको पान-फूल बनाकर रखते हो न ?

सन्तोखी—हाँ भैया, हमें भी यह बात ठीक नहीं मालूम होती, हाथ-पैर तो चारपाईसे गिरकर भी टूट जाता ।

भैया—लड़कोंको बहुत तरहका खिलौना मिलता है, फिर कागज-पेंसिल मिलती है, वह अपने मनकी तसवीर खींचते हैं, गानेका खेल खेलाया जाता है । वे तरह-तरहके गानोंको सीखते हैं, नकलका खेल खेलते हैं, लेखर (व्याख्यान) देते हैं, गिन्ती सीखते हैं और मुँहजबानी हिसाब लगाते हैं । फिर लड़कोंके अपने सिनेमा होते हैं ।

सन्तोखी—अपने सिनेमा क्या भैया !

भैया—चार-छः बरसके लड़के सयानोंके सिनेमाको देखकर क्या समझ पाएँगे । इसलिए उनके सिनेमोंमें कुत्ते, बिल्ली, भालू, गदहा इत्तादि आते हैं । और वह तरह-तरहकी हँसानेवाली बात कहते हैं, गाना गाते हैं, हँसी-हँसीमें ही जाँकों और कनेरोंके भगड़ेकी भी बात चली आती है । छः बरस तक उनको अच्छर नही सिखलाया जाता । अपने जो कहीं लुक-छिपकर किसी बड़े लड़केसे अच्छर सीख लें तो दूसरी बात है । दाईं-घरमें रहते बखत ही गजबकी जेहन-वाले बच्चे छुँट लिए जाते हैं । चार-चार साल तक उनकी खींची तसवीरें और उनकी तरक्कीको देखकर पारखी पहचान लेते हैं कि यह लड़का आगे चलकर गजबका तसवीर बनानेवाला होगा ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! लड़के चीन्हा बहुत खींचना चाहते हैं लेकिन हम लोग डाँट देते हैं कि कागज-पेन्सिल खराब करेगा ।

भैया—वहाँ डाँटते नहीं है, उन्हें रंग-बिरंगी पेंसिल और कागज देते हैं ।

दाई-घरमें एक उमरके लड़के एक कोठरीमें रहते हैं। एक बरसवाले एक कोठरीमें, दो बरसवाले दूसरी कोठरीमें, तीन बरसवाले तीसरी कोठरीमें। जो तुम किसी दाई-घरमें पहुँच जाओ सन्तोखी भाई तो बहुत हँसोगे। चार-चार बरसके दस-बारह लड़के कागज-पेन्सिल लिये तसबीर खींच रहे हैं। कोई बिल्ली बना रहा है कोई कुत्ता। कोई साँप बना रहा है कोई चिड़िया। बीचमें एक दूसरेकी तसबीरको भौंक भी लेते हैं फिर अपनी तसबीर बनानेमें लग जाते हैं। दाई छड़ी लेकर तसबीर नहीं बनवाती। सबने “अम्मा ! मुझे कागज-पेन्सिल दो, मुझे कागज पेन्सिल दो” कहकर कागज-पेन्सिल लाए हैं और सब अपने मनसे तसबीर बना रहे हैं। अम्मा यह चालाकी जरूर करती है कि उनके समझने लायक चीन्हेवाली कुत्ता-बिल्लीके छपे कागजको जब तक फेंक देती है। बच्चे कितने ही बार समझते हैं कि पड़ा हुआ कागज है और उसे आँखसे देखकर कागजपर उतारनेकी कोशिश करते हैं। वह जितने कागजको रद्दी करते हैं सबको फेंका नहीं जाता, एक-एक लड़केके कागजको नाम लिखकर जमा किया जाता है। तीन-चार बरसके बाद कौन लड़का गजबका तसबीर बनानेवाला होगा यह समझना आसान हो जाता है। तसबीरकी ही तरह गाने नकल करने, लेक्चर देने, हिसाब लगाने, में गजबकी जेहनवाले लड़कोंको भी छोट लिया जाता है। लड़कोंके भगड़ेका फैसला लड़कोंकी पंचायत करती है और वह अपने ही अपना नेता भी चुनते हैं। दाई-घरमें रहते ही उन गजबवाले जेहनके लड़कोंको पहचान लिया जाता है जो कभी हज़ारों-लाखों आदमियोंके नेता बनेगे।

दुखराम—भैया ! हमारे यहाँ तो गरीब घरोंमें चमार और अछूत कहे जानेवाले माँ-बापके घरमें न जाने कितने गजबकी जेहनवाले बच्चे पैदा होते हैं लेकिन कूड़े परके फूलकी तरह वहीं पैदा होकर बिना फूले ही कुम्हला जाते हैं।

भैया—यही समझो दुखू भाई कि २० करोड़ आदमियोंमें एक भी गजबकी जेहनवाला बच्चा न मुरझाने पायेगा, न जेहनवाला मुरझाने पायेगा, न कम जेहनवाला। गजबकी जेहनवाले लड़कोंके पढ़नेका अलग इन्तजाम होता

है। घुड़-दौड़ दौड़नेवाले घोड़ेको बैलके साथ नाधनेमें नुकसान है। यह बत्तीस बरसके जो जरनैल हैं वह कमेरा राज्य कायम होते समय चार-पाँच बरसके रहे होंगे। उनको भी नई सिच्छा पानेका मौका मिला, और पीछेके लड़कोंको तो और भी।

सन्तोखी—जो ऐसा इन्तजाम हमारे देसमें हो तो हमारी ४० करोड़की आबादीमें न जाने कितने गजबके तसवीर बनानेवाले, गजबके गानेवाले, गजबके नाटक खेलने, गजबके हिसाब लगाने, गजबके नेता मिलेंगे।

भैया—यह है सन्तोखी भाई जो लाल पलटनके जरनैल लड़नेका इतना जबरजस्त दाव-पेच जानते हैं कि जब दुसमन और दुनिया जानती है कि लाल पलटन हारके भाग रही है, उस बखत वह दुसमनपर जाल फैलाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। जोकोंकी पलटनमें छोटा लपटेन या थानेदार भी मामूली सिपाहीमे रे छोड़कर दूसरी तरहसे बात नहीं करेंगे, लेकिन लाल पलटनका सबसे बड़ा अफसर जरनैल और मामूली सिपाही दोनों सगे भाई जैसे हैं। जब डिउटीपर हैं तब वह सिपाही और वह जरनैल बाकी बखतमें दोनों एक चार-पाईपर बैठेंगे, साथ खेलेगें, कूदेंगे-नाचेंगे, हँसी-मजाक करेंगे। उस बखत देखनेवालेको पता ही न चलेगा कि यह जरनैल है और यह सिपाही।

दुखराम—जोंकों तुम्हारा सत्यानास हो।

भैया—स्तालिन वीरने अपने जरनैलोंको एक बार कहा था कि वह अफसर ठीक अफसर नहीं हो सकता जो सिपाहीसे ऐसा काम कराना चाहता है, जिसे वह खुद नहीं कर सकता। अमेरिकाका एक अखबारवाला सोवियतकी लड़ाई देखने गया था। मैदानके पास पहुँचा तो वहाँ मोटरका कोई ठीक रास्ता नहीं था। मोटर रुक गई। उसी वक्त एक आदमी आया उसने फावड़ेसे काटकर रास्ता ठीक कर दिया। अमेरिकन अखबारवालेने आदमीकी उरदीको देखा तो मालूम हुआ वह मेजर है। उसको बड़ा अचरज हुआ।

दुखराम—भला जोंकोंके मुलुकमें कपतान और मेजर फावड़ेपर थूक भी सकते हैं।

सन्तोखी—द्विटलर सचमुच ही पागल सियार बनकर गाँवकी ओर चला।

लेकिन भैया पागल कहकर छोड़ नहीं देना होगा। जर्मन गुंडोंने खून सुखा देनेवाले जैसे-जैसे जुलूम किए हैं उसके लिए उनकी पूरी सजा होनी चाहिए।

भैया—तीनों लोकमें कोई उन्हें नहीं बचा सकता।

अध्याय ८

जोंकोंके मन्सूबे

सन्तोखी—आज भैया एक और सरोता (सुनवैया) बड़े। मैंने तो सोहनलालसे कहा कि क्या सुनके करोगे हमारे दिहाती लोगोंकी बातचीत है। लेकिन वह कहने लगा—“मामा ! मैं बनारसमें पैदा हुआ तो क्या हुआ मेरी माँ तो दिहाती थी”। यह बी० ए० तक पढ़ चुके हैं।

भैया—सन्तोखी भाई, सोहनलाल बाबूके सोता बननेमें तो कोई हरज नहीं है लेकिन यह हैं बी० ए० पास, शहरमें सदा रहे और अरबी-फारसी बोलते हैं। यह बीचमें ऐसा सवाल पूछने लगे कि जिसमें तुमको और दुखू भाईको सुननेमें कोई लज्जत नहीं आई, तो बताओ हमारी कथा ठीकसे चलेगी।

सोहनलाल—रजबली भैया ! मामासे सब बातें सुन ली हैं। मैं भी मरकस बाबाके रास्ताको मानता हूँ। मैं कोई अरबी-तरवी नहीं बोलूँगा, न कोई ऐसा सवाल करूँगा जिसमें सन्तोखी मामा और दुखराम मामाके न समझमें आनेवाली बोलीमें बोलना पड़े। मरकस बाबाने कभी विश्वास नहीं किया कि बड़े आदमी लम्बी नाकवाले बगुलेके परकी तरह साफसूफ कुरता-टोपी पहिरनेवाले लोग जोंकोंको खतम करेंगे। किसान और मजदूर इनके ही भीतर वह तागत है जिससे जोंकोंका टाट उलट सकते हैं। राजबली भैया, मैं तुमसे सीखने आया हूँ, कि कैसे मरकस बाबाकी सिच्छा किसानोंके पास पहुँचाई जाय ?

दुखराम—मैं तो जरा भैने (भानजा) डरने लगा कि कहीं तुम अपनी पढ़ी-लिखी बोलीको यहाँ छाँटने लगे तो हम कोरे ही रह जायँगे लेकिन जान पड़ता है मरकस बाबाका एक भी छीटा जिसके ऊपर पड़ा है वह बन गया है।

लेकिन भैने हमने जो कुछ मरकस बाबाकी बात सुनी है, भैया रजबलीने बताया है, उससे जान पड़ता है कि मरकस बाबाकी सिच्छाको जितना पढ़ना-सुनना है उससे भी बेसी उसको गुनना है और गुननेसे भी बेसी उसपर चलना है। चलना सबसे मुश्किल है, ठट्टा नहीं, तलवारकी धारपर चलना है।

भैया—दुखू भाईने एक लाखकी बात कही है। अच्छा तो सन्तोखी भाई ! तुमने कल पूछा था कि लाल पलटन जो हिटलरी गुन्डोंका इतना संहार कर रही है और साथ ही जोंकोंका भी आगम अंधार होता जा रहा है, तो इससे क्या जोंकें कुछ कर न बैठेंगी। आज इसी बातको मैं तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ।

दुखराम—हाँ भैया ! यही बात बतलाओ। लाल पलटन तो पागल सियारको खदेड़कर माँदमें टकेल ले गई। और अब सियार मरनेवाला है, इसमें सक्-सुबहा नहीं है। लेकिन पागल सियारको पैदा करनेमें तो बाहरकी जोंकोंका ही सबसे बड़ा हाथ रहा होगा। कौन-सा नाम बतला रहे थे वह बड़ी जोंक चमलेन, जो दो-दो मरतबे उड़-उड़कर हिटलरके पास जुहार करने गया था। वह और उसका बाप न जाने कितने सालसे इस गुन्डे और इसकी सेनाको पालने-पोसने और बढ़ानेमें लगाये थे।

भैया—चमलेनका बाप नहीं दुखू भाई ! वाल्डविन उसी तरहकी एक बड़ी जोंक था। यह ठीक है कि बिलायतकी जोंकें और अमेरिकाकी जोंकें पुरानी दुनियाको जैसाका तैसा राखना चाहती हैं, उसमें एक जौ भी फेर-बदल करना नहीं चाहती। फ्रांसकी जोंकें भी जोर लगातीं, लेकिन अब बेचारी उतना जोरदार नहीं हैं।

दुखराम—क्यों भैया ! फ्रांसकी जोंकें क्यों जोरदार नहीं हैं ?

भैया—“उधरे अंत न होहिं निबाहू” उनका परदा उधर गया। कमेरोंके डरके मारे उन्होंने हिटलरको फ्रांसमें बुलानेमें पूरी तरहसे मदद की। जब हिटलर फ्रांसमें आकर बैठ गया, तो अपने देसवालोकें खूनसे धरतीके रँगनेमें हिटलरी गुन्डोंके आगे-आगे रहे। द-गालने पहिले भी देसको सजग किया था कि हमारी पलटन और हथियार मंजबूत नहीं हो रहे हैं। फौजके मदका रुपया

बड़े-बड़े कारखानेवाले आँख मूँदकर लूट रहे हैं। बूढ़े-निकम्मे जरनैल कोई हितकी बात सुननेके लिए तैयार नहीं हैं। फ्रांस तो हिटलरी गुन्डों और उसके कुत्तोंके पैरोंके नीचे रौदा जाने लगा, लेकिन जरनैल द-गाल बाहर निकल आया। उसने बचे-खुचे फ्रांसीसी देस-भगतोंको इकट्ठा किया और मरते दम तक लड़नेका बीड़ा उठाया। उधर मरकस बाबाके रास्तेपर चलनेवाले लाखों नर-नारी फ्रांसके भीतर रहकर हिटलरी गुन्डोंको तवाह करने लगे। पचास हजार आदमियोंको मार डाला तो भी मरकस बाबाके चले दबे नहीं। जब अफ्रीकासे गुन्डे भगा दिये गये, तो फ्रांसके कबजेका मुलुक अलजीरिया द-गाल और उनके साथियोंका अड्डा बना। उन्होंने अपनी सरकार बनाई, जिनमें कम्युनिष्ट भी मिल गए। सैकड़ों वर्षों से काले-गोरेका जो भेद-भाव चला आता था उसको उन्होंने खतम कर दिया और काले (अफ्रीकावाले) सिपाहियोंकी वही तनखाह कर दी, जो फ्रांसीसी गोरे सिपाहियोंकी थी।

सन्तोखी—और हमारे हिन्दुस्तानमें तो काले-गोरे सिपाहियोंमें अब भी वही फरक है।

भैया—हाँ, तीस और डेढ़ सौका। वहाँ यह इसीलिए हो सका कि अब जॉर्कोका बल नहीं रहा, नई फ्रांसीसी सरकारने कानून पास किया, कि रेल, जहाज, खान, बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े बंक और उनके करोड़ोंका खजाना अब धनियोंके हाथमें नहीं बल्कि सारी फ्रांसीसी जनताकी सम्पत्ति होगी।

दुखराम—तो मरकस बाबाकी कितनी ही बातोंको मान लिया ?

भैया—इसीलिए तो जब अमरीका और इंग्लैंडकी पलटन जून (१९४४)-में फ्रांसकी भूमिपर जर्मनोंसे लड़नेके लिए उतरी तो उन्होंने पहले द-गालकी सरकारको नहीं माना। लेकिन जॉर्कोकी बात नहीं चली। तो भी यह मालूम होता है कि एक-एक अंगुलके लिए बिना अड़ंगा लगाए जॉर्कोके पीछे हटनेके लिए तैयार नहीं होतीं, लेकिन अन्तमें भखमारके उन्हें पीछे हटना पड़ता है। सिवाय उन फ्रांसीसियोंके जो हिटलरके हाथमें बिक गए थे, बाकी सभी द-गाल की सरकारसे प्रेम रखते हैं। इंग्लैंड-अमरीकाकी जॉर्कोने देखा कि बिना द-गालकी सरकारको साथ लिए काम नहीं चलेगा। उधर इंग्लैंड

और अमेरिकाके लोगोंने हल्ला सुरू किया । बेचारी जॉकें अछुताई-पछुताईं और द-गालकी सरकारको मानना ही पड़ा ।

सन्तोखी—साँपका जीव बहुत कठोर होता है भैया !

भैया—हाँ, जल्दी नहीं मरता । इटलीमें भी मुसोलिनी और उसके गुन्डे जब भागनेके लिए मजबूर हुए तो वाईस बरससे मुसोलिनीके साथ लड़नेवाले देस-भगतोंने चाहा कि देसका इन्तजाम वह अपने हाथमें ले । लेकिन इंग्लैंड और अमेरिकाकी जॉकोंको डर लगने लगा कि राज उनके हाथमें देनेपर वहाँ जॉकोंका नाम-निसान नहीं रह जायेगा, और कमेरे मजबूत हो जाएँगे । इसी-लिए राजको इटलीके ब्रादसाह और उसके पिट्टू बोदोगलियोके हाथमें रहने दिया । वाईस सालसे यह दोनों गुन्डे मुसोलिनीके दाएँ बाएँ हाथ थे । मुसोलिनी-ने इटलीके लाखों कमेरोंके खूनसे अपने हाथको रंगा और यह दोनों भी उसके सभी पापोंमें सामिल थे । तो भी इंग्लैंड-अमेरिकाकी जॉकोंने राजको इनके हाथमें इसीलिए रहने दिया कि इटलीमें जॉकें बनी रहेंगी । उसके साथ बहुत-सा राजका इन्तजाम उन्होंने अपने पिनसिनिहा फौजी अफसरोंके हाथमें दे दिया । जैसे हिन्दुस्तानके लोग आज जर्मन और जापानी गुन्डोंसे लड़नेके लिए तैयार हैं, वह चाहते हैं कि हमारी अपनी सरकार बने । और पचीस लाख नहीं दो करोड़की पलटन बनाकर हिन्दुस्तानी इन गुन्डोंसे लड़ने जायें । लेकिन चर्चल और दूसरी बिलायती जॉकें यह नहीं चाहती कि हिन्दुस्तानी अपने मनसे लड़ाई लड़े । उनको डर है कि जो हिन्दुस्तानी अपने मनसे लड़े तो उनका मन बहुत बढ़ जायगा, वह अपनेको अँगरेजोंका नहीं समझेंगे और हथियार तो उनके हाथमें आ ही जायगा फिर स्वराज किसको देना किसको लेना । यही बात वह इटलीमें भी सोच रहे थे और चाहते थे कि वहाँ कमेरोंका जोर न बढ़ने पाये । इटलीके मामलेमें वह सोवियतको भी नहीं पूछना चाहते थे, लेकिन स्तालिन वीरका दिमाग जॉकोंसे कहीं बढ़-चढ़कर है । बोदोगोलियोंकी इटलीमें जो सरकार थी, उसे जॉकें कमेरोंके हाथोंमें तागत बानेसे रोकनेके लिए मानती न थी, दूसरी ओर राजकाज चलानेकी बहुत-सी बातें अपने हाथमें रखती थी, और उसे पूरी सरकार नहीं मानती थी । स्तालिन-

वीरने सोचा कि किला बाहरसे हमला करनेसे न टूट रहा हो तो भीतर घुसकर तोड़ना चाहिए। उसने बोदोगोलियोंकी इटली सरकारको मान लिया और अपना राजदूत इटलीमें भेज दिया। चर्चिल और उसके साथी तिलमिलाये बहुत लेकिन क्या करते, उसीके साथ स्तालिनने कमनिस्तों और दूसरे इटालियन देस-भगतोंको कह दिया कि अलग रूठकर ब्रैठनेसे काम नहीं चलेगा। यह जिद्द मत करो कि जब तक इटलीका बादसाह और बोदोगोलियों दोनों खूनी सरकारसे नहीं हटते तब तक हम सरकार नहीं बनायेंगे। कमनिस्तों और देस-भगतोंके समझमें बात आ गई। वह सरकारमें सामिल हुए। कुछ ही दिनोंमें बोदोगोलियो और बादसाहको सरकार छोड़कर भागना पड़ा और इटलीके देस-भगतोंने राज सँभाल लिया। चर्चिल और उसके साथी जोंकोंकी चाल नहीं चली।

सन्तोखी—इस तरह फ्रांस ही नहीं इटलीमें भी जोंकोंको पछताना भर ही हाथ आया।

भैया—जोंकोंको बहुत जगह पछताना पड़ा और आगे भी पछताना पड़ेगा, लेकिन इससे वह अपने जोंक धरमको छोड़नेके लिए तैयार नहीं। यूगोस्लाविया-में भी उन्होंने यही चाल चली। हिटलरने जब यूगोस्लावियाको ले लिया तो वहाँकी जोंकोंकी सरकार भागकर लन्दन चली आई। जो जोंकें देसमें रह गई थीं, उन्होंने हिटलरका साथ दिया। कमेरोंपर खूब जुल्म होने लगा। उस ब्रख्त कमेरोंका नेता और पक्का कमनिस्त तीतो देससे बाहर नही भागा। किसानोंने मजूरोंने जानपर खेलके तीतोको अपने घरोंमें जगह दी। तीतोने देस-भगतोंकी छापेमार पलटन तैयार की।

दुखराम—वैसी ही छापामार पलटन भैया जैसे रूसमें तैयार हुई ?

भैया—हाँ, यह एक छोटी-सी चिनगारी थी लेकिन बढ़ते-बढ़ते बनकी आग बन गई। यूगोस्लावियाके जवान तीतोके पास जमा होने लगे। तीतो आज उनका मारसल (सबसे बड़ा सेनापति) था। डेढ़-दो लाख जरमन पलटन और बहुतसे घरके विभीखन तीतोसे लड़ रहे हैं, लेकिन चिनगारी अब वह छोटी चिनगारी नहीं है। लन्दनमें ब्रैठी यूगोस्लावियाकी सरकार बराबर झूठी-

भूठी खबर फैलाती रही कि तीतो कुछ नहीं है, वह तो डाकू है। जर्मनोंसे लड़ रहा है हमारा सेनापति जरनैल मिखाइलोविच और उसके चेतनिक लड़ रहे हैं। इङ्गलैंड और अमेरिकासे कितना ही हथियार भी मिखाइलोविचके पास पहुँचाया गया। अभी (अगस्त) तीन महीना पहले तक हिन्दुस्तानके सिनेमा घरोंमें “चेतनिकों”की बहादुरीका फ़िल्म दिखाया जाता था। बिलायत और अमेरिकाकी जोंक सरकारें तीतोको इसलिए नहीं मानना चाहती थीं कि वह कमनिस्त है और उसका जोर बढ़नेपर यूगोस्लावियामें नवात्र और जोंके नहीं रह जायँगी। लेकिन असली लड़नेवाला था तीतो और उसके जवान। मिखाइलोविच और उसके चेतनिक हिटलरसे लड़ नहीं रहे हैं, उसके जूते चाट रहे हैं; वह लड़ रहे हैं तीतोके बहादुरोंके साथ। तीतोने यूगोस्लावियाके बहुतसे भागको हिटलरी गुंडों और उसके कुत्तोंसे आजाद कर लिया था तो भी अभी बिलायती और अमेरिकन सरकारें तीतोको माननेके लिए तैयार नहीं थीं लेकिन अन्तमें मिखाइलोविच और चेतनिकोंका भंडाफोड़ हुआ। चर्चिलके अपने बेटेने तीतोके जवानोंकी बहादुरीको देखकर वापसे कहा। चर्चिलको लाचार होकर तीतोकी सरकारको मानना पड़ा।

दुखराम—तो यूगोस्लावियामें भी जोंकोंकी चाल नहीं चली।

भैया—यूगोस्लावियामें जब जोंकोंका राज रहा तो क्रोस, सर्व, मुसलमान वगैरह जातियोंको एक दूसरेसे बराबर लड़ाया जाता था, और अब उस खून-खराबीका कहीं पता नहीं। तीतोने जो आजादीका भंडा उठाया है, उसके नीचे सभी जातियाँ अपना खून बहा रही हैं। आज यूगोस्लावियाके लोग जिस देसपर सबसे अधिक विसवास करते हैं, जिसके साथ सबसे अधिक प्रेम करते हैं वह है सोवियत।

दुखराम—तो भैया यूगोसलैयासे भी जोंकोंका डंडा-कुंडा उठा ही समझो।

भैया—वहाँकी राजधानी बेलग्रादके छोरपर लाल सेना पहुँच गई है। लेकिन देखा न, बिलायती जोंकोंने वहाँ भी अपना मतलब साधनेके लिए कोई बात उठा नहीं रखी। पोलैंदमें भी ऐसे ही हुआ। मैंने पहिले कहा था कि वहाँ खूनी जमीदारोंका राज था, जो हमेशा हिटलरी गुंडोंकी नकल करनेके

लिए तैयार थे और जब सोवियत-संघ अपना परान बचानेके लिए भीतरी-बाहरी दुसमनसे लड़ रहा था, उस बखत सोवियतकी भूमि और एक करोड़ दस लाख आदमियोंको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। जब हिटलरने पोलैंडपर चढ़ाई की तो लड़ने की जगह ये जमीदार हवाई जहाजों और मोटरोंसे सोने और बाल-बच्चोंके ढोनेमें लगे हुए थे। पोलैंडके सिपाहियोंसे जो कुछ बना लड़े। लाखों पोल नर-नारियोंको जर्मन गुंडोंने मौतके घाट उतारा। पोल नवाबोंकी सरकार भागकर लन्दन पहुँची। उसका सबसे बड़ा काम था, सोवियतको दुनिया भरमें बदनाम करना और उसपर भूठे-भूठे दोख लगाना। बिलायतकी जोंके बराबर उसकी पीठ ठोंकती रहीं। पोलैंडकी बहुत-सी फौज रूसमें भाग गई थी, रूसने उन्हें सरन दी थी। जब हिटलरने सोवियतपर हमला कर दिया तो सोवियतने पोलैंडके सिपाहियोंको फिर हथियार-बंद कर दिया। पोल सिपाही लाल सेनाके साथ मिलकर हिटलरी गुंडोंसे लड़ना चाहते थे लेकिन जमीदार-नवाबोंके लड़के ही तो उनके जरनैल थे। उन्होंने यह सोचकर उन्हें लड़नेसे मना किया, कि हिटलर कुछ महीनोंमें बोलसेविकोंको खतम कर देगा, बोलसेविकोंका नाम निसान नहीं रह जायगा। फिर हमारा सबसे बड़ा दुसमन तो खतम हो जायगा।

सोहनलाल—लेकिन इन अकलके दुसमनोंने यह नहीं सोचा, कि फिर पोलैंडके आजाद होनेकी उम्मेद नहीं रह जायेगी।

भैया—वह मानते थे कि हिटलर हम लोगोंकी जमीदारी थोड़े ही छीनेगा ? यही कि थोड़ा उसके पैरपर नाक रगड़नी पड़ेगी। वह दूसरोंसे यह भी कहते थे, कि बोलसेविक तो तीन-चार महीनेमें खतम हो जायेंगे, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिकाके सामने हिटलर नहीं टिक सकेगा, हमें तबके लिए तैयार रहना चाहिए।

दुखराम—सूअर, गदहे।

भैया—और यह सब कुछ वह तब कह रहे थे, जब वह सोवियतकी भूमिमें थे, सोवियतका अन्न-पानी खा रहे थे और सोवियतने उन्हें हथियार दिया था। इतना ही नहीं जो किसी सिपाहीके बारेमें मालूम हो जाता कि इसका कुछ भी

नेह सोवियतके साथ है, तो उसपर झूठा हलजाम लगाकर गोली मार देते थे । जब हिटलरका जोर बढ़ चला. तो पोल जोंकोंके जरनैल पचास हजार पोल पलटनको लेकर रूस छोड़ ईरानमें चले आये लेकिन कितने ही सिपाही और अफसर इन धोखेबाजोंके साथ नहीं हुए, वह वहीं रह गये और आज अपनी राजधानी वारसाको छुड़ानेके लिए लाल पलटनके साथ कंधेसे कंधा मिलाकर जर्मन गुंडोंसे लड़ रहे थे । पोल जोंकोंके पापोंको कहनेके लिए एक पोथा चाहिए । उन्होंने एक मरतबे हल्ला उठाया कि सोवियतने पोलैंडके कितने ही मजूर नेताओंको मार दिया और इस खबरको पहिले हिटलरी गुंडोंने रेडियो बाजापर कहा था । यह अति हो गई थी । सोवियतने इस धोखेबाज, नीच पोल सरकारसे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ लिया । बिलायतकी जोंकें अब भी लन्दनमें बैठी पोल-सरकारकी पीठपर हैं, लेकिन अब जानती हैं कि भगोड़ी सरकारको फिर पोलैंडमें ले जाकर बैठाना उनके बसकी बात नहीं है । भगोड़ी सरकारके दो-एक आदमी बातको समझने लगे और सोचा कि सोवियतसे कह-सुनकर कुछ समझौता किया जाय । नवाबजादोंने समझा कि स्तालिनने तो कह दिया है कि हम ऐसी पोल-सरकारसे बात करनेके लिए तैयार नहीं जिसमें कि सोवियत-विरोधियोंकी भरमार है । जब भगोड़ी सरकारके महामंत्री मास्को बात करनेके लिए गये, तो नवाबोंके पेटमें चूहा कूदने लगा । उन्होंने रेडियो बाजा बजाके चुपकेसे वारसामें खबर दे दी कि लाल सेना वारसाके किनारेपर आ गई है, तुम लोग जर्मनोंको सहरसे मार भगाओ । उन्होंने सोचा था, कि लाल सेनाके बगलमें आ जानेसे जर्मन कमजोर पड़ ही गये हैं, यदि हमारे हुकुमके मुताबिक वारसासे जर्मनोंको भगा दिया गया, तो हम हल्ला करेंगे कि राजधानीको हमारे आदमियोंने दखल कर लिया है, उसमें लाल पलटनको बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए ।

सोहनलाल—लेकिन भैया ! ये पोल भगोड़े जमींदार कितने नीच हैं, खुद हिजड़े तो हई हैं, इनको यह ख्याल नहीं आया कि यह लाखों आदमीके मरने-जीनेका सवाल है । जब तक पूरी तैयारी न हो, तब तक वहाँके लोगोंको लड़नेके लिए कहना उन्हें आगमें भेकना है ।

दुखराम—नहीं मैने ! जोंकोंसे कोई आसा मत रखो, करोड़ों आदमियोंको मारकर ही तो वह जीती हैं ।

भैया—हाँ, सोहन भाई ! इन बेसरमोंको यह भी ख्याल नहीं आया कि वहाँ लड़नेका हुकुम देनेसे पहिले लाल सेनाको खबर दे दें । लाल सेना ही क्यों ? अमेरिका और इंग्लैंडके फौजी मुहकमोंसे भी उन्होंने नहीं पूछा । बेचारे लाखों आदमी मारे गये । लाल सेना वारसापर जोरसे हमला कर रही है, लेकिन जब तक वह वारसाके भीतर पहुँचेगी, तब तक न जाने कितने बहादुर मारे जा चुके होंगे । लेकिन इन बेसरम भगोड़ोंका यही आखिरी पाप है । पोलैंडके लोगोंने अपनी अलग सरकार बना ली है, सोवियत उसी सरकारको मानती है । लाखों पोल फौज लाल सेनासे मिलकर अपने देसको आजाद कर रही है । पोल लोगोंकी सरकार जरमनोंसे छुड़ाये इलाकेका राज-काज देख रही है । चर्चिलकी सरकार अब भी कह रही है, कि हम लन्दनमें बैठे नवाबोंकी सरकारको पोलैंडकी सरकार मानते हैं ।

दुखराम—बेचारे तालुकदार-नवाब भंख रहे होंगे अपने महलोंके लिए, अपने जिमीदारीके गाँवों और पुराने ऐस-जैसके लिए । लेकिन बेटे अब फिर पोलैंड नहीं लौट पायेंगे ।

भैया—तो पोलैंडमें भी देखा न ? जोंक सरकारोंने आखिर तक अपना मनस्वा पूरा करनेकी कोसिस की, लेकिन उसकी कोई आसा नहीं । अब एक बार मैं और दुहरा दूँ, दुखू भाई, फ्रांसमें इनका मनस्वा टूटा, इटलीमें टूटा, यूगोस्लावियामें टूटा, पोलैंडमें टूटा । यूनानमें भी वहाँकी भगोड़ी जोक सरकारकी यह पीठ ठोंक रही हैं । असली लड़नेवालोंको नहीं, जमीदारों-नवाबोंके मुट्ठी भर आदमियोंको जर्मनोंसे लड़नेकी वाहवाही दे रही हैं । लेकिन वहाँ भी इनका मनस्वा बहुत कुछ टोला हो गया है ।

सोहनलाल—इस तरह तो भैया ! जान पड़ता है कि इन देसोंमें जोंकोंके लिए कोई आसा नहीं है, लेकिन बुलगारिया, रूमानियाँ, हुँगरीके बारेमें तुम्हारी क्या राय है ।

भैया—यह तीनों देस आज हिटलरके पैरोंके नीचे दबे रहे हैं और उनके

जमीदार पूँजीपति लोगोंपर जुलुम करनेमें जर्मन गुंडोंका साथ दे रहे थे। जर्मन गुंडोंके साथ इन जोंकोंका भी भाग बँधा है। जहाँ ये गुंडे भगे, कि वहाँ जोंकोंके लिए भी ठौर नहीं रह जायेगा।

सोहनलाल—लेकिन अँगरेज और अमेरिकन तो चाहेंगे न कि जमींदार और पूँजीपति वहाँ बने रहें।

भैया—हाँ, पूरी तौरसे चाहेगे। लेकिन जानते हो न बुल्गारियामें ज्यादातर किसान बसते हैं। बुल्गर और रूसी एक ही जातिके हैं, जिसके कारण वे सोवियतके लिए बहुत अभिमान और प्रेम रखते हैं। किसान अपने लाभका ख्याल करके भी सोवियतके ढंगको पसन्द करते, इसलिए जोंकोंका खतम होना छोड़ और दूसरी बात नहीं हो सकती थी। वही हुआ, लाल सेना बुल्गारियामें पहुँचकर वहाँके कमरोंको मुक्त किया। जोंके भाग खड़ी हुई हैं। उनकी हिमायतके लिए कुछ अँगरेज-अमेरिकन पहुँचे थे, जिन्हें बहुत नरमीसे सीमा-पार भेज दिया गया। रूमानिया एक छोटा-सा देस है। वहाँके किसान लड़ाई-से पहले भी सोवियतकी तरफकी बड़ी लालसासे देखते थे। अब रूमानियामें-से भी हिटलरी गुंडे तथा उनके पिट्टू खतम हो चुके, वहाँ लाल सेना पहुँच गई। हिटलरके लोप होनेके साथ उसके इसारेपर नाचनेवाली रूमानियाकी जोंकोंके लिए क्या कोई आसा हो सकती थी।

दुखराम—नहीं भैया ! लाल पलटनका नाम सुननेसे तो कितना उछाह होता है। जब रूमानियाके किसान लाल पलटनको देखे होंगे, तो समझे होंगे कि वह जरमन डकइत नहीं हैं, बल्कि अपने ही भाई जैसे हैं, भला अब कमरोंको छोड़ कौन दूसरा वहाँ राज करता ?

भैया—हुंगरीमें पिछली लड़ाईके बाद कई महीने तक कमरोंका राज रहा, फिर बाहरी जोंकोंने भीतरी जोंकोंको मदद दी। और बहुत खराबीके बाद कमरोंका राज खतम हो गया। हुंगरीकी राजधानी बुदापेस्तके पास लाल सेना पहुँच गई है। सोहन भाई ! तुम्हीं बताओ हुंगरीमें क्या बाहरी जोंकोंकी क्या फिर दाल गलेगी ?

सोहनलाल—नहीं, लेकिन.....।

भैया—लेकिनको भी मैं समझता हूँ । मैं यह नहीं कहता कि इस लड़ाईके बाद सारा यूरोप मरकस बाबाकी सिञ्छाको पूरा मान लेगा, और वहाँ सोवियत जैसा कमरोंका राज कायम हो जायगा । लेकिन एक बात तो साफ मालूम होती है कि बड़ी-बड़ी पूँजीपति जोंकों और तालुकदारों-जमीदारोंके लिए जगह नहीं रह जायगी । रेल, बंक, खान, बड़े-बड़े कारखाने यह सब चीजें जोंकोंके हाथसे निकल जायँगे । हो सकता है कि कितनी ही जगह छोटी-छोटी खेती, छोटी-छोटी दूकानें लोग अलग-अलग अपनी रखें । यह भी हो सकता है कि बहुत जगहोंमें रूस हीका दंग चले ।

सोहनलाल—कौन-कौन देसोंमें भैया सोवियत जैसा राज कायम होगा ?

भैया—मैं जोतिसी नहीं हूँ सोहन भाई ! लेकिन मुझे जान पड़ता है कि पोलैंड, हु गरी, रुमानिया, बुलगारिया और यूगोस्लावियामें लोग सोवियतकी तरहका राज कायम करेंगे । चेकोस्लाविकियाके नेता ज्यादा दूर तक देखने-वाले हैं । सोवियतके साथ उन्होंने हमेसा दोस्ती रखी । देसकी भलाईके लिए वह बहुत कुछ खुद करेंगे और वहाँ भी मुझे सोवियत जैसा समाज ही आता दिखाई देता है । यूरोपके बाकी देसोंमें चाहे मरकस बाबाकी पूरी सिञ्छाके मुताबिक राज न कायम हो लेकिन जोंकोंके सभी बड़े-बड़े दाँत टूट जायँगे और सभी सोवियतको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानेंगे ।

सोहन—अच्छा यह तो यूरोपकी बात हुई भैया ! और मैं तो यह बात पक्की समझता हूँ, पिछली लड़ाईमें दुनियाके छूठे हिस्सेसे जोंकोंका राज खतम हो गया और कमरोंका राज कायम हो गया । इस लड़ाईमें उसमेंसे एक अंगुल भी नहीं निकलेगा यह बात तो निहचय है लेकिन इसके साथ यह भी निहचय है कि दुनियाके कुछ और भागसे जोंकोंका राज जायेगा । मैं समझता हूँ इस लड़ाईमें एक-चौथाई धरतीपर कमरोंका राज हो जायगा बाकी तीन-चौथाई धरतीपर जो जोंकों हीका जोर रहा, तो एक और घमासान लड़ाई होगी । लेकिन उस लड़ाई और इस लड़ाईमें यह फरक रहेगा कि-हितलरने जो भूल की वह फिर कोई नहीं दुहरायेगा । सोवियतके कमरोंका राज और लाल पलटन बस यही आखिरी लड़ाई । यह तो हुआ लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ कुछ

हिन्दुस्तान और पूरबके देसोंके बारेमें ।

भैया—सोहन भाई ! सवाल तो तुम्हारा ठीक है लेकिन यह एक रातकी बैठकीमें खतम होनेवाला नहीं । हिन्दुस्तान काहे गुलाम हुआ इसकी बात हम पहिले ही कह चुके हैं । फिर हिन्दुस्तानने कब-कब और कैसे-कैसे आजाद होना चाहा. यह भी बतलाना होगा । गाँधीजीने हमारे कामको कैसे आगे बढ़ाया इसे भी बताना होगा । फिर किस लड़ाईमें हमने क्या भूल-चूक की और हमारे दुस-मनोंने कैसे फायदा उठाया इसके बारेमें भी कहना होगा । लेकिन मैं समझता हूँ आज बिलायती जोंकोंके मनसूखे और अपनी कमजोरियोंके बारेमें कहूँ । बाकीको दूसरे दिन बतलाऊँगा ।

दुखराम—हाँ भैया, अभी जोंकोंके मनसूखेकी बात चल रही है, इसी-लिए उसीको लेते अपने देशके बारेमें कुछ कहें ।

भैया—पहिले तो दुखरू भाई ! यह बात गाँठे गठिया लेनी चाहिए, जोंके दया-मयामें कभी नहीं पड़तीं । उनके लिए अपना स्वारथ सबसे बढ़कर है । बिलायती जोंके हिन्दुस्तानको स्वराज्य दे देंगी, यह अकलका अंधा ही विश्वास कर सकता है । जोंकोंके धर्मशास्त्रमें 'द' अच्छर नहीं है । हमारे हिन्दुस्तानी भाई गुस्सा होकर बड़े जोसमें आकर अंगरेज जोंकोंके वचन तोड़ने-की बातोंको कहते हैं । लेकिन जोंके जो वचन कहती हैं वह तोड़ने हीके लिए । गुलामोंको ढाँढ़स देनेके लिए वह लम्बी-लम्बी बातें जब-तब बोल जाती हैं । अगर गुलामोंको छुन भरके लिए सन्तोस हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर वह पीछे निरास होते हैं तो जोंकोंका इसमें कोई कसूर नहीं, जोंकोंके वचनपर विश्वास करनेको उनको किसने कहा था ?

दुखराम—भैया, जोंकोंका स्वभाव जो रचके समझाया उससे सब बात साफ हुई ।

भैया—जोंकोंसे यह भी आशा रखना कि उनका दिल पसीजेगा या बद-लेगा; तो ख्याल रखना चाहिए कि उनके दिल हई नहीं है, जो दिल होता तो बुद्ध ईसा जैसे कितने ही महात्मा हो चुके हैं, उन्होंने जोंकोंके बदलनेकी बहुत कोसिस की । जोंकोंने हथियारके बलपर दुनियाको अपने हाथमें किया, उससे

भी कोई जबर्दस्त हथियार जब हाथमें आएगा तभी उनकी मुट्टी खुलेगी ।

सोहनलाल—तो बम-पिस्तौलको क्या समझते हैं भैया !

भैया—आपका मतलब है कि जोंकोंके दस-पाँच अफसरोंपर पिस्तौल या बम चला देनेसे जोंके दब जायँगी ? इसकी बिलकुल आशा मत रखिये । बड़ी जोंके बहुत दूर बैठती हैं उनके पास तक न आपकी गोली जा सकती है न बम । और हिन्दुस्तानमें जो काले-गोरे नौकर उनके लिए काम करते हैं वह पेटके लिए करते हैं । न काम करें तो भूखे मरना पड़े । उन्हें अच्छी तनखाह मिल रही है भूखसे निचिन्त हैं । जो इतने ही भर आदमी होते तो तुम कुछ को कम कर सकते थे लेकिन सौकी सौ नौकरियोंके लिए तो हजार उम्मेदवार हैं फिर जगह कहाँ खाली रह सकती है ।

सोहनलाल—तो फिर जोंकोंके पास जो हथियार है उससे भी जबर्दस्त हथियार कौन-सा है ?

भैया—यही लोग जो चूसे जा रहे हैं, मजूर-किसान और दूसरेमें पढ़े-लिखे जिनकी हालत मजूरोंसे बढ़कर नहीं है; लेकिन सबसे ज्यादा विस्वास मजूरों और किसानोंपर ही किया जा सकता है ।

सोहनलाल—मजूर-किसान तो हमारी बात ही नहीं समझते ।

भैया—आप समझते हैं कि उनमें समझनेकी तागत ही नहीं है । वह न समझेंगे, न सुनना ही चाहेंगे, जो आप लोग उन्हें निराकार भगवानके सामने हाथ जोड़नेके लिए कहेंगे ।

सोहनलाल—हम तो निराकार भगवानके सामने हाथ जोड़नेको नहीं कहते हैं । हम तो उनसे कहते हैं सुराजकी बात, देसको गुलामीसे छुड़ानेकी बात ।

भैया—तो क्या वह सिर नहीं हिलाते ? क्या वह हाँ नहीं करते ?

सोहनलाल—सिर हिलाते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन देह नहीं हिलाते, हाथ नहीं हिलाते ।

भैया—दुख्खु भाई, अपनी अंगुल भर जमीनके लिए किसान जान नहीं दे देते । भदयावाले कनैलाकी परती, बाँध या किसी जगह हाथ भर भी दबाना

चाहें तो सारा गाँव लाठी लेकर जायगा कि नहीं ?

दुखराम—जान दी है भैया, और कई बार सारा गाँव लड़नेके लिए गया था ।

भैया—देखा सोहन भाई, किसान जान देनेसे घबराते नहीं, मजूर भी जान देने से घबराते नहीं । यह कायर नहीं हैं । बात यह है कि आप लोग भी सुराजको निराकार रूपमें उनके सामने रखते हैं । उनको यह दिखलाइये कि जीविका बिना जीव किसी कामका नहीं, और जीविकासे तुम कभी निश्चिन्त नहीं हो सकते जब तक जोंकें हैं, लेकिन इतना कह देनेसे भी काम नहीं चलेगा, उन्हें हाथसे दिखलाना होगा कि कैसे जीविकामें पग-पगपर ये जोंकोंकी सरकार बाधा देती है । फिर यह भी जवानी जमाखर्चसे न होगा । उनको दिखलाना होगा कि देखो यह इतनी बड़ी रासि तुम्हारे सामने है लेकिन दस ही दिनमें यह लोप हो जायगी और तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा, इस वास्ते किसानोंको तैयार करना होगा कि यह रासि हमारी है, फिर जमीदार-पटवारी और सारी दुनिया कहेगी कि खेत तो जमीदारका है इसलिए रासि तुम्हारी कैसे हुई । तब कहना होगा कि खेत उसका है जो उसमें अपना खून-पसीना गिराता है । इसलिए हमारे खेतको अपना कह करके जो कोई दखल करने आएगा तो दखल नहीं करने देंगे । लेकिन किसानोंको अकेले-अकेले ऐसा कहनेसे काम नहीं चलेगा ।

दुखराम—अकेले-अकेले तो बहुत लोगोंने कहा भैया और कुरकी-नीलामी सब होकर उजड़ गए ।

भैया—इसीलिए एक आदमीके डट जानेसे कुछ नहीं होगा । हमें गाँव-गाँवके किसानोंको तैयार करना होगा । जब वह साथ जियेगे, साथ मरेंगे तभी यह हो सकेगा ।

सोहनलाल—“न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी ।” न गाँवका गाँव तैयार होगा न किसान लोग हिले-डुलेंगे ।

भैया—तो तुम एक बूँदमें राधाको नचवाना चाहते हो, यह वृन्दावन-वाली राधा नहीं है । यह बहुत बड़ी राधा है, इनका हाथ छः हजार मील तक

फैला हुआ है, इनके लिए नौ मन क्या अठारह मन तेल भी कम है। हमारे कुछ भाई समझते हैं कि कौन किसानों-मजदूरोंको हाथ जोड़ता फिरे ? सबसे अच्छा है यही कि दो-चार पिस्तौल जमा करो, पाँच-सात बम बनाओ और मार दो दो-चार अफसरोंको। दुनिया बहादुर कहेगी, और क्या जाने कुछ काम भी बन जाय।

सोहनलाल—तो भैया तुम्हारे पास कोई जल्दीकी दवाई नहीं है।

भैया—यही जल्दीकी दवाई है जिसे तुम नौ मन तेल कहते हो। किसान की औरतसे किसीने पूछा, मालिक कहाँ गए हैं, औरतने कहा कि हेंगा (सरावन, पटेला) हेंगाने गए हैं। कब तक आयेंगे, पूछनेपर औरतने कहा धीरे-धीरे हेंगायेंगे तो दो घरीमें चले आयेंगे और जल्दी-जल्दी की तो छु; घरीसे पहिले नहीं लौटेंगे। आदमी कोई सहरका था। उसे समझमें नहीं आया, वह औरतका मुँह देखने लगा। औरत समझ गई। उसने कहा—“बाबू ! धीरे-धीरे हेंगायेंगे तो हेंगा और देहका बोझ धीरे-धीरे पड़ेगा और सब डेले एकही हेंगाईमें फूट जायेंगे और जल्दी-जल्दी करनेपर एकाध ही डेले फूटेंगे, फिर दोबारा-तेबारा-चौबारा हेंगाना पड़ेगा।”

दुखराम—भैया ! बहुत ठीक कहा।

भैया—इतना ही नहीं सोहन भाई ! जिस रास्तेकी तुम बात बतला रहे हो, उससे ६ घन्टेमें भी लौटनेकी उम्मेद नहीं, क्योंकि तुम्हारी राधा बहुत होसियार है। जब तक दो डेले तोड़ोगे तब तक चार नये फेंक देगी। रूसमें भी तीस-पैंतीस बरस तक बम-पिस्तौल चलाकर लोग काम बनाना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, काम तब बना जब लेलिनने बम-पिस्तौलका रास्ता छोड़ा और किसानों-मजदूरोंको तैयार किया।

सोहनलाल—तो किसान-मजूर हत्याका हथियार उठायेंगे या बेहत्याका।

भैया—किसान हत्या-बेहत्या नहीं जानते। न वे हत्यारे हैं कि जिसको नहीं उसको मारते चले, न वह बछिया हैं कि जीभ निकाल लें। वह अपना काम करना चाहते हैं, जो दुसमन हत्या चाहता है तो वह हत्याके लिए तैयार हैं और जो दुसमन चुप रहता है, तो वह बेहत्याको तो पसन्द ही करते हैं। लेकिन

सोहन भाई, अभी हत्या-बेहत्याकी बात छोड़िये । यह देखिये कि कैसे कमरोंकी देह हिलेगी । कहीं किसानकी जमीनको जमींदार निकालना चाहता है, तो गाँव भरके किसानोंका एका कायम कीजिये । पटवारी बदमासी करता हो तो एका कीजिये । यह अनहोनी बात नहीं है । इसी हिन्दुस्तानमें मलबारमें मैंने ऐसे गाँव देखे हैं । आन्ध्रामें ऐसे गाँव देखे हैं जहाँ जमींदार बछिया हो गए हैं, पटवारी सीग-पूछ नहीं हिलाते । किसी किसानपर फौजदारी मुकदमा चलाया नहीं जा सकता क्योंकि कोई एक भी किसान खिलाफमें गवाही देने नहीं जायगा । पहले-पहल जब काम मुरु हुआ, जब किसान जमींदारके जुलुमके खिलाफ खड़े हो गये तो एक-बार जमींदारके गुंडे भी आये, दरोगा जीने भी जिसका नमक खाया उसका गुन गाया । कितने किसानों और उनके नेताओं-पर मार भी पड़ी, जेहल भी जाना पड़ा, कहीं-कहीं एकाध मारे भी गये । लेकिन उससे किसानोंका एका और मजबूत हुआ । जो पहले दो-चार डर और बहकावेमें आये थे, उनको भी सारे गाँवको एक मुँह चलते देख हिम्मत हुई । सारा गाँवका गाँव पक्का हो गया । न नौ मन तेल, न नौ बरसकी बात नहीं है । यह बातें तीन-चार बरसके भीतर हुई हैं ।

सोहनलाल—लेकिन यह तो अपने ही देसके आदमियोंसे लड़ना है ।

भैया—मुरु उन्होने अपने ही यहाँके जोंकोंसे लड़कर किया, लेकिन जब उसमें पटवारी कूदने लगा, पुलिस कूदने लगी, सरकारी अफसर जोंकोंका पच्छ लेने लगे तब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो सरकार भी जोंकों हीके लिए है । अब वह अच्छी तरह समझते हैं कि सुराज बिना हमारा निस्तार नहीं । पहिले बिदेसी जोंकोंको हटायें तभी एकहरी लड़ाई होगी, नहीं तो दोहरे पाटके भीतर पिसेंगे ।

दुखराम—सच ही भैया तुमने कहा कि निराकार सुराजको किसान नहीं समझते । अब यह रूप दिखा दिया न, जो अपनी जीविकाके लिए जमींदारसे लड़ेगा वह भली-भाँति सीख जायगा कि उसके कौन-कौन दोस्त हैं और कौन दुसमन ।

भैया—इसी तरह सोहन भाई ! मजूरकी जीविकाके लिये लड़िये । कोई

उनपर जुलुम होता हो तो उसके लिये उन्हें तैयार कीजिए। बम्बईके मजूर तैयार हैं। कलकत्ताके भी तैयार हैं, कानपुरमें भी तैयार हैं लेकिन अभी भी बहुत-सी जगहें हैं जहाँ मजूरोंको अपनी तागत नहीं मालूम है। उनपर जुलुम होता है उनका एका बनाना होगा। सहरोंमें मुनीम हैं, प्रेसके कम्पोजीटर हैं, होटलके नौकर हैं, रिक्सावाले हैं, मदरसेके बेचारे मुदर्रिस (गुरु जी) मुन्सी बिचारे सताये जाते हैं, लेकिन सबका एका लेच्चर देकर नहीं होगा, उनकी जो तकलीफें हैं, उन्हींके लिए एका होगा। फिर सरकार जरूर उसमें उनके खिलाफ होगी, तब वह पक्के सुराजी हो जायेंगे। निराकारकी पूजा भूठ और धोखा है, इसीलिए उसमें कमेरे नहीं फँसते। साकार सुराज रखिये उनके सामने, देखिये, खून-पसीना एक करनेके लिए तैयार होते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग कहाँसे कहाँ चले गये। हिन्दुस्तानके बारेमें जोंकोंके मनसूबेकी बात कर रहे थे न ?

सन्तोखी—हाँ भैया, बिलायतकी जोंके सुराज देनेके लिए हिन्दुस्तानपर राज नहीं कर रही हैं।

भैया—जोंकोंका मन तो ऐसा ही है लेकिन जब चाँप (दबाव) पड़ता है और समझती हैं कि यह तो सोलहो आना हाथसे निकल जायगा तब उनको याद आता है “अर्ध तजे बुध सर्वस जाये।” यूरपमें देखा न ? एक-एक अंगुलके लिए जोंके डँटी रही लेकिन जब चाँप पड़ा तो मुट्टी खुलती गई। चाँप दो तरहसे पड़ता है एक भीतरसे और एक बाहरसे। तो, जब जरमनीकी लड़ाई गम्भीर हुई और काल सामने दिखलाई देने लगा तो वीस सालसे गाली देनेवाले चर्चिलने स्तालिनको सलाम किया। जब सोवियत लड़ाईमें आ गई तो दुनियाके सारे लोगों—जोंक और कमेरा दोनोंके सामने सिर्फ एक बात की कि हिटलर और उसके गुंडोंको खतम किया जाय। उसमें हत्या-बेहत्याकी बात करके घूम-घुमौआ खेल खेलना नहीं चल सकता। हमारे नेताओंको सुरूसे ही दो टूक कहना चाहिए कि हम फँसिहा गुंडोंको एक छन भी जिन्दा नहीं देखना चाहते।

दुखराम—फँसिहा कौन है भैया !

भैया—जोंकोंका सबसे नीच औतार फसिहा हैं, जो कि फाँसी, हत्या, बिख हर तरहसे कमरोंको मारकर दबा देना चाहते हैं, इसीलिए फसिहा कहते हैं। मुसोलिनी और हिटलर फसिहोंके अगुआ हैं। ज्यादा पढ़े-लिखे लोग तो फासिस्ट बोलते हैं लेकिन हिन्दुवी बोलीमें फसिहा ही ठीक है।

दुखराम—हाँ, भैया ! हिटलरका जो गुन बतलाया न, उससे फसिहा नाम ही ठीक बैठता है।

भैया—जब दुनिया भरके लोग फसिहा राञ्छुसोंको खतम कर देना चाहते हैं, तो तुम जो डेढ़ चावलकी खिचड़ी अलग पकाओगे तो कहींके न रहोगे।

सोहनलाल—जवाहिरलालने तो साफ कहा, मौलाना आजादने भी फसिहोंके खिलाफ कहा।

भैया—सोहन मर्द, सतनरायनकी कथा नहीं है कि पंडितजी जो कुछ बोल रहे हैं सब हाथ जोड़कर सुनेगे। विलायतकी जोंकोंके मुँहमें दो सौ सालसे खून लगा हुआ है तुम चिल्ला-चिल्लाकर बोलो तो ऐसे जोरसे बाजा बजाने लगेंगे कि कोई सुनने ही न पाये और जवाहिरलाल और आजाद एक बात बोले और गाँधीजी कह दें कि दोनों हमारे लिए बराबर हैं तो सब गुड़ गोबर हुआ न ? विलायतकी जोंके गाँधीजीकी बातको तोड़-मरोड़कर दुनिया भरमें फैला देगी।

सोहनलाल—क्रिपके आनेपर तो गाँधीजीने भी अपनी बात साफ कर दी थी और कांग्रेसको फसिहोंसे लड़नेके लिए अंगरेज सरकारसे मेल करनेकी बात कर दी थी, फिर भी तो कुछ नहीं हुआ न ?

दुखराम—यह क्रिप कौन रहा भैया ?

भैया—है तो सात पुस्तका जोंक लेकिन लम्बी-लम्बी बातें करके मजूरोंका नेता बनना चाहता था। लेकिन हिन्दुस्तान तो वह दूसरे कामके लिए आया था। उस समय वह चंचिलके साथके चार-पाँच बड़े मंत्रियोंमेंसे था, अब तो बेचारा छोटा मंत्री बना दिया गया है। वर्मा, मलाया, सिंगापुरके ऊपर जापानने दिसम्बर १९४२में अचानक हमला बोल दिया। जोंकोंके पास लिफाफा (दिखावा) बहुत होता है। मैं बतला ही चुका हूँ कि जोंकोंके जरनैल

कितने निकम्मे होते हैं। सिंगापुरमें समुन्द्री किला बनानेके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन आधासे बेसी जरूर चेम्बरलेनके भाई-बन्दोंके ठेकेमें उड़ गया होगा। विलायती जोंके रबड़के बगीचोंको लेकर बैठी थीं, कोई खान लेकर बैठी थीं, किसीके जहाज और आफिस पिनाङ्ग और सिंगापुरमें थे। न पलटनोंके हथियारका अच्छा इन्तजाम था, न जनैलोंमें लड़ानेकी बुद्धि, हजार दो-दो हजार तनखाह पानेवाले साहेब अफसर पहले ही गोलेमें कान भाड़कर भाग खड़े हुए। अंगरेज बनियोंने सूमकी तरह आखिरी छुन तक थैली नहीं छोड़नी चाही और पिनाङ्गमें खड़े कितने ही जहाज और अंगरेजी कम्पनियोंके आफिस सही सलामत ही जापानियोंके हाथमें चले गये। यूरपमें लड़ाई होनेसे ये भरोसा नहीं था कि जापानको हरा दिया जायगा और लेकिन साथ ही यह भी कोई नहीं समझता था कि अंगरेजी जोंकोंने अपनी पूर्वी सीमापर सिर्फ फूसकी टट्टियाँ खड़ी कर रखी हैं।

सन्तोखी—फूसकी टट्टी ही मालूम होता है रही है भैया ! वर्मासे भागकर आनेवाले लोग कहते थे कि अंगरेज कलक्टर लोग तो जापानी पलटनका नाम सुनते ही जिला छोड़कर नौ-दो ग्यारह हो गए।

भैया—हाँ, डेढ़ सौ मीलपर जब जापानी पलटन थी, तो हंथावादी आदि पाँच-छः जिलोंके मोटी-मोटी तनखाह पानेवाले सभी साहेब बहादुर लोप हो गये। अब आज दुखू भाई रात बेसी हो गई है और किरिपके आने और कितनी ही बातें बतलानेका समय नहीं। अच्छा तो सलाम।

सलाम भैया !

अध्याय ६

जोंके हिन्दुस्तानको नहीं छोड़ना चाहतीं

सन्तोखी—जो भैया, विलायती जोंकोंको हिन्दुस्तान छोड़ना नहीं है तो किरिपको भेजा क्यों ?

भैया—मजबूरी थी, सिंगापुर, मलाया, वर्मा में जापानी आ गये, चटगाँव में बम गिरने लगा और डर मालूम होने लगा कि हिन्दुस्तान भी चला जायगा। ब्रिलायती जनैजोंकी तो यह हालत थी कि दो सबसे बड़ी लड़ाईके जहाजोंको बिना एक भी जापानी चुहिया मारे समुन्दरमें डुबवा दिया। जापानियोंने एक ही भोंकमें हिन्दुस्तानसे आस्ट्रेलियाकी सरहद तक अपनेको पहुँचा दिया। इसी वजहसे उन्हें थोड़ा सुस्तानेकी जरूरत थी। दिसम्बरमें ही अमेरीकाके ऊपर भी धोखासे जापानने हमला कर दिया था। अपने जान तो उसने बड़ी होसियारीकी थी और पर्ल बन्दरगाहके बहुतसे जंगी जहाजों, हवाई जहाजों और लड़ाईकी दूसरी चीजोंको बरबाद कर दिया, लेकिन उससे अमेरीकाके एक उँगली मुक जानेसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था और अब अमेरीका पूरी तौरसे लड़ाईमें आ गया।

सोहनलाल—अमेरीका और रूस जब साथमें हो गए तो अँगरेजोंको जीतनेमें क्या सक रह गई कि किरिपको भेजा ?

भैया—चर्चिलके नाकमें दम हो गया। सिंगापुर और वर्मा में बरसों लड़नेकी बात कर रहे थे लेकिन वह कुछ हफ्तों हीमें चले गए। ब्रिलायतके लोग घबराये। अमेरीकाने भी गला दबाया कि लड़ाई हँसीठठा नहीं है। सभी सरवस लगाके लड़ रहे हैं। फिर, तुम हिन्दुस्तानमें इतने आदमी हैं, इतना लड़ाईका सामान तैयार हो सकता है, उसका अपनी ओर नहीं करोगे तो यह बुरी बात है। चीनने भी इसी बातको दुहराया, रूसने भी कहा। फ्रांसके खतम होते वक्त जो हालत इंग्लैंडकी हुई थी, वही हालत इस बखत थी। इसीलिए चर्चिलने क्पिको भेजा। लेकिन मनसे नहीं।

दुखराम—मनमें धोखा रहा होगा भैया !

भैया—मनमें तो वह हर बखत सोच रहा था कि कैसे कोई गलती हिन्दुस्तानवाले करें, और हम निकल भागें। उसको तो विश्वास था कि अब इंग्लैंडको हारनेका कोई डर नहीं, अब चीन, रूस, अमेरीका, इंग्लैंड एक ही नावपर हैं, जब सब डूबेंगे तभी न हम डूबेंगे। फिर काहेको पहिले हीसे हिन्दुस्तान जैसी सोनेकी चिड़िया अपने हाथसे खो दे। अमेरीकाकी ओरसे करतल

जामसन हिन्दुस्तानसे समझौता कराने हीके लिए दिल्ली आया था ।

दुखराम—तो समझौता क्यों नहीं हुआ भैया ?

भैया—हमारी बेवकूफी और बिलायती जोंकोंकी चालाकीके कारण ।

दुखराम—बिलायती जोंकोंकी चालाकी तो मालूम है, लेकिन हमने बेवकूफी क्या की ?

भैया—हमारे नेताओंने हमेसा बैलगाड़ीसे रास्ता काटा, हवाई जहाज क्या रेलगाड़ीपर चढ़कर भी वह घबरा जाते हैं । हमेसा जब रेल निकल गई, तब यह अपनी गठरी-मुठरी ले स्टेशन पहुँचते । इनके दिमागमें तनिक भी ख्याल नहीं आया कि बिलायती जोंके दिलसे जो नहीं चाहती, उसे भी करनेके लिए मजबूर हैं । और किसीके पुन्य-प्रतापसे नहीं, लड़ाई उसे करवा रही है । लड़ाई बड़ी कठोर चीज है । कितना संहार होता है, कितने बच्चे तड़फड़ाकर मरते हैं, सब कुछ है लेकिन लड़ाई ऐसे भी मौके देती है कि जिसमें हाथ-पैर बाँधकर पटक दिए कैदी भी अपना बन्धन छुड़ा सकते हैं ।

सोहनलाल—हमारे नेता तो पहिले हीसे यह बात कहते थे ।

भैया—उलटा समझते थे, उलटा कहते थे । आज जोंकोंके पास इतने जबरजस्त इथियार हैं कि उनके हाथके गुलाम सिरिफ अपने बलपर आजाद नहीं हो सकते । इसका मतलब यह नहीं कि अपनेसे जोर नहीं लगाना चाहिए ।

सोहनलाल—माने आठ आना अपने जोर लगाना चाहिए और आठ आना बाहरकी आसा लगानी चाहिए ।

भैया—आठ आना नहीं, चौदह आना अपने जोर लगाना होगा और दो आनाके लिए भी बाहरकी आसा करना ठीक नहीं । किसीसे भी धरम और परोपकारकी आसा नहीं रखनी चाहिए । जो कोई हिलता-डोलता है वह अपने कामसे । गंगा तुम्हारे नहानेके लिए बनारसमें नहीं बह रही है, पानीको नीचे गढ़में पहुँचना है, गंगाके लिए समुन्दरमें जानेका यही सबसे आसान रास्ता है । गंगा जब अपना काम कर रही हो, तो उससे तुम भी अपना काम निकाल सकते हो । नहाके मैल धोओ या डूबकर सरग जाओ, पाइप लगाकर बनारसमें घर-घर पानी पहुँचाओ या सहर भरका मैला उसीमें बहा दो । अमृत ऐसे सारे

गानीको खारे पानीमें मिलने दो या अकिल हो तो बड़ी-बड़ी नहरें निकालकर ऊसर-वंजर धरतीमें सोना काटने लगे। दुनियाको अपने मतलबके लिये बहुत-सा काम करना होता है, बस तिकाए (निशाना लगाये) रहो। तुम्हारा निसाना दौड़ रहा है, तुम ऐसा तीर लगाओ कि वह उस जगहपर पहुँचे, वहाँसे निसानावाली चीज न आगे बढ़ गई हो और न पीछे रही हो।

दुखराम—तो भैया, चलते-चलते अब निसाना लगाना है, बड़े मुस्किल-का काम है।

भैया—इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस सबको अपने-अपने लिए फिकर पड़ी थी, और सब फसिहोंको खतम करना चाहते थे। जो आदमी फसिहोंके खतम करनेके लिए उनसे भी ज्यादा उतावला हो, और मुँहजबानी नहीं कामसे; उसको सबका बल मिलता। गांधीजीने बेहत्यावाली बात उठाकर हमेसा बाहरवालोंको उलटा समझनेका मौका दिया। जर्मनी, जापान और इटलीके फसिहा बेहत्या का नाम भी नहीं जानते। गांधीजीने एक बार आकासबाणी की, दुनियाको रास्ता बतलाया कि जो हिटलर हत्या करके दुनियाको जीतना चाहता है, तो उससे लड़नेका सबसे अच्छा हथियार है बेहत्या।

दुखराम—माने आततायी खून टपकती नंगी तलवार लिए आवे, और हम अपने हाथका हथियार फेंककर उसके नीचे गरदन मुका दें। भैया ! गाँधीजीने जोंक-पुरान पढ़ा है कि नहीं ?

भैया—उनको भगती और भगवानके पुरानोंके पढ़नेसे छुट्टी मिले तब न जोंक-पुरान पढ़े। वह तो जोंक किसीको मानते ही नहीं।

दुखराम—जब सभी भगवानके बनाये हुए हैं, तो काहे किसीको जोंक कहा जाय। जब भगवान ही सब कुछ करते-धरते हैं, तो हमको हाथ-पैर हिलानेसे क्या काम ? जब भगवान हीने बिलायती जोंकोंको हमारी छातीपर कोदो दलनेके लिए ला बैठाया है, तो हमें फड़फड़ानेसे क्या काम !!

भैया—लेकिन दुनियाके लोग जानते हैं कि तलवारपर गरदन रख देनेसे फसिहोंका दिल नहीं पसीज जायगा। इसीलिए वह जानपर खेलकर लड़ रहे हैं। और गाँधीजीके हाथसे छूटे इन सारे तीरोंको चर्चिल-अमरीने अपने पास

रख लिया, बीच-बीचमें दुनियाको दिखाते रहे हैं कि देखो यह तो हमें भी फसिहोंकी तलवारके नीचे गरदन रखनेको कहता है ।

दुखराम—चर्चिल तो बिलायतके महामंत्री हैं न भैया ! और यह अमरी कौन है ?

भैया—“रामलखन दुनौ भैया” हैं; और त्वाहे समझ लो रावन कू भाई कुंभकरन, चर्चिलसे एक अंगुल भी कम नहीं है । आठ पीढ़ीसे मुँहमें लमे खूनका ऐसा चसका पड़ा हुआ है कि वह कभी सोच भी नहीं सकता, कि जो आज गुलाम है, वह कभी आजाद होगा । उसको जो यह विस्वास हो जाय कि दो हजार बरस आगे चलकर हिन्दुस्तान हमारे हाथमें नहीं रहेगा, तो अफसोसके मारे आज ही छाती फाड़कर मर जायेगा । वैसे तो दो-सौ सालसे बिलायती जोंके हिन्दुस्तानपर राज कर रही हैं और एकसे एक चतुर-सुजान हिन्दुस्तानकी नकेल पकड़नेवाले आये होंगे, लेकिन चर्चिल-अमरी जैसी जोड़ी कभी नहीं मिली होगी । अच्छा जोड़ीसे इस बखत काम नहीं, किरिपवाली बात देखनी है ।

दुखराम—हाँ भैया ! वही सुनाओ ।

भैया—किरिपने आते ही पहिले तो ऐसी बात कही कि हिन्दुस्तान बस लड़ाईमें पूरी तौरसे मदद करे और सोलहो आना राज हम हिन्दुस्तानियोंके हाथमें देनेके लिए तैयार हैं । दो-चार आदमियोंके सामने नहीं किया बल्कि रेडियो बाजामें बोल दिया जिसमें कि इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस सारी दुनिया जान ले, कि आज बिलाइतपर जोंकोंके सबसे निठुर सरदार चर्चिल-अमरीका राज नहीं है, बल्कि देवता राज कर रहे हैं । सारी दुनियाके लोग जो हिन्दुस्तानके साथ समझौता करानेके लिए सारी तागत लगाये हुए थे, किरिपके इस बचनसे ही वे लोग आघे ठंडे हो गये । फिर महीने भर बात चलती रही । कभी हरियाली दिखाई देती और कभी सूखा ऊसर । चर्चिल-अमरी पूरी कोसिस करते कि दुनिया समझे कि हम बिल्कुल दूधके धुले हैं और अगर काम बिगड़ेगा तो हिन्दुस्तानियोंकी वजहसे ।

सोहनलाल—हाँ, यह बात तो ठीक कह रहे हो भैया !

भैया—हमारे नेता इन बिलायती जोंकोंके सामने पासंगपर भी अकल नहीं

लगाना चाहते । वह सूखा चावल, दाल, तरकारी, लकड़ी, बरतन लेकर पकाके खानेके लिए तैयार नहीं हैं । वह कहते थे कि चावलका एक-एक कंकड़ चुनो, दालकी कराई निकालो, लकड़ीको धोओ, भात, दाल, तरकारी पकाओ, छौंक-बघार लगाओ, थालीमें परोसो । परोस करके कागजपर लिखो कि यह थाली हम आपको भेंट करते हैं, तब थालीमें हम हाथ डालेंगे ।

दुखराम—यह तो मड़वेमें खिचड़ी खानेवाले दुलहेको भी मात कर रहे थे ।

मैया—लेकिन यहाँ समझी वैसा नहीं था । इन अकिलके पूरे लोगोंको यह ख्याल नहीं आया कि हमें कैसे आदमियोंसे पाला पड़ा है । वह यह भी नहीं समझ सके कि हमें कागज लिखकर चर्चिल-अमरी नहीं देंगे, जो वह लिखकर दें भी तो उसका मोल कूड़ेके ढेरपर पड़े कागजसे ज्यादा नहीं है ।

सन्तोखी—सचमुच मैया ! वह दस्तावेज लिखवाना चाहते थे ? दस्तावेज कोला-कोलीका लिखवाया जाता है, अंगरेजोंने हिन्दुस्तानपर राज करनेसे पहले हम लोगोंसे दस्तावेज नहीं लिखवाया था ।

सोहनलाल—तो कांग्रेसी नेताओंको क्या करना चाहिए था, जो कोई जूठा टुकड़ा चर्चिल-अमरी फेंक देते, उसे उठाकर चाटने लगते ।

मैया—जोंकोंके यहाँ जूठा फेंका नहीं जाता है; उनके यहाँ सहरके पाखानेकी चरबी अलग करके करोड़ोंका साबुन बेचा जाता है । वह इस बखत ऐसे पेंचमें पड़े थे कि तुम्हें वही तलवार दे रहे थे, जिससे एक दिन उन्होंने हिन्दुस्तानको जीता था ।

सोहनलाल—तलवार कहाँ दे रहे थे. वह तो बल्कि सर्त्त कर रहे थे कि पलटन सारी हमारे हाथमें रहेगी ।

मैया—और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंके हाथमें तलवार नहीं दी जायगी, वह जयकार बोलके जापानियोंको मार भगाएंगे । सोहन भाई सोचो १८५७के गदरके बाद किसी हिन्दुस्तानीको तोपखानामें भरती नहीं किया जाता । अपनी अभी पिछड़ी लड़ाई तक हिन्दुस्तानी सूबेदार मेजर तक ही बन सकते थे, कोई लेफटेन और कपतान भी नहीं बनाया जाता था । अब हिन्दुस्तानी हजारों

अफसर हैं, तोप ही नहीं हवाई अहाज और टैंक चलाते हैं। लड़ाईका महकमा छोड़कर बाकी सब महकमा हिन्दुस्तानियोंके हाथमें आ रहा था। जिना-जवाहिरके हाथमें सरकार होती। पलटन किसी अंगरेज जनैलके हाथमें होती। लड़ाईमें पचीस लाख नहीं एक करोड़ हिन्दुस्तानी जवान जानेके लिए उतावले होते, सबके हाथमें हथियार देना पड़ता।

सोहनलाल—लेकिन भैया यह सब तो मनका लड्डू है। चर्चिल-अमरीके आदमीके हाथमें हिन्दुस्तानी पलटन होती, क्या वह कभी ऐसा होने देता।

भैया—रोकना उसके बसकी बात नहीं थी। फसिहोंको मार भगानेके लिए अमेरिका, रूस, चीन और खुद इंग्लैंडके लोग उतावले हैं। एक-एक करोड़ हिन्दुस्तानी लड़नेके लिए तैयार हों और चर्चिल-अमरी भाँजी मारें, तो कोई इसे बरदास करेगा। पहले अमेरिका ही कहता कि तुम खाली अमेरिकन लोगोंको ही मरवाकर जीतना चाहते हो। आने दो हिन्दुस्तानियोंको लड़ाईमें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर क्या चर्चिल-अमरी ना करनेकी हिम्मत करते। यह तो सोहन भाई, तुम मानते हो न कि लड़ाईमें सिपाहियोंकी बड़ी जरूरत है और जितना ही हिन्दुस्तानी सिपाही ज्यादा होते उतना ही अमेरिकन और अंगरेज सिपाहीको कम मरना पड़ता। अकेला हिन्दुस्तान ही/जापानको खदेड़कर उसके घरमें घुसा देता।

सोहनलाल—लेकिन यह एक करोड़ हिन्दुस्तानी सिपाही भी तो अंगरेज जनैलके हाथमें रहते ?

भैया—जहाँ तक जापानी फसिहोंसे लड़नेकी बात थी, वहाँ तक वह अंगरेज-जनैलके नीचे लड़ते और दिल खोलकर लड़ते। लेकिन यह एक करोड़की पलटन वह पुरानी हिन्दुस्तानी पलटन न होती, जो तनखाहके लिए लड़ रही थी; यह हिन्दुस्तानी नवजवान अफसर, पुराने अफसर नहीं होते जो नौकरी ढूँढ़ते-ढूँढ़ते लाचार होकर पलटनमें गये थे। इसमें हजारों ऐसे नौजवान जाते, जो देसको आजाद करनेके लिए तड़फड़ा रहे हैं। तुम जाते और तुम्हारे हजारों साथी जाते जो पहलेके अफसरों और सिपाहियोंको भी समझाते कि जापानी फसिहोंको खतम करो।

जिना-जवाहिर जवानोंको पलटनमें जानेके लिए कहते वह खुद वर्मा और इटलीके मोरचेपर जाकर अपने जवान सिपाहियोंको बढ़ावा देते। जवान समझते, कि ये हमारे महामंत्री, ये हमारे लड़ाईके मंत्री। क्या तुम विश्वास करते हो कि तब भी हमारे ये करोड़ सिपाही अपनेको गुलाम सिपाही समझते ?

सोहनलाल—लेकिन लड़ाईके बाद तो इन सिपाहियोंको बन्दूक छोड़कर धर जानेका हुकुम होता न ?

भैया—कौन हुकुम देता ? चर्चिल-अमरी, जिसमें कि वह फिर लाख-दो लाख गोरी पलटन रखके हिन्दुस्तानको पहिलेकी तरह गुलाम बनाते ? यह नहीं हो सकता था। इसके लिए न हमारे जवान तैयार होते न जिना-जवाहिरकी सरकार होती। फिर बन्दूक, मसीनगन, टक, तोप, हवाई जहाज, जंगी जहाज सबसे लैस एक करोड़ हिन्दुस्तानी पलटनके हथियारको छीननेके लिए चर्चिल-अमरीको उससे भी बेसी पलटन भेजनी पड़ती। क्या यह उनके बूतेकी बात थी।

दुखराम—न नौ मन तेल होता, न राधा नाचती।

भैया—जिस बखत दुखू भाई दिल्लीमें क्रिप कांग्रेसके नेताओंसे बातचीत कर रहा था, और कांग्रेसके नेता फसिहोंके साथ लड़नेका पूरा मनसूजा दिखा रहे थे, उधर अमेरिकाका जान्सन भी हिन्दुस्तानियोंको, और अंगरेज जोंकोंके पिट्टुओंपर भी दबाव डाल रहा था, तो उस समय चर्चिल-अमरीको रात भर नींद नहीं आती थी। बिलायती जोंके पानीके बाहरकी मछलीकी तरह छुटपटा रही थीं। वह रात-दिन भगवानको मना रही थीं कि हिन्दुस्तानियोंके बुद्धिपर परदा पड़ जाता। उसी बखत उनके गोइन्दोंने दिल्लीसे खबर दिया कि हिन्दुस्तानियोंके दिमागपर परदा पड़ रहा है। वह सूखा सीधा लेनेके लिए तैयार नहीं हैं, एक-एक चीज पकाकर, परोसकर और अपने हाथसे खिलानेके लिए कह रहे हैं।

सोहनलाल—यह बात भैया ! ठीक नहीं कह रहे हो। कांग्रेसके नेताओंने तो यही कहा कि और कुल महकमा मिल जाय, तो हम लड़ाईका महकमा

अभी अंगरेजी जरनैलके हाथमें रखनेके लिए तैयार हैं । लेकिन, हमारे काममें बड़ा लाट कोई बाधा न डालें ।

भैया—इसीको कहते हैं हाथसे खिलाना । चर्चिल-अमरीने क्रिपकौ भेजा और इतना दूर तक दबे इसके लिए तुमने क्या कोई पहिलेसे दस्तावेज लिखवाया था । लड़ाई हीने न उन्हें मजबूर किया ? अगर तुम तन-मन-धनसे फसिहोंसे लड़नेके लिए तैयार थे, तो तुम्हारे काममें बड़े लाट क्या उनके बड़े अफसर भी बाधा नहीं डाल सकते थे । तुम चाहते कि हिन्दुस्तानी सिपाहीकी तनखाह तीस रुपया नहीं साठ रुपया होनी चाहिए । साठ होनेपर भी वह अंगरेज सिपाहीसे बहुत कम रहते ? फ्रांसने गोर-काले सिपाहीकी तनखाह बराबर कर दी है, यह मालूम है न ?

सोहनलाल—हाँ, मालूम है, लेकिन अंगरेज जरनैल रोक देता ।

भैया—सोहन भाई ! मत बच्चोंकी तरह बात करो । हिन्दुस्तानीको तनखाह लेना है, हिन्दुस्तानी सरकार तनखाह बढ़ाना चाहती है, तनखाह बढ़ानेसे सिपाहियोंको पैसा ही ज्यादा नहीं मिलेगा बल्कि उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी । जरनैल कौन मुँहसे रोकता ? क्या इससे अमेरिकावाले खुस होते ? इंगलडके लोग खुस होते ? क्या यह एक काम करके जरनैल सारी हिन्दुस्तानी पलटनको अपने खिलाफ न कर लेता ? चर्चिल-अमरी छाती जरूर पीटते, लेकिन चुप रह जाते । सारी दुनिया उनका साथ नहीं देती । लड़ाईके बाद जब फसियोंसे लड़ना न रह जाता तो घर लौटे हिन्दुस्तानी सिपाही और अफसर जरनैलकी बात मानते कि जिना-जवाहिरकी ? और दूसरी बात लो जब जापान चटगाँवके पास आ गया था तो जॉर्कोके सिरताज लार्ड लिनलिथगोकी सरकारने हुकुम निकाला था कि जापानी पड़ोसमें आ गये हैं, हमारे पास इतनी बन्दूके तो नहीं है कि लोग जितना चाहें उतना हम दे । लेकिन गाँव पीछे दो-दो बन्दूक हम देंगे । लिनलिथगो जो यह कह सकता था, और यह सच है कि वह सिर्फ कहना भर था, जिससे अमेरिका और बिलायतवाले जानें कि हिन्दुस्तानकी गोरी सरकार जापानियोंसे लड़नेके लिए लोगोंको तैयार कर रही है । जिना-जवाहिरकी सरकार जो उसी बातको दोहराती, तो लिनलिथगो कैसे रोकता ?

सात लाख गाँवमें चौबह लाख ही बन्दूक नहीं आती, बल्कि वह यह भी हुकुम देती कि लोहार मिस्तिरीसे लोग और भी जितनी बन्दूक बना सकें बनाएँ । रेलकी सड़कवाला लोहा अच्छा फौलाद है । मुंगेर, ग्वालियर और हजारों जगहोंमें ऐसे लोहार मिस्तिरी हैं जो बन्दूक बना सकते हैं, कारतूस तैयार कर सकते हैं ।

दुखराम—तो भैया ! हथियार मिलनेका रास्ता ही बिलकुल मिल गया था ।

भैया—लड़ाईके कारण लोग गाँवमें भूखे मर रहे थे, सहरोंमें हालत बुरी थी । जिना-जवाहिरकी सरकार कहती कि लड़ाई जीतनेके लिए अनाज बेसी पैदा करना जरूरी है । इसलिए सिचाईका पूरा इन्तजाम करो, नये बाँध-बाँधवाओ, नये खाड कटवाओ, नई नहरे निकलवाओ, नये तालाब-कुएँ खुदवाओ । रेलके किनारे पड़ी सारी जमीनको आबाद करा दो, ऊसर-परती सबमें अनाज उपजाओ, गाँवमें कोई आदमी बेकार नहीं रहना चाहिए । काम करनेके लिए हरेकको आठ-आठ आना मजूरी मिलनी चाहिए । कौन इस कामको रोकता है । करोड़ों बेकार बैठे आदमियोंको काम मिलता, कई करोड़ बीघा जमीन आबाद हो जाती, कई करोड़ मन अन्न बेसी पैदा होता । जवाहिर-जिनाकी सरकारमें लाख-लाख रुपया घूस-रिसवतको ले करके करोड़पति अनाज चोरोंको आँख मूँदकर लूटनेका मौका न मिलता और न बंगालके साठ लाख आदमी मरते । नये कारखाने खोलना बिलायती जोंके बिलकुल पसन्द नहीं करतीं । वह समझती हैं कि पिछली लड़ाईके बखत जब बिलायतसे कपड़ा नहीं आ सकता था तो हिन्दुस्तानमें कपड़ोंकी मिलोंके बढ़ानेका मौका दे दिया गया; जिसका फल यह हुआ कि आज हिन्दुस्तानको बाहरसे कपड़े मँगानेकी जरूरत नहीं रह गई । वह नहीं चाहती कि हिन्दुस्तानमें कारखाने और बढ़ें और उनके बिलायती कारखाने बन्द हो जायँ ।

सोहनलाल—आज भी तो बड़े लाटके मेम्बर तीन छोड़ सभी हिन्दुस्तानी हैं फिर वह क्यों नहीं करवाते ?

भैया—वह पेट पालनेके लिए गये हैं, जिना-जवाहिर, पेट पालनेके लिए

हिन्दुस्तानकी सरकार नहीं बनाते । वह कहते कि लड़ाईमें लारी और मोटरकी बहुत जरूरत है, हिन्दुस्तानमें लोहा-कोयला है, मिसतिरी-इञ्जीनियर हैं, फिर सात समुन्दर पारसे हजारों जहाजोंको लगाकर लारी टोकर लानेका काम नहीं है । हिन्दुस्तान हीमें मोटरका कारखाना खुलना चाहिए । बताओ इसको कौन रोकता है ?

सन्तोखी—कैसे रोकता भैया ! यह तो लड़ाईके कामको ही रोकना होता न ?

भैया—लाखों आदमी मलेरियामें मर गये । कुनैन सोनेके भाव मिलती है, कैसे कोई खरीदे ? लड़ाईसे पहले गोरी जोंकोंके फायदेके लिए हिन्दुस्तानकी गोरी सरकारने हमारे देसमें कुनैनके बगीचोंको बढ़ाने नहीं दिया । अब भी तुम्हारे मरने-जीनेकी उनको परवाह नहीं है, चौथा बरस हुआ लेकिन तब भी कुनैनका अकाल वैसा ही है । जो कुनैन मिलती भी है, वह भी दवाई बेचनेवाले घड़ियाल खा जाते हैं ।

दुखराम—कुनैन तो भैया ! बड़ी कड़वी होती है कैसे दवाई बेचनेवाले खा जाते हैं ।

भैया—डिस्टिक बोर्डके अस्पतालमें नहीं देखा है दुख्खू भाई ! दवाई माँगने जाओ तो डाक्टर कह देता है कि नहीं है और मुँह उदास करके लौटो तो कमपोटर या दूसरा आदमी आके कानमें कहता है—“डाक्टर साहबके पास तो दवा नहीं है, लेकिन दाम खरच करो तो हम तुम्हारे वास्ते मेहनत करें ।” फिर एक रुपयाकी चीज तुम्हें पचास रुपयामें मिलती है ।

दुखराम—आदमीका जीउ जाता है और यह सब लूट मचा रहे हैं ।

भैया—इसी तरह सहरोंमें दवाईवाले दूकानदार हैं । बड़ी दूकान है, बड़ा लिफाफा है, चसमा लगाये बड़े साहब बैठते हैं । कुनैन माँगने जाओ तो कहते हैं कि अभी खतम हो गई, दो-चार दिन बाद आओ तो मिलेगी । बाहर आओ तो वहाँ भी कोई आदमी कानमें कहेगा और एक रुपयाकी कुनैन पचास रुपयामें दिलवायेगा । हाँ, दरवाजेके रास्ते नहीं खिड़कीके रास्ते थोड़ा ठहरके तमासा देखो, तो देखोगे कोई दारोगा साहब, डिप्टी साहब या इन्स्पेक्टर

साहब आये हैं । दुकानके काले साहबने खड़े होकर सलाम किया और कुरसी-पर बैठाय़ा सिगरेट दिया । पूछा—क्या सेवा करूँ ? अफसरने कहा—यही आधी छुटाक कुनैन चाहिए ? तुरन्त आलमारीसे कुनैन निकल आई । और दूकानके मालिक कहेंगे—हज़ूर ! आधी छुटाक कुनैन मत लें, क्या जाने फिर कब आये । एक छुटाँक ले लीजिए दामकी परवाह मत कीजिए । मुफ़त एक छुटाँक कुनैन मिल गई । तुम उनसे जाओगे कहने कि हमारे लिए न किया तो कभी मानेंगे ?

दुखराम—हाँ भैया ! आजकल घूस-रिसवत क्या है. दिन-दहाड़े लूट मच रही है ।

भैया—जिना-जवाहिरके उस बरहअनियाँ सरकारके सामने यह दिन-दहाड़े लूट नहीं चलती । दो-चारको लाख, हजारकी घूस दी जा सकती है, यहाँ तो हजारों मुँह भंडा फोड़नेके लिए तैयार होते । उस बख़्त न कुनैनका चोर बजार लगता न अनाजका, न कपड़ेका ।

सोहनलाल—यह तो बीती बात हो गई न भैया ?

भैया—“बीती ताहि तिसारि दे, आगेकी सुधि लेय’ ठीक है, लेकिन बीतीसे जो सिच्छा नहीं लेता वह आगे भी धोखा खाता है । जब क्रिप्सको इन्होंने दस्तावेज लिखनेके लिए कहा, तो चर्चिल-अमरीने कह दिया जो ये हमपर विसवास नहीं करते तो हम कैसे इनपर विसवास करें ? अभी थोड़े दिन पहिले गांधीजीने हमें हिटलरके सामने तलवार डाल देनेकी बात कही थी । जो हम इनके हाथमें सब कुछ दे दें, और कल ये लड़ाईमें मदद देनेके लिए चुप्पी साध जायँ तो यह अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंडकी सारी जनताका गला काटना होगा । चर्चिल-अमरीको डर है अपने जोंक भाइयोंके गला कटनेका, लेकिन वह उसको साफ नहीं कहेंगे, वह सारी दुनियाकी जनताके गला कटनेकी बात करेंगे । कांगरेसी नेताओंने कहा था लेकिन अभी फसिहोंसे लड़कर नहीं दिखलाया था । चर्चिल-अमरीने दुनियाकी नबज टोई, मालूम हुआ लोग ढीले हो गये हैं, दोनों ओरको कसूरवार मानने लगे । फिर क्या था क्रिप्स अँगूठा टिखलाकर चला गया ।

दुखराम—बड़ा गुस्सा आता है भैया, जोंके' बड़ी चालबाज है ।

भैया—गुस्सामें आकर खम्भा नोचनेसे काम नहीं चलेगा दुक्खू भाई । चालबाज न होतीं तो आब चार हजार बरससे दस जोंके' हजार कमरोंको मुट्ठीमें पकड़े रहतीं । चालबाजीका जवाब गुस्सा नहीं है, उसका जवाब है उससे भी जबरजस्त चाल, लेकिन उसके लिए दिमागको ठंडा रखना पड़ेगा । क्रिप्स तो चला गया । विलायती जोंकोने खुसी मनाई । लेकिन जापान तो अब भी छाती-पर बैठा था, हिटलरी गुंडे तो अब भी रूसमें आगे बढ़ रहे थे । अफरीकाकी ओरसे भी जर्मनोंके हिन्दुस्तान आनेका खतरा हटा नहीं था । फिर अमेरिकाके लोगोंने, विलायतके लोगोंने चर्चिल-अमरीका गला दवाना शुरू किया । उन्होंने सोचा कि लोग हमारी बातका विसवास नहीं करते । कांग्रेसवालोंने जो चिह्ला-चिह्लाके कहा है कि हम फसिहोंको पीसनेके लिए तैयार हैं; यह बातें भरसक हमने तो बाहर नहीं जाने दी लेकिन अमरीकाकी लाखों फौज आई है, उनके अखबारवाले भी सहर-सहर घूम रहे हैं; बात तो बाहर चली ही जाती है । हिन्दुस्तानसे तार भेजना रोक देते हैं तो वह हवाई जहाजसे उड़कर चीन चले जाते हैं । चीन जानेवाले हवाई जहाजोंमें बेसी अमरीकाके ही हैं । हम इनको रोके' कैसे ? फिर उन्होंने खूब दिमाग लगाया । चर्चिल-अमरी-लिनलिथगो और सब जोंकोंके खुराट सरदारोंने सोचनेमें अपना सारा दिमाग खाली कर दिया ।

दुखराम—डर जो होने लगा कि फिर क्रिप्सकी तरह किसीको भेजना न पड़े ।

भैया—किसके दिमागमें बात आई यह तो नहीं कह सकते लेकिन जब जुगती सुनाई गई तो चर्चिल-अमरी उछल पड़े । उन्होंने कहा—ठीक कहनेसे अब गला नहीं छूटेगा अब करनीसे दिखलाना होगा कि सचमुच कांग्रेसवाले हम लोगोंके नहीं फसिहा जापानके दोस्त हैं ।

दुखराम—क्या जुगत सोची भैया ?

भैया—कहनेमें बहुत मामूली है दुक्खू भाई ! उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तानके सभी बड़े-बड़े नेताओंको पकड़कर एक ही दिन जेलमें डाल दो । नेताओंके

पकड़े जानेपर दुनियामें सभी जगह लोगोंको जोस आ जाता है, हिन्दुस्तानमें भी जोस आयेगा। फसिहा जापानके दलाल हिन्दुस्तानमें कुछ हई हैं। जब लोग जोसमें पागल होंगे उनके दिलमें अँगरेजोंके लिए घिना धाँय-धाँय जल रही होगी उस बखत ये जापानी दलाल कहेंगे—चलो रेल उखाड़ो, चलो तार काटो, चलो थाने-डाकखानेमें आग लगाओ, चलो इसटेसन जलाओ, चलो मालगोदाम लूटो। लोग समझेंगे—यह है असली देस भगत, दस-पाँच इस-टेसन जल गये, कुछ थाने-डाकखाने बरबाद हो गये, कुछ रेल-तार कट गये; लेकिन चर्चिल-अमरी जानते थे—“तार काटूँ तरकुल काटूँ” से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसकी खबर हम सारी दुनियामें फैलायेगे। देखनेवालोंको अपने खर्चपर देखनेके लिए भेजेगे। दुनिया अपनी आँखों देखेगी कि कागरेसवाले हिन्दुस्तानको जापानवालोंके हाथमें सौपना चाहते हैं फिर जो आज हमारा गला दबा रहे हैं, उन्हें चुप्पी साधना पड़ेगा।

सोहनलाल—लेकिन यह तो भूठी बात है न भैया !

भैया—तुम्हारा कहना ठीक है सोहन भाई ! कांगरेसका इरादा नहीं था। ६ अगस्त (१९४२ ई०)को बम्बईमें जो मीटिंग बैठी थी, उसमें और साफ-साफकर कहा गया था कि हम इंगलैंड, अमेरिका, चीन और रूसके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर फसिहोंसे लड़ेंगे। तन-मन-धन सब हम इसके लिये नेवछावर करेंगे। बेहत्या नहीं, भयानकसे भयानक हत्या बोल हथियार लेकर हम रनमें जायेंगे। सब बात साफ कर दी आखिरमें दो अच्छर यह भी कहा कि गाँधीजी बड़े लाटसे मिलकर समझौता करनेकी कोसिस करेंगे। नहीं तो सत्याग्रह करेंगे और कहेंगे “हिन्दुस्तानको छोड़ दो”। चर्चिल-अमरीने ऐसा श्रवसर देनेके लिए भगवानको धन्न कहा। ६ अगस्तको सारे हिन्दुस्तानके कांगरेसी नेताओंको पकड़कर जेलमें डाल दिया गया। तार और रेडियो बाजा खन-खनाने लगा कि कांगरेसी नेता जापानको बुलाना चाहते थे, हमने उनको पकड़कर जेलमें डाल दिया। उनके आदमी रेल-तार काट रहे हैं। अँगरेज, अमेरिकन, हिन्दुस्तानी पलटन आसाम और चटगाँवके सरहदपर जापानियोंके साथ लड़नेके लिए जानकी बाजी लगाकर बैठी है। जिन रेलोंसे उनको गोला-

बारूद, रसद-पानी मिलता, उन्हें कांग्रेसी काट रहे हैं ।”

दुखराम—अफ़सोस !

भैया—लोगोंने अपनी गलतीको माना । रेल-तार तो जहाँ-तहाँ कटा ही था, इसे कौन नकार सकता है । लड़ाईके वक्तमें दुसमनके पीछेकी रेल-सड़क-पुलको तोड़नेके लिए हजारों हवाई जहाजोंकी बलि चढ़ाई जाती है । जिस कामके करनेके लिए जापानी फसिहोंको न जाने कितने हजार अपने हवाई जहाजों और उड़कोंसे हाथ धोना पड़ता, वह काम उनके लिए मुफ्त हो रहा था । जापानी खूब खुस हुए । लेकिन हमारे बाहरके मुलकोंके दोस्त बहुत निरास हो गये । महीनों तक उनको असली बातका पता न लगा । बरसों तक जापानी दलाल देस-भगतका जामा पहनकर लोगोंको कह रहे थे कि अब नेता जी सुवास बाबू जापानियोंकी फौज लेकर उतरना ही चाहते हैं ।

सोहनलाल—नेताओंके जेलमें डाल देनेपर जो लोग चुप रह जाते, तो इससे दुनिया क्या समझ नहीं लेती कि हिन्दुस्तानी मुरदा हैं ?

भैया—मुरदा समझते तो अच्छा था, लेकिन पागल समझना उससे बुरा है और विश्वासघाती समझना तो और भी बुरा है । इंग्लैंड, अमरीका, चीन, रूसकी जनता हमारे लिए जोर लगा रही थी, वह समझती थी कि हम भी उन्हींकी तरह फसिहोंके दुसमन हैं । लेकिन हमारे अन्धेपनने हमसे ऐसा काम कराया कि जिसके लिए उन्हें भी लजाना पड़ा ।

सोहनलाल—लेकिन सरकारने हम लोगोंपर जो जुलुम किया ?

भैया—जुलुम किया और सोहन भाई ऐसा जुलुम किया है जिसको देख-कर खून खौल जाता है । बलियामें जो कुछ हुआ वह पंजाबकी ओडायर शाहीको भी मात करता है ।

दुखराम—ओडायर साही क्या है भैया !

भैया—पिछली लड़ाईके वक्त जब हिन्दुस्तानी लोगोंमें आजाद होनेका ख्याल बढ़ने लगा और पंजाबके लोग पलटनमें ज्यादा थे, उसी पंजाबमें जोस और ज्यादा बढ़ने लगा, तो वहाँका लाट ओडायर सोचने लगा—जो यह जोस दबाया नहीं गया और लड़ाईसे लौटे सिपाही भी इसमें सामिल हो गये तो

फिर बिलायती जोकोंके लिए खैरियत नहीं । उसने पलटन, पुलिस सबको खुली छूट दे दी, जालियाँवाला बाग (अमृतसर)के एक हातेके भीतर सभा हो रही थी जरनैल डायरने मसीन लगवा दिया और डेढ़ हजारसे ऊपर बच्चे, औरतों, मरदोंको भून डाला । इसके बाद तो पूछो मत कितनी ही औरतोंका सिन्दूर मिट गया, कितनी ही औरतोंकी इज्जत लूटी गई । पुलिसने धन लूटकर घर भर लिया । आदमीकी जानका मोल एक गोलीसे ज्यादा नहीं था, धन उससे भी सस्ता था । इज्जत और भी सस्ती थी ।

दुखराम—बस करो भैया ! आदमीको जिउसे ज्यादा आजादीको प्यार करना चाहिए । कीड़ो-मकोड़ोंकी जिन्दगी धिक्कार है ।

भैया—लेकिन ओडायर साही और बलियाके हैलट साहीमें फरक है । ओडायर साही लड़ाई खतम होनेके बाद हुई थी, इसलिए जालियाँवाला बाग और पंजाबके जुलुमकी खबरें दुनिया भरमें फैलीं । सब जगह थू-थू होने लगी और बिलायती जोकोंकी साख घटने लगी । वह डर गई, उन्होंने फिर जालियाँवाला बागको दुहराया नहीं । लेकिन हैलट साहीको लड़ाईके बीचमें खुले खेलनेका मौका मिला, और अच्छे बहानेके साथ । इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि ये लोग रेल-तार काटकर जापानको बुला रहे थे । बलियामें जो जुलुम हुआ है वह दुनिया छोड़ सारे हिन्दुस्तानमें भी पूरे तौरसे नहीं आया । लेकिन वह जरूर आयेगा किसी दिन और पुलिस जो अपने भाइयोंके धन-इज्जतको लूटनेमें सबसे आगे रही, उसके एक-एक आदमीको लोग भूलेंगे नहीं ।

सोहनलाल—आजादीके लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई लेकिन कमनिस्त अपनेको इतना बड़ा इनकलाबी कहते हैं, मरकस बाबाके चेला बनते हैं और इस लड़ाईमें उनका पता नहीं लगा ।

भैया—कमनिस्तोंकी चली होती तो १९४२के अगस्तमें जो पागलपन देखा गया वह होता ही नहीं ।

सोहनलाल—अंगरेजोंसे लड़ाई करना क्या पागलपन है ?

भैया—यही तो वह समझ नहीं रहे थे कि किससे लड़ रहे हैं । चर्चिल-

अमरी जो चाहते थे वही करना जो आजादीके लिए लड़ना है, तब तो हद हो गई ।

सोहनलाल—कांग्रेसके हुकुमसे लोगोंने सब कुछ किया था ?

भैया—गांधीजीने उसी अग्रस्तमें बड़े लाटको लिख दिया था कि इस पागलपनकी जिम्मेवारी कांग्रेसके ऊपर नहीं है, गवरमेंटने लोगोंको पागल बनाके यह सब कराया है । गांधीजी जेलमें थे, तब तो उनके नामसे भूँट-साँच सभी बातें चलायी जाती थीं । अब तो गांधीजी जेलके बाहर हैं और उन्होंने एक नहीं बीसियों बार साफ करके कह दिया है कि कांग्रेसकी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं थी, कांग्रेसने सारा भार मुझपर दिया था और मैंने कभी ऐसा हुकुम नहीं दिया ।

सोहनलाल—तो यह सब कुछ किसने कराया ?

भैया—असलमें तो जाल बुना था चर्चिल-अमरीने, फिर दूसरे भोंकने-घाले थे जापानी दलाल बाकी थे पागलपनमें पड़ गये ।

सोहनलाल—कमनिस्त भी यही कहते हैं और हम तो समझते हैं वह अंगरेजोंके आदमी हैं ।

भैया—मैंने कहा नहीं कि कमनिस्तोंकी बात चली होती तो यह पागलपन नहीं होता । बम्बई, कानपुर, कलकत्ता जहाँ लाखों मजदूर रहते हैं वहाँ उन्होंने अपने मजदूरोंको समझाया और कोई रेल-तार तोड़ने नहीं गया । कमनिस्त अंगरेजोंके कैसे आदमी हैं यह तो इसीसे पता चल जाता है कि “तार काटूँ तरकुल काटूँ”के खिलाफ कहते रहनेपर भी एक हजार कमनिस्तोंको जेलमें डाल दिया गया । सोनपुर (छपरा जिला)में एक कमनिस्त लोगोंको रजिस्ट्री दफ्तर फूँकनेसे मना कर रहा था और उसे पुलिसने फँसाकर पाँच सालकी सजा दिलवा दी । दूसरा कमनिस्त साथी कांग्रेस नामसे बटती जाली नोटिसको इसलिए जेबमें रखा था कि लोगोंको समझाये कि यह गलत है । पुलिसवाले जानते थे कि वह कमनिस्त है क्योंकि आजकल पुलिसका सबसे बड़ा काम है कमनिस्तोंके पीछे-पीछे लगा रहना; लेकिन तो भी उस नौजवानको दो सालके लिए जेल में ही दिया गया । आज भी पहले और के मिलाकर एक

हजार कमनिस्त जेलोंमें है। मैं भी कमनिस्त हूँ, क्या कहते हो मैं अंगरेजोंका आदमी हूँ ?

सोहनलाल—मैं सबको नहीं कहता ।

भैया—मैं सबकी जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि कोई भी देसद्रोही कमनिस्तोंके भीतर नहीं रह सकता, वहाँ तपे-तपाये ही लोग रह सकते हैं। सोहन भाई, जान पड़ता है आपने कमनिस्तोंके बारेमें दूसरोंके मुँहसे सिफ़ सुना भर है। आपको याद रखना चाहिए कि अंगरेजी सरकार जो किसीको सबसे अधिक खतरनाक समझती है तो वह यही कमनिस्त हैं ।

दुखराम—सुरुजपर जो थूकेगा भैया वह उसीके ऊपर आयेगा ।

भैया—तो यह मालूम हुआ न सोहन भाई ! जोंकोंके मनमें क्या है। जोंके तीनों कालमें हिन्दुस्तानको आजाद नहीं होने देंगी। लेकिन तीनों काल क्या एक काल भी उनके हाथमें नहीं है। जो उनके चाल और जालमें नहीं फँसेगा और अपनी ताकतको मजबूत करेगा और दुनियामें क्या हो रहा है उसको आँख खोलकर देखता रहेगा फिर इस सबके मुताबिक अपना दाव चलायेगा, वह जोंकोंको पछाड़कर छोड़ेगा ।

सन्तोखी—जोंकोंकी चाल बड़ी गहरी होती है भैया अब न मालूम हुआ कि कैसे वह लोगोंको पागल बना देती है और अपना काम सिद्ध करती है और तुमने भैया यह भी ठीक कहा कि हम लोगोंको अपना दिमाग गरम नहीं होने देना चाहिए, खूब ठंडे दिलसे सोचना चाहिए ।

भैया—खूब ठंडे दिलसे सोचना चाहिए लेकिन हमला पूरी ताकतसे करना चाहिए, जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए ।

सोहनलाल—यह भी तो बीती बात है भैया, आगे हिन्दुस्तानको कोई उम्मेद है ?

भैया—नाउम्मेद वही होता है जो हाथपर हाथ रखकर मनकी खिचड़ी पकाता है। हम लोगोंको सुराजसे भी आगे जाना है। सुराजमें सुराज लेकर गोरी जोंकोंसे छीनकर काली जोंकोंके हाथमें अपना गला दे देनेसे काम नहीं चलेगा। इतनेसे यह दुनियाका नरक खतम नहीं होगा ।

अध्याय १०

पूरबका युद्ध

सोहनलाल—भैया ! आपके ख्यालमें यह लड़ाई कब तक खतम होगी ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! पाँच बरस हो गया लड़ाईको, अब बड़ी तकलीफ होती है, सब चीज महँगी हो गई है और दिनपर दिन महँगाई बढ़ती जा रही है । तुमने ही कहा कि बंगालमें साठ लाख आदमी मर गये, बिहारमें एक लाख-से ऊपर आदमी हैजा-मलेरियासे खतम हो गये । इधर भी हैजा बढ़ने लगा है ।

भैया—लड़ाई इन्हीं जोंकोंकी देन है, वे समझती हैं अपने आरामके लिए जो बीस बरसमें एक लड़ाई आवे और करोड़ों आदमी मर जायें तो कोई परवाह नहीं । आज दुनियासे जोंके हट जायें तो लड़ाईका कोई काम न रह जायगा । लेकिन सन्तोखी भाई, अब लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं जायगी । हिटलर तो अब खतम होनेवाला ही है ।

सोहनलाल—चर्चिल और दूसरे लोग तो दो ही महीनेमें हिटलरके खतम होनेकी बात कहते हैं ।

भैया—कहते हैं, लेकिन, वह काम नहीं करते जिससे दो महीनेमें लड़ाई बन्द हो जाय । मैं जोतिसी नहीं हूँ, कि भूठी-सच्ची बातें बनाऊँ लेकिन हिटलर जितना कमजोर हो गया है और जिस तरह उसके ऊपर मार पड़ रही है उससे मैं समझता हूँ कि हिटलर इस जाड़ेसे बचकर आगे नहीं निकल सकता । चर्चिल और उसके जरनैलोंकी चलती तो दो-दो आदमी भेजते और जौ-जौ भर आगे बढ़ते । देखा न वे इटलीमें क्या कर रहे हैं । फ्रांसमें क्या किया । जो अमेरिकन पलटनने हिम्मत न दिखलाई होती तो फ्रांसमें उन्होंने लुटिया ही डुबा दी थी ।

सोहनलाल—चर्चिल ऐसा क्यों सोचता है भैया । हिटलर भी तो यही चाहता है ।

भैया—डिप्लर दूसरे मतलबसे चाहता है वह समझता है कि लड़ाई अगर दो-चार साल और ले जाय तो हमारे दुसमन थक जायेंगे फिर सुलह कुछ ऐसी होगी, जिसमें हमारी जान बच जायगी। चर्चिल सोचता है कि जो एक सालमें लाख आदमी मरेंगे, तो इंग्लैंडके लोग बीच-बीचमें भूलते जायेंगे, लेकिन जो एक महीनेमें एक लाख आदमी मर गये तो घर-घरमें लोगोंको इसका बहुत ख्याल रहेगा और उनको मालूम होने लगेगा कि लड़ाईमें कितना बलिदान देना पड़ रहा है। उनके कानोंमें मरकस बाबाके चेले यह बात डाल ही रहे हैं कि लड़ाईका कारन यही जोके हैं। पिछली लड़ाई इन्हीं जोकोंके मारे हुई, फिर २१ बरस तक चेम्बरलेन, वाल्डविन और उनके भाईबन्द खूब सोना बटोर रहे थे ठीका बेइमानी सब कुछ करके और चालिस-चालिस लाख तक मजूर बेकार भूखों मरते रहे। अब इस लड़ाईके बाद भी वह वैसा ही करना चाहेंगे लेकिन एक-एक महीनेमें लाख-लाख हमारे भाई इसलिए नहीं मर रहे हैं कि जोके फिर सोना बटोरें और मजूर फिर लंदनकी सड़कोंपर भूखों मरें। चर्चिल चाहता है कि घाव छोटा-छोटा हो जल्दी-जल्दी भरता जाय। लोग उसे भूलते जायें। लेकिन सोहन भाई १९१८वाला इंग्लैंड नहीं है।

दुखराम—क्या भैया इंग्लैंडमें भी लोग जोकोंके विरोधी हैं।

भैया—मैंने बतलाया नहीं दुखू भाई कि ६ सौ परिवार हैं जिनके पास सबसे अधिक धन है। बल्कि पूरा हिसाब लगे तो वह इस तरहसे है। गिन्नी तो अब सपना है लेकिन कागजी गिन्नी या पौण्ड १३ रुपयेका होता है। इंग्लैंड (१९४३)की सारी आमदनी ८ अरब १७ करोड़ २० लाख है, जिसमें २ अरब ६ करोड़ ६ लाख (७५.५ सैकड़ा) मजूरोंको मिलता है। जमीदार और पूँजीपति दो अरब ८१ करोड़ १० लाख पौंड (३४.४ सैकड़ा) लेते हैं। सरकारी नौकर १ अरब ३६ करोड़ ६० लाख (१६.८ सैकड़ा) चूसते हैं; पलटन आदिका खर्च १ अरब ८ करोड़ ६० लाख (१३.३ सैकड़ा)। सबसे बेसी संख्या है वहाँ मजूरोंकी और सबसे कम संख्या है जमीदारों और पूँजीपतियोंकी। लेकिन कितना फरक है दोनोंमें। इंग्लैंडके १००मेंसे ६ आदमी ८० सैकड़ा सम्पत्तिके मालिक हैं और १००मेंसे ७७ लोगोंके पास सिर्फ ५ सैकड़ा धन है।

कल्पित इस तरह समझो दुक्ख भाई ! इंग्लैंडमें ४ करोड़ से कुछ बेसी आदमी बसते हैं, जिसमें १ लाख आदमियोंके हाथ हीमें सारे इंग्लैंडके धनका चार पचासवाँ (१/५) है । ८ हजार धनी तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी २ सौ पौंड हफ्ता या ४ सौ रुपया रोजसे अधिक है । एक तरफ तो चार-चार सौ हजार-हजार रुपया उड़ानेवाले थोड़े लोग हैं और दूसरी ओर भूखों मरनेवाले ।

दुखराम—सुनते हैं भैया, इंग्लैंडमें लड़का-लड़की सब जबर्जस्ती पढ़ाये जाते हैं कोई मूर्ख नहीं रहता फिर वह इन जोंकोंका टाट क्यों नहीं उलट देते ?

भैया—पढ़ना अच्छी चीज है दुक्ख भाई, पढ़नेसे आँख खुलती है, देस-विदेस, आगे-पीछेकी बात मालूम होती है । लेकिन दिमागमें जो बेसी गोबर हो, या आदमी पतित स्वार्थी हो तो विद्या बिचारी कुछ नहीं कर सकती तिसपर वहाँ कमरोंको धोखा देनेवाले बहुत हैं । अभी तक उनको ऐसे ही नेता मिलते रहे हैं जो भीतरसे जोंकोंकी दलालीका काम करते थे । कमरोंको उन्होंने खूब फोड़ कर रखा था, जिसमें वह कुछ देखने न पावे । उनकी आँखमें खूब धूल भोंकी जाती थी ।

दुखराम—तो भैया, अब इन धोखेबाज नेताओंसे बचनेके लिए कोई काम हो रहा है ?

भैया—एक लाख कमनिस्त दिन-रात मजूरोंकी आँख खोलनेमें लगे हुए हैं । कमनिस्तोंके अखबार (डेली वर्कर)को रोज नब्बे हजार छापने की कागज मिलता है । और पढ़नेवाले अभी ६ लाखसे ज्यादा हैं । कागज मिले, तो उसे रोज १५ लाख छपते देर न लगेगी । लेकिन जोंकोंकी ओरसे जो अखबार निकलते हैं उनमें किसीको १५ लाख, किसीको १४ लाख, किसीको १० लाखका कागज मिलता है । जोंकोंने तो बहुत बरसों तक कमनिस्तोंके अखबारका छापना ही बन्द कर दिया, लेकिन जब मजूरोंमें गुस्सा फैलने लगा तब छापनेका हुकुम दिया ।

दुखराम—तो भैया बिलायतमें भी कमरे हमारी तरह ही पीसे जाते हैं और जोंकोंको खतम करनेके लिए तैयार भी हो रहे हैं ?

भैया—बिलायत-बिलायत सुनते-सुनते हमारे यहाँ लोग सम्भलने लगते हैं

किं सब टोपी-टोपी एक हैं, लेकिन वहाँ भी दुक्खू भाई दो जात हैं । मुट्टी भरं जोंकोंकी जाति, जिनके पास सारा धन है और करोड़ों-करोड़ मजदूर, जिन्हें रोज नून-तेल लकड़ीकी फिकर पड़ी रहती है । बहुत दिनोंसे कमरोंको वहाँ धोखा दिया जाता रहा । पिछली लड़ाईसे उनकी आँख थोड़ी-थोड़ी खुली । उन्होंने समझा जोंकोंकी चालको । इसीलिए दो बार उन्होंने मजूर नेताओंको बिलायतकी बड़ी पंचायत (पारलामेन्ट)में इतने ज्यादा मेम्बर चुनकर भेजे, कि उन्होंने मजदूरोंकी सरकार बनाई । लेकिन इन मजूर नेताओंमें बहुतसे तो जोंकोंके दलाल थे । मेकडानल जैसेका कुलका तो भंडाफोड़ भी हो गया । इन नकली नेताओंने मजूरोंको बहुत नुकसान पहुँचाया ।

दुखराम—लेकिन भैया “एक बार हरावै (जहाँ डारवै) तौ बावन वीर कहावै” धोखा बार-बार नहीं दिया जा सकता ।

भैया—सो तो ठीक है दुक्खू भाई, पहिले जोंके मीठी-मीठी बात करके धोखा देती रहीं । फिर लड़ाईके बाद जब मजूरोंकी आँख खुली तो नकली नेता आ गये जो कि थे जोंकों हीके दलाल । अबकी लड़ाईके बाद, यही समझो कि दूधका जला छाछको फूँक-फूँकके पियेगत्त । आज बिलायतके वही मजूर हैं जो हिन्दुस्तानके वारेमें बराबर जोर लगा रहे हैं ।

सोहनलाल—हमारे लिए तो जैसी ही बिलायती जोंके वैसे ही बिलायती मजूर, मजूर सरकार भी तो दो बार बिलायतमें आई थी, उसने ही क्या किया ?

भैया—जो सोहन भाई तुम यह समझते हो कि कोई दूसरा आके स्वराज धोलकर घुटककर पिला देगा तो यह लड़कपन है । मैंने कहा नहीं था कि हमें अपने बल-बूतेपर भरोसा रखना चाहिए । और आपको यह भी मालूम है कि जिन मजूर नेताओंने अपनी सरकार बनाई थी वे जोंकोंके दलाल थे । उन्होंने खुद अपने ही कमरे भाइयोंके साथ विस्वासघात किया ।

सोहनलाल—तो अब भी आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे विस्वासघाती नेता नहीं पैदा होंगे ?

भैया—जो कमरे गाफिल पड़े रहेंगे तो बिलायतमें भी विस्वासघाती नेता पैदा होंगे और हिन्दुस्तानमें भी पैदा होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता । यह तो

कमेरोंको परखना होगा । लेकिन यह तो तुम मानोगे कि बिलायतके कमेरे इनके विस्वासघातको समझने लगे हैं । बिलायती बूढ़े मजूर नेताओंपर तो हमें बिल्कुल विस्वास नहीं करना चाहिए । लेकिन बिलायती मजूरोंके साथ हम वैसा नहीं कर सकते । बिलायती मजूर जानते हैं कि हिन्दुस्तानके कमेरे और बिलायतके कमेरे दोनोंको मिलकर जोंकोंको उखाड़ फेकना होगा । रूसमें भी काले और गोरे कमेरोंने ऐसा ही किया । बिलायती कमेरे जब हमारी ओर हाथ मिलानेके लिए अपना हाथ फैलाते हैं, तो परोपकारके लिए नहीं ऐसा नहीं करते, बल्कि वह समझते हैं कि हमारा हित और स्वार्थ इसीमें है । इसी तरह हिन्दुस्तानी कमेरोंको भी बिलायती कमेरोंसे हाथ मिलाना होगा । हाँ, मैं कह रहा था कि चर्चिल क्यों दो सिपाही और एक अंगुलकी चालसे लड़ाई लड़ना चाहता है । लेकिन बेचारेकी बात चलती नहीं । ऐसी आँधीमें पड़ा है जोकि आगे नहीं बढ़ता तो पैर उखड़ जाते हैं और तोंदके बल गिर जाना पड़ता है । दो महीनेसे अंगरेजी पलटन प्लोरेन्सके पास बैठी मत्था मार रही थी, और एक ही महीनेमें लाल पलटन पाँचसौ मील बढ़कर पोलैंडकी राजधानी वारसाके पास पहुँच गई । अब वह जर्मनीके भीतर लड़ रही है । लाल पलटन एक-एक दिनमें बीस-बीस मीलसे भी अधिक आगे बढ़ी है । हिटलरने जब धोखेसे सोवियतपर हमला किया था तो उस वक्त भी वह कभी इतनी तेज चालसे आगे नहीं बढ़ा । चर्चिलके जरनैलोंके मनका होता तो जैसे वह दो महीना तक समुन्दरसे १० मीलपर बैठे रहे वैसे ही अब भी करते लेकिन अमेरिकन भी जान पड़ता है लाल पलटनकी ही तरह हिटलरकी जिंदगीको बढ़ाना नहीं चाहते । अमेरिकनोंकी ही बहादुरी है जो आज हिटलरी गुंडोंको पेरिस छोड़नेके लिए मजबूर होना पड़ रहा है । अभी हालमें जो हिटलरके कई जरनैलोंने भगवानके भेजे अपने नेताको मार डालना चाहा, वह यही बतलाता है कि अब पलटनके बड़े-बड़े जरनैलोंको भी हिटलरकी हारका निहचय हो गया । हिटलरने पचीसों जरनैलोंको गोली मरवाया, लेकिन इससे क्या जरमन लोग समझ नहीं पायेंगे कि उनके भागमें क्या बदा है ?

दुखराम — तो भैया ! जब जरनैलोंने ही मत्था पर हाथ रख दिया तो दूसरोंका

क्या भरोसा होगा ।

भैया—ऊपरसे जर्मनीका कौन सहर है जहाँ रूस, अमेरिका या इंग्लैंडके हवाई जहाज न पहुँचते हों । फ्रांसमें पच्छिमसे भी हमला हो गया और जर्मनोंको भगाते-भगाते पेरिस तक पहुँचा दिया गया । दक्खिनसे भी हमला हो गया, और जर्मनोंको पीछे हटना पड़ रहा है । इटलीमें उतनी तेजीसे तो नहीं, लेकिन जर्मन पिट रहे हैं । यूगोस्लावियामें मारसल तीतोने ही जर्मनोंके नाकमें दम किये थे । अब तो वहाँ पर भी अंगरेज और अमेरिकन फौज उतर गई । उधर लाल पलटन भी रूमानियाँ होते यूगोस्लावियामें मारसल तीतोसे मिलने आ रही है । इसलिए यह तो साफ है कि हिटलरका अन्त आ गया । सोहन भाई, हिटलरके अंतके बाद यूरोपमें क्या होगा जॉर्कोका राज होगा या जनताका । इसके बारेमें इस वक्त आप न पूँछे मैं इसे कह चुका हूँ । किसी दिन जब हम दोनों ही रहेंगे तब बात कर लेंगे ।

सोहनलाल—मैं तो भैया ! समझ रहा हूँ कि जॉर्को चाहे कितना ही तिकड़म लगाये लेकिन यूरोपकी जनता वही करेगी जो स्तालिन दादा सुभावैगे । लेकिन हिटलरके खतम होने हीसे तो लड़ाई खतम नहीं हो जाती । अभी तो इधर पूरबमें जापान बैठा ही है ।

भैया—ठीक है । जापानके बारेमें कुछ कहना एक तरहसे बहुत आसान है और दूसरी ओर बहुत मुस्किल भी है ।

दुखराम—क्यों भैया ! बहुत आसान भी है और बहुत मुस्किल भी है ।

भैया—बहुत आसान इसलिए है दुखू भाई कि हिटलरके हार जानेपर इंग्लैंड और अमेरिकाकी सारी फौज, सारे जंगी जहाज, सारे हवाई जहाज जापान हीपर भुक्त पड़ेंगे । जापानकी अब पहिले जैसी ताकत नहीं है, यह तो इसीसे मालूम हो गया कि कहाँ दिल्ली पहुँचनेके लिए उसने आसामपर बड़े जोर-सोरसे हमला किया था । लेकिन .रेलके किनारे तक भी न पहुँच सका । जंगल-जंगलमें ही चार महीने बीत गये और अन्तमें पचासों हजार आदमियोंको मरवा कैदी बनवा उलटे पाँव धर्माँमें भाग जाना पड़ा । अब हिन्दुस्तानी, अंगरेजी और अमेरिकन फौजें धर्माँमें घुस गईं हैं । उधर चीनी और अमेरिकन

फौजें मेटकिना और रेलके कितने ही इसटेसनोंको जापानसे छीन चुंकी है, सैकड़ों टापू अमेरिकनोंने जापानियोंसे छीन लिए । और अब तो रोज ही जापानके अपने शहरोंपर अमेरिकन हवाई जहाजोंके बम गिर रहे हैं ।

दुखराम—कलकत्तामें हमारे भाई-बहिनोंको जापानी गुंडोंने बम गिराके मारा था, उसका खूब बदला लिया जा रहा है भैया ?

भैया—खूब बदला लिया जा रहा है दुखू भाई ! मैं तो समझता हूँ कि वहाँवाले बहुत पछताते होंगे । जापानके मकान बहुत ज्यादा लकड़ीके होते हैं । ईंट-चूना, मट्टी-सीमेन्टकी दीवारें वहाँ बहुत कम होती हैं ।

दुखराम—तब तो भैया महल्लेके-महल्ले होलीकी तरह धायँ-धायँ जलते होंगे ?

भैया—हाँ, इसका बहुत अफसोस है, लेकिन इस सारे पापकी जिम्मेवारी जापानी जागीरदारों और पूँजीपतियोंके सिरपर है । पूँजीपतियोंको करोड़से संतोस नहीं होता वे अरबपती बनना चाहते थे । जापानी जागीरदार जरमनीकी तरह ही फौजोंके मालिक हैं, बड़े-बड़े अफसर जागीरदारोंके लड़के हैं । वह कहते हैं, बाकी सारी दुनिया तो आदमियोंसे पैदा हुई लेकिन हम ही हैं जो सूरज-देवीसे पैदा हुए ।

सन्तोखी—सूरज देवता कि सूरजदेवी ?

भैया—हाँ, वह सूरजको सूरजदेवी ही कहते हैं और अपनेको बेबापसे पैदा हुआ मानते हैं । हिटलरने कहा था कि भगवानने जर्मन जातिको दुनियापर राज करनेके लिए भेजा है, और जापानी फसिहा सूरजदेवीका पुत्र कहकर सारी दुनियाको गुलाम बनाना चाहते हैं । लेकिन हिटलरकी तरह उनका भी मनसूजा मनका मन ही में रह गया ।

दुखराम—मरकस बाबाकी सिच्छा वहाँ पहुँची कि नहीं भैया ?

भैया—पहुँची है दुखराम भाई, लेकिन कमनिस्तोंके खूनसे वहाँकी जाँकोंने खूब अपना हाथ रँगा है । पिछुड़ी लड़ाईके बाद तो एक-एक बार छः-छः सात-सात हजार तक मरकस बाबाके पन्थके माननेवाले जेलमें ठूसे गये हैं । लेकिन वह नफा तो जाता है बेसी पूँजीपतियोंके पेटमें, लेकिन जोर ज्यादा है तालुकदारों

और उनके लड़कोंका क्योंकि पलटनके वही मालिक हैं।

दुखराम—भैया, वहाँ बड़ी पंचायत है कि नहीं और मेम्बर वोटसे चुने जाते हैं या कैसे ?

भैया—हे नामकी बड़ी पंचायत और वोट भी लिया जाता है लेकिन जापान बड़ा निर्लज्ज जोक देश है। सहरोंमें जैसे हमारे यहाँ गुंडे रहते आये हैं न ?

दुखराम—जोंक गुंडे भैया !

भैया—जोंक गुंडे नहीं भाई लाठी-छुरा चलानेवाले जोंक ! वैसे गुंडे जापानमें बहुत जबरजस्त होते हैं। एक गुंडेके पास, तो कई हवाई जहाज थे।

सोहनलाल—अमेरिकामें भी सुनते हैं कि ऐसे गुंडे होते हैं ?

भैया—हाँ, अमेरिकामें भी होते हैं। लेकिन जापानमें ऐसे गुंडोंकी जैसा इज्जत होती है वैसी वहाँ नहीं होती।

सोहनलाल—जापानमें राजाको, सुनते हैं, देवता मानते हैं।

भैया—कमरोंकी आँखोंमें धूल भोंकनेके लिए जोंकें न जाने कितने नाटक खेलती हैं। किस्तानों-मजूरोंको तो यही कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि सुरज-देवीका अपना खून तेन्नोके देहमें है।

दुखराम—तेन्नो क्या है भैया !

भैया—जापानके राजा या मिकादोको तेन्नो कहा जाता है। तेन्नोका जिधर महल है उधर पैर करके नहीं सोया जाता। जोंकोंका इसीमें फायदा है कि लोग उल्लू बनें और तेन्नोको दुनिया भरके ऊपर समझें। कहा जाता है कि दाई हजार बरससे जापानमें एक ही राजवंश राज कर रहा है। किताबोंमें यही बात छपने पाती है, लेकिन बात यह झूठी है। तेन्नो धनी जरूर बहुत जबरजस्त है। जापानका वह सबसे भारी जिमीदार है और कारखानोंमें भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आज कलके तेन्नोके दादा—मेईजी तेन्नो—के समय जब गोरोंने जापानियोंको ठोकरपर ठोकर लगाई तो वहाँके नवाबोंको होश आया कि जैसे गोरे बनियोंने एशियाके और मुलकोंको गुलाम बना लिया है वैसे हमें भी बना लेंगे।

सन्तोखी—इस वास्ते बह सजग हो गये ?

भैया—हाँ, सजग हुए । गोरोंसे इथियार चलानेकी विद्या पढ़ी । कारखाना चलानेकी विद्या पढ़ी जमीदारोंने लेकिन राज-काज अपने हाथमें रखा । इतना जरूर किया कि जहाँ पहिले कई पीढ़ियोंसे तेन्नो लोग तोपूगावा तालुकदार वंश के कैदी थे, उन्हें औरतोंकी तरह परदेमें रहना पड़ता था; अब तोपूगावा सोगुनको-के हाथमें तागत नहीं रही । पहिले ज़िमीदारोंके हाथ हीमें सब कुछ रहा; पीछे मितसूई, मितसीवीसी जैसे करोड़पति पूँजीपति आगे बढ़े, लेकिन तालुकदारोंके ही हाथमें सेना होनेसे, उनका जोर घटा नहीं और मेजी तेन्नोका लड़का आज-कलके तेन्नोका बाप तो पागल था ।

दुखराम—पागल कैसा भैया ?

भैया—पागल जैसे पागलखानेमें होते हैं ।

दुखराम—पागलके लड़के तो पागल हुआ करते हैं ।

भैया—जब माँ भी पागल हो तब, नहीं तो दो-चार पीढ़ी पागलपन नहीं भी दिखाई दे सकता ।

सोहनलाल—जापानने पहिले-पहल रूस जैसी गोरी जातिको हराया था, इसके लिए सभी काले लोगोंको गरब हुआ था, कि कमसे कम एक काले (एसियाई) देसने तो गोरोंके गालपर चपत लगायी न ?

भैया—पहिली बात तो यह कि गोरोंमें भी दो जाति हैं, एक कमेरोंकी, दूसरी जोंकोंकी । जब ब्रिलायती जोंके पागल बनाकर हमसे अपने मतलबका काम करा सकती हैं तो अपने यहाँके कमेरोंकी आँखमें धूल भोंके इसमें सक ही क्या । इसलिए एकोरसे सारे गोरोंको हमें दोसी नहीं बनाना चाहिए, पाप-जुलुम सब कुछ जोंकें करती हैं । रूसकी वही जोंकें थीं जिन्होंने चीनको हड़पनेके लिए जब कदम आगे बढ़ाया, तो जापानकी जोंकोंसे उनकी मुठभेड़ हो गई । रूसमें वह जोंकें खतम हो गईं । जापानमें अब भी वही जोंकें राज कर रही हैं । काले लोगोंको गरब होना ही चाहिए । लेकिन चीनियोंको कभी गरब नहीं हुआ ।

सोहनलाल—पड़ोसी होनेसे चीनियोंने जापानियोंको नहीं समझ पाया ?

भैया—पड़ोसी होनेसे चीनियोंने ज़्यादा समझ पाया बह कहना चाहिए

सोहन भाई; क्योंकि जापानियोंने पहिले चीनियोंपर ही हाथ साफ किया, चीनकी ही तुक्का बोटी की। चीन ५० बरससे जापानियोंकी मार खा रहा है।

सोहनलाल—यह बात तुम्हारी ठीक है भैया ! जापानसे काले लोग बहुत उम्मेद रखते थे, लेकिन स्वार्थी होनेमें वह गोरोंका भी कान काटने लगे। कोरियाके साथ भी उसने खूनकी होली खेली। चीनको भी बराबर टुकड़े-टुकड़े करके निगलता गया लेकिन चीन, जहाँ चौआलीस करोड़ आदमी बसते हैं, उसमें भी कोई बात होगी, तभी तो ६ करोड़की बस्तीवाले जापानी उसे नोच खा रहे हैं।

भैया—यह बात ठीक पूछी सोहन भाई ! लोग जालिम-अत्याचारीको दोसी बनाते हैं और उसे गाली-सराप देते हैं। लेकिन यह बिलकुल बेकार बात है, क्योंकि एक ओर जालिमको कुछ लोग गाली देते हैं और दूसरी ओर कितने ही आदमी उन्हें वीर बनाते हैं। सबसे बेसी दोसी तो उसे कहना चाहिए जिसकी कमजोरीके कारन जालिम ऐसा कर पाता है। हम अंगरेजोंको भला-बुरा कहते हैं, लेकिन अपनेको भला-बुरा नहीं कहते। हम चालीस करोड़ हैं, लेकिन चार करोड़ इंग्लैंडकी मुद्दी भर जोंके हमारे ऊपर राज कर रही हैं। इसका कारन यही है कि हमारे यहाँकी जोंके अपने कमेरोंके खून चूसनेमें इतने नीचे तक गिर गई हैं और आपसमें एक दूसरेकी इतनी दुसमन और अन्धी हो गईं कि वह समयपर न चेटीं। चीनकी भी जोंके बड़ी नीच निकलीं। छोटी जोंके बड़ी जोंको देखना नहीं चाहती क्योंकि उसके पेटके लिए ज्यादा खूनकी जरूरत है। लेकिन बड़ी जोंक जब हटती है तो फिर छोटी जोंके बड़ी बनना चाहती हैं। ३३ साल पहले (१६११) चीनियोंने अपने यहाँकी सबसे बड़ी जोंको राजाकी गद्दीसे उतार दिया और पंचायती राज कायम किया। पंचायती राज कायम हो जानेपर जमीदारों और बनियोंने—चीनमें जमीदार और बनिया एक ही आदमी होते हैं—सारे चीनके कमेरोंको चूसनेके लिए उन्हें दबा रखनेके लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। जो किसी सूबेका लाट बनाया जाता वह अपनेको वहाँका राजा समझता। घूस-रिसवतका बाजार गरम हो जाता। उसके लिए कमेरोंको लूटनेवाले अफसर सब जगह भर दिये जाते।

एक-एक सूबेके लाट तो इस तरह लोगोंको चूसते दूसरी और वह एक-दूसरेसे बराबर लड़ा करते । पिछली लड़ाई जब हुई तो गोरी सरकारोंको फँसा देखकर जापानने चीनको निगल जाना चाहा । खैर, वह उतावला बन गया था और निगल नहीं सका । गोरी जोंके भी चीनको नहीं निगल सकी क्योंकि आपसमें लड़ाई हो जानेका डर था ।

सन्तोखी—तो चीनके सूबोंका हरेक लाट बादसाह बनना चाहता था ?

भैया—हाँ और पिछली लड़ाईके बाद जापान और पच्छिमी लुटेरोंने अपनी जीभ और फैलाई । उस वक्त सोवियत रूसकी मददसे चीनके बड़े नेता सुन-यात-सेनने इन लाटोंको खतम करनेका बीड़ा उठाया और वह बहुत कुछ इसे कर भी-सके । सुन-यात-सेनका साढ़ू चाडू-कै-सक उसी वक्त आगे बढ़ा । सुनयात-सेन मर गये । चाडू-कै-सक चीनके बनिया जमीदारके हाथमें बिक गया । सबसे भारी बनिया ज़िमीदार तो उसकी स्त्रीके भाई सुडू हैं ।

दुखराम—तब तो वहाँ भी भैया बनिया जोंकोंका ही जोर है ।

भैया—चीनी बनियोंके पास ज़मीदारी भी है और वह किसानोंको इतना चूसते हैं कि बेचारोंके देहमें खून नहीं रह जाता और जहाँ कोई सूखा अकाल पड़ा तो हमारे ही देसकी तरह वहाँ भी लाखों किसान मर जाते हैं और साथ ही इन ज़िमीदारोंने अपने रुपयोंसे बड़ी-बड़ी मिलें, कारखाने और बैंक भी खोले हैं । सुडूके खानदानवाले चीनके सबसे बड़े करोड़पति हैं और चाडू-कै-सक उनकी मुठ्ठीमें ।

दुखराम—बहनोई हैं, सालोंसे दान-दहेज तो मिलता ही है ।

भैया—चीनके लोगोंको जब रूसी कमेरोंके राज्यकी बात मालूम हुई तो उन्हें भी खयाल आया कि चीनसे भी जोंकोंको बिदा करना चाहिए । चीनमें रंग-बिरंगी जोंके थीं । गोरे भी थे, जापानी भी थे और स्वदेशी जोंके भी थीं । इसलिए जोंकोंकी करतूत ज्यादा साफ दिखाई पड़ती थी । चीनमें भी मरकस बाबाकी सिञ्छा गई । हजारों नवजवान मर्द-मेहरारू, किसान-मजूर कमनिस्त बने । उन्होंने लोगोंमें काम करना सुरू किया । सुन-यात-सेन उनके कामको पसंद करते रहे । लेकिन उनके मरते ही चाडू-कै-सक नेता बन गया । पलटनका ज़र-

नैल था इसलिए तलवार तो थी ही उसके पास । आँखसे १७ बरस पहिले कान्तिन सहरमें ४० हजार कमनिस्तोंका कतल करके उसने अपना काम सुरू किया और उसके बाद १० साल तक लगातार उसका यही काम था । कमेरे जब सजग हो जाते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो रक्तबीजकी तरह । उन्हें कोई खतम नहीं कर सकता । कमेरोंने किसानोंको समझाया । जिमीदारोंके जुलुमसे तबाह किसान उनकी बात समझने लगे ।

दुखराम—क्यों नहीं समझेंगे भैया ! मरकस बाबाने जो सिच्छा दी है वह हमारी ही भलाईके लिए ।

भैया—गाँवके गाँव, इलाकेके इलाके मरकस बाबाकी सिच्छा मानने लगे । चीनके बीचो-बीचमें कमनिस्तोंने मजूरों-किसानोंकी सरकार कायम की, लाखसे ऊपर पलटन तैयार की ।

दुखराम—हथियार कहाँसे मिला भैया !

भैया—पाँच तलवारोंने दो बन्दूकें दीं, दो बन्दूकोंने चार बंदूकें, चारजे दस, दसने चालीस, चालीसने दो सौ, दो सौसे हजार, इस तरह हजारों बन्दूकें, तोप, मसीनगन उनके पास चले आए ।

दुखराम—छापेमारोंकी तरह किया होगा भैया !

भैया—कमनिस्त कहते ही थे कि हमारे गोला-बारूदके कारखानेका इंत-जाम-चाङ्कै-सक करता है क्योंकि उसीके सिपाहियोंको मारकर उन्हें हथियार मिलता था । कितनी ही बार तो चाङ्कै-सककी पलटन हथियार लिये-दिये कमनिस्तोंके साथ मिल गई ।

दुखराम—वह भी तो भैया मजूरों-किसानोंके ही लड़के होंगे न ?

भैया—गोरी जोंके चीनमें भी बोलिसेविकोंको फैलते देख और भी घबड़ाने लगीं, जो चौवालीस करोड़ चीनी भी बोलिसेविक हो गये तो जोंकोंकी नैय्या डूबी समझे । उन्होंने भी चाङ्कै-सककी मदद की । जापानने चीनसे मंचूरिया छीन लिया और वह दबाता ही जाता । लेकिन चाङ्कै-सक जापानको नहीं, कमनिस्तोंको अपना दुसमन मानता था । भारी पलटन, तोप, हवाई जहाजके साथ कमनिस्तोंपर उसने हमला किया । पाँच बार तक तो उसका मतलब पूरा नहीं

दुआ लेकिन छठी बार वह और बड़े भारी इंतजामसे चढ़ दौड़ा, जर्मन जनैल उसको अकल बतलाते थे और अमेरिका-इंग्लैंड हवाई जहाज और तोप देते थे। सोवियत छोड़कर कोई चीनी कमनिस्तोंका भलाई चाहनेवाला नहीं था। लेकिन, चीनी कमनिस्त चीनके सरहदवाले सूबोंमें नहीं थे, वह बीचमें समुन्दरमें टापूकी तरह थे।

दुखराम—उनके चारों ओर चाङ्-कै-सकका इलाका रहा होगा ?

भैया—हाँ, जोंकोंका राज था। छठीं बार कृष्णने मथुरा छोड़ दी और छप्पन करोड़ यदुबंसियोंको साथ लेते हुए।

दुखराम—कमनिस्त अपने सब आदमियोंके साथ अपनी पुरानी जगहको छोड़ गये यही न भैया ?

भैया—कमनिस्त पारटीके सबसे बड़े नेता माङ्-से-तुङ् और बड़े सेनापति चू-तेने एक लाख आदमियोंके साथ अपने पुराने इलाकेको छोड़ उत्तर-पच्छिमका रास्ता लिया। अब वह सोवियत रूसके पड़ोसी इलाकेकी ओर चले। रास्तेमें चाङ्-कै-सककी पलटन और हवाई जहाजोंका मुकाबिला करना पड़ता था। कैसे एक हजार कोस तक वह लड़ते-मरते बढ़ते गए। वह बड़ी बहादुरीकी कथा है। लोगोंने हँस-हँसकर जान दी। अन्तमें चालीस हजार आदमी रह गये थे जबकि माङ्-से-तुङ् और चू-तेने नई भूमिपर अड्डा जमाया। चूते अपने एक जर्मनैलको कुछ हजार जवानोंके साथ मरकर भी चाङ्-कै-सककी पलटनको रोकनेके लिए छोड़ आया था। कई सालों तक समझा जाता था कि वह सब मर गये होंगे लेकिन जापानी लड़ाईमें कुछ समय पहिले पता लगा कि वह एक लाख सिपाहियोंकी एक नई पलटनके रूपमें अब भी जिन्दा हैं।

दुखराम—तो भैया सचमुच ही कमनिस्त रक्तबीज हैं, उनके खूनकी एक बूँद गिरनेसे दस कमनिस्त पैदा होते हैं।

भैया—यह तागत उनमें कहाँसे आती है दुखू भाई, यह तागत उन्हें मजूरों-किसानोंसे मिलती है। कमेरे अमर हैं इसीलिए उनकी पलटन लाल सेना भी अमर है। एक सिपाही मरता है, तो किसानों-मजूरोंके नये दस लड़के उसकी जगह पर आ जाते हैं। और कमनिस्तोंके छिपानेके लिए तो चीनके किसानोंका

हरेक घर, हरेक कोठा, हरेक बखार तैयार थे । नई जगह आँकर भी मांड-से तुङ्गे किसानों-मजूरोंको मरकस बाबाका मन्तर दिया । गाँवके गाँव जोंकोसे खाली हो गये । किसानोंके देहमें खून लहराने लगा फिर लाल पलटन मजबूत हुई । चाङ्-कै-सक जिस तरह जापानियोंके सामने घुटने टेक रहा था उसके कारन उसके अपने पिछू जरनैल भी नाराज थे, उन्होंने चाङ्-कै-सकको पकड़-कर कैद कर लिया । कमनिस्तोंने समझा बुझाकर चाङ्की जान बचाई । चाङ्ने परतिग्या की कि मैं जापानी फसिहोंसे लड़ूँगा ।

दुखराम—भैया जब कमनिस्तोंने मथुरा छोड़ द्वारिकाका रास्ता लिया होगा, तो चीनी जोंके बहुत खुस हुई होंगी, समझती होंगी—अच्छा हुआ मैदान छोड़ गये ।

भैया—लेकिन कमनिस्त पहिलेसे भी ज्यादा मजबूत हैं । आज उनकी पाँच लाखकी जवर्जस्त पलटन है, उसके साथ साठ लाख छापामार फौज है, और दस करोड़ किसान-मजूर उनके बताये रास्तेपर चलते हैं ।

दुखराम—तो चाङ्-कै-सक बहुत घबराता होगा भैया ?

भैया—जोंकोका सरदार है, क्यों नहीं घबरायेगा ? अपनी पाँच लाख सधी हुई पलटनको कमनिस्त इलाका घेरनेके लिए रख छोड़ा है । इसे अमेरिकावाले भी बुरा मान रहे हैं । अमेरिका-इंगलैंडसे जो हथियार चीनको दिया जाता है, उसमेंसे एक हथियारको भी चाङ्-कै-सक कमनिस्तोंको नहीं देना चाहता ।

दुखराम—जापानियोंके साथ लड़ते तो होंगे ज्यादा कमनिस्त ही भैया ?

भैया—चीनमें जापानियोंकी जितनी पलटन है, उसमेंसे आधीके साथ कमनिस्त ही लोहा ले रहे हैं । रूस जब लड़ाईमें नहीं आया था, तो वहाँमें भी कुछ हथियार मिल जाता था, लेकिन अब तो जापानी पलटनको मारकर ही हथियार पाते हैं । और, जापानियोंने बहुत कृपा की है, इसके लिए चू-ते उन्हें धन-धन कहता है । जो चाङ्-कै-सक और उसके साथी जोंकोने कमनिस्तोंके साथ मिलकर जापानियोंका पूरा मुकाबिला किया होता, तो जापानी इतना दूर तक भीतर न घुस पाते । चाङ्-कै-सक दुबिधामें पड़ गया है जो जापानसे मेल करता है, तो इंगलैंड-अमेरिका दुसमन बन जाते हैं और फिर तीतोकी तरह सिर्फ

कमनिस्त ही जापानियोंके साथ लड़नेवाले रह जायेंगे तब चीनी लोग भी जो जापानके साथ लड़ना चाहते हैं कमनिस्तोंकी ओर हो जायेंगे, और इंगलैंड-अमेरिका भी जापानसे लड़नेके लिए सारी मदद उन्हींको देंगे। जापान बार-बार लोभ देता है कि बोलसेविकोंसे चीनको बचानेके लिए हमारे भाई बन जाओ। चाङ्-कै-सकका पुराना दोस्त वाङ्-चिङ्-वेइ जापानके साथ पहले ही मिल चुका है। चाङ्-कै-सककी दसा साप-छलूदरकी है। उसने तो शायद कमनिस्तोंपर चढ़ाई भी सुरू कर दी होती; लेकिन इंगलैंड-अमेरिकाके नराज होनेसे डरता है और यह भी जानता है कि कमनिस्त मिट्टीके पुतले नहीं हैं—

सोहनलाल—तो इसका अर्थ यह हुआ भैया कि चीनकी भीतरी जो हालत है, उससे जापान हीको फायदा है।

भैया—फायदा जरूर है लेकिन मैंने कहा न कि हिटलरके खतम होते ही इंगलैंड-अमेरिकाकी सारी फौज जापानपर भिड़ जायेंगी और फिर जापान बहुत दिनों तक उनके सामने नहीं टिक सकता।

दुखराम—लेकिन भैया आपने जापानके सवालको बहुत मुश्किल भी कहा था।

भैया—मुश्किल कहता हूँ, जहाँ तक तलवारका बल है, उससे तो जापान देर तक मुकाबिला नहीं कर सकता, लेकिन जापान उस वक्त राजनीतिका खेल खेल सकता है।

दुखराम—राजनीतिका क्या खेल खेलेगा भैया ?

भैया जापानसे लड़ रहे हैं अमेरिका, इंगलैंड और चीन।

दुखराम—सोवियत चीनसे नदी लड़ रहा है भैया ?

भैया—नाहरसे नहीं लड़ रहा है, लेकिन जापान भी बोलसेविकोंका अपनेको सबसे बड़ा दुश्मन कहता है और मुसोलिनी-हिटलरके फसिहा गुट्टम है।

दुखराम—तो अपनी गुट्टको बचानेके लिए उसने लाल फौजपर क्यों नहीं हमला कर दिया।

भैया—दो बार पन्द्रह-बीस-बीस हजार आदमियोंको मरवाकर उसने लाल-तलवार का मजा चख लिया। जापानके लकड़ीके सहर आधे घंटेके ही लाल

हवाई जहाजोंके बमके रास्तेमें हैं । वह समझता है कि जो रूससे छेड़खानी शुरू की, तो जापान लड़का बन जायेगा और जलकर खाक हो जायगा । मंचूरिया और कोरियामें जापान और सोवियतकी फौजें आमने-सामने खड़ी रहती हैं । लेकिन बेचारा चुपचाप बैठे हैं ।

दुखराम—तो भैया । चुपचाप बैठके जापानने बुद्धिमानी ही की है ।

भैया—हाँ, जापानी फसिहा हिटलरके हारनेपर दूसरी चाल चलेगे । वह चीनसे कहेंगे कि लो हम तुम्हारी अंगुल-अंगुल धरती छोड़ देते हैं और अपनी सारी फौज लौटा लेते हैं ।

दुखराम—फिर चीन तो इस पसंद ही करेगा ।

भैया—पसंद करनेका एक और भी कारण है, विलायतकी जोंकोने चीनके कई बन्दरगाहोंको अपने कब्जेमें कर लिया था, हागकाग इसी तरहका एक बड़ा बन्दर है । चर्चिल-अमरी इस लड़ाईके बाद भी हाग-कागको अपने हाथमें रखना चाहते हैं । चीनी इसको विलकुल नहीं पसंद करते । फिर जापान कहेंगा कि हम फिलिपाइन, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सिङ्गापुर, मलाया, बर्मा सबको खाली कर देगे लेकिन इन देसोंके लोगोंको यह देस मिलने चाहिएँ ।

सोहनलाल—लेकिन अमरीका, हालैंड और इंगलैंड क्या इस बातको मान लेंगे, और क्या जापान भी अपने जीते राजको इस तरह छोड़ देगा ।

भैया—जापान ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए कि उसका सरबस जा रहा है । जापानकी अपनी भूमिपर भी अंगरेज, अमेरिकन फौजे चली जायगी; फिर वहाँकी जोकों—जागीरदारों-पूँजीपतियों—का तो सरबनास हो जायगा । जापानी जाति सारीकी सारी नहीं मर जायगी, यह बात पक्की है । इसीलिए जापानी जोंकें अपना घर वर बचा लेनेके लिए सब कुछ करनेके लिए तैयार होंगे । और दूसरे सवालका जवाब यह है—फिलिपाइनको अमरीका खुद ही आजाद करना चाहता है । अमेरिकाके पास अपनी ही धरती बहुत है, वह दूसरेकी धरती नहीं लेना चाहता । इसके साथ ही अमेरिकाका एक बहुत बड़ा स्वारथ है कि दुनिया भरमें उसका व्यापार बढ़े और वह व्यापारसे नफा कमाये ।

सोहनलाल—अंगरेज भी तो वही चाहते हैं ?

भैया—अंगरेज व्यापार ही नहीं चाहते बल्कि वह अपने गुलाम देसोंको भी हाथमें रखना चाहते हैं । वह समझते हैं कि जो देसोंको छोड़ दिया तो अमेरिका और दूसरे मुलुक भी अपना माल वहाँ बेचने लगेंगे, और मुकाबिलेमें हम ठट नहीं सकेंगे ।

संतोखी—क्यों नही ठट सकेंगे भैया ?

भैया—अंगरेज पचीस-तीस साल पहिलेकी मसीनोंको अपने कारखानोंमें रखते हैं । मसीनोंमें हर साल नया-नया सुधार होता जाता है । जिस मसीनमें पहिले दस आदमी लगते थे अब दो ही आदमीसे उसपर काम कर सकते हैं ।

संतोखी—तो मजूरी कम देनी पड़ेगी, माल सस्तेमें बनेगा और नफा ज्यादा होगा ।

भैया—यह सब तो होगा लेकिन लाखोंकी मसीनें जो कारखानेमें बैठाई गई हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकना होगा । फिर लाख और खर्च करके नई मसीनें बैठानी पड़ेंगी । इसीलिए बिलायतके पूँजीपतियोंके कारखाने उतने नये नहीं होते । उनकी चीजें उतनी सस्ती तैयार नहीं होतीं । जो हिन्दुस्तान और दूसरे मुलकोंको बिलायती जोंकें छोड़ दें तो लोग उनके महँगे मालको लेंगे या अमेरिकाके सस्ते मालको ?

संतोखी—फिर तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि अंगरेज दुनियाके चौथाई हिस्सेको गुलाम बनाकर रखें ।

भैया—यह तो है । और जोंकोंके स्वारथका आपसमें बहुत भारी भगड़ा है । इससे यह भी मालूम हो गया न कि इंग्लैंड, अमेरिका और चीन जापानसे लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें तीनोंका तीन स्वारथ है । चीन अपनी सारी भूमिको आजाद कराना चाहता है, और यह भी चाहता है कि जापानसे उसको डर न रह जाय । अमेरिका चाहता है कि जापान इतना कमजोर हो जाय कि फिर प्रसांत महासागरमें वह ऊधम न मचा सके; साथ ही यह भी चाहता है कि वह बेरोक-टोक दुनियामें अपना माल बेचे । जो जापानको खदेड़कर उसकी माँदमें घुसा दिया जाता है और पच्छिममें चीन, उत्तरमें सोवियत और पूरबमें अमेरिका की मजबूत सेना तैयार रहती है, साथ ही जापानके तालुकदारों और पूँजीपतियोंकी कम्पनी तोड़ दी जाती है; तो पचीसों बरसके लिए जापान खड़ा नहीं

हो सकता । अंगरेज ही हैं जो चाहते हैं कि बेरीक-टोक रोजगार भी करें; हिन्दुस्तान, बर्मा, हांगकांगको गुलाम बनाकर भी रखें । अकेले अंगरेज जापानसे लड़कर पार नहीं पा सकते । अमरीका और चीन अंगरेजोंकी गुलामीको मजबूत करनेके लिए क्या तब भी अपने लाखों आदमियोंको मरवायेंगे जब जापान बिना लड़े ही इन मुल्कोंको छोड़ देना चाहेगा । सिरिफ इस सूरतपर कि सब मुल्क आजाद मान लिये जायँ और व्यापार करनेमें किसीको कोई बाधा न रहे ।

सोहनलाल—अंगरेजी जोंके बड़ी काइयों हैं भैया ! वह जरूर दूसरोंको फँसा लेगी ।

भैया—काइयों हैं, लेकिन उसीको फँसा सकती हैं जिसका स्वारथ इनके स्वारथसे मेल खाता है और जापान अपनी रच्छाके लिए इतनी दूर जायगा जरूर लेकिन जो बात नहीं मानी गई तो मरते दम तक लड़ेगा । जापानी जोंकोंके लिए अपने चालीस-पचास लाख लोगोको मरवा देना कोई बात नहीं, यह अमेरिकन मंत्री भी जानते हैं ।

सोहनलाल—तो भैया जरूर मामला उतना आसान नहीं है ।

भैया—अमेरिका, इंग्लैंड और चीनके साथ अकेला लड़नेकी तागत जापानमें नहीं है, यह बात साफ है, लड़नेका मतलब है दस-बीस लाख आदमी अपने मरवाना और दस-बीस लाख दूसरेकी । फिर तीनोंकी फौजे जो जापानमें पहुच गई तो सूर्यदेवीके बेटे हिरोहितों तेन्नोका न कहीं पता लगेगा, न जमींदार जरनैल और उनकी जमींदारी बचेगी, न मोटी तोदे जीने पायेगी । दूसरे रास्तेमें सबसे ज्यादा इनकार अंगरेज करेगे, और जापानी जोंके यह भी विस्वास करेगी कि सायद उनकी पूछ बच जाय ।

१. Mr. James V. Forrestal, Secretary of the United States Navy today (22nd August, 1944) said, "we are apt to assume that the Japanese will crumble when the Germans are beaten and say 'we have lost the war'. With the Japanese we are dealing with a religion and not with rational man. They will fight with greater savagery as we get closer in."

—Reuter London, August 22, 1944

दुखराम—क्या सचमुच जोंके बच जायेंगी मैया ?

मैया—जब बिल्ली कबूतरके पास पहुँच जाती है दुखू भाई ! तब वह आँख मूद लेता है । समझता है, 'मूदहुँ आख कतहुँ कोउ नहीं' लेकिन जिन जोंकोंने बीस बरससे न जाने कितने हजार जापानियोंको सड़ा-सड़ा कर मारा । कम्निस्त और कमेरा राज चाहनेवाले कहकर हजारोंको गोलीसे मारा; उसके बाद पचासों हजार आदमियोंको लड़ाईपर ले जाकर मरवाया । उन्हें जापानी मजूर-किसान फिर अपना सिरताज बनायेगी इसमें बहुत सक है । अभी ही अपनी जोंकोंके पंजेसे भागकर आये सैकड़ों कमकर नेता और हजारों सिपाही चीनी कम्निस्तोंके साथ मिलकर जापानमें क्या करना होगा, इसे पक्का कर रही हैं ।

सोहनलाल—अच्छा यह तो समझमें आया कि हिटलरके हारनेके बाद जापानकी हार निहचय है, लेकिन वह कैसे होगी इसके बारेमें अभी कोई बात पक्की तौरसे नहीं कही जा सकती ।

मैया—लेकिन मुमकिन ज्यादा यही है कि चर्चिलकी चौकड़ी भूल जाय और दुनियाको गुलाम रखनेके उसके जितने मनसूबे हैं वह भूलमें मिल जायँ ।

सोहनलाल—अच्छा इस लड़ाईके बाद चीन और जापानमें जोंकोंकी क्या हालत होगी ? क्या वहाँ कमेरोंका राज कायम होगा ?

मैया—यह बात किसी भूटे जोतिसीसे पूछो, सोहन भाई ! मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जापानमें बड़ी-बड़ी जोंकों, बड़े-बड़े ज़िम्दारोंका फिर दिन नहीं लौटेगा । चीनके कम्निस्त और ज्यादा मजबूत होंगे और हिटलरके हारते ही उन्हें सोवियतसे बहुत ज्यादा हथियार मिलेगा ।

सोहनलाल—लेकिन सोवियत और जापानकी तो आपसमें कोई लड़ाई नहीं है ।

मैया—दोनों एक दूसरेके ऊपर हथियार नहीं चला रहे हैं, यह बात ठीक है । लेकिन जापान बोलिसेविकोंके खिलाफ फसिहा-गुट्टमें उसी तरह मुस्तैदीसे काम करनेकी बात करता है । सोवियतने भी इसका अच्छा जवाब दिया । जब जरमनीसे उसकी लड़ाई नहीं थी तो चीनको सबसे ज्यादा हथियार सोवियत

सरकार ही देती थी ।

सोहनलाल—तो मुझे मालूम होता है, सारे चीनपर भी एक दिन लाल भंडा ही फहरायेगा ।

भैया—जिन दस करोड़ चीनियोंने कमनिस्तोंको अपना अगुआ बना लिया वह तो लाल भंडेको छोड़नेवाले नहीं बाकी चौतीस करोड़में किसानों और मजूरोंकी नजर सदा उसी लाल भंडेकी ओर रहेगी । चाङ्कै-सक उन दस करोड़ोंको कुचल डालनेकी अब कभी आसा नहीं रख सकता, और चीनकी सारी जोकें मिलकर बहुत सालों तक उन चौतीस करोड़ चीनियोंका खून नहीं चूस सकती ।

सोहनलाल—और हिन्दुस्तानका क्या बनेगा भैया ! हिन्दुस्तानके बारेमें तो सोवियतवाले कुछ भी नहीं बोलते ।

भैया—न बोलनेके वक्त सोवियतवाले नहीं बोला करते, लेकिन बोलनेके वक्त वह इतना जोरसे बोलने लगते हैं कि कानका परदा फटने लगता है ।

सोहनलाल—अब तो कुछ-कुछ मुँह खोलने लगे भैया ! सोवियतके अखबार अब हिन्दुस्तानके लोगोंकी आजादीकी माँगके बारेमें लिखने लगे हैं, जोर भी देने लगे हैं ।

भैया—और विलायती जोके घबराने भी लगी हैं सोहन भाई ! चर्चिल हिटलरके बलको बढ़ते देखकर सोवियतपर फेके थूकको चाटने नहीं तो रुमाल-से पोंछने जरूर लगा था । और अब तो वह साफ कहता ही है कि लाल फौज न होती तो इंग्लैंड न बचता । लेकिन विलायतकी बड़ी-बड़ी जाँकोमें चर्चिलकी उतनी नहीं चलती जितनी कि हेलीफेक्स साइमन, होरकी चलती है । यही लोग थे जिन्होंने हिटलरको आगे बढ़ाया । चेकोस्लावाकियाका हाथ-पैर बाँध कर उसे सौंप दिया । ये हमेसासे और आज भी सोवियतके जर्जरस्त दुममन रहे हैं । उनको कोई मौका मिलना चाहिए और फिर सोवियतके खिलाफ जहर उगलनेके लिए तैयार । जब सोवियतको जर्मनीके हमलोंके मारे पीछे हटना पड़ रहा था, जब उसके ऊपर भारी संकट आया; उस बखत हिन्दुस्तानके बारेमें जो वह कुछ बोलते तो हेलीफॉक्स-होरकी बन आती । वह हल्ला करने

लगते कि देखो फिर बोलिसेविकोंने हमारे राजको नुकसान पहुँचानेका काम शुरू किया न। अब लाल सेना जर्मनीके भीतर लड़ रही है, हिटलरके पिट्टू रुमानियासे भी फसिहा गुन्डोंको भगा रही है, यही कारन है जो अब सोवियत-वाले हिन्दुस्तानके बारेमें कुछ बोलने लगे हैं, आगे वे और बोलेंगे।

सोहनलाल—लेकिन स्तालिनने तो चर्चिलसे बीस सालके लिए सुलहनामा कर लिया है कि वह अंगरेजी राजके भीतर कोई दखल नहीं देंगे।

भैया—बीस साल क्या स्तालिन तो सौ सालके लिए भी सुलहनामा कर सकते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास नहीं है कि कमनिस्त पन्थको तलवारके बलसे किसी मुल्कपर लादा जा सकता है। यह लादनेकी चीज ही नहीं इसे तो किसान मजूर खुद समझकर अपने देसमें फैला सकते हैं, अपना राज कायम कर सकते हैं। लेकिन उस बीस सालके सुलहनामेका खास मतलब क्या है? संसारमें सान्ति रहे फिर लड़ाई न होवे। और, बिलायती जोंके जो संसारमें फिर लड़ाईका बीज बोने लगी तो आप जानते हैं कि स्तालिनने अपने हाथ-पैरको बाँधकर उनके हाथमें दे नहीं दिया है।

सोहनलाल—यह तो बात कुछ-कुछ अब भूलकने लगी है भैया! अभी बाइस अगस्त (१९४४)को ही न अमेरिका गये। सोवियत राजदूतने दुनियाकी सान्ति सभामें बोलते हुए कहा—(दुनियाकी) आजादी और मुक्ति तभी हो सकती है जब कि आगे संसारमें सान्ति कायम करनेवाली सभाके सभी मँबर (देस) अपनी सारी सक्ति इसके लिए लगा दें। इस सभाको आजादी चाहनेवाले सभी देसोंको बिलकुल स्वतन्त्र और बराबर मानके कायम करना होगा।^१

१. "Addressing the delegates to the world security conference at Dumburton Oaks M. Gromykt the Soviet Ambassador in Washington said that freedom and independence could only be preserved if the future international security organisation used all the resources of its members and primarily of the great powers. The organisation would be based on the sovereign equality of all freedom-loving nations.

—Reutor Washington August 22, 1944.

भैया—स्तालिनको बीस सालके सुलहनामेके तोड़नेकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन क्या विलायती जोंकों दुमियत्रकी सान्तिके लिए लिखे गये इस सुलहनामेको माननेके लिए तैयार होंगी ? क्या वह हिन्दुस्तान ऐसे आजादी चाहनेवाले देसको बिलकुल आजाद माननेके लिए तैयार होंगी ?

सोहनलाल—वह कितनी तैयार हैं यह तो चर्चिल-अमरीके कामसे ही पता चल जाता है और जो कुछ कोर-कसर रही है बेवल साहबने गांधीजीके पत्रमें कर दिया है ।

भैया—दुनियामें अगर फिर तीसरी लड़ाई होगी तो उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विलायती जोंकोंके ऊपर होगी । जो विलायती मजूरोंने अपनी जोंकोंको नहीं उखाड़ फेंका तो इसके लिए उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा । आज तकके दो महाभारतोंकी तरह उस तीसरे महाभारतमें उन्हींके लड़के सबसे ज्यादा मरेगे, ये अब वह भी समझने लगे हैं । और इस बातको विलायती जोंकों स्तालिनसे नही छिपा सकतीं ।

दुखराम—दाई से देढ़ (गर्भ) नहीं छिपता ।

भैया—और इसका पता लगते ही सोवियत-सरकार चौकन्नी हो जायेगी । उसके चौकन्ने होनेका मतलब है कि यूरोपके वे सारे ही देस चौकन्ने हो जायेंगे जो अभी-अभी खूनकी नदी तैरकर पार हुए हैं और जिन्होंने अपने यहाँकी बड़ी जोंकोंको निकाल फेकनेका निहचय किया है । सोवियत और बड़ी जोंकोंके बिना जो देस रहेगे, वह एक राय हो जायेंगे, और उनके देसमें तीसरे महाभारतकी छीट नहीं पड़ने पायेंगी । बाकी जोंकोंको ही आपसमें कटना-मरना होगा ।

सोहनलाल—यह तो हुआ भैया कि पूरबमें भी, पच्छिममें भी सब जगह बड़ी उथल-पुथल होगी, लेकिन हिन्दुस्तानके बारेमें तो तुमने कहा ही नहीं ?

भैया—उसे कहेंगे कल ।

अध्याय ११

हिन्दुस्तानकी आजादी

सन्तोखी—सोहनलाल ! तुम्हारे आनेसे हम लोगोंका कुछ नुकसान भी हुआ कुछ फायदा भी । नुकसान तो यह हुआ कि भैया जो कुछ कहते हैं वह पहिलेकी तरह सोलहो आना मेरी समझमें नहीं आता । कौन-कौनसे नाम ! जिनके कहनेमें जीभ लुटपुटाती है लेकिन कई बातें तुमने ऐसी खोदके कहवाई है कि हम उन्हें न सुन पाते ।

दुखराम—हाँ सन्तोखी भाई ! थोड़ासा नुकसान तो जरूर होता है ।

भैया—देसोंका नाम तो नकसा देखनेसे ही साफ-साफ समझमें आता है । हमारे लिए बनारस-प्रयाग त्रिलकुल परगट है, लेकिन फ्रांस-अमेरिकावालोंके लिए वह उसी तरहके बेकार नाम है, जैसे हमारे लिए उनके सहरोके नाम । अच्छा अब चलो हिन्दुस्तानकी आजादीके बारेमें कुछ बात करें । रूस छोड़कर सारी दुनिया नरकमें है और हिन्दुस्तान सबसे बड़े नरकमें है क्योंकि इसके ऊपर बिलायती जोंकोंकी भी गुलामी है और अपनी भी । लेकिन दुखू भाई प्याजका पहिले ऊपरका छिलका निकाला जाता है या भीतरका ।

दुखराम—पहिले भैया ऊपरका छिलका छुड़ाया जाता है तब नीचेका न छुड़ाया जायगा ।

भैया—लेकिन चाकू चलानेमें कुछ नीचेका भी छिलका कट जाता है तो भी हमें पहिले ऊपरके ही छिलकेके हटानेमें सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा । भीतरके छिलकोंपर भी चोट इसलिए लगानी पड़ती है कि बिना जमीदारों और पूँजीपतियोंसे टक्कर लिए किसान-मजूर मजबूत भी नहीं होंगे और न यही समझ पायेंगे कि हम नरकमें इन्हीं जोंकोंके कारन पड़े हैं । हिन्दुस्तानवालोंने आजसे ८७ बरस पहिले अपने देसको आजाद करनेकी कोशिश की ।

सन्तोखी—१८५७के गदरके बखतमें न भैया ?

भैया—और उसीके चार बरस पहिले मरकस बाबाने लिखा था कि अगरेज

सार्जन जिन हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको अपने कामके लिए कबायद-परेड सिखा रहे हैं, वही सिपाही अपनी आजादीके भी सिपाही बन सकते हैं।

दुखराम—तो बाबाके कहनेके ४ ही साल बाद तो उन्होंने कोसिस की लेकिन आजादी क्यों नहीं मिली भैया ?

भैया—सिपाहियोंको यह पूरी तौरसे ग्यान न था, कि वह क्या चाहते हैं।

सोहनलाल—पता क्यों नहीं था, वह जानते थे कि हिन्दुस्तानसे अंगरेजी राजको खतम करना है।

भैया—तुम्हारे पास एक पुराना घड़ा है तुम उसको फोड़ रहे हो तो क्या तुम्हारा यह जानना काफी है कि मैं घड़ेको फोड़ रहा हूँ या यह भी जानना चाहिए कि इसे फोड़कर मैं किससे पानी पियूँगा।

दुखराम - हाँ भैया, सिर्फ घड़ा फोड़नेसे काम नहीं चलेगा, पानी पीनेका भी इतजाम होना चाहिए।

भैया—सिपाही घड़ा फोड़ना चाहते थे, नये घड़ेका उन्हें खयाल भी नहीं। उनके नेता थे सड़े-सड़े जमींदार राजा और नवाब, जिनको लड़ाईकी विद्याका, उस समयके हथियारोंका ग्यान नहीं था। कम्पनीने किसीकी पेन्सन जपत कर ली थी, किमीका राज छीन लिया था, कोई समझता था कि हम भी छोटे-बड़े राजा-नवाब हो जायेगे। वस सब इकट्ठा हो गये थे। सिपाहियोने बहादुरी की, हिन्दू-मुसलमान दोनों जी-जानसे लड़े लेकिन उनके पास आँखे नहीं थी ?

दुखराम—आँख नहीं थी ? क्या वह सब अंधे थे ?

भैया—पलटनकी आँखे अफसर होते हैं दुक्खू भाई ! सौ-सौ पचास-पचास सिपाही अपने मनसे जिधरसे चाहें लड़ने लगे तो दुश्मन उन्हें जल्दी तबाह कर देगा। पाँचों उगलियाँ बाहरकी ओर खुली हैं लेकिन हथेलीसे जुड़ी हैं। इसी तरह अलग बिखरे हुए सिपाही तभी मजबूत होते हैं जब हजारों-लाखोंको एकसे एक नत्थी कर दिया जाता। अफसर वह काम करते हैं। दूसरा दोस यह था कि जो राजा-नवाब उनके अगुआ बने थे वह लड़ाईके अगुआ होने लायक नहीं थे। और सब सिर्फ अपना-अपना स्वारथ देखते थे। तीसरा दोस यह था कि आम जनता इन विदेशियोंसे लड़नेवाले अपने सिपाहियोंको अपना

नहीं समझते थे ।

दुखराम—क्यों मैया वह हमारे भाई-बंद तो थे ही ?

मैया—भाई-बन्द कह देनेसे नहीं काम चलेगा दुखू भाई, जब वह गावों और सहरोंको लूटते चलते थे, लोग उनके आनेकी खबर सुनते ही घर-दुआरकी सुध छोड़ भाग निकलते थे तो कैसे कह सकते हो कि वह भाई-बन्द हैं ।

सोहनलाल—लेकिन लोगोंसे पैसा न ले तो उनका खर्च कैसे चले ?

मैया—लेकिन वह डकैत तो नहीं थे, वह अंगरेजोंको इसलिए निकालना चाहते थे कि लोग ज्यादा सुखी रहें । लोगोंको यह बात अच्छी तरहसे मालूम होती तो लोग तन-मन-धनसे उनकी मदद करते । इस सबसे यही मालूम होता है कि जो लड़के जान देनेवाले थे, उनको मालूम नहीं था कि वे अंगरेजोंको निकालकर क्या करेंगे, इसीलिए वह जनताको भी नहीं समझा सकते थे—क्यों तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए । हो सकता है जो और कुछ दिन लड़नेका मौका मिला होता तो खुद गलती करके सीखते । लेकिन कुछ बागी राजाओं-नवाबोंको छोड़कर बाकी सारी जोंकें, राजा-महाराजा-नवाब अपने भाइयोंके खिलाफ अंगरेजोंकी मदद कर रही थीं । बेचारोंको सीखनेका मौका नहीं मिला । कैसे खूनकी नदी बहाकर जुल्म करके उस लड़ाईको दबा दिया गया, कहनेकी जरूरत नहीं । और दबा भी बीस सालके लिए ।

सन्तोखी — बीस सालके बाद फिर आजादीका ख्याल क्यों आने लगा ?

मैया—हिन्दू समझते थे कि समुन्दर पार जानेसे धरम चला जाता है और दूसरेके हाथका खाना खा लेनेसे आदमी किरिस्तान हो जाता है, इसीलिए हिन्दुस्तानी कूएँके मेंढक रहे । अब एक-एक करके कुछ लोग बिलायत जाने लगे थे, कितने ही लोग हिन्दुस्तान हीमें अंगरेजी पढ़कर किताबोंसे दुनियाके बारेमें जानने लगे । उन्होंने देखा कि आदमी भेड़ नहीं हैं । राजा भगवानकी ओरसे भेजा नहीं जाता है । बिलायतमें राजा हैं, लेकिन राजका काम देखती है पंचायत—पार्लामेंट । अमेरिकामें तो राजा भी नहीं है, वहाँ पंचायती राज है । अंगरेजोंको अपना राज चलानेके लिए सस्ते क्लर्कों और नौकरोंकी जरूरत है इसलिए अंगरेजी पढ़ाना जरूरी था, अंगरेजीकी किताबोंके पढ़नेपर

साहब बहादुर नंगे दिखाई देने लगते थे और दुनियाके और देशोंकी बातें पढ़कर उनके दिलमें भी आजादीका ख्याल आने लगता था। कुछ हीसियार बिलायती युवकोंने सोचा कि कहीं यह हिन्दुस्तानी हाथसे बेहाथ न हो जायँ। इसलिए उनकी मददसे कांग्रेसकी अस्थापना की।

दुखराम—क्या भाई बिलायती जोकोंने कांग्रेसको अस्थापित किया ?

भैया—हाँ बिलायती युवकोंने, गोरे साहबोंने काले साहबोंको बढ़ावा दिया। पचीस साल तक तो कांग्रेसमें इन्हीं काले साहबोंका जोर रहा। इनका काम था सालमें एक बार किसी बड़े सहरमें इकट्ठा होना और हाथ जोड़कर अंगरेजी सरकारसे प्रार्थना करना। भगवान हमें यह नौकरी दो, हमें वह नौकरी दो। सिच्छा और बढ़ने लगी। नौकरियों कम पड़ने लगीं। लोगोंकी तकलीफ बढ़ गई, धीरे-धीरे गोरे भगवानोंसे प्रार्थना करनेको बहुतसे लोग बेकार समझने लगे। उनमेंसे कुछ लोगोंने ब्रम-पिस्तौलसे एकाध अंगरेजों या काले अफसरोंको मारा। कुछको फाँसी हुई। लोगोंने उनको सहीद कराके सम्मान किया।

दुखराम—उससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं भैया ?

भैया—सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हिन्दुस्तानके नौजवान निरभय होने लगे। मौत उनके लिए घबराहट नहीं प्रेमकी चीज बन गई। बाकी तो मैं कही चुका हूँ कि एकके-दुक्के अफसरोंके मारनेसे जगह खाली नहीं हो सकती। फिर पिछला (१९१४-१८) महाभारत आया। लड़ाईने सारी बाकी दुनियामें उथल-पुथल मचाई। रूसमें कमरोंका राज कायम हो गया इसका भी असर पड़ा। दक्खिनी अफ्रीकामें गांधीजी गोरी सरकारसे लड़ चुके थे। लड़ाईके बीचमें वह हिन्दुस्तान आ गये।

सोहनलाल—गांधीजी जब हिन्दुस्तान आये तो देशकी आजादीके लिए यहाँ कौन-कौन लोग काम कर रहे थे ?

भैया—तीन तरहके लोग थे एक तो पुराने दर्रेंके कांग्रेसी नेता जिनका काम था सरकारसे प्रार्थना करना भिच्छा माँगना। वह आजादीके लिए किसी तरहका जोखिम उठानेको तैयार नहीं थे। यह खूब अंगरेजी पढ़े-लिखे होते थे। इनमेंसे बहुत चमड़ेके रंगसे मजबूत थे, नहीं तो जहाँ तक बन पड़ता था साहब बहादुरका

ठाट-बाट रखते थे। इनमेंसे ज्यादा चलते पुरजेके लोगोंको सरकार कोई नौकरी या पदवी देकर अपनी ओर खींच लेती थी। इनको अंगरेजोंकी बातपर विस्वास था, कि अंगरेजोंको न्यायसे बड़ा प्रेम है। उन्हें जोंकोंके स्वाभावका पता नहीं था, इसलिए समझते थे कि विलायती जोंकें किसी दिन अचानकदानी संकरकी तरह हिन्दुस्तानीको निहाल कर देगी। दूसरी ओर कुछ नौजवान थे जो समझते थे कि बम-पिस्तौलसे दो-चार सरकारी नौकरोंको मार देनेसे विलायती जोके हिन्दुस्तान छोड़कर चली जायेगी। तीसरी तरहके लोग थे जो कभी-कभी गरम-गरम लेखर दे देते थे और अंगरेजोंको बुरा-भला कहकर कभी-कभी जेल चले जाया करते थे। इन तीनों तरहके लोगोंमेंसे किसीको आम जनतासे कोई वास्ता नहीं था। वह समझते थे कि जनता न किसी राजनीतिको समझ सकती है, न निर्भय होकर बलिदान कर सकती है, हम नेता ही हिन्दुस्तानका बेड़ा पार कर रहे हैं। गांधीजी जनताकी ताकतको दक्खिनी अफरीकामें कुछ-कुछ समझने लगे थे। उन्होंने हिन्दुस्तानी कुलियोंको वहाँ देखा था कि वह कैसे लड़ाके है। पिछला युद्ध खतम हो रहा था। युद्धके लिए तो सरकारने भारत-रच्छा कानून बना लिया था, लेकिन युद्धके बाद वह कानून नहीं चल सकता था और वह जानती थी कि लड़ाईके बाद दुनिया भरमें जवर्जस्त उथल-पुथल होगा। रूसमें उन्होंने देख ही लिया था कि कैसे कमेरोने जोंकोंको मसल डाला। इसलिए अंगरेजी सरकारने हिन्दुस्तानमें एक ऐसा कानून बनाया जिससे उथल-पुथल मचानेवालोंको मन-मानी सजा दी जाय। बोलबकड़ लोगोंने इस कानूनका बहुत विरोध किया। लेकिन सरकार क्यों सुने ? गांधीजीने इस बखत आगे कदम बढ़ाया और जनता की तागतको इस काममें लगाया।

सोहनलाल—गांधीजीका यह बहुत बड़ा काम है न भैया ?

भैया—बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि जिसके लिए हिन्दुस्तान उन्हें कभी नहीं भूलेगा। जनताकी तागतके सामने अंगरेजी सरकार घबराई। हजारों आदमियोंको जेलमें डाला। लोगोंके दिलसे जेलका डर बिल्कुल जाता रहा। सरकारने जो कानून बनाया था वह रद्दीकी टोकरीमें डाल दिया गया। अब चिन्ता जेल जानेवालोंको नहीं बल्कि चिन्ता थी सरकारको कि इतने

लोगोंके रखनेके लिए जेल कहाँसे आर्येंगे। गांधीजीने साल भरमें सुराज पानेकी बात कही, जोंकोंके दिलको बदल देनेकी बात कही। लेकिन कोई जादू मन्तर थोड़े ही है कि सालमें सुराज चला आवे।

दुखराम—और जोंकोंका दिल तब न बदले जबकि उनके पास दिल हो।

भैया—गांधीजीकी लड़ाई बन्द हो गई थी, लेकिन पहिले हीसे कितने ही नौजवानोंने रूसके कमरोंकी बात सुनी। मरकस बाबाकी सिच्छाको भी वह पढ़ने लगे। हिन्दुस्थानमें भी उस सिच्छाका बीज पड़ा। अगरेजी सरकार घबराणे लगी कि यह बोलसेविक हिन्दुस्थानमें कैसे पहुँच गए? उन्होंने डाये और दूसरे कमनिस्तोपर १९२४में कानपुरमें मुकदमा चलाया और उन्हें चार चार सालकी सजा दी। कमनिस्त मजूरोंमें काम कर रहे थे। अपने हकके लिए मजूर लड़ने लगे और मजूरों बढ़ाने या किसी मजूरके निकालने पर बड़ी-बड़ी हड़तालें होने लगी। १९२६में ४ लाख मजूरोंने कलकत्ताकी गलियोंमें घूमते हुए विलायतसे भेजे साइमन कमीसनका विरोध किया। साइमन कमीसन क्या है भैया!

भैया—विलायती जोके बहुत चलाक हैं भाई। जब लोगोंमें ज्यादा असंतोस देखती हैं तो पाँच-सात आदमियोंकी गुटको यह कहकर भेज देती हैं कि यह लोग जाकर जाँच-पड़ताल करेंगे। फिर हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे। इसीको कमीसन कहते हैं। उस वक्त जां कमीसन आया था उसका मुखिया था साइमन। जोंकोंका एक छुँटा सरदार। इसलिए उस कमीसनको साइमन कमीसन कहा जाता है। कमनिस्तोंकी इस तागतको देखकर सरकार और घबराई और देस भरके कोने-कोनेसे गिरफ्तार करके, जोसी अधिकारी, डागे, आदि उनतिस कमनिस्तोंपर मरठमें मुकदमा चलाया।

दुखराम—तो भैया मरकस बाबाकी सिच्छा फैलनेसे विलायती जोंके बहुत घबराई ?

भैया—उतनेसे भी संतोस नहीं हुआ दुखू भाई। १९३४में तो सरकारने कानून निकाल दिया कि कमनिस्त पार्टीमें जो भी जायेगा उसे जेलमें भेज दिया जायगा। लेकिन मरकस बाबाकी सिच्छा न फूल-सज्जापर सोनेवालोंके लिए है और न गोबर गनेलोकें लिए ही है। वह हवामें सिच्छा नहीं देते। नरक-सर्ग-

का लोभ भी वहाँ नहीं। जो गरीब हैं, मजूर हैं, रोज तकलीफोंको भुगत रहे हैं उनको यह सिच्छा बहुत जल्दी समझमें आने लगती है। जनताको इस तरह मैदानमें आते देखकर बिलायती जोंकोंके पेटमें पानी कैसे पचता। गांधीजीने कई और सत्याग्रह कराये लेकिन अब वह पुराने गांधी नहीं थे।

दुखराम—पुराने गांधी और नये गांधी क्या हैं भैया ?

भैया—पुराने गांधीकी परछाईं से भी जोंकें घबराती थीं, बिलायती ही नहीं हिन्दुस्तानी भी। इसलिए नहीं कि गांधीजी बोलसेविक थे और वह धनिकोंका धन छीनकर पंचायती बना देते। गांधीजीके साथ करनेका मतलब जेहलखाना-जुरमाना था। इसीलिए वह घबराती थी। लेकिन गांधीजीके “बिलायती माल न छुओ” कहनेसे हिन्दुस्तानी मिलोंका माल खूब बिकने लगा। खूब नफा होने लगी, तो सेठ लोग भी गांधीजीकी आरती उतारने लगे, जमीदार भी दंडवत् करने लगे। और अब गांधीजीने भी बार-बार कहना सुरू किया, मैं सेठों-जमीदारोंका धन छीनना नहीं चाहता, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि सेठ-जमीदार-किसान, मजूरोंके माँ-बाप बन जायें।

दुखराम—इसीको कहते हैं भैया, “नँदिया (दूधके बरतन)की साखी बिलाई।”

भैया—यह तो सब कथा पुरानी हो गई दुख्खु भाई ! बिलायती जोंकोंने देखा कि कमेरोका राज रूसमें कमजोर होनेकी जगह और बढ़ता ही जा रहा है, मरकस बाबाकी सिच्छा भी दुनियामें फैलती जा रही है, हिन्दुस्तानमें भी उसे दबाया नहीं जा सकता। उधर हिन्दुस्तानी भी सुराज-सुराज कह रहे हैं अगर कुछ नहीं करेंगे तो सब हमारे खिलाफ हो जायेंगे।

सन्तोखी—बधक (रेहन) से बूड़ा (वै) हो जायगा।

भैया—इसीलिए उन्होंने कागरेसको हिन्दुस्तानके कितने ही सूबोंमें सरकार चलानेका काम सौंपा। लेकिन जब यह लड़ाई सुरू हुई और गोरी जोंकोंकी लड़ाईमें बिना पूछे ही हिन्दुस्तानको भी सामिल कर दिया गया तो कागरेसवाले सरकार छोड़कर चले आये। तबसे हिन्दुस्तान चाहता है कि वह भी अपने घरका मालिक बने। वह इस लड़ाईमें फसिहोंसे लड़नेके लिए पूरी तौरसे

तेवार है । लेकिन चर्चिल-अमरीने क्या-क्या चाल चली यह हम बतला आये हैं । हम यह भी कह आये हैं कि दुनियामें जो कुछ होने जा रहा है उसके बिधाता चर्चिल-अमरी नहीं हैं । दुनियाका नकसा ऐसे बदलनेवाला है कि उससे हमारे देसको बहुत मदद मिलेगी । लेकिन मैंने बतलाया था कि अपनी आजादीके लिए सोलह आनामें चौदह आना काम हमें खुद करना होगा । और इस वक्त सबसे पहला काम है हिन्दू-मुसल्मानोंका समझौता । कांग्रेस और मुसलिम लीगमें मेल ।

सोहनलाल—तो क्या आप भी कांग्रेसको हिन्दुओंकी जमात समझते हैं ?

मैया—कांग्रेस हिन्दुओंकी जमात है या मुसल्मानोंकी जमात । इसके बारेमें बालकी खाल निकलनेमें कोई लाभ नहीं । इतना तो तुम भी मानोगे कि जितना मुसल्मान जनताका विस्वास मुसलिम लीगपर है, उतना कांग्रेसपर नहीं । उतना क्या उसका दसवाँ हिस्सा भी नहीं है । डिस्टिक बोट, मनुस-पलटी और कौंसिलके वोटमें देख लिया है, कि मुसलिम लीगके आदमियोंको ही मुसल्मानोंके सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं । मुसलिम लीग और कांग्रेसका सम-झौता हुए बिना हिन्दू-मुसलिम एकता नहीं हो सकती और जब तक एकता नहीं होती, तब तक हम बिदेसी जाँकोंसे एक होकर लड़ नहीं सकते । एकताकी हर हालतमें जरूरत है । चाहे उसे आज करो या लड़ाईके बाद करो । चर्चिल-अमरीको यह कहनेकी हिम्मत नहीं है कि हम हिन्दुस्तानको गुलाम रखना चाहते हैं, मनसा उनकी यही है कि हिन्दुस्तान सदा गुलाम रहे ।

सोहनलाल—तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस-लीग समझौता हो जायगा तो चर्चिल-अमरी हमें स्वराज दे देंगे ?

मैया—मैं कितनी ही बार दोहरा चुका हूँ कि विलायती जाँकोंके यहाँ “द” अच्छर नहीं है, इसलिए देनेका तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए । कांग्रेस-लीग एकता हो जानेसे हमारे बाहरके दोस्तोंका हाथ मजबूत हो जायगा, अमेरिकन अपने व्यापार अपने स्वार्थके लिए चाहते हैं कि हिन्दुस्तान अंगरेजोंका गुलाम न बना रहे । हिन्दुस्तान अंगरेजोंका गुलाम नहीं रहेगा तो अमेरिकन माल भी हिन्दुस्तानमें खुलकर बिकेगा । टाटा, बिड़ला जैसे पूँजी-

पतियोंने जो पन्द्रह सालमें हिन्दुस्तानमें कारखाना, खेती, पढ़ाई-लिखाई इत्यादि कितनी बढ़ानी चाहिए, इसके लिए एक खर्चा बनाया। अंगरेज जोके कहती हैं कि इतने कारखानोंको हिन्दुस्तानमें खोलनेके लिए पैसा कहाँसे आयेगा। अमेरिकन जोके कहती हैं कि हमें भी कुछ नफा कमाने दो, फिर जितना चाहिए उतना रुपया हम देगे। वे आजकल खूब लिख रहे हैं कि हिन्दुस्तानके साथ समझौता होना चाहिए। अमेरिकाका प्रेसीडेन्ट भी यही बात चर्चिलको सुनाता है, लेकिन चर्चिल-अमरी कहते हैं कि तीस करोड़ हिन्दू और दस करोड़ मुसल्मान दोनों आपसमें झगड़ रहे हैं, जबतक उनमें कोई समझौता नहीं होता, तब तक हम किसको आजादी दें। कांग्रेस-लीग समझौता होनेसे उन अमेरिकनोंको बहुत बल मिलेगा, जो हमारा पच्छ कर रहे हैं। रूस और स्तालिन वीरका भी हाथ आगेके लिए मजबूत होगा। इंग्लैंडके मजूरोंकी भी हमारे लिए काम करनेकी हिम्मत बढ़ेगी।

सोहनलाल—तो इसका मतलब यही हुआ न कि दो आना आपका काम हो जायगा ?

भैया—और चौदह आनेकी बात सुनो। हिन्दू-मुसल्मान दोनो तब एक होकर लड़ सकेंगे, उनके एक होनेसे तुम्हारी लड़ाई मजबूत होगी या अकेले-अकेले।

सोहनलाल—लेकिन लीगवाले अंगरेजोंसे लड़ेंगे थोड़े ही ?

भैया—तो आप समझते हैं मुसल्मान कायर हैं। वह जेहल और गोलीसे डर जायेंगे। आपको पेसावरकी बात मालूम है कि सरकारी पलटन गोली चलाती रही और चार सौ पठानोंने पीठपर नहीं छातीपर गोली खाई, सिपाही पीछे हटे, लेकिन वह नहीं हटे। वह पठान मुसल्मान ही हैं न ?

सोहनलाल—लेकिन वह तो लीगवाले मुसल्मान नहीं वह तो कांग्रेसके पीछे चलते हैं।

भैया—कांग्रेसके पीछे चलते हैं ठीक है, लेकिन वह भी लीगके महान-नेता जिनाकी सरतोंको मानते हैं और चिन्हा-चिन्हाकर कह रहे हैं कि लीगसे ससमझौता कर लेना चाहिए।

सोहनलाल—लेकिन मुसलिम लीगके जो राजा-नवाब जैसे लोग भरे हुए हैं, वह क्या अंगरेजोंसे लड़ेंगे भैया ?

भैया—कांग्रेसमें भी राजा-नवाबोंकी कमी नहीं है और न करोड़पतियोंकी लेकिन देखते हो न कि राजाओंके लड़के और करोड़पतियोंकी लड़कियाँ जेलमें जा रही हैं उसी तरह मुसलिम लीगके राजा-नवाब भी करेंगे। हाँ, उनसे यह उम्मेद न करो कि वह जोकोका राज उठानेके लिए बलि चढ़ेंगे।

दुखराम—वह तो हिन्दू जोकोसे भी उम्मेद नही रख सकते।

भैया—जिन मुसल्मानोंने अपने धरमके लिए अंधे हो जानकी परवाह नहीं की और कम रहते भी हिन्दुओंके सामने न लाठीमें दबे, न छुरेमें दबे, न जेल जानेमें दबे, उन्हें सोहन भाई, तुम कायर नहीं कह सकते। कायर ज्यादा मिलते हैं बड़ी-बड़ी थैलीवालोंमें, उनको हमेसा अपनी मोटी तोंदकी फिकर बनी रहती है। हिन्दुओंमें मुसल्मानोंसे ज्यादा थैलीवाले मोटी तोंदवाले हैं। इसलिए मुसल्मानोंके बारेमें तुम्हारा ख्याल गलत है, वह देसकी आजादीके लिए लड़नेमें कभी कायर नहीं दिखाई पड़ेंगे, आज जो वह खुलकर पूरे जोरसे एक होकर लड़ाईके मैदानमें नहीं आते तो उसके कारन हिन्दू हैं।

सोहनलाल—हिन्दू क्यों हैं भैया ! हिन्दू तो खुद आजादीके लिए लड़ते हैं और दूसरोंको भी लड़नेके लिए कहते हैं।

भैया—लेकिन मुसल्मानोंको जो यह सक हो गया है कि अंगरेजोंके राजको हटाकर हिन्दू अपना राज कायम करेंगे, और हम उन इलाकोंमें भी हिन्दुओंके गुलाम रहेंगे, जहाँ हम ६५ सैकड़ा, ८० सैकड़ा, ७० सैकड़ा हैं। अटक जिलेमें जाइये, सौमें नौ आदमी हिन्दू मिलेंगे बाकी मुसल्मान। रावलपिंडीमें २० हिन्दू हैं और ८० मुसल्मान। ढाकामें १००में ६६से ज्यादा, बोगरामें ८३से ज्यादा मुसल्मान हैं। मुसल्मानोंको सक है, कि अंगरेजी राज हटते ही हमें सब जगह हिन्दुओंका मुँह देखना पड़ेगा।

सोहनलाल—तो इसका मतलब यह है कि मुसल्मान हिन्दुओंका राज माननेकी जगह अंगरेजोंका ही गुलाम रहना पसंद करेंगे।

भैया—यही सवाल तो सावरकरसे भी हो सकता है कि वह मुसल्मानोंका

हक देनेके लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए चाहे अंगरेजोंकी ही गुलामीमें रहना पड़े।

सोहनलाल—वह लड़कर आजादी लेना चाहते हैं ?

भैया—रहने दो लड़नेकी बात।

सोहनलाल—सावरकर क्या लड़े नहीं, क्या उन्होंने अपनी जवानीको अंगरेजोंके साथ लड़नेमें नहीं बिताई ?

भैया—क्या वह अपने बुढ़ापेको अंगरेजोंके राजको मजबूत करनेके लिए नहीं बिता रहे हैं। भाई परमानंदको भी किसी वक्त फांसीकी सजा मिली थी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वह पुरानी आग अब भी उनके भीतर है। सोहन भाई अंडमनके काले पानीमें उनकी सारी आग ठंडी हो चुकी है। बासी खानेवाला बहादुर नहीं होता। गांधीजी उपवासके कारण मरने जा रहे थे। बड़े लाटके कौंसिलके तीन मेम्बर इस्तीफा देकर चले आये। कानपुरके पूँजीपतियोंके सरदार सर जे० पी० श्रीवास्तव टससे मस नहीं होना चाहते थे। चारों ओरसे खूब भाड़ पड़ी और वीर सावरकर सर जे० पी०से कह रहे थे कि वहीं डटे रहो और जिस हिन्दू-सभाके सावरकर नेता हैं, जानते हो उसमें कौन-कौन लोग हैं ? अंगरेजोंके एक नम्बरके खुसामदी फलाने राजा फलाने महाराजा। दुखू भी तुम भी तो फलाने। राजाको जानते हो तुम्हारे समधीके गाँवके वही जमींदार हैं।

दुखराम—वह भी हिन्दू-सभाका नेता है जो गरीबोंका खून कच्चा पी जाता है। उसने तो सिपाही सवार छाँट-छाँट कर गुंडे रखे हैं और माल-गुजारी देनेसे पिंड नहीं छूटता। कभी मोटरका चंदा लगता है तो कभी हाथीका। ब्याह बरातके लिए हजारों रुपया वसूल करता है।

भैया—बस हिन्दू-सभामें या तो इसी तरहके गरीबोंके खूनको चूसकर मोटे हुए राजा-महाराजा जिमीदार हैं। या उनके टुकड़ेसे जीनेवाले, क्या जाने दो-चार पागल भी निकल आये।

दुखराम—तो अब बुढ़ापेमें सावरकर जोंकोंके सरदार बनकर अपनी बीरता दिखाना चाहते हैं ?

भैया—देखो तो दुक्खू भाई ! जोंकें अभी कितने-कितने तरहके नाटक खेलती हैं । धरमके नामसे उन्होंने हजारों बरसोंसे पागल कर रखा है, अब “हिन्दू धर्म डूबा” कहकर वह गांधीजीको गाली देने चले हैं ।

सोहनलाल—तो भैया ! तुम चाहते हो कि जिन्नाने जो पाकिस्तान माँगा है, उसे दे दिया जाय और अखंड हिन्दुस्तानको टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय ।

भैया—“भारत माताको जब्बह किया जाय, उनका हाथ काटकर कोई, पैर काटकर कोई ले जाय, सिर काटकर कोई ले जाय, माताको अपने हाथोंसे कतल किया जाय” यही सब कहना चाहते हो न सोहन भाई ! और इसीलिए कितने हिन्दू-सभावाले नेता कह रहे हैं कि चाहे सौ बरस और हमें गुलामीमें रहना पड़े लेकिन जिन्नासे समझौता नहीं होना चाहिए । जिनको गुलामीसे कितना प्रेम है वह भारत माताकी कितनी इज्जत करते हैं, यह तुम खुद समझ सकते हो । भारत मातासे प्रेम हिन्दू ज्यादा करते हैं या मुसल्मान ? इसके बारेमें एक बार एक मुसल्मानने अच्छा कहा था ।

दुखराम—क्या कहा था भैया रजबली ?

भैया—कहा था कि हिन्दू तो एक बारके लिए भारत माताकी गोदमें आये हैं । मरनेके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं है कि फिर भारत भूमिमें आये लेकिन मुसल्मान तो यहीं भारत माताकी गोदमें पैदा होता है मरकर, यहीं गाड़ा जायगा और परलय तक भारत माताकी गोदको नहीं छोड़ेगा ।

दुखराम—हाँ भैया ! साढ़े तीन हाथकी कब्र तो इसी धरतीमें न बनेगी ? तो क्या मुसल्मान दूसरा जन्म नहीं मानते हैं ?

भैया—नहीं, वह एक जर्नमिया हैं दुक्खू भाई ! मरकर कब्रमें पड़े रहेंगे । जब परलय होगी तो भगवानके सामने जायेंगे । परलयमें तो धरती भी नहीं रह जाती ।

दुखराम—तो भारत माता भी नहीं रह जायँगी । जो बच्चा माँकी जिन्दगी भर साथ नहीं छोड़ना चाहता, वही माँसे ज्यादा प्रेम करता है भैया, जो अपनेको सरायका मुसाफिर समझता है, वह क्या प्यार करना जानेगा ।

भैया—तो दुक्खू भाई, मुसल्मानोंकी भी बाप-दादोंकी कितनी ही पीढ़ी

इसी धरतीमें गली है। जो हिन्दुओंके कासी, पराग यहाँ हैं तो मुसल्मानोंके भी अजमेर शरीफ और दूसरे हजारों तीरथ अस्थान हैं, जिनको वह उतना ही सम्मान करते हैं, मेला होता है तो हजारों-लाखों आदमी उर्स (परब) पर जाते हैं।

सोहनलाल—तो वह अलग होना क्यों चाहते हैं ?

भैया—अलग होना चाहते हैं हिन्दुओंके बरतावसे। हिन्दुओंने दस करोड़ आदमियोंको चमार, मुसहर, डोम बनाकर उन्हें जानवरसे भी बदतर कर दिया है। कोई जब उनमेंसे मन्दिरमें जाता है तो कह देते हैं कि पोथीमें इसके खिलाफ लिखा है। पोथियाँ किसने बनाईं ? उन्हींने जो कहते हैं कि जोंके भगवानकी ओरसे भेजी गई हैं, जमीदार और सेठ किसानों-मजूरोंको चूसते हैं तो यह भी वह धरम करते हैं। पहिले जनमका पुत्र है, इसीलिए उनको धन मिला है, लेकिन दुख्खु भाई ! तुम्हें मालूम है न कि जोंकोंके घरमें भगवान सोनेकी बरसा नहीं करते। एक आदमीको धनी बननेके लिये ही निन्नानवे आदमियोंको भूखा मरना पड़ता है।

दुखराम—हाँ भैया ! सब पोथी-पत्रा जोंकोंके फायदेके लिए बना है।

भैया—अभी १६ बरस पहिले (१६२५ ई०) तक नेपालके हिन्दू राजमें आदमी खरीदे-बेचे जाते थे और पोथी-पत्रेवाले कहते फिरते थे कि यह सब भगवानकी पोथीमें लिखा हुआ है।

दुखराम—तो भैया ! नेपालमें आदमियोंका बेचना-खरीदना कैसे बंद हुआ ?

भैया—दुनियामें थू-थू होने लगी, इसीलिये। और उसी नेपाल राजकी सावरकर और भाई परमानन्द तारीफ करते नहीं थकते। सोहन भाई, अंगरेजोंसे तुम कहते हो कि हिन्दुस्तानमें हम बसते हैं, इसलिये इसके कर्त्ता-धर्ता हम हैं इसी तरह अटक, रावलपिन्डी, मैमनसिंगमें जहाँ पचीसों कोस तक गाँवके गाँव सारे मुसल्मान ही हैं और जब वह कहते हैं कि इस जगहके कर्त्ता-धर्ता हम हैं तो तुमको क्यों बुरा लगता है ? जहाँ सैकड़ों बरसोंसे मुसल्मान ही मुसल्मान बस गये उस धरतीके कर्त्ता-धर्ता तुम क्यों बनना चाहते हो। सावरकर ऐसे लोग सोचते होंगे कि हिन्दुस्तानकी चालिस करोड़की आबादीमेंसे दस करोड़

मुसल्मानोंको हम खतम कर देंगे, क्या उनमें इतना तागत है, तागत थी तो अँगरेजोंके आते बखत क्यों न कर लिया। असल बात है कि जो हिन्दू हिन्दूके नामपर चिल्लाते हैं उनमें बहुत ज्यादा अँगरेजोंके खुसामदी हैं और “करन चहत निज प्रभु कर काजा” रूसमें भी जब जोंकोंका राज था तो इस तरहके लोग वहाँ भी बराबर भगड़े उठाया करते थे।

दुखराम—रूसमें भी तो भैया १८२ जाति हैं। वहाँ कैसे रास्ता निकाला गया ?

भैया—वहाँ पहिले ही मान लिया गया कि कोई जाति दूसरी जातिकी गुलाम नहीं है, जिस जातिकी जो भूमि है, उसका कर्त्ता-धर्ता वही है। इसीलिए एक-एक जातिका एक-एक पचायती राज बनाया गया है, जहाँके राज-काज-को उसी जातिके लोग चलाते हैं। अपनी भूमिमें अपने कर्त्ता-धर्ता होनेसे उनको डर नहीं है कि दूसरी जाति दबायेगी। इसीलिए एक सौ बयासी जातियोंने मिलकर बीस करोड़ आदमियोंका एक बड़ा पंचायती राज बनाया है। यहाँ भी उसी बातको मान लो तो सारा भगड़ा मिट जाये। मुसल्मान जहाँ अधिक हैं वहाँके वही कर्त्ता-धर्ता हों। हिन्दू जहाँ अधिक हैं वहाँके कर्त्ता-धर्ता वही हो। जो यह बात पक्की हो जाय तो मुसल्मानोंको हिन्दुस्तानके बड़े पचायती राज रहनेसे उजुर नहीं होगा। लेकिन सीमा प्रान्तमें ६२ सैकड़ा, त्रिलोचिस्तानमें ८७.५ सैकड़ा, सिन्धमें ७१ सैकड़ा, पंजाबके मुसल्मान जिलोंमें ६०से ६० सैकड़ा, बगालके मुसल्मान जिलोंमें ५१से ८३ सैकड़ा तक मुसल्मान हैं लेकिन हिन्दुस्तानकी दूसरी जगहोंमें हिन्दू ज्यादा हैं वह सब मिलकर यदि इन मुस्लिम इलाकोंके भी कर्त्ता-धर्ता बनना चाहें तो मुसल्मानोंको क्यों सक नहीं होगा।

दुखराम—तो मुसल्मान इलाकोंके कर्त्ता-धर्ता होनेकी बात है न भैया !

भैया—हाँ दुख्ख भाई ! हिन्दू इलाकोंके कर्त्ता-धर्ता बननेकी जो वह इच्छा करें तो यह अनुचित होगा, लेकिन मुसल्मान इलाकोंके कर्त्ता-धर्ता बननेकी इच्छा हिन्दू जो करना चाहें तो यह न्याय नहीं धींगा-धींगी होगी। किसी भी तीसरे मुल्कको पंच मानों, वह यही कहेगा कि जो जहाँ बेसी रहते हैं उसके कर्त्ता-धर्ता

बही हैं। अखंड हिन्दुस्तान रटते हैं अखंड हिन्दुस्तान रटते हैं।

दुखराम—अखंड हिन्दुस्तान क्या है भैया !

भैया—यही कि हिन्दुस्तान एक है उसे खंड-खंड न करो लेकिन खंड-खंड करनेका रास्ता तो बन्धी पकड़ रहे हैं जो मुसलमानोंको गिनना ही नहीं चाहते। दो भाई हैं उनकी धरतीको किसी दुसमनने दखल कर लिया। किसी तरहसे छोटे भाईको सन्देह हो गया है कि बड़ा भाई समूची धरतीका मालिक अपने बनना चाहता है। बड़ा भाई छोटे भाईसे कहता है कि चलो दुसमनसे लड़ें। छोटा भाई कहता है कि मैं लड़नेको तैयार हूँ लेकिन मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। बड़ा भाई कहे 'कि नहीं यह तो सारी धरती अखंड रहेगी तो बोलो क्या हालत होगी ?

दुखराम—दोनों भाई कमजोर होंगे और दुसमन मजबूत होगा।

भैया—और जो बड़ा भाई कहे कि तुम्हारा हिस्सा हर बखत हाजिर है चलो बाप-दादाकी धरतीको दुसमनके हाथसे निकालें। जब बॉटनेका समय आये उस वक्त बड़ा भाई कहे कि इस धरतीमें तुम्हारा हिस्सा सदा बना हुआ है जब चाहो अलग कर लो; लेकिन हम दोनों इकट्ठा रहेंगे तो फिर किसी दुसमनके आनेका डर नहीं रहेगा अब बहुत मजबूत रहेगे, इसलिए तुम इसे सोचकर जैसा चाहो वैसा करो। इस धरतीमें जो पैदा होता है उसको भोगनेमें कोई बेईमानी न हो, इसकेलिए हमें पक्का इन्तजाम कर लेना चाहिए। ऐसा कहनेपर बहुत मुमकिन है कि छोटा भाई अलग होनेका हठ छोड़ दे।

दुखराम—यह ठीक है भैया ! ऐसे ही होता है।

भैया—और यह भी सोचो सोहन भाई, १० करोड़ मुसलमानोंमें ४ करोड़ हिन्दू इलाकेमें रहते हैं। बिहार, युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, मद्रास, बम्बई इन इलाकोंके मुसलमान अपना घर-बार, अपनी बोली-बानी छोड़कर पाकिस्तानमें नहीं जायेगे। तुम्हें मालूम नहीं है कि पिछली लड़ाईके बाद खिलाफतका जोर हुआ था। कितनेही मौलवी लोगोंने खर्चा निकाल दिया था कि अंगरेज जैसे काफिरोंके राजमें मुसलमानोंका रहना अच्छा नहीं है। उन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर दूसरे मुसलमानी देशोंमें चला जाना चाहिए। हजारों मुसलमान घर द्वार बेच-

बाँचकर काबुल और कहाँ-कहाँ चले गये और उनकी जो दुर्गति हुई इसके बारेमें कुछ न पूछो। काबुलवाले उन्हें देखकर कहते—‘दालखोर हिन्दी ! दर-हिन्दोस्तान नान् न-दारी, गुर्सना ईंजा आमदी !’ (दाल खोर हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानमें रोटी नहीं मिलती, भूखा यहाँ आया है)। बिहारी और गुजराती गाँवके मोमिनो (जुलाहों)से इतनी बेवकूफीकी उम्मेद मत करो कि वह धर-बार छोड़कर पंजाब या बंगालके पाकिस्तानमें भाग जायेंगे।

सोहनलाल—तब तो रोज-रोजका भगड़ा बना ही रहा, पाकिस्तानको तो उन्होंने ले ही लिया और हिन्दुस्तानमें भी ४ करोड़ बैठे रहेंगे।

भैया—और पाकिस्तानमें भी तो हिन्दू जमे रहेंगे। उनको वहाँसे कौन निकालेगा। ४ करोड़ मुसलमानका रहना रोज रोजके भगड़ेके लिए नहीं बल्कि वही ४ करोड़ मुसलमान बाकीको समझायेंगे कि अपने इलाकेके कर्त्ता-धर्ता तो मान ही लिये गये अब हिन्दुस्तानसे अलग मत होओ। अलग हो जानेमें तुम भी तुर्की-अफगानिस्तान-ईरानकी तरह हो जाओगे जैसे वहाँके मुसलमानोंसे हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको कोई फायदा नहीं वैसे हम ४ करोड़ ‘मुसलमानोंको तुम्हारे पाकिस्तानसे कोई फायदा नहीं होगा।

सोहनलाल—लेकिन पाकिस्तान बन जाय और वहाँके मुसलमान ईरान, तुर्की, अफगानिस्तानसे मेल करके हिन्दुस्तानपर हल्ला बोल दे तो फिर क्या होगा ?

भैया—सोहन भाई ! दुनियामें जितने मुसलमान देस हैं, सब पाकिस्तानसे चौथाई ही तिहाई होंगे। पंजाबकी ओरके पाकिस्तानके मुसलमानोंकी आबादी ३ करोड़ होगी जब कि ईरानकी १ करोड़ ८० लाख है। अफगानिस्तान १ करोड़, तुर्कीकी १ करोड़ ७८ लाख, मिश्रकी १ करोड़ ६० लाख, ब्रताओ दूसरे मुस्लिम देस पाकिस्तानकी पूँछ बन जायेंगे या पाकिस्तान दूसरे देसोंका। यह सब थोथी दलीलें हैं और कमेरोंके ख्यालसे, तो दुख्खू भाई ! इसे मानना ही अच्छा है क्योंकि जब कर्त्ता-धर्ता होनेके बारेमें तय हो गया, तो जोंकों और कमेरोंकी लड़ाई और साफ हो जायगी। पाकिस्तानी इलाकेमें मुसलमान कमेरे, मुसलमान मजूर, मुसलमान जोंकोंसे सीधे लड़ेंगे उसी तरह जैसे हिन्दू इलाकेमें

हिन्दू । मरकस बाबाने तो ऐसा रस्ता बतलाया है कि उसमें देस जाति-धरमका अड़ंगा ही नहीं लगा सकता । हम रोटी कपड़ाके लिए लड़ते हैं कोई धरम हमारे रास्तेमें बाधा न डाले, जो बाधा डालेगा उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा । हिन्दूके नामपर इस्लामके नामपर जोंकोको छिपाया नहीं जा सकता ।

दुखराम—भैया ! बरसातके मेंढकोकी तरहसे जान पड़ता है जोंके न जाने कितने धरम निकालेंगी और कौन-कौन-सी खुराफात जोड़ेगी । लेकिन मरकस बाबाने जो कसौटी दे दी है उससे खरे-खोटेका पहचानना बहुत आसान है । मैं देख चुका हूँ, कितने राजा-महाराजा लोग 'कौंसिलमें वोटके लिए खड़े हुए थे और कितने पंडित और पुरोहित बड़ा-बड़ा टीका लगाकर लोगोको समझाते फिरते थे कि काग्रेंसवाले जो गये तो हिन्दू धरम नहीं बचेगा, वह हिन्दू-मुसल्मान सबको एक करना चाहते हैं ।

भैया—लेकिन दुक्खू भाई, कागरेसवालोंने जो किसीने मुसल्मानके साथ खाया होगा तो रोटी-दाल लेकिन इन राजा-महाराजाओंकी लीला अपरम्पर है । यह साहब बहादुरके साथ बैठ न जाने क्या खाते हैं ।

दुखराम—इसीको कहत हैं “छप्पन चूहा खाइके त्रिलारी भई भक्तिन” । मैं तो कहता हूँ कि गाधीजी हिचकिचाएँ मत, इन बन्दरोकी घुड़कीसे मत डरें । जिन्नासे मिलकर कांगरेस मुसलिम, लीगका समझौता कर लें । जिस इलाकेमें मुसल्मान भाई बेसी हैं, वहाँके कर्त्ता-धर्ता मुसल्मान रहें, जिस इलाकेमें हिन्दू ज्यादा हैं उसके कर्त्ता-धर्ता हिन्दू रहे लेकिन कर्त्ता-धर्ता बननेके लिए त्रिलायती जोंकासे अपने देसको छीनना होगा न । और हिन्दू-मुसल्मान एक होकर लड़ेंगे, बाहरवाले भी चर्चिल-अमरीपर जोर डालेंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा ।

सोहनलाल—लेकिन जिन्ना अँगरेजोंसे भी तो लड़ना नहीं चाहते हैं ।

दुखराम—मैं कहूँ भैने ! जो लड़ेंगे नहीं तो अँगरेजोंकी गुलामीमें पाकिस्तान बनेगा ?

सोहनलाल—दुक्खू भाई, तुम समझते नहीं जिन्नाका मतलब है कि हिन्दू पाकिस्तान मान लें तो हम अँगरेजोंकी खुसामद करके अपना हिस्सा अलग करवा लेंगे ।

दुखराम—उहूँक, नहीं हो सकता, जो अंगरेजकी खुसामदसे पाकिस्तान मिलनेवाला होता तो अभी अंगरेजोंका हाथ किसने रोका है। बर्माको अलग कर दिया, तो अंगरेज किसीसे पूछने गये थे।

भैया—दुखरू भाई, पहिले यही विलायती जोंके' मुसल्मानोंकी पीठ ठोका करती थीं कि माँगो अपना हक, लड़ो हिन्दुओंसे लेकिन अब जानते हो क्या राग अलाप रही है।

दुखराम—क्या अलाप रही है भैया ?

भैया—लिनलिथगो अभी हाल हीमें छः साल लाटगिरी करके विलायत गये हैं। जाते-जाते उन्होंने बड़ा लेच्चर दिया था कि हिन्दुस्तानका दो टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अमरी भी हुँआ-हुँआ कर रहा है कि अंगरेजी राजने बड़ी मेहनत करके हिन्दुस्तानको एक बनाया है, इसको टुकड़े-टुकड़े करना हम कभी पसन्द नहीं करेगे।

दुखराम—और उन्हींकी बातें ये हिन्दू भगत भी दुहरा रहे हैं न भैया ! बस पता लग गया।

भैया—चर्चिल, अमरी और विलायती जोंके' यही चाहती हैं कि हिन्दू-मुसल्मान दिल साफ करके, दिल खोलकर एक न होने पाएँ तभी हमारी पाँचो उँगलियाँ घीमें रहेगी। हिन्दू-मुसल्मानका मेल हुए बिना हमारी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। एका न करके भगवान और अंगरेजोंका मुँह देखना देसकी गुलामीको चुपचाप बरदास करना है।

दुखराम—हाँ भैया ! अंगरेज कब चाहेंगे कि हिन्दुस्तानी एक हों। वह तो चाहते हैं कि हिन्दुस्तान फूटका मेवा खाता रहे।

सोहनलाल—लेकिन भैया ! सिरी निवास सासतरी, राजा नरेन्द्रनाथ, एन० एन० सरकार, मालवीजी जैसे बड़े-बड़े दिग्गज लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानको मानना बहुत बुरा होगा।

भैया—और अंगरेजोंकी गुलामीको मानना बहुत अच्छा होगा। तुम बूढ़े-बूढ़े नामोंको देकर डराना चाहते हो। मैंने कहा नहीं कि बूढ़ोंका दिमाग मरने-से पहिले ही मुरदा हो जाता है। ऐसे बहुत कम बूढ़े देखनेमें आते हैं जिनका

दिमाग मरते दम तक गंगाकी धाराकी भाँति बहता रहे नहीं तो बेसी स्रुटिया जाते हैं । फिर तुम ऐसे नामोंको भी ले रहे हो जिनके केस अंगरेजोंकी गुलामीमें पक गये हैं । जिन्होंने अपने पेटके लिए अंगरेजोंके हाथको मजबूत किया । पाँच रुपयेकी नौकरी करनेवाले सरकारी चपरासीसे कुछ आप आसा भी रख सकते हैं सोहन बाबू क्योंकि उसको पाँच रुपयेकी नौकरी दूसरी जगह भी मिल सकती है, आधा पेटको तो आधी खानेको कहीं न कहीं मिलता है । लेकिन जिसने दो हजार पाँच हजारके लिए अंगरेजोंकी ताबेदारी कबूल की है, उसके भीतर उतनी हिम्मत कभी नहीं हो सकती । नौकरी छूट जानेपर कौन इतनी मोटी तनखाह देगा ? फिर घरमें जो इतना बड़ा-बड़ा लिफाफा है वह कैसे रहेगा । कहाँ नवाबी ठाट और नवाबी मिजाज और कहाँ अब दर-दरके भिखारी ! क्या तुम कभी ऐसे लोगोंसे उम्मेद रख सकते हो कि वह सरकारके खिलाफ जायेंगे ?

दुखराम—पिनसिनियाँ, भैया, और लीचड़ (डरपोक) होते हैं । पिनसिनहाका क्या कबुरमें पैर लटकाये सभी बूढ़े लीचड़ होते हैं । जवानोंको तो जल्दबाज कह देते हैं लेकिन जल्दबाज होनेपर भी वह अपनी इज्जत बातपर जान दे देते हैं ; लेकिन बूढ़ोंकी चले तो बेसरमीकी विदा जवानोंको भी सिखा दे ।

भैया—और सोहन भाई ! तुम मालवीजीका नाम ले रहे हो । मालवीजीने एक बड़ा विस्सविहाला खोलवा दिया हजारों विदारथी पढ़ते हैं, यह अच्छी बात की । लेकिन हिन्दू विस्सविहाला नालन्दा विस्सविहालाकी बराबरी नहीं कर सकता । दुनिया बदली, उसीके मुताबिक नालन्दा विस्सविहाला भी बदला, इसलिए लोगोंको उसका नाम तक भूल गया । हिन्दू विस्सविहालाके जनमदाता पुराने हिन्दू धरमको अचल बनानेकी फिकिरमें रहते हैं । जब चमार, डोम इत्तादि जातियाँ अपने ऊपर हजारों बरससे होते आते जुलूमको बरदास करनेसे इनकार करने लगेगी, तब भी मालवीजी, उन्हें राममन्तर देकर उनका उद्धार करना चाहेंगे । राममन्तरसे उद्धार करनेका जमाना गया ।

दुखराम—राममन्तर देनेसे उद्धार होता भैया ! तो गुरुबाबा गली-गली

भीख माँगते नहीं फिरते ।

भैया—और मालवीजीसे कब उमेद कर सकते हो सोहन भाई ! कि वह किसी बातको दो टूक कह सकते हैं, दो टूक कर सकते हैं वह सदासे अंगरेजोंसे भिच्छा माँगके स्वराज पानेकी उमेद रखते आये हैं । लेकिन गांधीजीके आँधीको जब देखा, तो समझ गये कि इसके खिलाफ जाना अच्छा नहीं । फिर कभी वह अंगरेज भगवानका मुँह देखते, कभी गांधी भगवानका । उनका हिन्दूधरम तो और भी छुआछूत और कूड़े-करकटसे भरा हुआ है । अपनी बिरादरीमें पहले आदमीने हिम्मत की, और उसने मालवी बाम्हनसे बाहर दूसरे बाम्हनके यहाँ ब्याह कर दिया । बर्हममंडल डोल गया, मालवीजीने उसे जातिसे निकलवाया, तरह-तरहसे बेइज्जत करवाया । जो आदमी इतना भी नहीं देख सकता कि हिन्दुस्तानकी यह जात-पाँत, छुआछूत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती । नरकमें ही यह सब कुछ चल सकता है, मालवीजीके सरगमें भी ऐसी जात-पाँत, छुआछूतका पता नहीं ।

दुखराम—सरग तो हमें अब भूठा ही मालूम होता है भैया ! सरग बनेगा तो इसी धरतीपर बनेगा ; लेकिन जो यह सच है कि हिन्दुओंके सरगमें बाम्हनचमार नहीं है, छुआछूत नहीं, तो इस दुनियामें क्यों यह सब जाल फैलाया ।

सोहनलाल—लेकिन अब तो मैं जानता हूँ कि मालवीजीकी पोतियोंका ब्याह सरजूपारी, सारस्वत आँगैरह बाम्हनोंमें हुआ है ।

भैया—पोते-पोतियोंकी करनेसे दादा-दादीको सुख नहीं बनना चाहिए । सोहन भाई ! दादा-दादी, बेटे-बहूका गला दबाने भरकी ही तागत रखते हैं, उसके बाद उनकी कोई नहीं चल सकती । बड़े-बड़े पंडित-पुजारियोंके पोतोंको देखा है, दादाके चौकामें लकड़ी धोके जाती थी । जाड़ा-पालामें भी नंगे बदन खाना खाते थे, दूसरेसे छू जानेपर नहाते थे-संसारकी जितनी बेवकूफी है सबको करते थे, लेकिन अपने बेटे तकको नहीं रोक सके । वह होटलमें अंडा खाता है, और सब जाति सब धरमवालोंके साथ ।

सोहनलाल—लेकिन हिन्दू विस्वविद्यालामें नई-नई विद्या सिखलाई जाती है, बिस्लाइतमें जो विद्या पढ़ाई जाती है वह सब यहाँ भी पढ़ाई जाती है ।

भैया—अब यह सवाल किसी दूसरे दिन करना सीहन भाई ! आज तो मुझे इतना ही बतलाना था कि यह जानते हुए भी कि अंगरेजी जोंके सारी तागत लगाके हिन्दुस्तानको गुलाम बनाये रखनेकी कोसिस करेंगी और हिन्दू-मुसलमानका मनमुटाव पाकर तो वह अपनेको अहोभाग्य समझतीं, तब भी जो कोई कहता है कि गांधी-जिन्ना मिलकर कांग्रेस-लीग समझौता न करायें, तो वह या तो अंगरेजोंका गुलाम टुकड़खोर है या पागल, या उसकी सोचनेकी तागत खतम हो गई ।

अध्याय १२

जमीदारी और रियासत

सोहनलाल—रजबली भैया ! मेरी बातोंका कुछ और न ख्याल कीजियेगा जोंकोंके पुजारियों, दलालों और खैरखाहोंके जालमें मैं भी बहुत फँसा रहा हूँ । मरकस बाबाकी सिच्छा जब थोड़ी मिली, तो कुछ आँख खुलने लगी, लेकिन इसी बखत “तार काटूँ तरकुल काटूँ” का हल्ला हो गया । मेरी आँखें फिर बन्द हो गईं । मैं जापानी फसिहोंको बहुत बुरा समझ रहा था लेकिन अंगरेजोंके लिए दिलमें जो धिन थी उसने मुझे देखने नहीं दिया कि रेल-तार काटना, टेसनोंको जलाना, जापानकी बहुत भारी मदद करना है । जापान जो हिन्दुस्तानमें आ जाता, तो मरकस बाबाका नाम भी किसीके घरसे मिल जाता तो उसे गोली और जेलखाना छोड़कर दूसरी सजा न मिलती । मजूरों-किसानोंके हकके लिए लड़नेकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता । मैंने किताबोंमें पढ़ा था कि जापानने कैसे कोरियामें अपना खूनी राज कायम किया । १९२३में जब भूकम्प हुआ, तो टोकियो राजधानीके बहुतसे घर गिर गये, लेकिन आदमी कुछ हज़ार ही मरे थे, लोग भाग-भागकर सहरके भीतर ही एक जगह जमा हो गये थे । लकड़ीके घरोंमें आग लग गई थी, जिसने लोगोंको चारों ओर घेर लिया । एक लाख आदमी जल मरे । जापानी जोंकोंने लोगोंके कानमें कह दिया कि

आग कोरियन लोगोंने लगाई है। यह त्रिलकुल भूठी बात थी। लेकिन उन्होंने लोगोंको पागल बना दिया और दस हजार कोरियन औरत-मरदोंको पकड़ पकड़कर उन्होंने मार डाला। बेचारे कोरियन टोकियोंमें मेहनत-मजूरी करते थे। और भगी नेहतर जैसे सबसे छोटे कामको करके पेट पालते थे। यह सब मुझे मालूम था। तो भी मैं अंधा हो गया था। डेढ़ बरस तक मैं जेलमें रहा, वहाँ जब इन बातोंको सोचा, तो अपने अंधेपनपर अफसोस हुआ। इसलिए मैंने जो कुछ सवाल तुमसे पूछा है, उनको इसी ख्यालसे पूछा है कि हमारे और भाई जो गलत-गलत सोचते हैं उसका साफ़ जवाब हो जाय।

भैया—नहीं सोहन भाई ! कोई बात नहीं तुम जितने चाहो उतने सवाल करो। लेकिन यह ख्याल करके कि सतोखी भाई और दुक्खू भाई भी हमारे सुनवैया हैं।

सोहनल ल—अच्छा भैया, जमींदारोंके बारेमें तुम क्या सोचते हो ? अभी २० अगस्त (१९४४)को कलकत्तामें हिन्दुस्तानके बड़े-बड़े जमींदारोंकी सभा हुई थी और हिन्दुस्तानके सबसे बड़े जमींदार महाराज दरभंगा सभापति थे। उन्होंने कहा कि जमींदारी प्रथा हमारे देसके आत्मामें इतनी परवेस कर गई है कि जो उसको खतम कर दिया गया तो देसके ढाँचेका बखिया-बखिया उड़ जायगा और सारे देसमें परलै मच जायगी। उन्होंने परस्ताव पास किया कि जमींदारोंके खिलाफ़ देसमें बहुत जोरसे परचार किया जा रहा है और उसमें बहुत भूठी-सच्ची बातें कही जाती हैं। सोवियत रूसके मरकस पन्थका बातें कह-कहके आगमें घी डाला जा रहा है। जमींदार सरकारपर जोर देकर कहते हैं कि सरकारको हमारी रच्छा करना चाहिए और एक नजरसे देखना चाहिए। उनको विस्वास है कि सरकार जमींदारी प्रथा जैसे लोकोपकारी रवाजको कायम रखनेमें मदद करेगी और जो सरकार यह नहीं चाहती है तो उसे अपनी बातको खोलके कह देना चाहिए और फिर जमींदारोंको पूरा दाम देकर उनसे जमींदारी खरीद लेनी चाहिए।

दुखराम—भैया ! यह सुनके देहमें आग लग गई लेकिन आँख भी खुल रही है कि जमींदार न रहेंगे तो हिन्दुस्तानके ढाँचेका बखिया-बखिया उड़ जायगा। हिन्दुस्तानका बखिया-बखिया तो नहीं उड़ जायगा लेकिन जो इन जोकोंने हिन्दु-

स्तानको नरक बना दिया है, उसकी बखिया जरूर उड़ने लगेगी ।

सन्तोखी—“आप डूबा तो जग डूबा”वाला किस्सा नहीं सुना है दुक्खु भाई !

भैया—जमीदार-तालुकदार दुनियाका क्या उपकार करते हैं ? क्या दूध देते हैं कि बुढ़ापेमें भी उनके लिए गऊसाला बनाई जाय । कोई ७० लाख किसानोंकी हड्डी पीस कर लेता है कोई ५० लाख, कोई २५ लाख, कोई लाख हजार । यह जमीदारके घरमें भगवान नहीं बरसाते हैं, दूसके लिए किसानोंको अपना और अपने बच्चोंका पेट काटकर अग्रहन और चैतमें ही अपना अनाज मट्टीके मोल बेच देना पड़ता है । जाड़े भर भूखे तड़पते बाल-बच्चे खलिहानमें बड़ी रासिको देखकर बहुत खुस होते हैं कि अब पेट भर खानेको मिलेगा लेकिन महीने बाद फिर उन्हें वही भूख सताने लगती है । जमीदारोंके पास जो करोड़ों रुपये किसानोंके घरोंसे सिमिट-सिमिट कर चले जाते हैं वह न जाने पाये तो इन जोंकोंका सत्यानास जरूर हो जायेगा । कुछ जोंकोंके कम हो जानेसे हिन्दुस्तानका बखिया-बखिया कैसे उड़ जायगा ?

सोहनलाल—और भैया इनके रहनेसे कितनी गंदगी फैलती है ?

भैया—यह तो सब जानते हैं कि राजा-महाराज, नवाब, बड़ा जमीदार जिस गाँवमें रहता है उस गाँवकी इज्जत नहीं बचने पाती । बेटी बहुओंको यह पकड़ मँगवाते हैं ।

दुखराम—कोई मुँह नहीं खोल सकता है भैया ! मेरा छोटा भाई एक ऐसे ही गाँवमें ब्याहा है, जिसमें लाखोंकी तहसीलवाले एक जमीदार रहते हैं । एक दिन मेरी बहूकी बहिनपर जमीदारके लड़केकी नजर पड़ी । बेचारी सावनका झूला देखने गई थी । इन्होंने बड़े-बड़े मन्दिर भी खड़े कर लिये हैं । मैं तो सोचता हूँ कि इन मन्दिरोंको धरमका अस्थान काहेको समझा जाता है । जहाँ कि गाँवकी बहू-बेटियोंकी इज्जत लूटनेका काम होता है, उसे धरम अस्थान नहीं कहना चाहिए । गाँवकी आधी औरतोंको जमीदार और उसके अमलोंने किसी न किसी समय बरबाद किया था । बूढ़ी होनेपर वही कुटनीका काम करती हैं ।

उनको इनाम बखसीस मिलती है। नकटी दूसरीको भी नकटी बनाना चाहती है। इस कुटनीने बहूकी बहिनको फँसाना चाहा। जमींदारके लड़केने लड़कीको देखकर कुटनीको भेजा था। लड़की बातमें नहीं आई। लेकिन जमींदारका लड़का कैसे चुप रहता। जब दूसरी तरहसे काम नहीं बना तो उसने १० लठ-धर गुंडे भेजे, और एक दिन वह लड़कीको जबरजस्ती उठा ले गये। घरवाले विरोध करने लगे, तो लाठीसे पीट दिया और लड़कीका एक भाई वहीं मर गया। खून हो गया। थानामें खबर गई। थानेदारको चार-पाँच हजार मिल गये, फिर कौन पूछता है ? न कहीं हाकिम न अदालत ! लड़की अब भी जमींदारके लड़केके घरमें है। अभी जवानी है इसलिए अभी कुछ दिन और चल जायगा नहीं तो रंडी या कुटनी बनना छोड़ उसके लिए कौन रस्ता है ?

भैया—हर जगह बड़े-बड़े जमींदारकी यही हालत है दुःखू भाई ! लेकिन दूसरेकी इज्जत बिगाड़ते हैं तो इनकी भी इज्जतका कोई ठिकाना नहीं। इनकी औरते अपनी आँखोंसे देखा करती हैं—किस तरह तालुकदार साहब रंडियोंपर पचास-पचास हजार खर्च करते हैं, ले आकर घरमें रखते हैं। दो-दो चार-चार औरतोंसे ब्याह करनेपर भी इनकी तिरसना नहीं जाता। जी तिरमित नहीं होता। खुद अपनी बियोंसे कुटनीका काम लेते हैं। बेचारी डरती हैं कि जो वह काम नहीं किया तो उनकी जिनगी नरक बन जायगी। बिहारमें लाखोंकी आमदनीवाले एक जमींदार हैं। बाप आधी उमर हीमें मर गये, माँ ऐसे घरमें बरहमचारिन कैसे रहती उसने अपने एक हट्टे-कट्टे नौकरको अपना खसम बना लिया। उसके साथ महलमें ही नहीं रहती थी बल्कि सामको बग्गीपर चढ़कर हवा खाने भी निकलती थी। लड़के चाहते थे कि कमसे कम बग्गीपर बाहर तो न निकला करे। सारा गाँव थू-थू करता है। माँने साफ कह दिया कि तुम जैसे रह रहे हो वैसे रहो, जो मेरे काममें बाधा डालोगे तो मैं इस आदमीको लेकर खुल्लम-खुल्ला बाहर चली जाऊँगी, फिर तुम्हारी नाक जो थोड़ी-बहुत बची है वह भी कट जायगी।

दुखराम—ऐसा होनेपर तो भैया तालुकदार उसको मरवाकर लासको भी लापता कर देते।

भैया—लड़कोंमें इतनी हिम्मत नहीं थी दुखू भाई यही कहो और एक बुरे २५ लाखकी तहसीलवाले जमींदारके घरकी बात सुनो। पति जवानी हीमें मर गया।

दुखराम—बेमेहनतके लाखों रुपया हाथमें आते हैं और यह लोग बेदरदीसे खरच करते हैं। दूधका दाँत भी नहीं टूटने पाता कि रंडी और शराब दो ही चीज उनके सामने रहती हैं तो फिर जवानीमें न मरें तो क्या हो ?

भैया—रानी साहब जवान थीं, राजा साहब पहिलेसे भी नपुंसक थे, रानी दिवानसे फँसी हुई थी। लेकिन जब राजाओंका एकसे काम नहीं चलता तो रानी क्यों एक आदमीपर सती होगी। महलमें जो भी हट्टा-कट्टा मरद आता, रानी उसपर जरूर दया दिखलाती। और उमर ढलनेके साथ तो बुढ़िया इतनी पागल हो गई कि वह जवानों और औरतोंको अपने सामने बेभिचार कराती और आँखोंसे उसका आनन्द लेती। सारा गाँव और आस-पासके हजारों लोग इस बातको जानते थे। इस तरह कि एक दो नहीं लाखों बातें मिलेंगी। गन्दगी फैलानेमें तो इन निठल्ली जोंकोंने हद कर दिया।

दुखराम—और कलकत्तासे आकासबानी की जा रही है कि जो जमींदार न रहें तो हिन्दुस्तानका बखिया-बखिया उड़ जाय ?

भैया—लाखों रुपया तो मालगुजारी लेते ही हैं, तिसपर भी पचासों तरहकी नाजायज वगुली करने हैं। जहाँ यह अपने भी कुञ्ज खेती करवाते हैं वहाँ किसानोंको अपना हल-बैल ले जाकर वेगारमें खेत जोत देना पड़ता है। दूध, बकरा, तरकारी मुफ्त लेते हैं। नाराज हुए तो खेतसे बेदखल कर देते हैं। मालगुजारी देनेपर भी बहुतसे ऐसे जमींदार हैं कि रसीद नहीं देते। मोटर खरीदना होता है तो किसानोंपर चदा बाँध देते हैं, हाथी-घोड़ा खरीदना होता है तो हथियाना-मुड़हाना लगा देते हैं। एक जगहके जमींदारके लड़केको फोनोग्राफका बाजा खरीदना था, तो उसके लिए भी किसानोंपर कर लग गया। जमींदारके कारिन्दे कहते थे, रुपया-आठ आनेमें क्या होता है दे दो नहीं तो जमींदार साहब बिगड़ जाएँगे।

दुखराम—और जमींदारके नौकर-चाकर कारिन्दे कितना लूटते हैं भैया ?

भैया—लूटेंगे क्यों नहीं दुक्खू भाई । आठ आनामें आदमी एक साँभ खा भी नहीं सकता और इनके आठ आने महीनेपर नौकर रखे जाते हैं क्या यह नहीं जानते और सरकार नहीं जानती कि ये आठ आनेवाले नौकर परजाको लूटेंगे ? (२४) और ३०) सालपर बिहारके जमींदार पटवारी रखते हैं । वह पढ़े-लिखे होते हैं उनको अपने लड़के-बच्चोंको पढ़ाना होता है । किसानोसे अच्छा खाना-कपड़ा उन्हें चाहिए । वताया पटवारी (२४) या ३०)में कैसे अपना गुजारा कर सकता है ?

दुखराम—भैया ! इस सारी लूटको वह जानते हैं लेकिन जागते हुए भी जो आँख मूँद लेगा उसे कौन जगायेगा ।

भैया—इन्हीं जमींदारोंके लड़के सरकारी अफसर कलक्टर, मजिस्टर, डिप्टी, मंसिफ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, इंसपेक्टर सभी तो जमींदारोंके बेटे हैं । मूझी भर अंगरेजोंके बाद तो यही जमींदारके लड़के सारा काम करते हैं । परजाका खून चुसनेसे पेट नहीं भरता तो यह सरकारी अफसर बन जाते हैं और हमारी गाड़ी कमाईका करोड़ों रुपया तनखाह और भत्तामें उड़ाते हैं । जमींदार और किसान मजूर और कारखानेदारका यह भगड़ा होता है, और भगड़ा होता है जोंकोंके जुलूमको रोकनेके लिए तब यही जमींदारोंके लड़के न्यायसिंहासनपर बैठेंगे । जिन्होंने बचपनसे कमेरांर जुलूम करके ही अपना पेट पाला, भला-बह न्याय करेंगे या न्यायका गला घोटेंगे । जो अपने कारिन्दोंको घूस-रिसवत लेनेपर नौकर रखते हैं वह अदालतके मुहरिंरोंको घूस-रिसवतसे रोकेगे ? यह सब धोखा है । भीतर भाँकते ही दुर्गन्धसे नाक फटते लगती है और तब कोई कहे कि जमींदारोंकी जमींदारी हट जानेसे हिन्दुस्तानका बखिया-बखिया टूट जायगा तब हम यही कहेंगे कि उसे हिन्दुस्तानके नरककी बखियाको बनाये रखना चाहिए ।

दुखराम—भैया ऐसा बखिया उड़ जाय तब ही अच्छा है । और मुझे तो अब महाबोरजी और सैयद बाबापर विसवास नहीं रह गया । नहीं तो जिस दिन यह बखिया टूटता उस दिन लड्डू और सिरनी बाँट देता ।

सन्तोखी—अरे मरदे महाबीर बाबा और सैयद बाबा नहीं रहे लो लड्डू,

सिरनी किसीको कड़वी-थोड़े ही लगेगी । मैं भी दो सेर दूँगा और गाँव भरके लड़कोंको बाँटना । जुम्मन दादाको दो लड्डू ज्यादा देना वह बहुत पुराने कोढ़ोंके लिए भंखा करते हैं ।

भैया—और सोहन भाई, जो जमींदार जोंकोंने कलकत्तामें जमा होकर सराप दिया है कि रूसकी बात लेकर मरकस बाबाके चेले जमींदारोंके खिलाफ बोलते और भूठी-भूठी बातें फैलाते हैं, इस सरापसे कुछ होगा-ओगा नहीं ?

दुखराम—कुत्ते भूँकते रहते हैं, हाथी चला जाता है भैया !

भैया—जोंकोंका यही कोढ़ है जिसमेंसे दुर्गन्ध निकल रही है । किसानों और मजदूरोंको भूठ बोलनेकी क्या जरूरत । जमींदारोंका अत्याचार क्या किसीसे छिपा है ? निठल्ले क्या भलाई करते हैं जो उसका गीत गावें ! पुरोहितों, मौलवियोंने बहुत दिन गीत गाया । आँखमें बहुत धूल भोंकी लेकिन अब वह बात नहीं होगी । कौन उपकारमें ६६ किसान एक जमींदारके लिए पिउ-मलीदा जुटाने, अपनी छातीपर कोदौ दलनेके लिए उसे बैठाये रखेंगे ? बाकी रही सरकारसे न्याय करनेकी बात । सो हम जानते हैं, कई हजार बरससे सरकार खूब न्याय कर रही है । आज भी न्याय करनेके लिए बिलायतकी जोंकोंको कुछ छोड़कर बेसी जमींदार हीके लड़के हैं । इन लोगोंके न्यायपर जमींदारोंके बिसवास न करनेका कोई कारन नहीं है । लेकिन हम उनसे न्यायकी उम्मेद नहीं रखते । हाँ, जमींदार-तालुकदार लोग सायद ख्याल करते होंगे कि पन्द्रह-पन्द्रह रुपल्लीवाले नौकर ही तो सभी जोंकोंके हाथ-पैर हैं कहीं उनकी भी आँख न खुले और सारा गुड़ गोबर हो जाय । देखा न सोहन भाई ! बिलायती जोंके भी कहती रही हैं कि रूसकी ओर मत देखो, जमींदार, तालुकदार, राजा लोग भी कह रहे हैं कि रूसकी तरफ मत देखो ।

सोहनलाल—और कितने ही किसान-मजूरके नेता कहलानेवाले सोसलिस्ट भी कहते हैं कि रूसकी ओर मत देखो ।

दुखराम—सोसलिस्ट क्या है भैया !

भैया—सोसलिस्ट तो कहते हैं दुखू भाई ! जो जोंकोंका राज हटाकर मजूरों-क़ारन राज लाते हैं । लेकिन यह हिन्दुस्तानमें जो सोसलिस्ट पैदा हुये हैं, उनमें-

से कितनेही जापानको हिन्दुस्तानमें बुलाकर कमेरा राज स्थापित करना चाहते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि मरकसने गलत-सलत बातें कही है, इसलिए उनकी सिच्छाम सुधार करना चाहिए।

दुखराम—मरकस बाबाकी सिच्छामें कौन सुधार करेगा वह मरकस बाबासे ज्यादा बुद्धिमान होगा। उनसे भी ज्यादा तपस्या करनेवाला होगा।

भैया—तपस्याकी बात छोड़ो दुखू भाई! हजार-पन्द्रह सौ रुपयापर जो फिसल जायगा वह तपस्या क्या करेगा? और बुद्धिमानीकी बात जो पूछते हो, तो काठका उल्लू चार अच्छर अंगरेजी पढ़कर बुद्धिमान नहीं हो जाता।

दुखराम—हाँ भैया! जिनको चलनेका भी सहूर नहीं वह गिटपिट-गिटपिट बोलकर समझते हैं कि हमारे ऐसा कोई नहीं। मैं तो सुनता हूँ तब मनमें आता है, कह दूँ—न तुम्हारे बाप बिलायती, न माँ बिलायती किस घुट्टीके साथ तुमने अंगरेजी सीखी, फिर बाबू! काहे नहीं अपनी बोली बोलते।

भैया—बोल देना चाहिए दुखू भाई! नाहीं, तौ इनका दिमाग और ङिगड़ा रहता है। और यह गिटपिट भी उनकी दुखू भाई और सन्तोसी भाईके सामने चलती है, किसी साहबके सामने बोलना हो, तो सिटपिट जाएँगे।

दुखराम—डर जाते हैं क्या भैया!

भैया—डर ही नहीं जाते दुखू भाई! यह जो पन्द्रह-पन्द्रह बरस तक अंगरेजी पढ़ते हैं, उनमेंसे एकाधही कोई निकलेगा जो मुझ अंगरेजी लिख-बोल सकता है।

दुखराम—तो भैया! क्या यह पन्द्रह-पन्द्रह बरस घास छीलते हैं?

भैया—बोली जो माँके दूधके साथ सीखी जाती है, वही मुझ होती है। लेकिन छोड़ो वह बात अब तालुकदार-जमींदारकी बात खतम हो जाने दो। इनको डर काहेका। अंगरेजी जोंकोंका राज जब यहाँ कायम हुआ तो १५० बरस पहिले लार्ड कार्नवालिस हिन्दुस्तानमें बड़ा लाट बनकर आया, उस वक्त जमींदारों-तालुकदारोंका पता नहीं था। बादसाहके नीचे पिन्सिन पानेवालों नौकरोंके लिए कुछ गाँवोंकी जागीर जरूर थी। लेकिन वह सरकारकी माल-

गुजारी वसूल करनेके लिए ठेकेदारी नहीं थी। कार्नवालिसने अंगरेजोंके खैरखार्होंको ऐसेही दस-पचास सौ गाँव लिखकर दे दिये, बस जमींदारी बन गई।

दुखराम—काहे जमींदार बनाये मैया !

मैया—कार्नवालिसने अपने मालिकोंको बिलायत लिख दिया था कि जो हमें हिन्दुस्तानमें राजकी जड़ मजबूत करनी है तो कुछ ऐसे लोगोंको तैयार करना पड़ेगा जिनकी जड़ अपनी जड़से बँधी हो। करोड़ों किसानोंका कोई ठिकाना नहीं कि किस बखत हमारे खिलाफ हो जायँ, लेकिन आज जिन लोगोंको हमने जमींदारीका पट्टा दिया है वह हमारे खिलाफ कभी न जायँगे। कौन कह सकता है कि कार्नवालिसकी बात झूठ हुई।

दुखराम—मैया ये जमींदारी बेचनेकी बात क्यों कर रहे हैं ? क्या यह समझने लगे हैं कि जमींदारी नहीं रहेगी ?

मैया—यह बात तो दुखू भाई दिन-दुपहरकी तरह स्पष्ट भूलकती है। एक कथा सुनाता हूँ; रूस मुलुकमें कोई जमींदार बाबू चार घोड़ोंकी बग्गी चोतकर जा रहे थे। जंगलमें भेड़ियोंने छँका—देखा, अब तो मारे जाते हैं तब एक घोड़ा छोड़ दिया भेड़ियोंने खदेड़कर घोड़ेको पछाड़ा, लेकिन एक घोड़ेके मांस से उनका पेट नहीं भरा, फिर बग्गीके पीछे दौड़े दूसरा घोड़ा छोड़ा गया। फिर दौड़े तीसरा छोड़ा गया। इसी तरह बिलायती जोंके अब ऐसे सफटमें पड़ी हैं कि उनको बग्गीका एक घोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा और यह घोड़ा कार्नवालिसका जोता जमींदार है। बिलायती जोंके समझती हैं कि हिन्दुस्तानी सेठोंका बोझा हमें अच्छा मिल गया है, अब इस बूढ़े घोड़ेकी जरूरत नहीं। क्या जाने इस बूढ़े घोड़ेको पाकर कमेरे चुप हो जायँ।

दुखराम—तो जमींदारीका दाम सरकारसे माँग रहे हैं। सरकारके बापके घरमें क्या सोनेका पेड़ है ?

मैया—सरकारसे माँगनेका मतलब है कि इनको मालगुजारी का बीस-पचीस गुना दाम चुकानेके लिए हम लोग और पचीस साल तक पीसे जायँ और यह इप्या लेकर अपनी जिन्दगी भर ऐस-जैस कर सकते हैं न ?

दुखराम—और उनके बेटे-पोते ?

भैया—लखनऊमें जाकर देखो, नवाबोंके पोते एकके हाँक रहे हैं। जोंकोंको अपने ही देहका सबसे बेसी ख्याल होता है, जो वह अपनी सात पुहुतका ख्याल करतीं तो दुक्खु भाई ! यह दुनिया इतनी नरक न बनती ? हो सकता है कुछ जमींदार ऐसा भी सोचते हों कि रुपया इकट्ठा मिल जायेगा, तो हम भी चीनीके मिल, कपड़ेकी मिल, नहीं तो तेलहीके मिल खड़ी कर लेंगे। वह यह भी समझते हैं कि अभी किसान दबे-दबाये हैं, जो वह उठ खड़े हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत कम।

दुखराम—नहीं भैया ! इनको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। कार्नवालिसने जब कागज लिखकर जमींदारीका पट्टा दिया था, तो हमारे बाप दादोंसे पूछा था ? दाम लेना है तो जाय कार्नवालिसके पास। रुपया तो हमें माँगना चाहिए उनसे, क्योंकि डेढ़ सौ बरससे इन्होंने हमारी कमाई खाई। इसीको कहते हैं भैया “पैड़ा में हग्वै और गुरेरे”।

सोहनलाल—हिन्दुस्तानमें ६ सौके करीब राजा-नवाब लोगोंकी रियासत है।

दुखराम—यह भी जमींदार हैं क्या भैने ?

सोहनलाल—जमींदार नहीं दुक्खु मामा ! इनकी अपनी पुलिस-कचहरी, जेहलखाना है।

दुखराम—हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, न भैने ?

सोहनलाल—सब हैदराबाद, जयपुर-जोधपुर नहीं है, सिमलामें तो एक एक गाँवके राजा हैं।

दुखराम—और उनकी भी पुलिस कचहरी है ?

सोहनलाल—उनकी भी पुलिस-कचहरी है। छोटे-छोटे राजाओंको फाँसी देनेका अधिकार नहीं है। उन्हें भी सरकारी कागजमें हिज हाइनेस लिखा जाता है।

दुखराम—हिज हाइनेसका क्या मतलब है भैने ?

सोहनलाल—हिज हाइनेसका मतलब है “उनकी बड़ाई”। बिलायतके

राजाके लड़कोंको हिज-हाइनेस कहा जाता था । वही पदवी इनको भी मिली है । यह राजा-नवाब लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी डेढ़ सौ बरस पहिले लिखा-पढ़ी की गई है और अगरेजोंने कबूल किया है कि हम तुम्हारी रच्छा करेंगे, इसलिए हिन्दुस्तानको कोई स्वराज देना हो तो उस सुलहनामेकी कोई सर्त तोड़नी नहीं चाहिए ।

दुखराम—और अगरेज क्या जवाब देते हैं भैया ?

सोहनलाल — अंगरेज जवाब देते हैं कि हम सुलहनामेकी एक-एक बातको मानेंगे और ६०० मुकुटधारियोंको हिन्दुस्तानकी छातीपर परलय तक बैठाये रखेंगे ।

सन्तोखी—युधिष्ठिरके खानदानका मुकुट न जाने कहाँ गया, विक्रमाजीतके खानदानवाले न जाने कहाँ भीख मॉग रहे हैं, अक्रवर्करके खानदानका कोई ठिकाना नहीं है । और यह चले हैं ६०० मुकुटधारियोंसे हिन्दुस्तानकी छातीपर कोदो दलाने ।

भैया—बिलायतके जोकोंका अपना तो ठिकाना ही नहीं है । इस लड़ाईके बाद जो बिलायतके कमेरोंको भूखे नहीं मरना है फिर तीसरे महाभारतमें नहीं पड़ना है तो बिलायती जोकोंको खतम करना ही पड़ेगा । फिर यह बिलायती जोके चली हैं, हिन्दुस्तानी ६०० मुकुटधारियोंकी रच्छा करने । और यह ६०० मुकुटधारी कैसे हैं दुख्ख भाई, यह कैसे राज करते हैं, इनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा खून खौलने लगेगा । तालुकदारों और जमींदारोंका जुलुम भी इनके सामने भूटा है, बिलायतके राजाको बंधी रकम पानेके लिये पार्लामेण्ट पंचायतके सामने हाथ पसारना पड़ता है, और इन राजा-नवाबोंको पूरी छूट है । परजाको पीसकर जितना रुपया खजानेमें आता है, उसे खर्च करनेमें इनका कोई हाथ नहीं रोक सकता । एक-एक रातके सोनेके लिए चाईस-चाईस लाखका यह चेक काट सकते हैं ।

दुखराम—नहीं समझा भैया ! क्या कहा ।

भैया—एक राजा फ्रांस गये थे । किसी सुन्दरी गोरीसे उनकी आँख लग गई । गोरी तैयार नहीं होती थी । अन्तमें बाइस लाखपर सौदा पटा । राजाने

अपने अंगरेज नौकरको बाइस लाख रुपया देनेके लिए बंकको चिट्ठी लिख दी । आजकल रुपया जहाँ जमा होता है उसीको बंक कहते हैं । पहिले लोग महाजनौकी कोठामें रुपया जमा करते थे । राजाके नौकरने सोचा कि बाइस लाख रुपया अपने पास रख लेना अच्छा है । राजा गोरीके साथ रात भर सोये । रुपया न मिलनेपर झगड़ा हुआ । मामला अदालतमें गया । राजाके अंगरेज नौकरको धोखा देनेके कसूरमें साल-दो-सालकी सजा हुई । नौकर बाइस लाखका धनी हो गया, राजा भी घाटेमें नहीं रहे, गोरीकी सेज मुफतमें लूटी ।

दुखराम—और राजाको भैया ! अंगरेजी सरकारने कुछ नहीं किया ।

भैया—किया क्यों नहीं, अंगरेज सरकार इज्जत बढ़ाती है तो उसको दो-चार अच्छरकी पदवी दे देते हैं । राजा साहबको बड़ीसे बड़ी पदवी मिली हुई है । और दूसरे राजाकी बात सुनो । लाख सुन्दरियोंके साथ सोनेकी साध अग्रर किसीकी बुती होगी तो इन्हीं राजा साहबकी । इनको मरे बहुत दिन नहीं हुआ । सरकारके यह बड़े खैरखाह थे और छः सौ राजाओंके तो मुकुट-मणि समझे जाते थे । अंगरेजी सरकारने इनको भी जितने बड़े-बड़े अच्छरोंकी पदवी हो सकती है, सब दे डाली थी । करोड़ों रुपया परजाको भूखे मारकर वसूल किया जाता था तब भी इनका खरच नहीं चलता था । अपने किसी दरबारीकी सुन्दरी लड़की या औरतको इसने नहीं छोड़ा, एकाध आदमियोंने विरोध किया, तो उन्हें मौतके घाट उतार दिया गया । बिलायतके जोंकों तक खबर गई लेकिन उन्होंने कानमें तेल डाल लिया । इस राजाके गोहन्दे रियासतके बाहर सहरोँ और पहाड़ोंमें सुन्दर लड़कियोंको दूढ़ते फिरते थे । कुल्लू और सिमलाके सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें तो घबराहट हो जाती थी जब उन्हें मालूम हो जाता था कि फलाने राजाके सिकारी पहाड़में पहुँच गये हैं । परजाको तो मुँह खोलनेकी भी इजाजत नहीं थी । बुढ़ापे तक यह राजा अपने पापसे धरतीके भारको बढ़ाता रहा । बिलायती जोंके ऐसे मुकुटधारियोंको हिन्दुस्तानी परजाके गलेमें परलय तक बाँधनेके लिए तैयार हैं, लेकिन क्या परजा इसके लिए तैयार है ।

दुखराम—नहीं भैया ! यह तो रावन और कंससे भी बढ़ गया, मालम होता है ।

भैया—एक और राजाकी सुनो । बहुत बिसय करनेसे वह नपुंसक हो गये थे फिर उनकी ऐसी कुलत पड़ गई थी कि अपने पास जवानोंको रखते थे फिर भी ब्याह करते रहते थे ।

सन्तोखी—कौन अपनी लड़कीको देता था दुखू भैया !

भैया—राजाके घरमें राजा हीकी लड़की जाती है, कई ब्याह करनेपर भी उनके लड़का नहीं हुआ था । समझते थे कि गद्दी सूनी हो जायगी और दूसरे घरका लड़का लेना पड़ेगा ।

दुखराम—हिजड़ेको लड़का कहाँसे होगा भैया !

भैया—रानियाँ तो हिजड़ी नहीं थीं । उसने महलमें बहुत-सी कोठरियाँ बनवाई थीं जिनमें रानियाँको रख देता था । रातके बखत अपने दरबारी जवानोंको एक एक कोठरीमें जानेका हुकूम देता । अनजाने वह कोठरीमें चले जाते फिर बाहरसे बटन दबा देता और हर कोठरीमें बिजली बलने लगती फिर वह निलज्ज एक-एक कोठरीमें जाकर देखता । एक दिन बत्ती जली तो जवानने देखा कि वह अपनी ही बहिनके साथ लेटा है । बहिनने रनिवासके रग टगको देखकर सब कुछ मान लिया था लेकिन वह इतना दूर तक जानेके लिए तैयार न थी । दूसरे दिन उसने जहर खाके परान दे दिया ।

दुखराम—एकदम जनावर है भैया !

भैया—और खून कितने किये, इसको तो पूछो ही नहीं उनके लिए सात न्या सात सौ खून माफ है ।

साहनलाल - लेकिन राजकी देख-भालके लिए अंगरेजोंका एक रेजीडेन्ट भी रहता है न भैया ।

भैया — रेजीडेन्ट यह देखनेके लिए रहता है कि इनके राजमें लोग बन्दूक रखते हैं, छोटी-मोटी पलटन रहती है, अपनी पुलिस-कचहरी रहती है इसलिए अंगरेजी राजके खिलाफ भीतर ही भीतर कोई बात तो नहीं हो रही है । वह सिर्फ इतना ही देखता है कि बिलायती जाँकोंको हिन्दुस्तानसे खून मिलनेमें कोई भाँजी तो नहीं मारता । किसका-किसका जुलुम गिनाये । छः सौ मुकुटधारी हैं जिनको परजाके धन, परान, इज्जत सबके साथ खेलवार करनेकी पूरी खुशी

हे । और फिर यह डेढ़-सौ बरससे अंगरेजोंके छतर-छायामें अपनी कुचाल-दुराचारको कर रहे हैं । इतने दिनोंमें पाँच हजार मुकुटधारी हुए होंगे इनमें दस-बीस अच्छी चाल-चलनके मिलेंगे, बाकी तो रावन, कंस, वाजिद अलीसाह-के अवतार थे ।

दुखराम—वाजिदअलीसाह कौन थे मैया !

मैया—लखनऊके नवाब । आजसे सौ बरस पहले अवधपुर राज करते थे । उन्होंने अपने महलको इन्दर-सभा बना दी थी । संगमरमर पत्थरकी सीढ़ियोंपर गोरियाँ नंगी खड़ी होती थी और वह उनका अस्तन पकड़े सीढ़ीपर चढ़ते थे । पाखाना अतरसे धोया जाता था और क्या-क्या होता था उसको कहनेकी जरूरत नहीं ।

दुखराम—और इस सारे ऐस-जैसका खरच परजा ही खून-पसीना एक करके चलाती होगी न ?

मैया—और क्या, दूसरी कौन जगह थी जहाँसे पैसा आता । अंगरेजी इलाकेमें तो अखबारमें भी जुलुमके खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, सभामें भी बोल सकते हैं । यहाँपर भी लाट बड़े लाटने नहीं पूरा जोर लगाया कि लोग ऐसा न लिखें-कहें, और इसके लिए पचासों बरस तक सभकार लोगोंको जेलमें डालती रही, बड़ा-बड़ा जुरमाना करती रही, अखबार-किताब जपत कर लेती थी, लेकिन जब लोगोंने नहीं माना और इस बातका हल्ला बिह्ल्हाइत उल्लाइत-के लोगों तक पहुँचा तो थोड़ा लजाकर कुछ भयकर अपना हाथ ढीला कर दिया । अब भी सच्ची बात लिखनेमें सरकारके कोपका डर रहता है लेकिन लिखनेवाले इसकी परवाह नहीं करते । जिसको दुनियाके नरकको दहाना है वह जोखिमकी परवाह क्यों करेगा । लेकिन इन छः सौ मुकुटधारियोंके राजमें न तो कोई खुलकर अखबारमें लिख सकता है, न किताबमें छाप सकता है । भागी रंडीको पकड़ लानेके लिए जिनके गुन्डे बम्बई तक पहुँचकर खून करते हैं रियासतके भीतर रहनेपर अपनी बैरीकी क्या गति करेंगे इसे तुम खुद समझ सकते हो ।

सोहनलाल—चर्चिल और उसके साथी दूसरी जोंके गला फाड़-फाड़कर

कह रही हैं कि यह बड़ी लड़ाई है, जनताकी भलाई, जनताके राजकी रच्छाके लिए हम लड़ रहे हैं ।

भैया—जरमन और जापानी फसिहोंको मारकर खतम कर देना यह बात तो जरूर जनताकी भलाई और जनताके राजके लिए बहुत जरूरी है लेकिन विलायती जोंके जनताका राज चाहती हैं यह त्रिलकुल भूठी बात है ।

दुखराम—जनतासे जोंकोंका क्या वास्ता भैया !

भैया—और देखते नहीं, दुखू भाई ! चर्चिल-अमरीकी कहते सरम भी नहीं आती । एक ओर कहते हैं कि हम दुनियामें जनताके राजके लिए लड़ रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हम हिन्दुस्तानके छवो सौ मुकुटधारियोंका परलय तक रच्छा करेंगे । क्योंकि डेढ़ सौ बरस पहिले हमारे पुरखों और मुकुटधारियोंके पुरखोंने एक सुलहनामा लिखा था ।

दुखराम—जोंकों और राजाओंके पुरखोंने भले ही सुलहनामा लिखा हो पर परजाके पुरखोंने भी कोई सुलहनामा लिखा था ?

भैया—हिन्दुस्तानके दो पचैयाँ (५) हिस्सेमें दस करोड़के करीब आदमी बसते हैं, जिनके ऊपर यह छः सौ मुकुटधारी राज कर रहे हैं, चर्चिल-अमरी इन छः सौ मुकुटधारियोंके राजको अचल रखना चाहते हैं लेकिन दस करोड़ जनता कहाँ जायगी । काठ पत्थरक खिलौने हैं क्या ? हम जानते हैं कि जोंकोंका धरम ही है भूठ बोलना । वह परजा-राज-परजा-राज इसलिए चिल्लाती हैं कि विलायतकी परजाके बलपर फसिहोंको खतम करना है और कहाँके कमेरे हैं जो फसिहोंको फूटी आँखसे भी देखना चाहेंगे । चर्चिल-अमरी यह कहकर दुनियाकी आँखमें धूल भोंकना चाहते हैं लेकिन दस करोड़ परजाके खिलाफ छः सौ मुकुटधारियोंका राज कहाँ तक जनताका राज कहा जा सकता है । लेकिन जोंकोंके सामने तर्क-वितर्क करनेसे कोई फायदा नहीं । न वह तर्कसे मानेंगे न हाथ-पैर जोड़कर भिच्छा माँगनेसे दया दिखायेंगे ।

दुखराम—हाँ भैया, “जैसा देवता वैसा अच्छत” ।

भैया—हम कब चर्चिल-अमरीसे उम्मेद करते हैं कि वह खानदानकी तौद-कपटकर हमारा पेट भरेंगे । लेकिन एक बात साफ है, जैसे ५० बरससे लड़ते-

भगड़ते हिन्दुस्तानके तीन-पचाँस (३) धरतीके ३० करोड़ आदमी, अब अपनेको आदमी समझने लगे हैं। वह खुलके सोचते हैं, खुलके बोलते हैं, खुलके लिखते हैं और खुलके कर भी रहे हैं, उसी तरह मुकुटधारियोंके पैरके नीचे पिसी जाती १० करोड़ जनता भी करेगी। अभी ही कितनी रियासतोंमें जनताने गोलियों और जेलोकी परवाह नहीं की है और अपनी कितनी ही बातोंको माननेके लिए मुकुटधारियों और उनके मालिकोंको मजबूर किया। चर्चिल-अमरी मुकुटधारियोंके प्रेमके लिए डेढ़ सौ बरस पुराने रद्दीके सुलह-नामेकी दुहाई नहीं दे रहे हैं। वह समझते हैं कि अंगरेजी हिन्दुस्तानमें जलियाँवाला बाग होता है तो उसके लिए हमारे ऊपर बौद्धार होने लगती है; रियासतोंमें कोई लाख औरतोंकी इज्जत बरबाद करता रहे, सात सौ खून करता रहे, परजापर जुलुम करता है, लेकिन उसके लिए सवाल करनेपर हम कह सकते हैं कि ६०० मुकुटधारियोंके राजके भीतर हम कोई दखल नहीं दे सकते। सब जानते हैं कि अपने मतलबके लिए खूब दखल दिया जाता है। पिनिंसिनिहा बूढ़े अंगरेजोंको रियासतोंका वजीर बनाया जाता है, बड़े-बड़े अफसर बनाया जाता है। राजा साहबने कुछ भी उनके मनका छोड़ अपने मनका काम करना चाहा कि कान पकड़कर उनको रियासतसे बाहर निकाल दिया जायगा।

सोहनलाल—पहिले तो रियासतोंके वजीर अंगरेज नहीं होते थे लेकिन अब तो दर्जनों अंगरेज रियासती वजीर हैं, फिर यह कहना क्या झूठा नहीं है कि हम रियासतके भीतर दखल नहीं देते ?

भैया—वह कह देंगे कि उन्हें तो राजा साहबने अपने मनसे वजीर रखा। और यह अंगरेज वजीर काहे रखे जाने लगे हैं ? इसीलिए कि अब परजा सो नहीं गई है, वह जागने लगी है। त्रिलायतकी परजाने तीन पाँच करनेपर राजा चार्ल्सकी गरदन उतार ली थी, हिन्दुस्तानकी परजा भी राजाओंको मनमानी नहीं करने देगी।

सोहनलाल—जैसे भैया जमींदार अपनी जमींदारीका दाम लेकर बेच देना चाहते हैं उसी तरह ये राजा लोग भी क्यों नहीं कुछ पेन्सन लेकर कासी वास करते ?

भैया—अभी ये ६०० मुकुट बिलायती जोंकोंके बलपर कूद रहे हैं, समझ रहे हैं कि अंगरेजी हिन्दुस्तान तो सुराज ले ही लेगा क्यों कि बिलायती जोंकोंमें भी हिम्मत नहीं है कि साफ इन्कार कर दें। लेकिन वह दो-पचैयाँ हिस्सेको सुराजियोंके हाथमें नहीं जाने देंगी, इसमें उनका भी स्वारथ है।

दुखराम—क्या स्वारथ है भैया !

भैया—६०० मुकुटोंके रच्छा करनेका भार हमने अपने ऊपर ले लिया है इसलिए यहाँ हम अपनी पलटन रखेंगे और इन मुकुटोंको मजबूत करेंगे। इसी बलपर ये ६०० बल्लिया कूद रही हैं। इन्हें यह नहीं मालूम है कि जो रूसमें कमेरा राज होनेसे हिन्दुस्तानके कमेरोंका मन बढ़ा और उनकी मददसे कागरेस और लीगने अंगरेजी जोंकोंको इस हालतमें पहुँचा दिया कि वह तीन-पचैयाँ हिन्दुस्तानकी बहुत उम्मेद नहीं रखते; तो पास-परोसके ३० करोड़ हिन्दुस्तानियोंको आजाद देखकर १० करोड़ हिन्दुस्तानी ६०० गुड़ियोंके सामने मत्था टेकते रहेंगे ?

सोहनलाल—तो भैया रियासतोंका क्या होगा ?

भैया—जो भाखा जिस रियासतमें बोली जाती है उस भाखाके बोलनेवाली पड़ोसी जातिमें वह मिल जायगी। ग्वालियरमें बुन्देलखण्डी और मालवी दो बोली बोली जाती है। बुन्देलखण्डीवाला भाग बुन्देलखण्ड प्रजा-तंत्रमें चला जायगा और मालवीवाला भाग मालव प्रजा तंत्रमें हैदराबादमें मरहठी, करनाटकी, तेलगू, तीन भाखाओंवाले इलाके हैं। तेलगूवाला इलाका आन्ध्र सूबासे मिलकर आन्ध्र प्रजा-तंत्र बन जायगा। करनाटकी भाखावाला इलाका बम्बई और मद्रास सूबोंमें बँटे करनाटक प्रान्तसे मिलकर एक करनाटक प्रजा-तंत्र बन जायगा। मराठीवाली इलाका बम्बई और मध्य प्रान्तमें बँटे मरहठी इलाकोंसे मिलकर एक मरहठा प्रजा-तंत्र बन जायगा।

सोहनलाल—तब तो भैया ! हिन्दुस्तानके सूबे भी नये बन जायेंगे।

भैया—सूबों और भाखाके बारेमें फिर कभी कहूँगा। आज इतना ही कह देना चाहता हूँ कि ये सूबे जोंकोंकी बन्दर-बॉट हैं, ये जोंकोंके फायदेके खयालसे बने हैं, आगे हमारे सूबे प्रजाके खयालसे बनेंगे, और जहाँ जो भाखा चलती

हो उसी भाखाके मुताबिक वह परजा अपना पंचायती (प्रजा-तंत्र) राज बनायेगी ।

सोहनलाल—और भैया ६०० मुकुटधारियों और उनके वीसियों हजार रानियों, राज कुमारों, राजकुमारियोंका क्या होगा ?

भैया—होनहारके सामने खुसीसे सिर झुकायेगे, तो वह भी आदमीकी तरह रहेंगे, जैसे और लोग खाये-पहिनेंगे उसी तरह उनको भी खाना-कपड़ा मिलेगा । जैसे और लोग अपने लायक काम करेंगे वैसे ही उन्हें भी मिलेगा । लेकिन जो सिरपर काल मँड़रायेगा, तो जैसा एक समय फ्रांसमें हुआ जैसे रूसमें हुआ, वही गति इनकी भी होगी ।

अध्याय १३

दरबारी. पुरोहित और सेठ

सन्तोखी—राजा और रियासतकी कोई जरूरत नहीं, यह तो समझ लिया भैया ! यह खाली जोक हैं, इनसे दुनियाका कोई उपकार नहीं, किसी बखत राजा लड़ते रहे हों, देखके दुसमनोका मुकाबिला करते रहे हों, लेकिन अब तो उनका काम बिदेसी बनियोंके सामने घुटना टेकना रह गया लेकिन राज-दरबारके साथ जो दरबारियोंकी भारी पलटन होती है उनके चारोंमें तुम्हारी क्या राय है ।

भैया—उन दरबारियोंमें कितने ही ऐसे हैं कि जो जनताके लाभका कोई न काम कर सकते हैं, लेकिन उसको जुहार करनेमें ही अपनी सारी जिन्दगी बिता देनी पड़ती है । रेल-हवाईजहाजकी बिदा जिसे साइन्स कहते हैं, उसका एक गजबका बिदवान है, जो हमारे लिए और अच्छे इंजन तैयार कर सकता है, हवाई जहाज बना सकता है और उसको काम मिला है राजा साहबके मेह-मानोंकी खातिरदारी करना । इसी तरहसे और दूसरे बिदवान जो हमारे बड़े-बड़े काम कर सकते थे उनको दरबारी बनकर निकम्मी जिन्दगी बितानी पड़ती

है। राजा सराब पीता है, और अपने सारे दरबारियोंको पीनेको कहता है, कोई टीकाधारी पंडित, कोई दाढ़ीवाला मौलवी 'ना' नहीं कर सकता, सबको सराब पीना होगा। फिर राजा साहबका हुकुम हो रहा है और पियो और मुसाहिब धरती छूकर हाथसे सलाम करते हुए प्यालेपर प्याले उड़ेल रहे हैं। फिर गन्दे-गन्दे मजाक सुरू होते हैं तो बूढ़ेसे जवान तकको चाहे किसी धरमके माननेवाले हों सबको अब्रदाताके सामने आदमीसे जानवर बन जाना पड़ता है। मैंने कहा था कि रियासतोंमें तो सहर और गाँवकी औरतोंकी इज्जत भी बचनी मुसकिल है। महाराज या नवाब साहबकी जिस अभागिनीके ऊपर नजर पड़ी वह अपनेको बचा नहीं सकती।

दुखराम—इसीलिए तो भैया ! औरतोंका मुँह ढाँककर रखनेका रिवाज़ नहीं हुआ ?

भैया—हाँ, यही कारण है दुखू भाई ! मुँह ढाँके रहनेसे रास्ते चलते तो राजा साहब नहीं देख सकेगे। लेकिन जो दरबारी हैं उनके लिए तो परदा भी कोई चीज नहीं है। जो किसी दग्बारीके घरकी सुन्दरी राजासे बच निकली तो इसको भाग समझो। दरबारियोंका हमेसासे यही पेसा रहा है कि राजा दिनको रात कहे तो उसमें तारे उगा दे। भाटोंकी भटैती सुनो तो दुखू भाई ! तुम्हें अचरज होगा कि इतना झूठ वह क्यों बोलते हैं। जो खुद जानता है कि मुझमें तलवार क्या एक छुरी उठानेकी भी ताकत नहीं है उसको जो कोई भौंटा या कवि, भीम या अरजुन बनाता है, तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आता ?

दुखराम—तारीफ करता है तो गुस्सा क्यों आयेगा भैया !

भैया—लुन्जको पहलवान कहने लगे तो वह तारीफ समझेगा या दिल्लीकी और अगर तारीफ समझने लगा तब उसे क्या कहोगे दुखू भाई ?

दुखराम—काठका उल्लू, गोबरगनेस, पक्का बेकूफ कहेंगे भैया !

भैया—और इन छः सौ मुकुटधारियोंमें ऐसे काठके उल्लू बहुत हैं, और कुछ तो अकल रखते काठके उल्लू हैं।

दुखराम—अकल रखते कैसे काठके उल्लू हैं भैया ?

भैया—दरबारका ऐसा ही कायदा है, हमेसासे वैसा ही होता आया है। तो

दुक्खू भाई दरबारी लोग जोंकोंके न रहनेपर क्या बनेंगे, इसके बारेमें हमें ज्यादा सोचनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन कमेरोंके वह उतने ही दुसमन हैं, जितने कि खुद बड़ी-बड़ी जोंके ।

सोहनलाल—पुरोहितो और मौलवियोंको किसमें समझे भैया ?

भैया—वे खुद जोंक हैं और जोंकोंके दलाल भी। देखते नहीं जब कोई राजा कौन्सिलके लिए खड़े होते हैं तो पुरोहित लोग चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं, भगवान और धरमकी दुहाई देते-देते कान बढ़ा कर देते हैं। पुरोहितों और मौलवियोने कभी गरीबोका पच्छ नहीं लिया।

सोहनलाल—भैया तुम भी कबीर साहबकी तरह मौलवियो और पंडितोंके पीछे पड़ गये।

भैया—पंडित सरगका एक रस्ता बताते थे, मोलवी दूसरा रस्ता, मोलवीके मतसे गायका मांस खाकर सरग जाता है, पंडितके मतसे गायका गोबर खाकर पंडित सिरपर चुटिया बाँधकर सरग पहुँचाता है। मोलवी दाढ़ीमें चुटिया बाँधनेको कहता है। फिर यह भी नहीं कि कह दे कि “भारग सोइ जाकहँ जो भावा,” वह एक-दूसरेका सिर भी फोड़नेको तैयार थे। कबीर साहबको यह बुरा लगता था, वह इस खून-खराबीको पसन्द नहीं करते थे, चाहते थे हिन्दू-मुसल्मान एक होकर रहें। इसलिये उन्होंने कहा “सोई राम सोई रहीम” बेचारे समझते थे कि है कोई अलख निरंजन इस दुनियाकी मुध लेनेवाला। इसलिए नहीं चाहते थे कि दुनियाकी मुध लेनेवाले (राम-रहीम) पर विसवास करनेवाले एक-दूसरेका गला काटे। उन्होंने सोचा था कि राम-रहीमको एक मान लेनेसे काम बन जायगा लेकिन भगड़ेका दोसी राम-रहीम नही था।

दुखराम—राम-रहीम दोसी नहीं था तो कौन दोसी था भैया !

भैया—जो राम-रहीम होता और उसमें उतनी तागत होती जितनी पंडितोंकी पोथियों और मुल्लोंकी किताबमें लिखी हुई है तो हजारों बरसोंसे अपने नामपर करोड़ों आदमियोंको कटते-मरते देखकर वह चुपचाप बैठा न रहता। असलमें मजहबके पैदा करनेवाले भी जोंके हैं। भगवानको भी पैदा करनेवालो जोंके हैं। मैंने पहले कहा था न कि एक निठल्ले आदमीको कोई क्यों

अपना सरबस देकर भूखे मरनेके लिए तैयार होता ? इसीलिए उन्होंने राम-रहीमको पैदा किया, जिसने उन्हें राजा बनाया। राम-रहीम हैं, कबीर साहब यह विस्वास रखते थे, फिर पंडित-मुल्लाके भगड़ेको मिटाना चाहते थे। उनको पता ही नहीं था कि जब तक दुनियाको नरक बनानेवाली जोंके हैं तब तक राम-रहीम एक कह देनेसे भगड़ा नहीं मिटेगा।

दुखराम—मैं भी एक बात कहूँ भैया !

भैया—कहो दुखू भाई।

दुखराम—तुमने भैया जो उस दिन कहा था न कि मजहब और भगवान-को गाली देनेमें हम लोगोको अपनी तागत नहीं लगानी चाहिए, हमें देखना है कि कैसे कमेरोको रोटी-कपड़ा मिलेगा ? मैंने अपने मुँहमें जाबा लगा लिया लेकिन जानते हो न भैया, मरकस बाबाकी बातने दिलमें ऐसी आग लगा दी है कि जोंकोके जाल-फरेबको कहना ही पड़ता है। उसमें जब कोई भाई बीचमें भगवानकी बात कहता है तो नाहीं कहना ही पड़ता है। नाही कहना खराब तो नहीं है भैया !

भैया—नहीं दुखू भाई, साँच कहना खराब नहीं है। मैंने इतना ही कहा था कि रोटी-कपड़ेकी बात छोड़कर जो तुम देवी-देवता और ओभ्रा-सोखाके खिलाफ कहनेमें अपनी सारी ताकत लगा दोगे, तो असली काम पड़ा रह जायगा।

दुखराम—मैं इसे अच्छी तरह समझ गया हूँ भैया ! एक दिन मैं बलीद-पुरमें था। रमजान भइयवा मेरा यार है। रमजान मैं और सोवरन राउत तीनों बगीचामें बैठकर बात कर रहे थे उसी वक्त हरखू पंडित उधरसे जा रहे थे। सोवरनने बाबा पालागी किया, हरखू पंडित पासमें आकर मेरे बारेमें पूछा तो सोवरनने कह दिया कि दुखराम राउत हैं। हरखू पंडितका मुँह उतर गया और आँख बड़ी-बड़ीकर मेरी ओर देखने लगे। मैंने भी पालागी कहकर उनको बैठनेके लिए कहा। उन्होंने कड़ककर कहा—“जा तेरी पैलगी नहीं लेंगे। भगवान-को नहीं मानता, देवी-देवताको गाली देता है।” मैंने बहुत नरमीसे कहा—“देवता ! दुरबासा रखी ! गरीबपर काहे नराज होते हैं, मैं किसी देवी-देवताको गाली नहीं देता।” हरखू पंडितने कहा—“तो तुम भगवानको मानते हो ?”

मैने कहा - “मै तो ब्राह्म ! भगवानको नहीं मानता लेकिन भगवानके पूजने-वालोंने मेरा बहुत प्रेम है । इसीलिए भगवानको मै गाली नहीं देता ।” हरखू पंडितने मुँह फाड़कर कहा—“जो तू खुद नहीं मानता, तो जरूर गाली देता होगा ।” मैने कहा—“ब्राह्म ! हमारा बच्चा है, वह हाथी-घोड़ा लेकर खेलता है, हम सयाने जानते हैं कि वह असली हाथी-घोड़ा नहीं है, लकड़ी-मट्टीका है लड़केको जो यही बात हम कहने लगे तो लड़का रोने लगेगा । बच्चेसे हमको प्रेम है और बच्चेको काठ-मट्टीके घोड़ेसे, इसीलिए बच्चेके प्रेमका खयाल करके हम उस खिलौनेको भी भला-बुरा नहीं कहते ।” मैने ठीक कहा न भैया !

भैया—हाँ, ठीक कहा दुखू भाई !

दुखराम—हरखू पंडितने कहा,—तू भगवानको नही मानता, तो तेरी गति नही होगी, लेकिन तू भगवानको गाली नहीं देता तो यह अच्छा है । हरखू पंडितकी टट्टी भौंह कुछ सीधी हुई. लेकिन जब वह चलने लगे, तो उनका मुँह उसी तरह उतरा हुआ था । दूसरे दिनकी बात है मैं और रमजान खटियापर बैठे थे, उनके यहाँ गाँवके जुलाहोंको नमाज पढ़ानेके लिए एक मोलवी आते हैं । रमजानने किसी दिन कह दिया था । मोलवीको देखकर हम दोनों खड़े हो गये और उन्हे चारपाईपर बैठाया । मोलवीको किसीने कह दिया था कि दुखराम रमजानके दरवाजेपर बैठा हुआ है, वह राम-रहीमको नही मानता । मोलवी साहबने कहा—“मुना है दुखराम राउत तुम करतारको नहीं मानते । हिन्दू-मुसलमान बहुत-सी बातें अलग-अलग मानते हैं । लेकिन दुनियाके बनानेवालेको सभी मानते हैं, तुम क्यों नहीं मानते ? मैने कहा—“दुनिया बड़ी खराब बनी है मोलवी साहब, हजारों आदमी जी लड़ाकर काम करते, उनका पेट नहीं भरता और एक आदमी निठल्ला बैठा रहता है, वह ऐस-जैस करता है, जिस करतारने ऐसी नरक दुनिया बनाई है उसे माननेसे क्या फायदा ?” मोलवीने कहा—“करतारसे हुआ माँगोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे तो वह तुम्हारी बिगाड़ी बना देगा ।” मैने कहा—मैने कसूर किया था कि हमें बिगाड़ा, और जो बिना कसूर ही इतना बिगाड़ सकता है उससे मै किसी चीजकी उम्मेद नहीं करता ।” मोलवीने कहा—“तो तुम करतार, सरग-दोजख कुछ नहीं मानते ।”

मैंने कहा—“मैं नहीं मानता मोलवी साहब, लेकिन आप या दूसरा जो कोई करतारको मानता है, उसको मैं बुरा नहीं कहता । मैं इतना ही चाहता हूँ कि रोटी-कपड़ेकी दुनियामें किसीको चिन्ता नहीं रहे, बस इस काममें हम लोग सब एक रहें, क्योंकि भूख सबको एक तरह सताती है, जाड़ा-गरमी एक तरह लगती है ।” मोलवी हरखू पंडितके इतना उजडु नहीं थे । उन्होंने मुस्कराते हुए कहा—“तो रोटी-कपड़ेके लिए काम करनेको कौन रोकता है ?” मैंने कहा—“न रोके तो इससे मुझे बड़ी खुसी होगी मोलवी साहब, फिर तो मैं कहूँगा कि रोटी-कपड़ेका काम हम लोगोंको सौंप दें जो कि जाँकोंका राज हटा हम कमरोंका राज कायम करना चाहते हैं ।” मोलवीने कहा—“और हम क्या करें ।” मैंने कहा—“आपको बहुत बड़ा काम है, जिनगी तो चार दिनकी है न, सरगमें आदमी बे अन्त समय तक रहता है, बस सरगका काम आप सँभालो ।” मोलवीने कहा—“जो हम खाली सरग हीकी बात करे, तो हमें कौन पूछेगा । हमें गंडा देना पड़ता है, तबीज देनी पड़ती है ।” मैंने कहा—“गंडा भी आप दीजिये, तबीज भी आप दीजिये, लेकिन सरग जानेके लिए ।” मोलवी ने कहा—“और जो किसीको लड़का-लड़की चाहिये तो ।” मैंने कहा—“गंडा-तबीजको मैं नहीं पसन्द करता लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक यह नरककी दुनिया रहेगी तब तक गंडा-तबीजवाले देने-लेनेवालोको कोई नहीं रोक सकता ।” क्यों भैया मैंने ठीक कहा न ?

भैया—ठीक कहा तुमने दुखू भाई ! वेठीक होनेका तुम्हें कैसे सक हुआ ।

दुखराम—सक इसीलिए हुआ भैया ! कि इसके बारेमें बात नहीं की थी । खाली मरकस बाबाने जो अँख खोल दी है उसीके बलपर मैं बोल गया ।

भैया—और तुम्हारा बोलना ठीक रहा दुखू भाई !

दुखराम—और जोतिसके बारेमें तुम्हारी क्या राय है ?

भैया—जोतिस दो तरहका है दुखू भाई, एक तो वह जोतिस है जो गिनती करके बतला देता है कि सूरज गरहन कब होगा चंद्र गरहन कब होगा । अकासमें मंगल, बुध आदि-आदि गरह और हमारी धरती भी सुरुजके किनारे घूमती है । जितने अकासमें तारे छिटके देखते हो उनमें अँखसे दिखाई

देनेवाले पाँच ही छः तारे हैं जो सुरुजके किनारे घूमते हैं, नहीं तो बाकी सभी तारे सुरुज हैं ।

दुखराम—तो सब तारे सुरुज हैं भैया ! फिर वह इतने छोटे क्यों मालूम होते हैं ?

भैया—हमसे बहुत दूर हैं, दो आदमी बराबर-बराबरके हों एक हमसे पाँच हाथपर खड़ा हो और दूसरा पाँच सौ हाथपर तो पाँच सौ हाथवाला छोटा मालूम होगा कि नहीं ?

दुखराम—हाँ, छोटा मालूम होगा भैया !

भैया—यह तारे क्या चीज हैं, यह हमसे कितनी दूर हैं, वगैरह चाते पचास-पचहत्तर सालसे ही हमें मालूम हुई हैं ।

दुखराम—सुरुज गरहन, चंद्र गरहनकी बात लोग बहुत पहलेसे जानते थे तो तारोंके बारेमें क्यों नहीं जान सके ?

भैया—दूरकी चीज देखनेके लिए आँखके मदद करनेवाली दूरबीन उस वक्त नहीं थी, और बहुत दूर रहनेवाली चीजोंको आँख देख नहीं सकती । ग्रंथेरेमे रोशनी होनेसे कुछ तारे जरूर दिखाई पड़ते थे, लेकिन तारे आसमानमें बहुत कम दिखाई पड़ते थे । मामूली दूरबीन लगाकर देखनेसे भी पचास हजार तारे दिखाई पड़ने लगते हैं । अठ्ठाई इन्ची दूरबीनसे तीन लाख तारे दिखाई पड़ते हैं । आजकल सबसे बड़ी दूरबीन (सौ इन्ची) गिल्सनगिरी अमेरिकामें है, उससे डेढ़ अरब तारे देखे जाते हैं ।

दुखराम—तो दूरबीनसे आँखकी तागत बहुत बढ़ जाती है ?

भैया हाँ, उसी तरह जैसे रेडियो बाजासे कानकी तागत बढ़ जाती है । तीन सौ बत्तीस बरस (१६१२ ई०)से पहिले दुनियामें कोई दूरबीन नहीं जानता था । अकबरके मरनेके सात बरस बाद गलिलियोने पहिली दूरबीन बनाई ।

दुखराम—तो जो यह जोतिसी सबका आगा पीछा बतला देते हैं, किसीको क्या होनेवाला है, सब कह देते हैं, ऐसी चाते तो वह न जाने कै हजार बरसमे जान गये थे, लेकिन मामूली दूरबीन भी तीन सौ बरसमे पहले नहीं बना सकते थे । मुझे तो भैया ! यह भाग बतलानेवाला जोतिस भा जोकों हीका फरेब

मालूम होता है। पचास बरस बाद मुझे क्या होनेवाला है, यह पहले हीमें पक्की हो गई, तभी तो जोतिसी मेख-बिरिख कहके बता देता है। फिर जब एक-एक दिन क्या बितनेवाला है, सभीको पहलेसे ही लिख दिया है तो हाथ-पैर हिलाना बेकार है।

भैया—तुम्हारी जिन्दगी भरकी बात पहलेसे नहीं लिख दी गई, तुम्हाग लड़का कब किस नञ्छत्तरमें पैदा होगा यह भी जोतिसमें लिख दिया है। और जब नञ्छत्तर मालूम हो गई तो उसकी भी कुंडली जोतिसी तैयार कर देगा और उसे एक-एक दिन क्या बीतेगा, यह भी जोतिसी बतला देगा।

दुखराम—माने हमारी कुंडली तो बनी है। लड़केकी कुंडली भी बापकी कुंडलीसे तैयार हो सकती है। क्योंकि पुत्र जन्म जोतिससे मालूम ही हो जायगा, फिर तो पोते-पर-पोते और साठ पीढ़ी आगे तककी कुंडली और एक-एक दिन क्या बीतेगा सब बतलाया जा सकता है, जोतिसमें सब लिखा ही हुआ है। यह तो भारी चाल है भैया जोंकोंकी। बारह सौ बरस आगे तककी जब सब बातें पहलेसे ही पक्की हैं तो आदमी हाथ-पैर हिलावे या न हिलावे, बात होकर रहे हीगी। तब तो आदमी अपने भाग्यका बनानेवाला नहीं रहा। नहीं, नहीं भैया ! यह हम कमेरोके हाथ-पाँवको बाँधकर जोंकोंके सामने पटक देनेका बाल-फरेब है। जोतिस और कुछ नहीं।

भैया—लेकिन जोंकोंने कैसा ढंग निकाला दुखू भाई ! तुमको भी पछाड़ दिया, अपना काम भी बनाया और जोतिसीकी भी पाँचों घीमें है।

दुखराम—मुझे तो भैया ! आदमीकी बुद्धिपर अफसोस होता है। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी जो कुंडली और हाथ दिखानेके लिए दौड़ पड़ते हैं, जान पड़ता है, काबुलमें भी गधे होते हैं।

भैया—यह कहनेसे कोई फायदा नहीं दुखू भाई ! जब तक आदमीकी जिन्दगी निश्चिन्त नहीं है, आज भी उसको खाने-कपड़ेकी चिन्ता है, लड़के-लड़की के ब्याहकी भी चिन्ता है कल उससे भी अधिक चिन्ता है तब तक आदमीको जोतिसियोंके पास जानेसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भाग बतानेवाले जोतिसीके पीछे लाठी लेकर पड़नेकी जरूरत नहीं। सबकी जड़ जोके

हैं उनको काट दो बस सारा काम हो जायगा ।

सन्तोखी—मैया महात्मा लोग भी तिरकालकी बात बताते हैं और उनके जालमें भी लोग फँस जाते हैं ।

मैया—एक जाल नहीं, यहाँ पग-पगपर जाल है दुक्खू भाई ! एक भाईने मुझे चिट्ठी लिखी है—इधर कुछ दिनोंसे मुझे यहाँ एक प्रधान मत “जैन स्वताम्बर तेरा पंथी” के आचार्यका सत्संग होनेके पश्चात् । आधुनिक समयमें जब कि मनुष्यने सुखकी प्राप्ति भौतिक साधनो-द्वारा सम्भव मान ली है, जब कि विलासिता और ऐश्वर्यका बोल-बाला, जब कि सभ्यताके नामपर हमने मनुष्यत्वको, देवत्वको तिलांजलि दे दी है, इन साधुओंकी तत्परता, इनका त्याग, इनका वैराग्य, इनका सयम इत्यादि देखकर मनुष्यको चकित रह जाना पड़ता है । मैं दावेके साथ कह सकता हूँ जितनी सच्चाई और दृढ़ताके साथ इनका पालन ये करते हैं, वह अद्वितीय है, ससारमें रहते हुए जो विरक्ति ये लोग सांसारिकोंसे रखते हैं वह अभिनन्दनीय है । श्री भूलाभाई देसाई और हिन्दू-महासभाके सहायक-मन्त्री चकित रह गये । उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनकी अहिंसाके सामने तो गीताकी अहिंसा भी फीकी पड़ जाती है । .. हिन्दू-महासभाके सहायक मन्त्री तो यहाँ तक मुग्ध हो गये कि उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि अगर मैंने कभी धर्म ग्रहण किया तो इसको छोड़कर दूसरा कदापि न करूँगा । इनका त्याग इतना जबरजस्त है कि गृहस्थ लोगोंके साथ सम्पर्क तो दूर इनको अगर यह पता चल जाय कि कोई वस्तु हमारे लिये खरीदी या तैयार की गई है तो भिन्नामें भी उसे कदापि ग्रहण न करेंगे । सयम इतना कि साध्वियाँ पुरुषमात्र और साधु स्त्रामात्रके स्पर्शको पाप मानते हैं । पचासो आज़नम वरमचारी आपको मिलेंगे । जिन-जिन लोगोंने इनकी जाँच की है, उनकी एक मतमे यही राय रही है कि यह an ideal institution of east (पूर्वकी एक आदर्श संस्था) है ? मेरा भी भुकाव इस तरफ होनेके बावजूद मैं इसको उस वक्त तक नहीं मानना चाहता जब तक आप इसकी जाँच न कर लें ।” (२६ जुलाई १९४४ ई०) ।

दुखराम—मैया संसकिरतमें किसीने लिखा है क्या, मुझे तो कुछ ममभमें

नहीं आया ।

भैया—नहीं आया वही अच्छा है दुख्खु भाई, समझमें आया होता तो न जाने क्या कह डालते ।

दुखराम—आप कहेंगे तो मैं जीभको बाँधकर रखूँगा भैया ! लेकिन सुनायें तो क्या बात है ।

भैया—एक बात यह है कि खाते-पीते आदमी हैं, उनके पास पक्का मकान है, नौकर-चाकर हैं, देखा तो नहीं सायद उनकी बीबी भी हों, बच्चे भी हों, उनके बदनपर सोनेका गहना और रेशमी नहीं तो अच्छी बारीक सूतकी साड़ी रहती हो, खानेके लिए दूध-घी और फल-मेवा भी मिल जाता हो । कलकी चिन्ता उनको उतनी ही है जितनी किसी करोड़पति सेठको, दूसरे दिन दिवालिया हो जानेकी ।

दुखराम—भैया ! जोंके कलकी परवाह नहीं करती वह नगद धरम मानती हैं, “आज नगद कल उधार” ।

भैया—तो भी दुख्खु भाई, जिसने यह खत लिखा है, वह चाहे जोंकोंका ही अंडा-बच्चा हो, लेकिन उसका दिल उतना कठोर नहीं है । बेचारा बड़ी कोसिस करता रहा है कि जोंकोंके जालसे निकले, लेकिन जोंकोंका जाल कहाँ-कहाँ फैला है इसको जानना बहुत मुस्किल है । चिड़िया हवामें उड़ना चाहती थी, उसने समझा कि निरमल आसमानमें कोई डर नहीं लेकिन बहेलियाने वहाँ भी जाल टाँग रखा था और उसी जालमें पड़कर फड़फड़ा रहा है । बेचारा भाई एक साधुको देखता है जो दुनियाके लोगोंसे बिलकुल वैराग रखते हैं जिनके वैरागको देखकर हिन्दुस्तानके आरामसे जिन्दगी काटनेवाले कुछ बड़े बड़े लोग । ..

दुखराम—बड़ी-बड़ी जोंके ।

भैया—बड़े-बड़े लोग अचरज करते हैं और एक बड़े आदमी तो ऐसे हैं कि हिन्दू-धरमका बेड़ा-पार करते हैं लेकिन अभी तक वह कीई धरम नहीं मानते, इन महात्माको देखकर उन्हें भी धरम माननेकी साध लगी ।

दुखराम—वही सावरकरवाली हिन्दूसभा न भैया, जो बड़ी-बड़ी जोंकोंकी

मुठ्ठीमें है ।

भैया—अच्छा, ये महात्मा इतने त्यागी हैं कि जो इनके लिए कोई चीज खरीदकर भी दे तो वह भिच्छामें भी नहीं लेते ।

दुखराम—तब तो वह महात्मा खाली हवा पीते होंगे । क्योंकि दुनियामें जोंकोंकी कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसे खरीदा-बेचा न जाय ।

भैया—और मैं यह भी समझता हूँ दुःखू भाई कि यह महात्मा ऐसे गरीबोंके घरोंमें नहीं रहते होंगे जो खून-पसीना एक करके धरतीसे अनाज पैदा करते हैं, कपास पैदाकर अपने हाथसे कपड़ा बनाते हैं । क्यों कि महात्माके पचासों चेलों और चेलियोंको ब्रैठे-ब्रैठे खाना-कपड़ा देना गरीबके बसकी बात नहीं है ।

दुखराम—पचासो चेले-चेलियाँ और वह करते क्या हैं भैया ?

भैया—वह तमाम जिनगी भर बरमचारी रहते हैं न औरत-मर्दको छूती है, न मर्द औरतको छूता है ।

दुखराम—हिंजड़ा-हिंजड़ा होंगे भैया, इसमें कौन बात है ।

भैया—हिंजड़ा-हिंजड़ी न भी हों तो भी दुःखू भाई ! मैं साधू-साधुनियोंकी लाला जानता हूँ । बरहमचारी तो क्या होंगे, लोगोंकी आँखमें धूल भोंकते हैं । बस यही ध्यान रखते हैं कि बात खुलने न पाये । एक-दो आदमीकी बात कहते, तो मैं समझता कि पागल होंगे या जैसा तुम कह रहे हो उसी तरहके हिंजड़े होंगे लेकिन जब पचास-पचास चले-चेलियोंके तमाम जिनगी बरहमचारी रहनेकी बात कहते हैं, तो मुझे इसमें जरा भी संक नहीं कि वह खूब जबर्जस्त दोंग है । ऐसे बरहमचारी-बरहमचारिनियाँ रिखीकेसमें हजारों हैं, उत्तर कासीमें भी हैं । कितने तो गंगोत्तरीके हाड़ चीरनेवाले जाड़ेमें बिल्कुल नंगे दिगम्बर रहते हैं । उनमें एक है महात्मा किसन आसरम । आज बीसों बरससे वह हिमालयमें नंगे रहते हैं उनके तपस्याके बारेमें क्या पूछते हो, हिन्दूधरमके सबसे बड़े नेता मालवीजीको अपने बीस लागववाले मन्दिरके नीव रखनेके लिए हिन्दुस्तान भरके बड़े-बड़े महात्माओंकी खोज होने लगी । उस वक्त मालवीजीको महात्मा किसन आसरम ही ऐसे दिखाई पड़े जो कासीमें आकर दूसरे विश्व-

नाथ बाबाके नैव डालने लायक हैं । उन्होंने ही विस्वनाथकी नींव डाली । श्री महात्मा किसन आसरम बड़े ब्रह्मचारी हैं उन्होंने सिरिफ राजाराम ब्रह्मचारी-के गूंगे लड़केकी बहू भानदेको गीता पढ़ाया और बेचारे पहाड़ी गीत गाते फिरते हैं—

“चवन्नीको पेरा, ते क्या बुर मानो राजरामको डेरा ।

भाका बुनी खाट रे । तैं भलो सीक्यो गीताको पाठ रे ।

चीरो तू बँगला भान दे ! चीरो तू बँगला तैंने कानों छोडो हरसिलको जँगला ।
गूँगानीकी गोली, तैं ना भालो भान दे ! अबोलाके बोली ।”

दुखराम—किसन आसरम और भानदे न जाने कितने पड़े हुये हैं भैया !

भैया—एक आदमी और एक औरत साथमें रहे, यह कोई बुरा नहीं है, लेकिन यह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीका डिढोरा क्यो पीटा जाता है । मान लो दुक्खु भाई कोई मरद रहते भी हिजड़ा बन जाता है तो दुनियाको इससे क्या फायदा ?

दुखराम—दुनियाको न फायदा हो, जोकोंको तो फायदा है, वह कहती फिरेगी कि छोड़ो दुनियाके सुख-दुखको इसी तरह तुम भी महात्मा बन जाओ ।

भैया—दुनियामें हजारों बरसोंसे ऐसे ब्रह्मचारी होते आये हैं, इनसे भी बढ़कर त्यागी हुये हैं, लेकिन उससे दुनियाका नरक जौ भर भी कम नहीं हुआ ।

दुखराम—और इन हजार बरसोंमें जवसे कि जोंकोका राज कायम हुआ लोग बराबर इस तरहके जालमें फँसते रहे ?

भैया—मै तो समझता हूँ दुक्खु भाई ! ऐसे साधुओंमें कुछ ईमानदार भी रहे होंगे, वह दिलसे धनियोंको पसन्द नहीं करते थे, हाँ, बेसी धोखेबाज और पागल ही रहे हैं । लेकिन ईमानदारोंकी ईमानदारी और सच्चाई किस कामकी जो कि गरीबोंके गलेके फन्देको और मजबूत करती हैं । जो इन महात्माओंमें ईमानदारी है, और इनमें सोचने-समझनेकी तागत है, तो क्यों नहीं समझ लेते कि वे हजारों बरससे नरककी जिन्दगी बिताते हैं, ६६ सैकड़ा लोगोंके दुखको दूर करना है । वह ब्रह्मचर्य किस कामका, जा आदमीको खुदगरजी सिखाये, वह दुनियाको चूल्हे-भाड़में पड़ने दे और अपने निरवानके पीछे दौड़ता फिरे । मैं तो महात्मा उसे कहूँगा, जो प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक करोड़ों आदमी

पीढीके बाद पीढी नरककी जिनगी बिता रहे हैं, तब तक मेरे लिये निरवान नहीं चाहिए, मुकती नहीं चाहिये. सरग नहीं चाहिए। वैसे तो कितने ही थोड़े-थोड़ियाँ थानपर बँधे जिनगी भर ब्रह्मचारी रह जाती हैं। लेकिन जिस दिन वह महात्मा यह बात तय कर लेगे, उस दिन उन्हें आँटे-चावलका भाव मालूम हो जायगा, फिर सेठ-सेठानियाँ उनकी आरती नहीं उतारेंगी, फिर राजा-नवाब उनका चरना-मिर्त नहीं लेंगे।

सोहनलाल—तो भैया तुमने क्या जवाब दिया चिढ़ीका, क्या महात्माका दरसन करने जाओगे ?

भैया—मैंने अपने एक दोसरे कहा कि आप चले तो मैं भी चलूँ। उन्होंने जवाब दिया—“मैं ३५ साल तक जगल-जंगलकी धूल फाँकता फिरा, न जाने कितने महात्माओंको देखा है और उनमें दो ही तरहके आदमी मिले हैं या तो छूटे बटमास जादूगर, या पागल। मैं एक दिन भी अब जिन्दगीका ऐसी दौड़-धूपमें नहीं लगाना चाहता।”

सोहनलाल—लेकिन भैया, तुम्हें जो उन्होंने महात्माकी जाँचके लिये बुलाया है, जो जाँचकरके बतला नहीं दोगे तो वह महात्माके चेले बन जायेंगे ?

भैया—सोहन भाई, मनमें बुरा मत मानना। मैं जाँकों और जाँकोंके लडकोंपर तनिक भी विसवास नहीं करता और यह भी बतला दूँ कि पढ़े-लिखे बाबुओपर भी मेरा विसवास नहीं है।

सोहनलाल—तो पढ़ना-लिखना बुरा है भैया ?

भैया—जो मैं पढ़ने-लिखनेको बुरा मानता तो कहता मोटर-हवाई जहाजको छोड़कर पत्थरके हथियारोंके युगमें चले चलो। मैं चाहता हूँ इसमें भी अच्छी हवाई जहाज बने, इससे भी बढ़िया रेडियो बाजा और रेडियो दर्पण निकले। लेकिन जानते हो न आज हवाई जहाज जोके दुनियाको गुलाम बनानेके लिए रखती हैं। रेडियो बाजाके बलसे बिना आदमीका हवाई जहाज चलाकर हिटलर बिलायतके सहरोँ और गाँवोंको मार रहा है। अंगरेज जिन जवानोंको अपना कलकटर और डिप्टी बनाते हैं वह बहुत पढ़े-लिखे हैं गजबकी जेहनवाले हैं।

हजार-हजार पढ़ाकू जवान मेंसे छाँट-छाँटकर २५को लेते हैं और जानते हो न, वह क्या करते हैं ? इसीलिए मेरा इनपर विसवास नहीं है। विसवास ही नहीं कभी तो मैं इनके आचरनको देखकर जल-भुन जाता हूँ। मुझे वह आदमी भी नहीं मालूम होते।

सोहनलाल—और जो वह भाई कुछ-कुछ रास्ता देखने लगे थे वह फिर भूल जायँगे।

भैया—ऐसे एक नहीं हजारों भूलते-भटकते रहें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। यह लूले-लंगड़े अपाहिज लोग क्या काम कर सकते हैं जिनको अपनी मुक्ति, अपना भवन और अपना पेट सबसे पहिले सामने आता है।

दुखराम—जोंकोंके लड़कोंमें कोई अच्छा भी निकल सकता है भैया, लेकिन लाख करोड़में बिरला ही कोई लाल निकलेगा। “जाके पैर न फटी बेवाई; सोका जानै पीर पराई।”

भैया—जोंकोंके खानदानने, दुखू भाई, हमेशा धोखा दिया। रूसमें हजारो जोंकोंके लड़के थे जो पहिले बहुत मजूर-किसानोके राजकी बात करते थे, लेकिन जब मजूरों-किसानोंका राज कायम हो गया, तो वह दुसमनोंसे मिल गये। जो वह दुसमनोंसे न मिले होते तो पाँच बरस तक लेलिन महात्मा और उनके साथियोंको लड़ना न पड़ता और न लाखों युद्ध और करोड़ों भूख-अकालकी भेंट चढ़ते।

सोहनलाल—तो क्या हिन्दुस्तानमें हमें जोंकोंके लड़कोको पासमें भी नहीं आने देना चाहिये ?

भैया—बापके कसूरके लिये बेटेको सजा जोक ही दे सकती है। हिटलरने अपने किसी सहरमें अपने एक आदमीके मारे जानेपर सौ-सौ आदमियोंको पकड़कर जहाँ-तहासे फाँसीपर लटका दिया, यह उन्हीका न्याय है। हम मरकस बाबाके चले, जोंकों और फसिहोंके आदमी नहीं हैं, इसीलिये जोंकोंके कसूरके लिये उनके बेटे-पोतोको सजा नहीं देते और कहेंगे कि तुम हमारे पास न आओ। लेकिन उनसे यह जरूर कहेंगे कि बाबू ! तुम हैजा-पिलेगवाले गाँवसे आ रहे हो, अभी बीमारी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन मालूम नहीं किस अंतरा-

कोठरीमें बीमारीका कीड़ा चला आया, इसलिये हमको भी इसका ख्याल करना पड़ेगा और तुमको भी करना पड़ेगा ।

दुखराम—भैया ! यह बात भी मरकस बाबाने बतलाई है क्या ?

भैया—हाँ, मरकस बाबाने बतलाई है, लेकिन महात्माने बतलाया है, स्तालिन वीरने बार-बार सजग कराया ।

सोहनलाल—जोंकोंके लड़कोंके लिये तो भैया ! तुमने साफ बतला दिया, लेकिन हिन्दुस्तानके बहुतसे सेठ लोग हैं जो गाधीजीका वचन मानते हैं, लाखोंका दान देते हैं और मौका पड़नेपर जेहल जानेसे भी नहीं हिचकिचाते, उनके साथ कैसे बरताव करना चाहिये ?

भैया—सोहन भाई ! मैंने कहा था, कि पहले पियाजका बाहरका छिलका तोड़ना पड़ता है, तब भीतरका । सबसे पहिले हमें विलायती जोंकोंसे लोहा लेना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, कि हम देसी जोंकोंके जुलुमको आँख मूँदकर सहते जायें ।

सोहनलाल—लेकिन भैया, जो देसी जोंकोंसे भी लड़ते रहेंगे तो वह विलायती जोंकोंसे लड़नेमें हमारा साथ क्यों देगी ?

भैया—अपने स्वार्थके लिये मदद देगी दुक्कू भाई, बिना हमारी मददके वह विलायती जोंकोंको पछाड़ नहीं सकती और बिना विलायती जोंकोंके पछाड़े उनका रोजगार नहीं बढ़ता । बिड़ला, डालमिया, सिद्धानियाँ, ताताके पास आज करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है जिसमें वह मोटरका कारखाना खोलना चाहते हैं, हवाई जहाज और जहाज बनाना चाहते हैं, नये-नये कागज, मसीन, वगैरहकी मिले खोलना चाहते हैं । वह अमेरिकासे इनके लिये कल-पुर्जा मँगाना चाहते हैं लेकिन विलायती जोकोने हुकुम दे दिया है, कि तुम लड़ाई भर, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते । विलायतने हिन्दुस्तानका अन्न, कपड़ा, जूट, चाय इतना खरीदा है कि दस खरबसे ऊपर रुपया हमारा उनके ऊपर चढ़ गया है, लेकिन वह सोच रहे हैं कि कैसे इस रुपयको पूरा नहीं तो आधा तीहा हड़प कर लिया जाय । कभी सोचते हैं कि रुपयेके भावको डेढ़ सिलिंगसे एक सिलिंग कर दिया जाय और तिहाई-पावना (करज) हवा हो जाय । जानते हो न, इससे

हिन्दुस्तानकी जोंकोंको कितना नुकसान उठाना होगा । हिन्दुस्तानी जोंकें भली भाँति जानती हैं कि जब तक बिलायती जोंकोंके हाथमें हमारी चुटिया है, तब तक हमें फूलने-फलनेका मौका नहीं मिलेगा ।

सोहनलाल—क्या बिलायती जोंकें नहीं जानती कि जो हिन्दुस्तानी जोंकोंको ज्यादा दबाया जायगा तो वह हिन्दुस्तानी किसान-मजूरोके साथ मिलकर सामना करेंगी ।

भैया—जानती हैं, लेकिन तुम भी जानते हो न कि जोंके एक बार अपनी तोंदको खाली नहीं कर देगी, जोंके जौ-जौकटकर मुआ करती हैं । उनके दिमागमें यह बात है कि किसी तरह हिन्दुस्तानी जोंकोंको फँसाया जाय । वह जादू पढ़-पढ़कर अच्छत फे क रही हैं । हिन्दुस्तानकी जोकोंके बड़े-बड़े नेता अबकी (१९४४) जाड़ोंमें बिलायत जा रहे हैं । बिलायती जोके अभीसे उनको खातिर बातके लिये तैयारी कर रही हैं । कुछ दे दिवाके वह उनसे मुलह करना चाहेगी, जिसमें कि लड़ाईके बाद इंग्लैंड और हिन्दुस्तानके कमेरे जोकोंको खाने दौड़े तो दोनों देसोंकी जोंके एक होकर लड़ें ।

सोहनलाल—लेकिन भैया ! जो बिलायती जोंके हिन्दुस्तानी जोंकोसे समझौता करना चाहती, तो पंद्रह बरसमें हिन्दुस्तानके धन-धान्यको दुगुना बनानेके खरेंको ताकमें न रख देती । इस खरेंको ताता-बिड़ला वगैरह हीने न बनाया है ।

भैया—बहुतसे लोग समझते हैं कि बिलायती दूकानोंमें चीजोंका एक मोल बोला जाता है लेकिन बिलायती जोंके हर जगह इस बातको नहीं मानती । बड़ी-बड़ी बातोंके लिए उनके यहाँ भी मोल भाव होता है । बिलायती जोंके कहेंगी तुम भी कुछ नीचे उतरो और हम भी कुछ आगे बढ़े फिर हमारा समझौता हो । बिलायती जोंकोंकी नेत नहीं है कि हिन्दुस्तानी जोंके बेरोक-टोक कारखाने खोलती जायें क्यों कि लड़ाईके वक्त जो कारखाने खुल गये, तो बाजारमें कोई दूसरा मुकाबिला करनेवाला ही नहीं रहेगा, इसलिये उनकी जड़ जम जायगी । और एक बार जड़ जम जानेपर फिर उखाड़ना मुसकिल होगा ।

सोहनलाल—इसीलिये तो नहीं भैया ! ताता-बिड़लाके १५ बरसवाले खर्रामें हिन्दुस्तानकी गोरी सरकारने खेतीके कारवारको बढ़ानेके लिये अपना दस अरबका खर्रा तैयार किया है । सरकार अब किसानोकी सुध लेनेवाली है क्या ?

दुखराम—गाढ़ पड़ेपर गधेको भी दादा कहा जाता है भैया, कोई ऐसी ही बात तो नहीं है ?

भैया—अंगरेजी सरकार चाहती है कि सुराजकी बातको कोई और बात करके भुलवा दे । वह समझती है कि हिन्दुस्तानमें किसान बहुत रहते हैं, अब थोड़ा उनकी ओर ध्यान दे और उनके पेटमें दो रोटी बेसी जाय, तो क्या जाने हमारी जयजयकार मनाने लगे । और फिर साहब लोग जिस गाँवमें जायें लोग चरन पखारनेके लिए थालीमें पानी लेकर दौड़ें ।

दुखराम—तो क्या भैया ! सचमुच किसानोको दो रोटी बेसी मिलेगी ?

भैया—छः रोटीकी भूखमें दो रोटी ।

दुखराम—लेकिन वह तो तावापर 'छन्न' होगा, और लौर (ज्वाला) बढ़ेगी ।

भैया—और वह यह भी समझती है कि हिन्दुस्तानी किसानोंके पास जो चार पैसा बेसी होगा, तो वह बेसी चीजे खरीदेगे और हमारा माल बिकेगा ।

दुखराम—वनियेका दौव, विलाईको चारो ओर छीछड़ा ही दिखाई देता है । लेकिन भैया हमारे पास चार पैसा बेसी कहाँसे आयेगा ?

भैया—खेतीको अच्छी तरहसे करोगे तो चार पैसा बेसी आयेगा लेकिन तुम अच्छी तरह खेती तब तक नहीं कर सकते, जब तक खाद और पानीका अच्छा इन्तजाम नहीं हो ।

दुखराम—तो क्या वह खाद और पानीका अच्छा इन्तजाम करना चाहते हैं ?

भैया—बिलायतकी एक बहुत बड़ी कम्पनी है जिसका मालिक है मकगावन । उसकी आमदनी रोजकी दो हजार रुपयासे बेसी है, यह लड़ाईके वक्तकी आमदनी है ।

सन्तोखी—लड़ाई न होती तो कितनी आमदनी होती भैया ?

भैया—तो बीस हजार होती ।

दुखराम—यह मजूरोंका खून चूस-चूस कर ही न भैया ?

भैया—हाँ, उसकी एक कम्पनीका नाम है 'इसी' जिसके पास दो अरब रुपयेकी पूँजी है ।

दुखराम—दो अरब तो बहुत धन होगा भैया ?

भैया— बहुत धन होता है दुम्खू भाई ! कोई बड़ा इमलीका पेड़ होता है उसमें एक लाख पत्ती होती है । वैसे-वैसे दस हजार इमलीके पेड़ हों, उनकी जितनी पत्ती होगी उतना रुपया इस कम्पनीके पास है । उसके कारखाने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, अफरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिन्दुस्तान तक ही नहीं फैले हुए बल्कि जर्मनी, जापान, इटली तक फैले रहे हैं । आजकल इस कम्पनीके बड़े-बड़े आदमी हिन्दुस्तानमें चक्कर काट रहे हैं । यह कम्पनी माटी और पानीसे सैकड़ों तरहका सोडा, तेजाब, सोरा, आर दूसरी चीजे बनाती है । चर्चिलैका दोस मकगावन सोच रहा है कि हिन्दुस्तानमें अपनी कम्पनीका जाल फैला दे और करोड़ों मन खाद हर साल किसानोंको दें ।

सन्तोखी—करोड़ों मन खाद बेचनेका मतलब है करोड़ों मन रुपया कमाना ।

भैया—और क्या मकगावन हिन्दुस्तानमें पुत्र कमाने आयेगा, फिर बिलायतमें पाइप, इंजन और बिजली पैदा करनेवाले करोड़पतियोंकी कम्पनियाँ हैं, वह गाँव-गाँवमें बड़े-बड़े पाइप लगायेगे और बिजलीके जोरसे पानी खींचकर, किसानोंको रुपया-आठ आना बीघेपर सींचनेके लिए पानी देगे । जहाँ नदीसे नहर निकलने लायक रहेगी वहाँ नहर निकालेंगे, जहाँ बाँधकी जरूरत होगी वहाँ बाँध बाँधेंगे ।

दुखराम—और हम लोगोंका जो दो-दो बिस्वा (कट्टा)का कोला कोई एक जगह नहीं है ?

भैया—सरकार सब कोलोंको इकट्ठी कर देगी । किसान अच्छे कोलेके बदले कमजोर खेत नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन खाद डालनेसे ऊसर भी उपजाऊ हो जाती है भाई ! वह समझा देंगे कि खेत इकट्ठा करने हीमें फायदा है । फिर

एक काम और करेंगे, बिलायती कम्पनियाँ किसानोंको किरायेपर मोटरका हल देगी ।

सोहनलाल—सब इन्तजाम बिलायती कम्पनियाँ अपने हाथमें लेंगी ?

भैया—मोटर-लारी बिलायती कम्पनियाँ ही न बनाती हैं सोहन भाई, लेकिन हर जिलेमें जो सड़क-सड़कपर लारियाँ दौड़ रही हैं उनके चलानेवाले बहुतसे हिन्दुस्तानी हैं । वह कम्पनीसे लारी खरीदते हैं । कम्पनी पहिले ही अपना नफा खींच लेती है । उसी तरह मोटर-हल वह उन लोगोंको भी दे देगी जो अपनी तरफसे चलाना चाहेंगे । बिलायती जोकेँ समझ रही हैं कि इस तरह जो खेत दो मन गेहूँ पैदा करता है वह सोलह मन पैदा करेगा । किसानोंके पास बेसी अनाज पैदा होगा, बेसी सरसों, रेड़ी होगी तो वह ज्यादा हमारा माल खरीदेंगे ।

दुखराम—तो वह हम लोगोंको साभेकी खेती भी करने देंगे भैया ?

भैया—जोकेँ ऐसा खतरा नहीं होने देगी । जो साभेकी खेती होने लगी तो गाँव भरके किसानोंका मरना-जीना एक हो जायगा । एक हो जानेपर वह बहुत मजबूत बन जायेंगे ।

दुखराम—तो जमींदारों-तालुकदारोंकी जान तो नहीं बचने पायेगी ?

भैया—जमींदारों-तालुकदारोंकी परवाह करे उनकी बलाय । जब तक उनके रखनेसे काम बनेगा रक्खेंगे, जब भूखे भेड़ियोंको एक घोड़ेकी बलि दिये बिना जिउ (जी) नहीं बचेगा तो वह भी करेंगे । जमींदार-तालुकदार जो कुछ घबरा रहे हैं उसका कारन यही है ।

सोहनलाल—तब तो भैया गाँवोंका रंग-रूप बिल्कुल बदल जायगा ?

भैया—चीनीकी मिलें तो बहुत थोड़ी-सी खुली है लेकिन देख रहे हो न उन्होंने खेतीको कितना बदल दिया । लोग बिलायती ऊख ज्यादा बोना चाहते हैं । किसानोंको हजारों बरस पहलेकी ही मालूम थी, उसी ढंगसे वह अब भी खेती करते आये हैं । गोबरको खेतमें डालनेसे अनाज ज्यादा पैदा होता है, फिर रोटी कैसे पकायें, इसलिए किसान गोबरका गोंयठा पाथ डाला करते हैं । पत्थरका कोयला सस्ता गाँव-गाँवमें पहुँच जाय और लोगोंकी जेबमें पैसा भी हो

तो लोग पत्थरका कोयला भी जलाने लगे

दुखराम—“लेकिन पत्थरके कोयलेकी रोटी उतनी मीठी नहीं होती भैया !

भैया—रोटी मीठी नहीं होती तो यह भी बिलायती जोंकोंके फायदेकी बात है । तुम अपना गोबर जितना खेतमें डालते, उतनी ही बिलायती खाद कम न खरीदते ? अब वह तुम्हारे सारे खेतोंके लिए खाद देंगे ।

दुखराम—लेकिन भैया, वह तो सब चीजका पैसा माँगेंगे न ?

भैया—पैसाकी परवाह मत करो दुखू भाई ! मकगावनका दलाल कहेगा—“आओ दुखराम राउत, लो पहले एक सिगरेट तो पियो । पैसेकी परवाह मत करो हमारा सब साहब बड़ा दयालु है । वह कहता है किसानोंको जो जरूरत हो/वह सब चीजे दो । पानी लो, खाद लो, मोटरका हल लो, बढ़िया-बढ़िया बीज लो, जब तुम्हारे खेतमें पचीसकी जगह दो सौका अब उपजे तो पचास रुपया हमारे साहबको दे देना, तुम्हें भी पचीसकी जगह डेढ़ सौ मिलेगा ।

दुखराम—है तो भैया बड़ी फसान फसानेकी बात । क्या सचमुच ऐसा होगा ?

भैया—इसमें कोई जादू-मन्तरकी बात देखी तुमने ? मिलिटरी लोरी गाँव-गाँवमें चक्कर काट रही है, जो कारखाने मिलिटरी लोरियाँ तैयार कर रहे हैं वही अब मोटर-हल तैयार करेगे, उसी तरह दूसरे कारखाने भी तुम्हारे कामकी चीजे बनाएँगे । तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए चीज नहीं खरीद सकते । वह तुम्हें पैसा पैदा करनेका दंग दिखायेंगे ।

सोहनलाल—तब तो किसानोंके देहपर खून भी चढ़ेगा, कपड़ा-लत्ता भी होगा, उनके बच्चे अच्छर भी पढ़ेंगे, और जो लोग इसकूलासे पढ़कर निकलते हैं, गली-गली धूल फाँकते हैं उनके लिए भी काम मिलेगा ।

भैया—और उनके लिए भी काम मिलेगा जो लड़ाईके बाद पलटनोंके टूट जानेसे अपने-अपने घरोंमें लौटे ।

सन्तोखी—तो अंगरेज पलटनके सिपाहियोंका भी ख्याल कर रहे हैं ?

भैया—ख्याल नहीं करेंगे । २५-२५ लाख जवानोंको सब तरहका हथियार चलाना सिखाया । पचीसों लाख हिन्दुस्तानियोंको हर तरहका हथियार बनाना सिखाया ।

दुखराम—तो अपने लिये बहुत बुरा किया है भैया ?

भैया—जापान खा जानेवाला था, जर्मनी निगल जानेवाला था, क्या करते ? सत्तर बरस तक तो हिन्दुस्तानियोंको खाली बन्दूक भोजना सिखाया था । लेकिन आजकलकी लड़ाईमें बन्दूक बन गई है लाठी । अब जरूरत है टामी-गनकी, मसीनगनकी, टंककी । सब सिखलाना पड़ा । और सिखाया इतना है कि एक अंगरेज अफसर बोल रहा था—खबरदार, इन सिपाहियोंको गाँवमें भूखे मरनेके लिए मत भेजना; नहीं तो जबर्जस्त डाकू बनंगे । ऐसे डाकू, जिनसे उस वक्तकी सरकारी पलटन भी पनाह माँगेगी ।

दुखराम—क्या ऐसी बात है ?

भैया—बन्दरको देखा है न दुक्खू भाई, एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदते ? आजकलके सिपाहियोंको सिखलाया गया है कि कैसे एक रस्सासे एक रस्सेको बाँधकर पेग मारते, एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदते आगे बढ़ा जा सकता है । कैसे नदीपर एक रस्सा तानकर हाथ-पैरसे लटकते इस पारसे उस पार पहुँचा जा सकता है । कैसे बाँसके टुकड़ोंको बाँधके उसपर बरसाती बाँधकर नाव बनाई जा सकती है । कैसे जंगलमें घास-पत्ती खोसकर ऐसे छिपा जा सकता है कि कोई पता भी न लगा सके, कैसे सूखी धरतीमें वैसा कपड़ा पहना जाय, कि लेटनेपर किसीको पता न चले । कैसे छापा मारके बन्दूक और मसीनगन छीनी जा सकती है और बिना हथियारके ही; एक छोटेसे भूटकेसे बिना हथियार हीके आदमीको पलक मारते-मारते मार दिया जा सकता है ।

दुखराम—यह सब बातें सिपाहियोंने सीखी है भैया, तब तो सचमुच सिपाहियोंको गाँवमें भूखे मरने देना बुरा होगा ?

भैया—जाब्रि दुसमन था सिखाते नहीं तो क्या करते । सरकार समझती है कि जो किसानोंके इन लड़कोंको भूखे मरनेके लिए गाँवमें भेज दिया गया, तो खैरियत नहीं । जो हिन्दुस्तानियोंमेंसे ही किसीको लूटते-पाटते, तो साहब बहादुर चसमा लगाकर इजलासपर फँसला सुनाते । लेकिन दुक्खू भाई ! हर वक्त भस्मासुरके भूतनाथपर चढ़ दौड़नेका डर है । सिपाही सीखी विद्याको पलटन हीके साथ छोड़ नहीं आयेंगे । देसमें किसानों-मजूरोंके राजकी बात करने-

वाले आदमी भी अब बहुत हैं । सिपाहियोंने रूसके बहादुर सिपाहियोंकी बहुत-सी बातें सुनी हैं, सिनेमामें लाल पलटनकी लड़ाई भी देख चुके हैं । और कोई-कोई लाल पलटनके सिपाहीसे हाथ भी मिला चुके हैं । इतना तो हर सिपाही जानता है कि लाल पलटनके सिपाही सब किसानों-मजूरोंके लड़के हैं । कितनों-ने अभी सुन लिया होगा और कितने आगे सुन लेंगे कि रूसमें जोंकोंको बिदा-कर किसानों-मजूरोंने अपना राज कायम किया है । फिर बेकार भूखे मरते सिपाही चोरी-डकैती नहीं करेंगे, वह जोंकोंको मार भगानेके लिए तैयार हो जायेंगे ।

सन्तोखी—तो भैया ! जोंकोंने अपने लिए बड़ा जोखिम पैदा कर लिया ?

भैया—इसीलिए सन्तोखी भाई, किसानोंकी ओर सरकारकी नजर घूमि है । बिलायती जोंकोंको घाटा नहीं है बल्कि दुगुना-चौगुना नफा होगा । हिन्दुस्तानी जोंकोंको बिलायतमें बुलाके वह अपना धरम भाई बनाना चाहती हैं । अगर हमारे सेठ लोग साहब बहादुर होते तो साहब बहादुर सेठकी सेठानी के साथ नाचते और सेठ जी साहब बहादुरकी बीबीके साथ नाचते । खूब दुन-दुन करते, सराबके प्याले चलते ।

सोहनलाल—तो भैया ! तुम समझ रहे हो कि बिलायती जोके हिन्दुस्तानी सेठोंसे मेल करना चाहती हैं ?

जरूर सोहन भाई ! वह उनसे कहेंगी, कि लोहा, फौलाद, मोटर, जहाज, हवाई जहाजके बड़े-बड़े कारखानोंको जो सब अपना ही कर लेना चाहोगे तो हमारा-तुम्हारा भगड़ा होगा । हमारे पीछे भी बिलायती मजूर पड़े हैं और तुम्हारे पीछे भी हिन्दुस्तानी मजूर । जो बिलायतमें मजूरोंका राज कायम हो गया तो बाबू ! तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा । कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, दिल्ली, त्रिचनापल्ली सब जगहके मजूरोंको कमनिस्तोंने अपने हाथमें ले लिया । किसान भी सबसे ज्यादा उन्हींकी बात मानते हैं । कांग्रेस नेता जमीदारोंका पच्छ करना चाहते हैं, इसीलिए जहाँ-जहाँ किसानों-जमीदारोंका भगड़ा हुआ वहाँ कमनिस्त लाल भंडा गाड़ देंगे । सोच लो हम दोनोंकी भलाई किसमें है ।

सोहनलाल—सेठोंको तो सोचना भी मुस्किल हो जायगा । एक ओर

देखेंगे कि त्रिलायती सेठ उनके साथ ऐस-जैस कर रहे हैं, दूसरी ओर देखेंगे कि जो खतरा उनको बतलाया जा रहा है, वह झूठा नहीं है। लाल पलटनकी जीतसे मजूरोंका और मन बढ़ गया है। रूमानियाने उस दिन लाल पलटनके सामने हथियार रख दिया तो करोड़पति सेठ सर पकौड़ीमलको मालूम हुआ कि उनका बेटा मर गया।

सोहनलाल—सामको उनके कारखानोंके मजूरोंने लाल भंडा लिए जब लाल पलटन जिन्दाबाद बोले होंगे, तब सर पकौड़ीमलकी क्या गति हुई होगी भैया ?

भैया—गत पूछते हो ? गति पूछकर क्या करोगे सोहन भाई ! छः महीने पहिलेसे त्रिलायती सेठ जो अपने धरम-भाई हिन्दुस्तानी सेठोंकी खातिर अगुवानीकी तैयारी कर चुके हैं तो उसका भारी मतलब है। वह उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन हिन्दुस्तानको अपने हाथसे बाहर नहीं जाने देना चाहते।

सोहनलाल - तो गांधी महात्माके चेले हमारे सेठ लोग कैसे उनसे मेल करेंगे ?

भैया—सुराजका दो-एक आना भी न दें यह बात नहीं है सोहन भाई ! वह साभेका व्यापार खोलना चाहते हैं और हमारे सेठोंसे कहेंगे कि ली, बारह आना पत्ती हमारी रही और चार तुम्हारी। जो सर पकौड़ीमल कुछ नहीं-नूँहीं करेंगे, तो उनसे कहेंगे—“सर पकौड़ीमल ! चार आना कम नहीं होता, इतना ही मिलनेपर आप सब अरबपती हो जायेंगे।” मकगावन बोलेगा—“सर पकौड़ी हमारा दो सौ बरसोंका कल-कारखानेका तजुरबा है, हम दोनों एक साथ मिलकर ‘इसी’के बीस कारखाने खोलेंगे। सर पकौड़ी ! तुम रहोगे उसके बड़े डाइरेक्टर। मैं सत्तर बरसका बूढ़ा हिन्दुस्तानमें लू खाने नहीं आऊँगा। इतने रुपये आयेंगे कि धरनेकी जगह नहीं रहेगी !”

सन्तोखी—औ जो महात्माजीकी उस ओर कभी-कभी ध्यान जाय तो ?

भैया—ध्यान जायगा तो गो-सेवा मंडलके लिए एक करोड़ चंदा दे देंगे, एक करोड़ खादी फंडमें भी दे देंगे; महात्माजी इससे बेसी सेठोंसे क्या उम्मेद

रख सकते ? "सेठ भली भाँति जानते हैं कि महात्माजी उन्हें लाल भंडेवाले मजूरोंसे नहीं बचा सकते। उधर बिलायती सेठ कहेंगे, "देखो जो बहुत तीन-पाँच करोगे तो कलमभर चलानेकी देर है, पाकिस्तान अभी अलग हो जायगा, उसी तरह जैसे 'वर्माको' हमने अलग कर दिया। फिर यह पाकिस्तान ऐसा-वैसा नहीं होगा। चाहें तो पठानोंसे मिलकर वह फिर दिल्लीमें अपनी राजधानी बना लेंगे, और निखटू डरपोक हिन्दू धरती छू-छूकर सलाम करते फिरेंगे। जो इस बातको अनहोनी समझो, तो जानते हो न, मुसल्मानोंमें गरीबी बेसी है, छूत-छातका भगड़ा भी नहीं है। पिछले बारह सौ सालोंमें मुसल्मान अमीरोंने गरीब मुसल्मानोंको कभी अपना भाई नहीं समझा लेकिन कानमे सुनते आये हैं कि सभी मुसल्मान बराबर हैं। पाकिस्तानी मुसल्मानोंको बोल-सेविक बनते देर नहीं लगेगी। रूसके तीन करोड़ मुसल्मान पहिले हीसे बोल-सेविक बने हुए हैं। और देख नहीं रहे हो मुसल्मान लड़के लड़कियाँ कमनिस्त बन रही हैं। बस यही समझो कि दोनों पाकिस्तानोंमें जहीर, डाक्टर अशरफ, डाक्टर अहमद, बस ऐसे ही दिखलाई पड़ेंगे।"

दुखराम—क्यों भैया ! यह कहना भूठ ही है न !

भैया—जोंकोंका काम जहाँ भूठसे चलता है वहाँ भूठ कहती हैं, जहाँ साँचसे चलता है वहाँ साँच, लेकिन भरसक पैसा-दो पैसा भर साँच भी रखती हैं, खाली ऊपरसे कागज साटने भरके लिए। और सुनो, बिलायती सेठ हमारे सेठोंको कैसे धमकायेगे-पुचकारेंगे। हमारे सेठ कहेंगे—“नहीं साहेब ! जिन्ना कभी मुसल्मानोंको बोलसेविक नहीं बनने देगा।” मकगावन या उसका भाई कहेगा—“अभी इस बातमें तुम नाबालिग हो सर पकौड़ी ! जिन्नाकी नेतागिरी बनी रहे, वह फिर कोई परवाह नहीं करेगा। तुम जानते ही हो कि बोलसेविक बड़े चालाक हैं। फोड़ने-फाँसनेमें हमारी आँखमें धूल भोंकनेके लिए रूमनियाँ हो चाहे बलगेरिया, यूगोस्लाविया हो चाहे पोलैंड, वह सब तरहके लोगोंको बर्जियोंकी जमातमें मिलाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सभी बर्जिर उन्हींके हाथकी कठपुतली हैं। बोलसेविकोंके हाथमें दुनियाको न जानेसे बचानेका भार हमारे ऊपर है। बिलायती भाई बोझ उठानेके लिए

तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी भाइयोंको भी मदद करनी चाहिए जो दोनों पाकिस्तानोंमें बोलसेविकोंने लाल भंडा गाड़ दिया—और सर पकौड़ी ! मैं तो तुमारी सौगंध खाता हूँ, कि पाकिस्तानके अलग होते ही वह बोलसेविकिस्तान हो जायगा—तो फिर चार करोड़ मुसल्मान तुम्हारे गाँव-गाँव सहर-सहरमें फैले हुए हैं, कौन फिर हिन्दुस्तानको बोलसेविक होनेसे रोकेगा । गांधी बूढ़ा है उसको लोग बहका देते हैं । लेकिन पाकिस्तान बनने देना, न बनने देना हमारे हाथमें है । हम अपने हितके लिये, तुम्हारे हितके लिये, गीता और बाइबिल भाईके लिये किसन और ईसामसीह भगवानके लिये यह जरूरी समझते हैं, कि भारत माताके देहके तीन टुकड़े काटकर अलग न किये जायें । आओ हम दोनों हाथ मिलायें और मिलकर हिन्दुस्तानमें राज करें । अभी दस बरस तक बोलसेविकोंका बड़ा जोर रहेगा, क्यों कि तुम जानते ही हो, चाहे हम कितना ही छिपाना चाहते रहे पर दुनियावाले जानते हैं कि, रूसकी तलवारने ही हिटलरको मारा । दस बरस बाद बोलसेविकोंका खतरा कम हो जायगा, इस बीचमें हम हिन्दुस्तान और बिलायत दोनोंके कमरोंका मिलके मुकाबिला करेंगे और अपने हिन्दुस्तानी सेठ भाइयोंको दिखला देगे कि अब हमारा दिल बदल गया, हम दोनों धरम-भाई हैं ।

दुखराम—भैया जोंकोंकी माया अपरम्पार है । उनके तरकसमें कितने तीर हैं, गिनती ही नहीं मालूम होती ?

भैया—लेकिन मरकस बानाने सारे तीर गिन लिये दुक्खू भाई ! जोंकोंका जमाना खतम हो रहा है । आजके चर्चिल-अमरी और कलके उनके दोस्त-ताता-बिड़ला चाहे सर पटकके रह जायें लेकिन अब दुनियाके कमरे फिर सो नहीं सकते । तुमने ठीक कहा कि ये सब कुछ हिन्दुस्तानी कमरोंके लिये तावापर छत्र जैसा होगा ।

सोहनलाल—मुझे कम बिसवास है भैया कि बिलायती जोंकें हिन्दुस्तानी सेठोंकी भूखको पूरा कर सकेंगी, उनके डरको दूर कर सकेंगी ?

भैया—हाँ, जोंकें कभी-कभी पागल भी हो जाती हैं, और अपने तुरंतके स्वारथके सामने आगेका ख्याल नहीं करती । हिटलरको पाल पोसके बड़ा करके

उन्होंने ऐसा ही किया । हो सकता है इस बखत भी वह पागल हो जायँ लेकिन दुसमन पागल हो जायगा, इस आसरापर बैठे रहे, वह आदमी बेकूफ ही कहा जायगा ।

सोहनलाल—पागल होगी, इसका मुझे भी बिसवास नहीं है भैया, देखा नहीं, हिन्दुस्तानी सेठोंका एक आदमी सर० जे० पी० श्रीवास्तव तो पहले हीसे सरकारका मेम्बर था और जैसे ही ताता-बिड़ला खरी लिखके तैयार हुआ, तैसे ही ताताके आदमी सर अरदसीर दलालको भी बड़े लाटने सरकारका मेम्बर बना दिया । जान पड़ता है बिलायती सेठोंको पूरा बिसवास है कि अपने महुवर बाजासे हिन्दुस्तानी सेठोंकी सारी फुफुकारको बंद कर देंगे ।

दुखराम—तो सभी मौज करना चाहते हैं हम कमरोंके ही मत्थे न ?

भैया—और कौन है दुनियामें धन कमानेवाला, लेकिन १३) रोज मजूरी पानेपर भी बिलायती मजूर अपने यहाँकी जोंकोंको कुचल देना चाहते हैं तो रुपया रोजकी मजूरीपर हिन्दुस्तान कमरे कैसे चुप लगा जायँगे ।

अध्याय १४

औरतें

दुखराम—सन्तोखी भाई ! रजबली भइयवा हम लोगोंकी आँख खोल रहा है, आँख । मैं तो मुँह बंद करके भी रखना चाहता हूँ तो पेट फूलने लगता है । जहाँ भी कोई भाई मिल जाता है, तो जोंकोंका जंजाल उनके सामने कहने लगता हूँ । किसी जाति, किसी धरमका कमरा हो, बात सुनकर सबका मन हरा हो जाता है । बंधू चमार पूछता था भैया दुखू ! हम लोगोंकी भोपड़ी सुअरकी खोभारसे भी खराब है । कब हम लोगोंका दिन लौटेगा ? अबदुल मेहतर कहने लगा—हमने समझा था कि हिन्दूसे मुसलमान हो जानेपर कुछ आदमी बन जायँगे, लेकिन यहाँ भी वही बात । सबसे गंदा काम करते हैं, और जूठी रोटी भी भैया ! महमदाबादमें कोई देनेके लिये तैयार नहीं ?”

सन्तोखी—तुमने क्या कहा दुख्खू भाई !

दुखराम—मुझे जो समझमें आया वह उनसे कहा । लेकिन मैं एक दिन रजबली भैयाको ही उनके यहाँ ले जाऊँगा, तभी ठीकसे समझाते बनेगा ।

सन्तोखी—आज कौन बात सुनना चाहिये दुख्खू भाई !

दुखराम—सबके कहने लायक बात तो अब कुछ-कुछ मालूम हो गई है सन्तोखी भाई ! लेकिन औरतोंको कैसे समझाया जाय, यही बात समझमें नहीं आती ।

सन्तोखी—तो आज रजबली भैयासे यह पूछा जाय कि मरकस बाबाने औरतोंके लिये क्या रास्ता बताया और यह देखो सोहनलालके साथ रजबली भैया आ गये ।

भैया—क्या बात हो रही है सन्तोखी भाई ?

सन्तोखी—आज भैया यही बतलाओ कि औरतोंके उद्धारके लिये मरकस बाबाने क्या कहा ।

भैया—औरतोंका उद्धार बहुत जरूरी है, काहेसे कि आधी तो वही हैं । और उनको सबसे बेसी तकलीफ है ।

दुखराम—जोंकोंकी औरतोंको खाने-पीनेकी क्या तकलीफ है भैया ?

भैया—खाना-कपड़ा जब नहीं मिलता, तब आदमीको भूख-जाड़ा तकलीफ देती है । खाना-कपड़ा तो मिलता है, लेकिन दूसरा आदमी हाथ उठा कर देता है तब आदमी समझता है कि हमें दूसरेके सामने हाथ पसारना पड़ता है । और औरतको जिन्दगी भर हाथ पसारना पड़ता है ।

सोहनलाल—मेहरी तो घरकी रानी होती है भैया !

भैया—रानीके साथ महिला कहो सोहन भाई ! महिला सबदसे ही (महिला, महिरी) मेहरी सबद भी बना है, लेकिन देखते हैं न किसी सहरकी पढ़ी-लिखी औरतको मेहरी कह दिया जाय तो जल-भुन जायेंगी, और महिला कह दिया जाय, तो फूलके कुप्पा हो जायेंगी । लेकिन औरत आज दुनियामें हाथकी खरीदी दासी-लौड़ी हैं । मरद जब तक राजी है, तब तक तो दासी भी जो चाहे कर सकती है लेकिन जैसे ही मरदकी तेजरी बदली, वैसे ही रानी सिंहा-

सनसे धूलमें पटक दी जाती है। देखा न, सीताके साथ रामने क्या किया, मनमें आया, घरसे निकालकर बाघके मुँह में टकेल दिया। सीता कभी रामके लिए वैसा कर सकती थी? या रामकी इच्छा बिना सीता उनके पाखानेमें भी एक रात बिता सकती थी? साहेब लोगोंको साथ-साथ मेम घुमाते देखकर दुख्ख भाई! तुम समझते होगे कि साहेबकी मेमको बहुत अक्तियार है।

दुखराम—भैया! पहिले सच ही मैं ऐसा समझता था, लेकिन एक दिन देखा हमारे चटकलका इंजीनियर कोड़ा लेकर अपनी मेमको पीट रहा था, बेचारी चिल्लाती थी, लेकिन पास-पड़ोसमें कोई साहेब रहता तब न जाता? हम लोग कुली-मजूर थे, सोचा लुड़ाने जायँगे तो हम भी चार बेंत खायँगे।

भैया—औरत किसी समय परिवार भरकी मुखिया थी, महामाया थी, उस वक्त कोई उसे कोड़े मार सकता था?

दुखराम—नहीं भैया! वह तो जब मरद पसु पालने लगा, खेती करने लगा और कमाऊ बनकर धन जमा करने लगा, तब मेहरीका मान हेठा हो गया; आदमियोंमें धनी-गरीब होने लगे, जोंके पैदा हो गईं।

भैया—जितना ही जोंकोंका जोर बढ़ता गया दुख्ख भाई! उतना ही मेहरियोंका गला फँसता गया। बेचारियोंको देह बेंचके खानेके सिवा कोई अचलम्ब है?

सन्तोखी—देह बेंचना! क्या कहा भैया?

भैया—सन्तोखी भाई! तुम समझते हो कि देह बेंचना वेस्याका काम है। इसलिए मैंने कैसे इस बातको मुँहसे निकाला। मेरी बात कुछ कड़वी लगी होगी, और मेहरिया सुने तो और बुरा मानेगी, लेकिन बताओ वेस्या किसे कहते हैं?

सन्तोखी--जिसकी देह उस आदमीके लिए है जो पैसा दे।

भैया—रोज-रोज पैसा दे या एक दो बार।

सन्तोखी—कितने लोग भैया पैसा देके एक-दो बार वेस्याके देहके मालिक बनते हैं और हमारे राजाने तो बसंतियाको अपने घर हीमें बैठा लिया था।

भैया—वेस्या पैसा काहेको लेती है सन्तोखी भाई ?

सन्तोखी—न ले तो खायेगी क्या, पहिनेगी क्या ।

भैया—और वह कुछ बेसी पैसा लेती है सन्तोखी भाई ! काहेसे चालीस-ब्यालीस बरसमें उसकी दूकान उठ जाती है ।

सन्तोखी—उसका भी कुछ ठिकाना नहीं है भैया ! दुकान है, किसी गाहकको नकार तो सकती नहीं बीमार हो जाती है, गरमी-सुजाक बढ़ गई, तो नाक कटकर गिरने लगती है, हाथ-पैरकी अँगुलियाँ भड़ जाती हैं ।

भैया—जो अँगुलियाँ नहीं भड़ती, नाक नहीं कटी, तो भी तो आधी जिनगी रहते ही वह रोजगारसे बेरोजगार हो जाती है । जो उसने पहिलेसे कुछ पैसा नहीं बचाया तो बाकी आधी जिनगीमें क्या खायेगी, क्या पहनेगी ?

दुखराम—ठीक कहा भैया, जोंके न पैदा हुई होती तो औरतको क्यों देह बेचना पड़ता ?

भैया—दुखू भाई ! वेस्या कैसे बनती हैं इसके लिए मैं थोड़े ही दिनकी बीती एक बात सुनाता हूँ । यह खिस्सा नहीं है, सच्ची-सच्ची बात है । एक बड़ी जातिके आदमी थे, हिन्दू थे और बाम्हन क्षत्रीके बीचकी जाति । उनके घरमें पूरा धन था, जमींदारी थी, खेत थे और दस-बीस हजारका सूद-वेवहार भी करते थे । गाँवमें भी अच्छा घर था और सहरमें एक पक्का घर था । कुछ कितान पढ़ी, कुछ लेखर सुना, अरिया समाजकी बात उन्हें अच्छी मालूम हुई । उनके एक लड़की हुई, पहिली स्त्री मर गई, दूसरा ब्याह किया, उससे लड़का पैदा हुआ । भाई-बहनोंमें बचपन हीसे बहुत प्रेम था, वह जानते ही नहीं थे कि उनकी माँ एक नहीं है । बापने अरिया समाजके लेखरमें लड़कियोंके पढ़ानेकी बात सुनी थी, उन्होंने भी अपनी लड़कीको सहरकी कन्या पाठसालामें पढ़ने बैठा दिया । अब वह ज्यादा सहरमें ही रहते थे, पीछे लड़का भी इसकूल जाने लगा । लड़की पढ़नेमें बड़ी तेज थी, अपने दरजेमें हमेसा अक्ल आया करती थी । बाप भी लड़कीकी पढ़ाईसे बहुत खुस था । मैमा (सौतेली) माँ भी अच्छी औरत थी, लड़कीका सुभाव भी मीठा था । लड़की अब अंगरेजी पढ़ रही थी । उसकी उमर बारह-तेरहकी हो गई थी ।

मैमा माँ ब्याह करनेके लिए रोज कहती, लेकिन बहुत गरीब घरकी तो लड़की थी नहीं कि बेंच-बाँच देते । अपनी बराबरी या बड़े घरमें लड़का ढूँढ़ना था, और सो भी अपनी जाति-बिरादरीके भीतर । कहीं लड़का उमरमें छोटा मिलता, कहीं बूढ़ा, कहीं अपढ़ मिलता, कहीं गरीब । बाप कभी-कभी इधर-उधर नजर दौड़ा लेते थे, जब ठीक जगह नजर न पड़ती, तो धब्रानेकी जगह सोचने लगते कि चलो लड़की अभी पढ़ रही है बहुत सयानी नहीं है फिर बर ढूँढ़ लेंगे ।

सन्तोखी—ऐसा ही होता है मैया ! लड़कीवाले ही बर ढूँढ़ाईका दुख जानते हैं !

मैया—लड़कीके दरजेकी और लड़कियोंमें एकसे उसका बहुत प्रेम था । उसके घरवाले भी आर्य-समाजी थे । लड़की कभी-कभी अपनी बनिया सहेलीके साथ उसके घर जाया करती थी । लड़की सोलह सालकी हो रही थी. इन्ट्रेंस-में पढ़ रही थी । तेज लड़की देखकर इस्कूलकी अध्यापिका बहुत मानती थी । बापको भी अपनी बेटीपर बहुत गर्व था । सहेलीका भाई तभीसे लड़कीको जानता था ; जब वह आठ-नौ बरसकी थी और वह खुद तेरह-चौदहका । अब वह डाक्टरी पढ़ रहा था और डाक्टर बनकर निकलनेमें दो ही एक साल रह गये थे । बचपनमें जो अबोध बालक-बालिकाका प्रेम था, अब वह जवानीका प्रेम बन चुका था । लड़की सहेलीके घर जाती और जब सहेलीका भाई भी घर आया रहता, तो वह अबेर तक वहीं रह जाती । कभी कभी वह एक-दूसरेको चिट्ठी भी लिखते । मैमा माँको कुछ सक होने लगा, उसने पतिपर दबाव डालना सुरू किया । एकाध बार मैमा माँने लड़कीको मार पीटके घरमें भी बन्द कर दिया । इस्कूल जाना छूट गया, लेकिन बापका दिल बहुत नरम था । होनहार लड़की है फिर इस्कूल भेज देते । इसी बीचमें ढूँढ़ ढाँढ़कर उन्होंने एक बर ढूँढ़ा, वह गाँवके रहनेवाले जमींदारका घर था । लड़केकी बुद्धि मन्द थी, इसलिए बी० ए०में जाकर पढ़ाई छोड़ बैठा । लेकिन था वह गाँवारका गाँवार ।

दुखराम—पढे-लिखे भी गदहे देखे जाते हैं मैया ?

भैया—लड़कीके मनमें क्या है, इसे कौन पूछता है ? लड़की चाहती थी, उसी डाक्टर जवानसे ब्याह करना, लड़का भी उसपर जान देता था । दोनों घर अरिया समाजी थे, स्वामी दयानन्दके चेले । •

सोहनलाल—स्वामी दयानन्द तो जात-पाँत नहीं मानते थे भैया ?

भैया—नहीं मानते थे, जात-पाँत हटाना चाहते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था, कि जातकी जड़ कहाँ तक भीतर घुसी हुई है, वह समझते थे कि दो-चार लेञ्चर दे देनेसे सास्त्र-वेदके दो-च्चर बचनोके गलत-सही अर्थ कर देनेसे काम बन जायेगा । आर्य-समाजी मूर्ति-पूजाके बारेमें दो-चार जली-कटी सुनाके अब चुप थे । लड़कीके बापके मनमें यह ख्याल भी न आया होगा कि डाक्टरके साथ ही ब्याह कर दें जो उनको यह मालूम होता कि आज जो वह करने जा रहे वह, बंसको डुबा देगा, तो कभी ऐसा न करते । लड़कीका ब्याह हो गया । वह अपने पतिके घर गई । पढ़ी-लिखी सुन्दर होसियार मेहरी पाकर पतिको बहुत खुसी हुई । लड़की अपने पुराने प्रेमको भूल गई और अपने पतिको देवता मानने लगी । कुछ महीनो बाद डाक्टर जवानको ब्याह-का पता लगा, उसके दिलको बहुत धक्का लगा, उसने लड़कीके नाम एक चिट्ठी लिखी—तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम्हारे लिए मैं दिलसे चाहता हूँ कि तुम दोनों खुस रहो । लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया था, और वह प्रेम मेरे दिलसे कह रहा है कि अब यहाँ किसी दूसरेके लिए जगह नहीं है, जिनगी भर कुँआरा रहूँगा ।

दुखराम—बड़ी कड़ी परतिग्या ली भैया ! क्या उसने उसे निवाहा ?

भैया—सो नहीं कह सकता दुःखू भाई ! लड़कीने सोचा मेरा पति मुझ-पर अटूट प्रेम रखता है, वह मेरी ईमानदारीपर पूरा विस्वास रखता है । क्यों न यह चिट्ठी उसे भी दिखा दूँ । लड़कीने तो चिट्ठी इसलिए दिखलाई कि पतिका विस्वास और बढ़ेगा लेकिन उलटा असर पड़ा—उसका मन बिगड़ गया । पहिले रुखाईसे बात करने लगा और एकाध महीने बाद हाथ छोड़ने लगा । लड़कीने बापको चिट्ठी लिखी । बाप आकर लिवा गया । भैया माँ ताना देने लगी । कुछ दिनों बाद लड़कीने फिर पति हीके पास

जानेके लिए कहा । वह पतिके यहाँ गई । पाँच-दस दिन बाद फिर वही बात हुई, बल्कि मारपीट और ज्यादा बढ़ी । लड़कीको अब जीनेकी साध नहीं रह गई । उसने हाथ जोड़के कहा—मैं अब पिताके घर नहीं जाऊँगी, हम दोनोंका बच्चोंका-सा प्रेम था, ऐसे प्रेमसे कोई लड़का-लड़की बाकी नहीं है लेकिन जो आप छमा नहीं कर सकते, तो एक बात कीजिये कि मेरा गला दबाके या तलवारसे काटकर मुझे मार दीजिये, लेकिन ऐसा करनेसे आप भी फसेंगे । आप मुझे कोई जहर ला दीजिये, मैं चुपकेसे पी लूँगी और मर जाऊँगी । यह भी न हो सके तो कहीं ले जाकर मुझे छोड़ दें, मैं न फिर आपके गाँवका मुँह देखूँगी, न पिता हीके घर जाऊँगी ।

दुखराम—ऐसी बातपर तो भैया पत्थरका दिल भी पसीज जाता ?

भैया—पतिका दिल पत्थरका था और कहीं-कहीं कुछ नरम भी था । उसको हजारों बरससे सिखाया-सुनाया गया था, कि मरद-बच्चा कुछ भी करे, उसके लिए सात खून माफ है, लेकिन मेहरीको भाँकनेके लिए भी फाँसीकी सजा । आखिर उसने छोड़ आनेका निहचय किया । मैं सहरका नाम नहीं ले रहा हूँ क्यों कि लड़कीका भाई अभी जिन्दा है, क्या जाने उसको दुख हो, पुरानी घाव फिर हरियाने लगे । लड़कीको सहरमें छोड़ते वक्त उसने एक भलमनसाहतकी, लड़कीके देहपर जो दो-तीन हजारका गहना था, उसे छीना नहीं । लड़की एक कोनेमें दो-दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही, फिर बगलके एक दुकानवाले जवानको पता लगा, वह उसे खाना पहुँचाने लगा फिर उसकी सुन्दरता, उसकी जवानी और उसकी बेवसी देखकर जवानने हाथ बढ़ाया, लड़कीके लिए कहाँ दूसरी सरण थी, वह दुनियाके सामने अपनी इज्जत खो चुकी थी । उसने साँचा आखिर बँब (लताको एक पेड़का) आसरा चाहिए, चलो यही आसरा रहे । एकाध महीने रहनेके बाद उसने जवानसे कहा कि मेरे पास दो-तीन हजारके गहने हैं, यहाँ रहनेपर क्या जाने किसीको पता लग जाये, चलो हम बनारस चले चले । दोनों बनारस चले आये । वहाँ एक छोटी-सी कोयलेकी दूकान खोली । लड़कीकी सारी उमर्गे धूलमें मिल चुकी थी, अब वह रोटी बनाती, चौका-बरतन करती, जवानकी

खरीदी दासीकी तरह सेवा करती। तीन हजारके जेवर उसीके थे, लेकिन उनका मालिक मरद था। बाप अब मर गया था।

दुखराम—उसे कुछ मालूम हुआ था कि नहीं भैया ?

भैया—सो नहीं जानता दुखलू भाई ! लेकिन छोटा भाई अब सयाना हो गया था, कालिजमें पढ़ता था, वह छुट्टियोंमें बराबर इधर-उधर जाकर ढूँढ़ा करता किसी तरह उसे बनारसका पता लगा। वह उस कोयलेकी दूकान तक पहुँचा। और बिना कोई संकोच किये बहिनके चरणोंको छुआ। उसकी आँखोंसे आँसूकी धारा बह रही थी। बहनने अपनेको बहुत रोका तो भी दो-चार आँसू गिरे बिना नहीं रहे। भाईने कहा—“बहिन ! चलो”, “कहाँ चलूँ भैया ? किस घरमें मुझे ठाँव मिलेगा ?”

भाई—“तू मेरी बहन है, हम दोनों साथ रहेंगे।”

बहिन—“माँको कैसे रोकोगे, वह कभी ताना दे बैठेगी ?”

भाई—“माँसे कह दूँगा कि मुझे भी हाथसे खोना चाहती हो, तो बहनको कुछ कहना।”

बहिन—“लेकिन गाँववालोंको कौन रोकेगा ? हमारे पिताका बंस निरबंस हो जायेगा, कोई न तुम्हारा पानी पियेगा, न ब्याह करेगा।”

भाई—“हम दोनों सहरवाले घरमें रहेंगे, मुझे न अपने ब्याहकी परवाह है न किसीके पानी पीनेकी, लेकिन तुम चलो।”

दुखराम—भाई क्या हीरा था भैया ?

भैया—इसमें कोई सक नहीं भाईको उसके आगेकी तपस्याको सुनकर तुम और पहचान सकोगे। बहनने समझा-बुझाके उसे फिर आनेके लिए कहकर लौटा दिया। दूसरे साल जब भाई बनारस पहुँचा, तो वह कोयलेकी दूकान नहीं थी, आस-पासके पूछनेपर मालूम हुआ कि बनिया उसे बहुत पीटा करता था, एक दिन जो कुछ गहना बचा था, उसे लेकर चलता बना। फिर दूढ़नेपर वह मिली और मालूम हुआ कि लड़कीको गरभ था। सिगराके ईसाई मिसनमें उसे बच्चा पैदा हुआ। बच्चेको ईसाइयोंको देकर वह किसी घनी घरकी लड़कीको पढ़ा रही है। भाई फिर चलनेके लिए कहने लगा। बहिनने

बहुत मना किया कि यहाँसे जल्दी चले जाओ, नहीं तो घरवालोंको पता लगा तो यह अवलंब भी चला जायगा लेकिन भाई छोड़नेके लिए तैयार नहीं था। वह घर चलनेके लिए जोर दे रहा था। सहरमें रहेंगे। दुनियाकी कोई परवाह नहीं करेंगे। बहिनने कहा—मैं पिताके वंसको निरवंस करना नहीं चाहती। तुम्हारा ब्याह हो जाय तो मुझे ले चलना, मैं तुम्हें बचन देती हूँ।” भाई फिर लौट आया। उसने कालेजकी पढ़ाई खतम की। दूसरे साल जब बनारस गया तो लड़कीका कोई पता नहीं चला।

दुखराम—लड़कीका क्या हुआ भैया ?

भैया—घरवालोंको जब मालूम हुआ, कि मास्टरनीके यहाँ कोई जवान आकर दो एक दिन रहा है, तो उन्होंने समझा कि ऐसी औरतसे लड़कीको पढ़वाना अच्छा नहीं। बेचारीकी नौकरी छूट गई। इधर-उधर कोई अवलम्ब ढूढ़ने लगी, मगर कोई नहीं मिला। औरतके कामका कोई मोल नहीं। मोल है सिर्फ उसकी देहका जो अभी बुढ़ापा न आया हो, जो उसमें कुछ रूप हो। अभागी लड़की देह बेचनेके लिए मजबूर हुई। उसकी सारी पढ़ी पढ़ाई विद्या बेकार थी। कई बरसों बाद उसके भाईको बहिनकी एक चिट्ठी मिली। भाई अब हाकिम, डिप्टी कलक्टर, डिप्टी मजिस्टर था। उसने ब्याह नहीं किया था। बहिनने बापके वंसको निरवंस करना नहीं चाहा था, लेकिन भाईने उसका निहचय कर लिया था। चिट्ठी पाते ही भाईने छुट्टी ली। और वह एक सहरकी छोटी-छोटी खपरैलोंवाले घरोंके महल्लेमें गया। गलीकी मोरीमें मक्खियाँ भिनभिनाती थीं। यह ऐसी गली थी कि जिसमें उसकी बहिनकी तरह और भी कितनी स्त्रियाँ देह बेचकर खाती थीं। बहिन चारपाईपर पड़ी हुई थी। कभी-कभी पास-पड़ोसकी अभागिने उसे पानी दे जाया करती थीं। अब उसके पास कोई गाहक नहीं आता था, और न वह इस दिनके लिए कुछ पैसा ही जमा कर पाई थी। बहनको देखकर भाईका कलेजा फटने लगा। उसने कहा—मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खतम कर दिया। बापके वंसकी तुमको परवाह थी, वह मेरे बाद नहीं चलेगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे पहिले खबर दी होती तो यहाँ तक नौबत न आती।” बहनने

कहा—“भाई ! मैं तुम्हें पहचान न सकी, लेकिन मरनेसे पहले देख लेना चाहती थी, अब वह साध बुत गई ।”

दुखरामने आखोंमें आँसू भर कहा—भैया ! किसको इसके लिए दोस दें ?

भैया—दोस देनेकी बात पीछे कहता हूँ दुक्खू भाई ! भाईने बहिनकी दवाईके लिए डाक्टर रखे जितनी सेवा हो सकी, की, लेकिन वह तपेदिकके मुँहमें पूरी तौरसे पहुँच गई थी, वह मर गई । भाईने अपने हाथसे उस देहको जलाया, इसके बाद अपनी नौकरीसे इस्तीफा दे दिया । आज भी वह आदमी जिन्दा है और उमर भी बहुत ढल चुकी है । वह क्यों जीता है, इसका उसे पता नहीं । क्या जाने अपने हाथसे अपना प्रान लेना उसे पसंद नहीं है । उसके दिलमें अपनी बहिनकी प्यारी-प्यारी याद अब भी वैसी ही है । उसके बाद उसके दिलमें सबमे ज्यादा घृणाकी आग जल रही है, उन आदमियोंके लिए, जिनके कारन ऐसा हुआ ।

दुखराम—याने अभागिनका बाप और पति, सचमुच ही उन्होंने बहुत बुरा किया ।

भैया—वह दोनों भी अभागे थे सुक्खू भाई ! उनको दोसी ठहराकर हम असली दोसीको छोड़ देंगे । बापको यह जरूर पता था कि जात-पात बुरी चीज है । उसने इसके खिलाफ आर्य समाजमें लेक्चर सुना होगा । ऐसे भी किस्से सुने होंगे, जिससे मालूम हुआ होगा कि टूटे प्रेमका फल बुरा होता है । फिर क्यों उसने डाक्टरसे नहीं ब्याह करवाया ? ब्याह करते ही उसको अपनी जातिमें कोई जगह नहीं रह जाती । कोई उसके साथ हुक्का-पानी नहीं करता, मरनेपर कोई कन्धा देने नहीं आता । लड़केका ब्याह नहीं होता, लोग जिनगी भर सुनाते रहते कि इसने अपनी लड़की छोटी जातके यहाँ ब्याह दी । पढ़े भी थूकते, अपढ़ भी थूकते । मरद भी निन्दते, मेहरिया भी निन्दती । और दो-चार नहीं, सारे जिले और बाहर भी बदनामी होती । इसकी जगह जो उसे दो साल जेहलखानेकी सजा हो जाती, तो उसे वह बरदास कर लेता ।

संतोखी—दो नहीं दस साल भी भैया बरदास हो जाता ।

भैया—इसीलिए बेचारा डर गया । क्या करे आदमीका बच्चा है, जमातसे अलग कैसे रहेगा । सरकारी कानूनसे आदमी किसी तरह बच भी जाय, लेकिन बिरादरीके कानूनसे कौन बच सकता है । हाँ बच भी जाता है जो लोगोंसे पकड़ाई न दे । कितने ही टीका धारी हैं, जो छिपकर सराब पीते हैं, कितने ही लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके पास पैसा है । न उनका हुक्का-पानी बन्द होता है न ब्याह-सादी । विधवा-ब्याह बाग्हन, छत्री, बनियाँ कायधमें वर्जित है । जूत्र साठ बरस बूढ़ेसे हम उमेद नहीं कर सकते, तो बारह बरसकी विधवासे कैसे आशा करेंगे कि वह जिनगीभर बरहमचारिन रहेगी । जानते हो न, दुक्खू भाई क्या-क्या होता है ?

दुखराम—गुपुत संबंध हुए बिना नहीं रहेगा भैया ! जो गर्भ नहीं हुआ तो मामला ऐसे ही चलता रहता है । गर्भ हुआ तो गिराकर हांडीमें कसकर फेंक दिया जाता है और जो बस नहीं चला, तो ले जाकर बनारसमें छोड़ आते हैं । कहीं-कहीं खून भी कर डालते हैं लेकिन यह बहुत कम होता है । जातिवाले बस इतना ही चाहते हैं कि जरा-सा हलका-सा परदा रखो, सब बात नंगी न हो जाय ।

भैया—इसीलिए दुक्खू भाई, हम उस अभागिनके बापको ही सारा दोस नहीं रे सकते । वह हिम्मत करता, उसको तकलीफ होती लेकिन वह दूसरोंको रास्ता दिखाता । अब जात-पात ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती दुक्खू भाई ! भात और पानी अपनी जातमें होना चाहिए, यह जातिका कानून है न, लेकिन आज देख रहे हो न कि भात-रांटीको कोई नहीं मानता । सहरोंमें होटल खुले हुए हैं । जाकर लोग खा लेते हैं । जातिमे जो धनी हैं, सरकारी दरजा पा गये हैं, तो उनकी तो कुछ पूछो ही नहीं; वह हिन्दूके होटलमें खा सकते हैं, मुसलमानके भी होटलमें खा सकते हैं । विलायत जा सकते हैं । राजपूतोंके सिरताज जो राजा लोग हैं, उनको अंगरेजोंके साथ खानेमें कोई रोक-टोक नहीं है, न इसके लिए वह जातिसे निकाले जाते हैं, न उनकी ब्याह-सादी रुकती है, जातिका बड़ा आदमी खानेकी छुआछूत

छोड़ दे तो कोई नहीं पूछता, हॉ गरीबको सब लोग दबाते हैं, लेकिन आज के समाजमें बड़े आदमी रास्ता निकालते हैं। होटल पिछली लुड़ाईसे पहिले कहीं था ? आटा-चावल बेचनेवाले दूकानदारोंकी ही उस वृक्त, बहुत चलती थी। यह बीस बरसके भीतर ही भीतरकी बात है जो सब जगह होटल ही होटल दिखाई पड़ते हैं।

सन्तोखी—खानेकी लुआछूतको तो भैया आदमियोने उठा दिया, विरादरी-ने कान-पूछ नहीं हिलाया। और दूसरे भी अब वही बात करने लगे हैं।

भैया—बाँधमें सूई भर जानेका छेद होना चाहिए, फिर तो पानी अपने ही रास्ता निकाल लेता है।

दुखराम—सूई जाने भरको नहीं, अब तो कोल्हू जाने भरके एक नहीं हजारों छेद हो गये हैं। खानेकी लुआछूतका तो अब सवाल ही नहीं है।

भैया—ब्याहके बारेमें अभी कड़ाई है दुःखू भाई ! लेकिन रोटीकी लुआ-छूतकी तरह यह भी टिक न सकेगी। देसके सिरताज लोगोंने रास्ता सुरु किया है। बाम्हन राजगोपालाचारीकी बेटी गांधी बनियेकी लड़कीसे ब्याही गई। जवाहरलाल नेहरूकी बड़ी बहनका ब्याह दूसरी जातिवाले पंडितके साथ हुआ। छोटी बहिनने तो बाम्हन नहीं, बनियेके लड़केसे सादी की, और जवाहर-लालकी एकलौती बेटो इन्दिराने हिन्दू नहीं, पारसी लड़केसे सादी की। मुन्सी ईश्वरसरन कायस्थोंकी नाक हैं, यू० पी० बिहार दोनोंमें। वह उनके चौधरी माने जाते हैं, उन्हींके छोटे लड़के सेखरने मुसल्मान लड़कीसे सादी की।

सन्तोखी—हिन्दू बनाके किया होगा न भैया ? जैसे आर्य-समाजी करते हैं ?

भैया—हिन्दू बनाके नहीं किया है, सन्तोखी भाई ! हिन्दू लड़कीको मुसल्मान बनाके तो ब्याह बहुत समयसे होता चला आया है, लेकिन ऐसे ब्याहसे हिन्दू-मुसल्मान एक सम्बन्धमें नहीं आये बल्कि और विरोध बढ़ा। मुसल्मानोंकी देखा-देखी मुसल्मान लड़कीको सुद्ध करके आरियोंने ब्याह करना सुरु किया, इससे भी भगड़ा ही बढ़ा। ब्याह सम्बन्धसे पीढ़ियोंके भगड़े मिटाये जाते हैं, लेकिन यहाँ पीढ़ियोंके लिए भगड़े उठाये गये।

दुखराम—तो भैया ! जिसको हिन्दू-मुसल्मानमें ब्याह करना हो, उसे नाम

या धरम नहीं बदलना चाहिए यही न ?

भैया—नाम-धरम बदलनेसे फिर वह सम्बन्ध नहीं हुआ, वह तो अंगुली-को सड़ी समझकर काट देना हुआ। अब देसमें पचीसों मुसल्मान लड़कियोंने हिन्दूके साथ और हिन्दू लड़कियोंने मुसल्मानके साथ ब्याह किया। मैं उन्हें जानता हूँ। आगा-पीछा करनेवाले नक्कू होते हैं, लेकिन वही रास्ता दिखलाते हैं। पचास बरस बीतते-बीतते देखोगे कि ब्याहके मामलेको न जात-बिरादरी रोक सकेगी, न धरम। यहाँ कहनेका मौका नहीं है, मैंने सुना है कि हिन्दुओंकी पोथियोंमें जाति-धरम तोड़के हुए ब्याहोंकी बहुत-सी बातें लिखी हैं।

सन्तोखी—मूलाहिनकी लड़कीके गरभसे ब्यास पैदा हुए, वेस्याके गरभसे वशिष्ठ ऋषि पैदा हुए, चंडाल कन्यासे परासर पैदा हुए, यह असलोक तो मैं भी जानता हूँ^१ भैया !

भैया—यह सब बन्धन टूटेगा सन्तोखी भाई ! दादा-दादीके सामने होटल-का भात खानेपर भी वह कूँआ-तालाब देखने लगते, लेकिन यह काम नाती-पोताके जमानेमें सुरू हुआ जब कि दादा-दादी अँख मूँद चुके। हर पीढ़ी एक-एक कदम आगे बढ़ रही है कौन रास्तेको रोक सकता है। लेकिन देखा न, वह लड़की जो दरअसल जैसी बातकी पक्की थी, वैसी ही आचरनकी भी पक्की होती, लेकिन उसे बिरादरीने कहाँसे कहाँ तक पहुँचाया, उसे बेस्या बनाके छोड़ा। उसका पति उतना बुरा नहीं था, नहीं तो हजारोंका गहना न छोड़ता। भाईके लिए तो तुम्हीं सोचो, क्या कहोगे ?

सन्तोखी—वह देवता है भैया देवता। यह तो आप कह रहे हैं कि वह अभी जिन्दा है, तभी विस्वास होता है, नहीं तो मालूम होता था, कि कोई कथा-पुरानकी बात है।

भैया—देवता है, ठीक ! बहिन जिन्दा रही तब उसने हिम्मत भी की थी, बिरादरीकी परवाह न करके साथ रखनेकी। बहिनने बात मान ली होती, तो

^१ जातो व्यासस्तु कैवर्त्या, श्वपाक्यां तु पराशरः ।

वेश्याया गर्भं संभूतो, वशिष्ठस्तु महामुनिः ॥

वह वैसा ही करता भी । उसके बादकी उसकी जिन्दगी, तपस्या, गजबकी है । लेकिन उसके दिलमें जो आग जल रही थी, उसको जात-पातके सत्यानासमें लगाना चाहिए था । उसने अपनी अभागिन बहिनका बदला नहीं लिया, इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसने भाईके धरमका पूरी तरह पालन नहीं किया । और लड़कीके बारेमें क्या कहते हो दुक्खू भाई ?

दुखराम—औरतोंका तो मैं हाथ-पैर इतना बँधा देखता हूँ कि उनके बारेमें कुछ कहते ही नहीं बनता ।

भैया—ठीक कहा दुक्खू भाई ! औरतोंको सबसे ज्यादा पीसा गया है । पन्द्रह सौ बरसों तक उन्हें आगमें जलाया जाता रहा और एक-दो नहीं, सालमें दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह लाख ।

दुखराम—सचमुच भैया ! औरतें होलीकी तरह जलाई जाती थीं ।

भैया—हाँ, दुक्खू भाई ! इसीको कहते थे सती होना, पति मर जाता, तो विधवाको भी उसकी लासके साथ फूँक दिया जाता था ।

सन्तोखी—लेकिन भैया ! लोग तो कहते हैं कि सती अपने मनसे होती हैं ।

भैया—भूठ बोलते हैं सन्तोखी भाई ! कोई एकाध पागलपन भले ही करे लेकिन पन्द्रह सौ बरसके भीतर जो डेढ़ अरब औरतें फूँकी गईं हैं; वह सब अपने मनसे जलने गई थीं यह कहना भूठा है । आदमीको अपने परानसे बहुत प्रेम होता है । जो मरनेके लिए तैयार भी हुई होगी, वह सोकके पागलपनसे ही ! जवान औरतके लिए रँड़ापा एक-दो दिनका सोक नहीं है, उसके लिए दुनियामें सभी जगह काँटे ही काँटे बिछ जाते हैं । उसकी जिन्दगीको और भी भारी नरक बना दिया जाता है, उसका मुँह देखनेमें असगुन होता है, व्याह-सादी या मंगल काममें कोई उसको देखना नहीं चाहता । सब उसपर सक करते रहते हैं हिन्दू, हवा, पानी, पत्ता, खाकर रहनेवाले विसंवा मित्र, पारासर ऋषिसे जिस बातकी आशा नहीं कर सकते उसकी आशा वह जवान विधवासे करते हैं, तो सचमुच ही वह पानीमें बिन्हाचलने तैयार चाहते हैं ।

दुखराम—सो कैसे हो सकता है भैया ?

भैया—यह सब बातें त्रिधवा समझती हैं, इसलिए जिन्दगी भर जलते रहनेकी जगह कोई उसी वक्त मर जाना चाहती हो, तो अचरज नहीं। लेकिन डेढ़ अरबमें ऐसी कितनी रही होंगी। और जानते हो दुक्खू भाई, राजपूतोंमें छः-सात सौ बरससे लड़कियाँ जनमते ही मार डाली जाती थीं।

दुखराम—हमारे सामने ही भैया, बेलहामें लड़कीके पैदा होते ही उसके नाक-मुँहपर नाला रख दिया जाता, और कुछ छन हीमें बेचारी मर जाती थी।

भैया—अभी ऐसी जगहें हैं जहाँ लड़कियोंको मार दिया जाता है। जो माँ-बाप अपने हाथसे अपनी बच्चीको मारते हैं, उनका दिल कैसा होगा ?

दुखराम—पत्थर और लोहेसे भी कड़ा भैया ! यह तो अपने ही बच्चेको चबा जाना है।

भैया—काहे ऐसा होता है ? औरतका दुनियामें कितना मोल है। लड़की पैदा होते ही घर भरपर सोक छा जाता है, जाना पड़ता है घरका कोई मर गया।

दुखराम—और भैया लड़का होनेपर सोहर गाया जाता है, खुसी और उछाह मनाया जाता है; लेकिन लड़की होनेपर सोहरका भला कोई नाम लें सकता है। लेकिन एक बात देखकर मुझे हैरानी होती है भैया !

भैया—कौन बात है दुक्खू भाई ?

दुखराम—सोहर तो औरत ही गाती हैं, तो औरत जातिके पैदा होनेपर उनका मुँह क्यों बन्द हो जाता है और मरद जातिके पैदा होनेपर बहुत खुस हो जाती हैं ?

भैया—औरतका मोल मरदने लगाया है, औरत मरदके हाथकी कठपुतली है। हजारों बरससे औरत मरदकी गुलाम है। मालिक जो सिखाता है, गुलाम उसीको अच्छा मानता है। मरद ठीकसे बोलना नहीं जानता, तभीसे उसके मनमें ठोक-ठोककर बैठाया जाता है कि वह मरद बच्चा है। उसी वक्तसे वह अपने बहिनोंपर रोंब जमाने लगता है, औरतको जिनगी भर गुलाम

खेलनेकी सिञ्छा यहींसे दी जाती है । पाँच बरसके लड़केको गुड़िया खेलनेको दो तो वह क्या लेगा दुख्खु भाई !

दुखराम—नहीं भैया ! वह उसे फेक देगा, कहेगा कि क्या मैं लड़की हूँ ।

भैया—लड़केको हाथी-घोड़ा खेलनेको मिलता है, वह गुल्ली-डंडा खेलता है, पेड़पर चढ़ता है, तैरता है, कंधेपर लाठी लेकर चलता है, तीर-धनुही चलाता है । लेकिन लड़कीको वही गुड़िया, वही चूल्हा-चक्की ।

दुखराम—याने बचपन हीसे लड़कीको बतला दिया जाता है कि तुम्हारी जगह कहाँ है ?

भैया—मरद अकेला-दुकेला जाता हो, तो क्या कोई छेड़नेकी हिम्मत कर सकता है ? लेकिन जवान औरत चले तो किसी सड़कपर, देखो फिर सभी घूर-घूरकर ताकने लगते हैं । इतना ही होता, तब भी खैरियत थी, लेकिन वह तो मजाक करने लगते हैं और गन्दे-गन्दे । औरतको सिर्फ सिर नवाकर चले जानेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । अकेले-दुकेले मिले तो जबरदस्ती करनेसे भी बाज नहीं आते । औरतकी देहमें मरदके इतना बल नहीं होता, लेकिन जो कोई बलवान भी औरत हो, तो अपनी इज्जत बचानेके लिए बदमाससे लड़नेकी जगह भागना ही अच्छा समझेगी । औरत कायर होती हैं, यह बात नहीं है । बदमाससे लड़कर जीतनेपर भी वह बदनाम तो हो ही जायगी, उसके मुखपर कालिख पुत ही जायगी । औरत अपनी रञ्छाके लिए खुलकर जोर नहीं लगा सकती । चुप रहनेके कारन उसे अपनेको बचाना मुश्किल होता है । औरतकी यह अवस्था किसने की ?

दुखराम—मरदने भैया !

भैया—मरदने ही, लेकिन मरदोंमें भी जोके हैं मूलकारन, काहेसे कि उन्हीं हीने धनपर मरदका हक कायम किया है । औरतको पतिकी जायदादमें सिर्फ रोटी-कपड़ा पाने भरका अधिकार है । एक ही पेटसे भाई-बहिन दोनों पैदा होते हैं, लड़का चाहे कितना ही नालायक हो उसको जायदाद मिलती है, और लड़कीको पतिके घरमें दासी बनकर रहनेके लिए भेज दिया जाता है । औरतको आज निरवलम्ब बना दिया गया है । वह अपने पैरपर खड़ी नहीं

हो सकती। हजारों बरससे वह यह जुलुम सहती आई है। लेकिन यह जुलुम तभीसे सुरु हुआ जबसे जोंके पैदा हुईं। जोंकोंकी औरतें और भी बेबस हैं। यह इसीलिए कि वह अपने हाथसे कुछ कमाती नहीं।

दुखराम—उनके मरद भी तो जोंक ही हैं, वह भी नहीं कुछ कमाते ?

मैया—वह दूसरोंको लूटते हैं दूसरोंका खून चूसते हैं, उसीको वह कमाना कहते हैं। कोई बाबू दफतर में जाकर ६ घण्टे काम करता है, महीनेमें ४०) खे आता है इसे कमाई करना कहेंगे। उसकी औरत दो घड़ी रात रहे उठेगी, चक्की पीसेगी, चावल कूटेगी, चौका-बासन करेगी, खाना पकाके परोस देगी फिर बैठकर पंखा करेगी। बाबू दफतर चले जाएंगे। औरत बचा-खुचा जूठ खायेगी। फिर चौका बासन करेगी, फिर चक्की-ओखल पकड़ेगी। लड़कोंको खिलाना, पोसना-पालना सब औरतके ऊपर है, मरदके ऊपर इसका कोई भार नहीं है। सामको खुद जलपान बनायेगी, फिर रसोई पकायेगी, फिर बेनिया डोलायेगी। मरदको दफतरसे लौटकर फिर कोई काम नहीं। औरत ६ घरी रात तक बराबर खटती रहेगी। फिर उसे पतिका पैर दबाना पड़ेगा। दो घड़ी रातसे आधी रात तक औरत खटती रहती हैं, लेकिन उसके कामकी कोई गिनती नहीं और मरद ६ घण्टे काम कर लेता है। तो समझता है कि वही कमाकर घर भरको खिला रहा है। देखो दोनोंमें कितना फरक है क्या इसको न्याय कहेंगे।

दुखराम—है तो मैया यह पूरा अन्याय।

मैया—मरद औरतको गुलाम बनाके अपने घरमें लाता है और इसको कहते हैं, ब्याह। बाप लड़कीके लिए बर दूँदता है किस लिए ? इसीलिए कि लड़कीको रोटी-कपड़ेका कोई अवलंब मिलना चाहिए। मरदको अवलंबकी जरूरत नहीं, क्योंकि बापकी सब जायदाद उसको मिलती है, वह दूकान खोल सकता है, दफतरमें काम कर सकता है, उसके कमानेके सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन औरतके लिए सारे रास्ते बन्द हैं, इसलिए उसे खाना-कपड़ा देनेवाला कोई चाहिये। खाना-कपड़ा हीको पैसा कहते हैं न दुक्खू भाई !

दुखराम—हाँ मैया ! पैसे हीसे न खाना-कपड़ा मिलता है ?

भैया—तो इसका मतलब हुआ ब्याह भी पैसेके लिए औरतका देह बेंचना है। दूसरे देह बेंचनेमें और इसमें यही अन्तर हुआ न कि यह बेच-खरीद जिन्दगी भरके लिए है। इसे प्रेमका सौदा नहीं कह सकते दुखू भाई ! यह साफ पैसेका सौदा है।

दुखराम—तो क्या भैया ! ब्याह करना ही बुरा है ?

भैया—मैं ब्याह करनेको नहीं बुरा कहता दुखू भाई ! लेकिन ब्याहके नामपर पैसेका सौदा होना औरतकी बेइज्जती समझता हूँ। ब्याहकी नींव प्रेमपर होनी चाहिए, और प्रेम दो बराबर आदमियोंमें होता है। खरीदी दासी और मालिकमें प्रेम नहीं होता। औरत तब तक बराबर नहीं हो सकती जब तककी कमानेमें माँ-बापकी जायदादमें उसका बराबरका हक नहीं होता।

संतोखी—सुनते हैं भैया ! बड़े लाटके यहाँ कानून बननेवाला है जिसमें कि औरतको जायदादमें हक मिले।

दुखराम—तुमने कहाँ सुना संतोखी भाई !

संतोखी—परसों हाटमें सभाकी नोटिस बँट रही थी।

दुखराम—नोटिसमें क्या लिखा था संतोखी भाई ?

संतोखी—लिखा क्या था, लो न नोटिस देख लो —

हिन्दू अप्रदत्त उत्तराधिकार बिल विरोध सभा

धार्मिक हिन्दू जनताकी ता०.....१९४४ वार को स्थान..... में हिन्दू समाज नाशक उत्तराधिकार बिल एवं विवाह विषयक बिलके विरोधमें सभा होगी, जिसमें बाहरके आये हुए विद्वानों एवं स्थानिक सज्जनोंके भाषण होंगे। उक्त बिलोंसे हिन्दू समाजपर कितनी बड़ी कठिनाई तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था होनेवाली है, इसका पूर्ण परिचय देंगे। अतः धार्मिक सज्जनोंसे निवेदन है कि सभामें अपने इष्ट-मित्रोंके साथ अवश्य पधारे।

निवेदक—'

दुखराम—यह तो भैया ! संसकिरतमें कुछ लिखा हुआ है कुछ समझमें नहीं आता ।

भैया—यही लिखा है कि सरकार औरतको जायदातमें हक देनेका कानून पास कर रही है, इसके खिलाफ सभी हिन्दुओंको विरोध करना चाहिए, नहीं तो हिन्दू धरम रसातलको चला जायगा ।

दुखराम—देहमें आग लग गई भैया, यह हिन्दू धरम है कि निसाचर धरम है, जो अपने माँ-बहिनको हक देनेमें धरमके रसातल जानेकी बात करता है । संतोखी भाई ! चाहे तुम नराज हो जाओ, मैं तो कहूँगा कि ऐसा हिन्दू धरम चार दिनके बाद नहीं इसी छन रसातलमें चला जाय तो मुझे बड़ी खुसी होगी ।

भैया—हिन्दुस्तानमें ३० करोड़ हिन्दू हैं, उसमें आधी १५ करोड़ औरते हैं, कभी उन औरतोंसे भी इन धरमवालोंने पूछा, कि तुम्हें जायदात मिलनी चाहिए कि नहीं ।

दुखराम—उन बेचारियोंको तो मालूम भी नहीं है, यह पीठमें छुरी भोंकना है । जो वह समझ पाये, तो मरदकी सब जायदाद और कमाई ताकपर रखी रह जायगी एक ही दिन १५ करोड़ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया, तो सभा करनेवालोंको आटा-चावलका भाव मालूम हो जायेगा ।

भैया—लेकिन दुक्खू भाई ! औरतें हमेशा भेड़-बकरी नहीं बनी रहेंगी । पट्टी लिखी औरतें जगह-जगह सभा कर रही हैं और कह रही हैं कि लड़के आदमीके पेटसे निकलते हैं और लड़की क्या इमलीके खोदरसे निकलती हैं ।

संतोखी—जहाँ-तहाँ भैया ! कसाई सब औरतोंसे अँगूठेका निसान लगवा रहे हैं ।

भैया—काहे वास्ते संतोखी भाई !

संतोखी—समझा रहे हैं कि जो कानून पास हो गया तो सब जायदाद लड़कियाँ ले जायेंगी और लड़के भीख माँगते फिरेंगे ।

भैया—सब जायदात तो देनेकी बात नहीं संतोखी भाई ! हजारों बरसोंसे हिन्दू मरदोंने जो उनका हक छीन लिया है, बस उतने हीके देनेकी बात है । मुसलमानोंके यहाँ लड़कीके लिए हक मिलता है, ईसाईके यहाँ भी लड़कीको

हक मिलता है, उनका धरम तो रसातल नहीं गया तो हिन्दू मरद इतना क्यों छुटपटा रहे हैं ।

दुखराम—यह हिन्दू धरम क्या है भैया ! यह तो जान पड़ता है कि आदमीके देहका कोढ़ है । लेकिन यह कितने दिनों तक रोकेंगे ?

भैया—तो मालूम हुआ न, औरतोंपर कितना जुलुम हो रहा है । मरकस बाबाकी शिक्षा है कि मरद और औरत गाड़ीके दो पहिए हैं, जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक गाड़ी चल नहीं सकती । दुक्खू भाई ! हम जोकोंको खतम करनेके लिए तैयार हैं, इसीलिए न कि आदमी-आदमी बराबर हों । आदमी-आदमीके बराबर होनेपर औरतोंको गुलाम नहीं रखा जा सकता । औरतको आगमें जलाना भी हिन्दू धरम कहलाता था । औरतकी देहको रोटी-कपड़ेके लिए बेचना भी हिन्दू धरम कहला रहा है । बराबरका हक होगा, तब औरतको देह बेचना नहीं होगा, सभी दुनियाका नरक मिटेगा ।

अध्याय १५

“हरिजन” या सबसे अधिक सताये आदमी

दुखराम—भैया तुमने उस दिन जो औरतोंकी गुलामीके बारेमें कहा था, उसपर मैं बहुत सोचता रहा, लेकिन उसी तरहकी और कुछ बातोंमें उनसे भी सताई जमात है उन लोगोंकी जिनको बड़ी जाति अछोप, अछूत, कहते हैं ।

भैया—और उन्हींको गांधीजीने नया नाम दिया—‘हरिजन ।’

दुखराम—मैंने सोचा अबदुल और सुखारीको साथ लेकर बात करो तो और अच्छा होगा । मैं उनसे मरकस बाबाकी बातें करता रहा हूँ, और अभी तो वह दुनिया कहाँ है, इसका कहीं पता नहीं है, तो भी बात सुनके ही दोनों तुमसे भेंट करनेके लिए आना चाहते थे । मैंने उनसे कहा कि रजबली भैयाको मैं तुम्हारे ही घरपर लाता हूँ, वही सामने है अब्दुल भाईकी भोंपड़ी, देखते हैं न, क्या यह आदमीका घर है ? हिन्दू भंगी होता, तो बगलमें एक सुअरकी खोभार भी होती और दोनोंमें कोई फरक नहीं दिखाई पड़ता । अच्छा

अब हम आ गये, अब्दुल भाईने आमके नीचे पुआल बिछा दिया । सलाम अब्दुल भाई !

अब्दुल—सलाम दुखू भाई ! और यह रजबली भैया तो नहीं हैं ?

दुखराम—हाँ, यही हमारे रजबली भैया हैं । सलाम सुखारी भाई !

सुखारी—सलाम दुखू भैया, सलाम रजबली भैया ! आओ इसी पुआल-पर बैठे ।

अब्दुल—हाँ, भैया ! बैठो । जोंकोने हमें और किस कामके लायक छोड़ा है । यह तो थोड़ा-सा कोदोका पुआल कहींसे माँग-जाँचकर ले आये हैं । जाड़ेमें लड़के-बाले इसीमें घुसकर दिन काटेंगे ।

सुखारी—पुआल भी मिल जाय भैया ! तो जनुक हम लोगोंको साल-दुसाला मिल गया ।

दुखराम—हमारे ही हाथ साल-दुसाला बनाते हैं लेकिन भकुवा बनाकर दूसरे उसे पहिनते हैं । हमने अपने रूपको नहीं पहचाना सुखू भाई ! कोई बाघका बच्चा था । बचपन हीमें किसी गड़रियेने पकड़ लिया और भेड़-बकरीका दूध पिलाकर पोसा । जब वह बढकर पूरा बाघ हो गया, तब भी कोई उसका कान पकड़ता, कोई मारता, जैसे अब भी कुत्ते हीका पिल्ला है । फिर किसी दूसरे बाघने देखा उसको बड़ा अचरज हुआ और अफसोस भी हुआ । जब वह समझानेके लिए उसके पास गया तो सब भेड़-बकरियाँ भाग गईं, और उन्हींके साथ वह बाघका बच्चा भी भाग निकला । कई दिनके बाद बाघने जवान बाघको पकड़ पाया । बाघ समझाने लगा कि तुम भी हमारी तरह बाघके बच्चे हो, काहे मार खाते हो, काहे बेइज्जत होते हो ! बाघ बच्चेने कहा—कि नहीं हमको छोड़ दो नहीं तो गड़रिया मार-मारकर बेदम कर देगा । बाघ उसे पानीके पास ले गया, परछाईं दिखाके कहा कि देखो तुम्हारा भी रूप मेरे ही ऐसा है । बाघ बच्चेने देखा तो बात उसे सच्ची मालूम हुई लेकिन तब भी उसका डर नहीं जा रहा था । बाघने कहा कि गड़रियेके सामने मेरी तरह जरा गुराँना और जब गड़रिया जान लेके भाग जाय तब तो मेरी बात मानोगे न ? बाघ बच्चेने वैसे ही किया, गड़रिया भाग गया । बाघ बच्चा

जंगलका राजा बन गया । वही बात तो है सुक्खू भाई ! हम लोगोंकी । हजार आदमी मर-मरकर कमाते हैं और पाँच जोके सब खा जाती हैं, कमानेवालोंको उन्होंने छत्तीस खोममें बाँट दिया है उसपरसे हम लोगोंको भेड़ बना दिया । लेकिन जिस दिन हम लोग अपना रूप पहचान लेंगे, उसी दिन जोकोंका अन्त समझो ।

सुखारी—दुक्खू भाई, जो तुम कहते हो, वह सब हमारे घटके भीतर उतर जाती है । छोटा भइयवा सुआरथ काल्ही तो यहाँसे गया है । पलटनमें सिपाही है भैया ! वहाँ अच्छा-अच्छा पहनना मिलता है दुक्खू भाई ! तुमने जो दो अच्छर बताया है उसे सुआरथसे भी कहा । उसने कहा कि रूसके पलटन इतनी वीर दुनियामें कहीं नहीं है लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि रूसमें जोके नहीं हैं, वहाँ कमेरोका राज है ।

दुखराम—तो तुमने कुछ बताया कि नहीं सुक्खू भाई ?

सुखारी—जो कुछ समझमें आता है, वह बतलाया दुक्खू भाई ! कह रहा था कि मैं पलटनमें जाकर और पता लगाऊँगा । अच्छा यह बात तो हुई अब रजबली भैया कुछ बतावे ?

भैया—दुनिया भरमें सुक्खू भाई जोकोंका राज है, जोके कारखाना खोलती हैं, सौदा बँचती हैं, जिसमें कोई गड़गड़ न करे इसलिए राज भी अपने हाथमें रखा है । गरीब सब जातिमें हैं सुक्खू भाई ! बाँभनमें भी गरीब हैं, रजपूतमें भी गरीब हैं, भुइहारमें भी गरीब हैं, जो गरीब हैं, उसकी जिन्दगी नरक है, धरतीपर हमारा देस सबसे बड़ा नरक है काहेसे कि इतनी गरीबी चारों खूँटमें कहीं भी नहीं है । और बड़ी जातियोंमें तो दो-चार खुसहाल भी होते हैं, लेकिन अछूत जातिमें तो एक ओरसे सभी गरीब ही गरीब हैं । मदरसामें पढ़ने जायँ तो सबकी तिउरी चढ़ जाती मेहतरका लड़का हमारे लड़केके साथ बैठा करे । चमारका लड़का हमारे लड़केके साथ पड़े । रोजगारसे लोगपैसा पैदा करते हैं, लेकिन अब्दुल भाई ! तुम मिठाईकी दूकान खोलो तो कोई आयेगा ।

अब्दुल—देह तो छुआते ही नहीं हैं भैया ! हमारे हाथकी मिठाई कौन खायेगा ? कपड़ाकी दूकान खोलो तो वही बात । नौकरीमें तो और मुस्किज ।

सब बड़ी-बड़ी जातियोंके हाथमें है ।

मैया—जोंकोने वैसे तो सारी दुनियामें सब कुछ अपने हाथमें रखा लेकिन हिन्दुस्तानमें तो उन्होंने और गजब ढाया है । तीस करोड़ हिन्दुओंको ही ले लो । दस करोड़ अछूत है, बड़ी जातिवाले जो उन्हें आदमी कहते तो उनको बड़ी दया करते हैं बाकी बीस करोड़में दस करोड़ औरते हैं जिनको कहनेके लिए तो अरधागिनि नाम दिया जाता है लेकिन कहावत है—“बहुरियाका बहुत मान लेकिन हाड़ी-बरतन छूने न पाये ।” दुख्ख भाई ! उस दिन बात हो रही थी न जायदातमें औरतोंका भी हक होना चाहिए ?

दुखराम—हाँ मैया ! सन्तोखी भाईने जो सभाकी नोटिस दिखाई थी ।

सुखारी—किस बातकी नोटिस थी मैया ?

मैया—आजकल बड़े लाटके यहाँ एक कानून बनानेकी बात हो रही है । औरतोंको न बापकी जायदातमें हक मिलता है न पातकी । इसीलिए कानून बना देना चाहते हैं कि औरतोंको भी हक मिले लेकिन हिन्दू कहते हैं कि औरतोंको हक मिलनेसे हिन्दू धरम खतम हो जायगा । हिन्दू धरम बढ़ेगा कैसे ? दस करोड़ आदमियोंको अछूत रखो उनको न साथमें पढ़ने दो न उन्हें कुयेंकी जगतपर चढ़ने दो, न मन्दिरके भीतर घुसने दो, एक है यह रास्ता । दस करोड़ औरतोंको कोई हक मत दो जिससे वह मरदोंकी दासी बनी रहें हिन्दू धरमकी बढ़ोतरीका यह दूसरा रास्ता है ; बीस करोड़को तो इस तरह जानवर बना फिर दस करोड़ हिन्दू आदमी रह जाते हैं । लेकिन उस दस करोड़में कितने ही बाम्हन हैं, जिनका दिमाग आसमानपर रहता है वह अपनेको बर्म्हाका बेटा कहते हैं, कुछ हैं राजपूत, फिर हैं खत्री, अगारवाल, बरनवाल, रस्तोगी, कायथ, और भी पचासो जातियाँ हैं, सबकी अलग-अलग दुनिया है, मरना-जीना, सादी-ब्याह सबका अपनी-अपनी जातिमें । हिन्दू सिरिफ एक नाम है, नहीं तो यह सैकड़ों जातियोंका अपना अलग संसार । तो देख रहे हो न सुख्ख भाई, ३० करोड़ औरत और अछूत कहकर जानवर बना दिया । फिर १० करोड़को सैकड़ों जातियोंमें तोड़-फोड़कर बिल्कुल कमजोर कर दिया । इससे फायदा किसको हुआ ? बाहरबालोंको । घर फूटै गँवार लुटै, आज बिलायती

जोंके हिन्दुस्तानपर राज कर रही हैं क्यों ? इसीलिये कि हिन्दुस्तान फूटके कारन दुरबल है और दुरबलकी मेहरी गाँव भरकी भौजाई है । और दूसरा नफा उठानेवाला है हमारे देसके निकम्मे लोग, जोंके जो हाथ-पैर हिलाना नहीं जानतीं, जो दूसरोंका खून चूसती हैं, किसान उनके लिये अनाज पैदा करता है, मजूर उनके लिये कपड़ा बुनता है ।

दुखराम—इन्ही-जोंकोंने क्या भैया जात पात बनाई है क्या ?

भैया—एक कहावत है दुक्खु भाई—जब गंगा हहाके समुन्दरके पास पहुँची तो समुन्दरको बड़ा डर लगा उसने सोचा जो गंगा इतने जोरसे चलेगी तो मुझे भी लाँघ जायेगी । उसने हाथ जोड़के कहा—“गंगा महारानी । एक बातका बरदान माँगता हूँ एक धारासे आनेपर मुझे बहुत तकलीफ होगी आप हजार धारा बनकर आयें तो मुझपर बड़ी दया होगी । गंगा हजार धारा बन गई, उसका जोर हजार टुकड़ोंमें बँट गया और कहते हैं इसीलिये समुन्दर गंगाको खा गया । हमारा देस भी वैसे ही है । हजारो जालियोमें बँटा है इसीलिये हमारे यहाँकी जोंके हजारों बरससे हमें खा रही हैं, हमारे लिये ये जोंके मजबूत हैं लेकिन यह भी हजारों टुकड़ोंमें बँटी हैं, इसलिये बिलायती जोंके हिन्दुस्तानमें पहुँच गईं । तुमसे सुक्खु भाई पूछा जाय कि तुम तो इतना काम करते हो । बड़े भौरै ही हल नाधते हो, बरसा हो या जाड़ा हो या गरमी हो कुछ नहीं गिनते ! अढ़ाई पहर तक खेतमें हर जोतते हो, जमीन खोदते हो, खेत काटते हो, और मिलता तुम्हें क्या है ?

सुखारी—चार पैसा, और पाव भर पन पियाव, नकुल । चार पैसाके साँवामें भी आज-कल पेट नहीं भरता, क्या अपने खायें और क्या बाल-बच्चेको खिलायें, सबकी हड्डी-हड्डी निकली हुई है । परसाल १२ बरसका लड़का भुक (मर) गया ।

भैया—१२ बरसका लड़का मरनेके लिये नहीं पैदा हुआ था सुक्खु भाई ! जिसको आध पेट भी भोजन नहीं मिलेगा, उसको तो बीमारी ढूँढ़ती ही रहती है । खानेका ठिकाना नहीं है तो दवाई कहाँसे लाके पिलाओगे ?

भैया—आज-कल भी भैया आठ सालका गद्रेला (लड़का) महीना भरसे

जड़यामें पड़ा है। बस भगवानपर छोड़ दिया और क्या करें। पहिले चार पैसेकी कुनैनकी पुड़िया मिलती थी तो कहींसे माँग-जाँचकर खरीद लाते थे। लेकिन अब तो उसका कहीं पता ही नहीं है।

भैया—यह आदमीकी जिन्दगी नहीं है सुक्खु भाई, दो सौ पीढ़ीसे तो भगवानपर छोड़ा, लेकिन भगवानने आज तक तुम्हारी ओर भाँका भी नहीं।

सुखारी—सो तो जानता हूँ भैया ! लेकिन जब आदमीका कुछ भी नहीं चलता तो क्या करे ? सुनते हैं गांधी महातमा हम लोगकी सुध ले रहे हैं।

भैया—अपनी सुध न लोगे सुक्खु भाई तो कोई तुम्हारी सुध न लेगा। हिन्दू और गांधीजी भी जो हरिजन-हरिजन कहने लगे तो इसमें भी दूसरा ही मतलब है।

दुखराम—दूसरा मतलब क्या है भैया और हरिजन क्या ?

भैया—हरि भगवानको कहते हैं और जनका माने है आदमी, भगवानका आदमी, नाम तो अच्छा है, लेकिन नामसे कुछ नहीं होता।

दुखराम—एक खिस्ता सुना दें किसी लड़केका नाम ठठपाल था, अच्छा नाम रखनेसे जम उठा ले जाता था इसलिये मतारीने खराब नाँव रख दिया। लड़का पढ़के हुसियार हुआ। दूसरे लड़के ठठपाल कहके मजाक करते। उसने अपने गुरुसे कहा कि मेरा नाम बदल दें। गुरुने कहा—‘नाममें कुछ नहीं है’ ठठपालने फिर-फिर जोर देकर कहा तो गुरुने कहा जाओ तुम्हों कोई अच्छा-सा नाम ढूँढ़ लाओ। ठठपाल नाम ढूँढ़ने चला। किसी खेतमें फटे चीथड़े लपेटे कोई औरत पिछुआ (छूटा दाना) बीन रही थी, ठठपालके पूछनेपर उसने अपना नाम लछमिनिया बताया। ठठपाल सोचने लगा कि लछमिनिया ऐसा अच्छा नाम है, लेकिन इससे उसे क्या नफा है ? ठठपाल और आगे बढ़ा, चैत-बैसाखकी दुपहरियामें कोई आदमी नंगे बदन हल जोत रहा था, पूछनेपर नाम बताया धनपाल। ठठपाल फिर सोचने लगा। लेकिन, फिर आगे बढ़ा। कुछ आदमी कन्वेपर मुर्दा उठाये “राम नाम सत्त है” कहते गाँवसे बाहर निकल रहे थे। ठठपालने नाम पूछा तो मालूम हुआ अमर ! ठठपाल वहींसे गुरुजीके पास लौट आया। गुरुने पूछा—कोई नाम ढूँढ़ लाये ? ठठपालने

कहा—“बिनियाँ करत लछमिनिया देखा, हल जोतत धनपाल । खटिया चढे हम अम्मर देखा, सबसे भला ठठपाल ॥”

दुखराम—हाँ, नाम बदलनेसे क्या होता है मैया ?

मैया—और नाम भी कैसा बदला है हरिजन, भगवानका आदमी । भगवानने अछूतोंकी ओर फूटी आँख भी कभी देखी ? जुँके अपने सारे चूसनेको भगवान हीकी कृपा बतलाती हैं । सुखारी क्यों भूखे मरते हैं ? भगवानकी कृपा, सुखारीका १२ सालका लड़का पथ और दवाईके बिना क्यों मर गया ? भगवानकी मर्जी । सालमें १० महीना सुखारीको क्यों भूखा और आधा पेट रहना पड़ता है ?—भगवानकी इच्छा । इनके दो करोड़ चमार भाई काहे नंगे-भूखे मरनेके लिये पैदा हुये है ? भगवानकी खुसी ! राजा सुरेमनपुर काहे २० लाख रुपया हर साल आतिसबाजी, रंडी और मोटरपर फूकते ?—भगवानकी दया । सेठ तिनकौड़ीमल मोटाईके मारे चारपाई परसे उठ भी नहीं सकते । उन्होंने चोर बाजारमें अनाज बँचकर एक करोड़ रुपया काहे मार लिया ?—भगवानकी दया । सेठ तिनकौड़ीमलके भाई-बन्दोंने अनाज छिपाके उसे महँगाकर बंगालमें २० लाख आदमियोंको भूखा क्यों मार डाला ?—भगवानकी दया । कोई काम करते-करते मर जाता, लेकिन उसे एक साँभ भी पेट भर अन्न न मिलता, यह भी भगवानकी दया । किसाके कुत्ते हलुवा-मलीदा खाते हैं और कोई भूखके मारे कुत्ताका जूठ छीनके खाता है यह भी भगवानकी दया ।

दुखराम—जिनके कुत्ते घी-मलीदा खायँ वह भले ही भगवानकी दयाकी तारीफ करते फिरें, लेकिन जिनके ऊपर भगवानके नामने हमेसा ही वज्र गिराया है, वह काहेको भगवानके आदमी बनने जायँ ?

मैया—गांधीजीने अछूतोंको हरिजन—भगवानका आदमी बनाया और एक काम और किया ।

सुखारी—सो क्या है मैया ?

मैया—हरिजनोंके लिए मन्दिरका दरवाजा खोल देना चाहिए । जब हरिजन हैं तो इनको हरिका दरसन जरूर मिलना चाहिए । लेकिन बाभन पोथी खोल-खोलके दिखाते फिरते हैं कि चमारके मन्दिरके भीतर जानेसे मन्दिर

असुद्ध हो जाता है, भगवान असुद्ध हो जाते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ दुक्खू भाई कि क्या हिन्दुस्तानमें गायका गोबर और मूत नहीं है, क्यों नहीं खिला-पिलाके भगवानको सुद्ध कर लेते।

दुखराम—चमारके लिए मन्दिरका दरवाजा खोल देनेसे उसका पेट भर जायगा ?

भैया—डाक्टर अम्बेडकर भी यही कहते हैं दुक्खू भाई !

दुखराम—डाक्टर अम्बेडकर कौन हैं भैया ?

भैया—बम्बईकी ओरके चमार । पढ़नेमें बहुत तेज थे, किसी तरहसे तकलीफ सह-सहके दो अच्छर पढ़ा फिर किसीने रुपयेकी थोड़ी मददकी बिलायत गये बलिस्टर हुए, डाक्टर बने—दवाईवाले डाक्टर नहीं, विदावाले डाक्टर । हिन्दुस्तान आये । वकालत करने जायँ तो धन तो है बढ़ी जातिवालोंके पास और चमारको कौन बलिस्टर रखेगा । कचेहरीके हाकिम बने, तो सब बढ़ी जातिवाले सरकारका सिर खाने लगे कि हम चमारके इजलास में नहीं जायेंगे । अम्बेडकरके भाई-बन्दोंको हजारों बरससे जानवरकी तरह रखा गया, वे बढ़ी जातिवालोंके सामने न छाता लगाके निकल सकते हैं, न जूता पहिन करके । लेकिन उनको कभी भी इसका दिलमें ख्याल नहीं आया, वह समझते हैं भगवानने हमें इसीलिए पैदा किया है । लेकिन अम्बेडकरने विदा पढ़ी थी, दुनियाके देस देखे थे, वह ऐसे अपमानको चुपचाप बरदास नहीं कर सकते थे । उन्होंने अपने चमार भाइयोंको समझाया और सभी अछूतोंको समझाया कि हम आदमी हैं कुत्ता-बिल्ली नहीं हैं जो हिन्दुओंके धरममें हमें कुत्ता-बिल्ली बनाके रखनेकी बात लिखी है तो हम ऐसा धरम नहीं चाहते । भगवानको हमने देख लिया जो वह २०० पीढ़ीसे हमारे नहीं हुए तो अब वह कभी हमारे नहीं होंगे ।

सुखारी—तो भैया ! अम्बेडकर हमारी ही जातिके आदमी हैं, वह भी इस दिहातमें चले आवें, तो भितौराके राजा साहब जूता-छाता पहनकर नहीं न चलने देंगे ?

भैया—अम्बेडकर बड़े लाटके मन्त्री हैं । भूठी खबर भी उड़ जाय कि

अम्बेडकरकी मोटर भिठौरासे होकर जायगी, तो यहाँ सड़कके किनारे फाटक बनेंगे और लाल-पीली भंडियों, असोकके पल्लवोंसे सजाया जायगा, राजा साहब हाथ जोड़कर अगवानी करेंगे और चाय-पानी कर लेनेपर अपना धनिभाग समझेंगे ।

सुखारी—तो भैया ! अम्बेडकर बड़े लाटके मंत्री हो गये, तो उनकी जाति टँक गई न ?

भैया—जोंकोंका कायदा है सुखू भाई कि जब किसीको बढ़ा देखते हैं तो अपनी ओर खींचना चाहते हैं जिसमें कि वह आदमी भी जोंकोंका पच्छ करे नहीं तो खून चूसनेमें मुसकिल होगी न ?

सुखारी—क्या अम्बेडकर हम गरीबोंको भूल जायेंगे ?

भैया—भूले तो नहीं हैं सुखू भाई, वह तो दसो करोड़ अछूत भाइयोंको जानवरसे आदमी बनाना चाहते हैं । लेकिन दसो करोड़ आदमी अपने मनसे जानवर नहीं बने, जोंकोंने उन्हें जानवर बनाया ।

सुखारी—किस तरह हम लोगोंको आदमी बनाना चाहते हैं भैया ?

भैया—कहते हैं हिन्दुओंमें एक तिहाई अछूत हैं, उनको भी बड़ी-बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए । काहे जज, कलट्टर, मजिटर सब बड़ी-बड़ी जातके ही लोग बने हैं । हम एक-तिहाई हैं इसलिए नौकरीमें एक-तिहाई हमारा हिस्सा होता है ।

सुखारी—तो भैया, क्या हमारी जातिमें भी अब कलट्टर-मजिटर बन रहे हैं ?

भैया—हाँ, दस-बीस काहे नहीं बने हैं । लेकिन सुखू भाई जो तिहाई नौकरी मिल जाय तो यह भी ऊंटके मुँहमें जीरा होगा । दस करोड़में एक हजार नौकरी मिल जानेसे दसो करोड़की भूख भाग जायगी ?

सुखारी—कहाँ भागेगी भैया ! रजपूत-बाभनमें हजारो नोकरियाँ हैं लेकिन हर गाँवमें तो पेटमें पत्थर बाँधके देला पीटनेवाले भरे पड़े हैं ।

भैया—मैं यह नहीं कहता, अछूतोंको नौकरी नहीं लेना चाहिए लेकिन ओसके चादनेसे प्यास नहीं बुझेगी सुखारी भाई !

सुखारी—और भी कोई रस्ता बतलाते हैं भैया ?

भैया—राज-काज चलानेके लिए जो छोटे लाट बड़े लाटकी पंचायत (एसेम्बली, कौंसिल) है, उसमें भी एक-तिहाई हमारे भाइयोंको जाना चाहिए ।

सुखारी—तो इससे भैया हम लोगोंको रोटी-कपड़ा मिलने लगेगा ?

भैया—बड़ी जातिके लोग तो पंचायतमें गये हैं । देख रहे हो न उनकी जातिके ढेला फोड़नेवालोंको कितना खाना-कपड़ा मवस्सर हो रहा है ।

सुखारी—तो यह भी बेकार ही हुआ न भैया ?

भैया—बेकार नहीं है सुक्खू भाई, अछूतोंको उस पंचायतमें जाना चाहिए, तभी न बड़े लोगोंको मुँहतोड़ जवाब मिलेगा और फिर छाता-जूता उतरवानेका नाम नहीं लेंगे । लेकिन सीक बोरके पानी देनेसे कंठ नहीं भीगेगा सुक्खू भाई !

सुखारी—तो भैया, कौन उपाय है, जिससे हम लोगोंका दुख-दलिद्वर जाय ?

भैया—बस रोगोंकी एक ही दवा है सुक्खू भाई और वह दवा मरकस बाबा बतला गये हैं ।

सुखारी—मरकस बाबाकी बात दुक्खू भाईने बतलाई है ।

भैया—ताल-तलैया, डबरा-गड्ढा, चाहे गड्ढा-गड्ढी, चाहे गाय-भैंसके खुरका दाग; एक-एक चीजको लोटाके पानीसे भरनेमें जिनगी ब्रीत जायगी लेकिन वह नहीं भरेंगे और एक बेर बाढ़ आ जाय, तो सब भर जायेंगे । मरकस बाबा कहते हैं कि खून चूसनेवाली सभी जोंकोंको निकाल बाहर करो और खेती-बारी, बाग-बगैचा, खान-कारखाना सब साभेमें कर लो, बस सबका दुख-दलिद्वर दूर हो जायगा ।

सुखारी—अम्बेडकर यह नहीं मानते भैया !

भैया—अम्बेडकरको बाढ़के आनेपर विस्वास नहीं ।

सुखारी—बाढ़के आनेपर विस्वास नहीं है तो क्या लोटा-लोटा पानीसे भर देनेका विस्वास है, यह तो और अनहोनी बात है ।

भैया—वह सोचते हैं, कि अबकी साल सौ नौकरी मिलेगी अगले साल दो सौ आदमी हाकिम हो जायेंगे। इसी तरह कुछ दिनमें हमारी जातिके दस-बीस हजार आदमीको नौकरी मिल जायगी। कोई दो हजार महीना पायेगा, कोई हजार, कोई पाँच सौ, कोई सौ।

सुखारी—दो हजार या सौ महीना लेके अपने ही अंडे-बच्चेको पालेगा न भैया ! बहुत हुआ तो दो लाख आदमियोंका इससे काम चल जायगा, लेकिन दस करोड़में दो लाख क्या है ?

भैया—बड़ी जातिवालोंके पास तो भैया जमीन-जमींदारी भी है, कल-कारखाना भी है, हमारे पास तो मँड़ई डालनेकी भी जमीन नहीं, तो दस-पन्द्रह हजार नौकरियोंके मिल जानेसे हमारा क्या बनेगा ?

भैया—नौकरीवाले जमींदारी खरीदेंगे, कारखानोंमें भी हिस्सेदार बनेंगे, हो सकता है. पचास बरसमें अछूतोंमें भी कुछ हजार जमींदार और कारखानेदार बन जायें।

दुखराम—लेकिन इससे तो भैया ! जोक ही बढ़ेगी न ? जोंकोंके बढ़ानेसे हमारा दुख जायगा या खतम करनेसे ?

भैया - यही तो अम्बेडकर नहीं समझते। उन्होंने खुद सब तकलीफ और अपमान भोगा है। उनके दिलमें अपने भाइयोंके लिए बड़ा दर्द है। वह अछूतोंको उठाकर खड़ा कर रहे हैं, यह सब अच्छा है। वह गांधीजीके हरिजन-उद्धार या अछूत-उद्धारको बेकार समझते हैं, यह भी ठीक है। और गांधीजी जो मन्दिरमें अछूतोंको भेजना चाहते हैं तो यह मायाजाल है। मन्दिर और भगवान सब धोखेकी टट्टी है। चारा देकर बहेलिया मारता है। अछूतोंको भगवानको दर हीसे सलाम करना चाहिए और कह देना चाहिए बाबा ! जाओ, बहुत दिनों छातीपर मूँग दला।

सुखारी—मरकस बाबाके रस्तासे चलनेसे हम लोगोंका कैसे उद्धार होगा भैया ?

भैया—सुक्खू भाई ! यही अपना दाउदपुर गाँवकी बात ले लो। बामन-चमार सब मिलाकर १०० घर हैं। तुम्हारे यहाँ ५०० सौ बीघा खेत है और

सब रब्बीका । अभी तो १०० घरमें २० घर चमारोंके पास कुल मिलाकर ३, ४ बीघासे ज्यादा जमीन नहीं, और उसकेलिए भी मालिककी गाली-मार सहनी पड़ती है, और भी कितने ही बाभनों, अहीरों, और दूसरी जातिके घर हैं, जिनमें किसी-किसीके पास थोड़ी-सी, नामके लिए जमीन है । ८, ९ घर हैं, जिनके पास जमीन भी बेसी है और मुँहमें गाली भी । मरकस बाबाके रस्तेका मतलब है कि पाँचौ सौ बीघा इकट्ठा कर दिया जाय, कोले-कोलियोंकी मेड़ें तोड़ दी जायँ, और पाँचौ सौ बिगहाकी खेती सबों घरकी साभी हो । जितने देहसे काम करने लायक आदमी मर्द-औरत हैं सब काम करें ।

सुखारी—लेकिन भैया, सुखलाल तेवारीके घरकी बुढ़िया भी चौखटसे बाहर नहीं निकलती, उनके घरकी औरतें कैसे निकाई-रोपाई करने आयेंगी ?

भैया—सात परदेके भीतर रहना, चौखट नहीं लाँघना, हाथमें मेहदी लगाके बैठना, यह सब जोंकोंका धरम है भाई, कमरोंका धरम है, काम करना । सुखलाल तेवारी और उनके घरकी औरतोंको दोमेंसे एक बात चुननी पड़ेगी जो वह जोंक धरम पालन करना चाहते हैं, तो “काम नहीं तो रोटी नहीं”वाली बात होगी, और एक हज़तामें सब पटपटाके दाउदपुरको छोड़ जायँगी । जोंकोंके मरनेसे धरतीका भार उतरता है सुक्खू भाई ? और जो कमेरा-धरमपर चलना चाहेंगे तो सबके भाई हैं, सबके साथ मिलके काम करें । खूब धन पैदा करें, और सबों घर बाँट-चोटकर खायें-पियें ।

सुखारी—तो मरकस बाबाके रस्तामें भैया काम पियारा होता है, चाय नहीं, यही न भैया !

भैया—जो दाउदपुरमें सबों घर चाउसे पियार करने लगे तो धरती माता एकदू अच्छत अनाज देंगी ?

सुखराम—धरती माताका दिल तब तक नहीं पसीजता भैया, जब तक चोटीका पसीना एड़ी नहीं पहुँचता ।

भैया—दाउदपुरमें सबों घर काम करेगा । खेतोंमें मोटरका हल चलेगा, सिचाईके लिए पाइप और बिजली लगेगी । खेत-खेतमें त्रिलायती खाद पड़ेगी । २०० बीघा गेहूँ बोनेमें लोगोंका साल भरका खाना हो जायगा । ३००

बीधा जो सिगरेटवाला तमाकू बो दो तो खाली तमाकू बेच देनेसे सालमें ३ लाख रुपया आ जाय । लेकिन तमाकू काहेको बेचोगे सुक्खु भाई ! दाउदपुरमें सिगरेटका कारखाना खुल जायगा । खेतीका समय छोड़कर मरद-श्रौरत अपने कारखानामें रोज ६ घंटा काम करेंगे और बीस लाखका सिगरेट सालमें बिक जायगा और गाँववाले जितना सिगरेट पियेंगे उतना मुफ्त रहेगा ।

सुखारी—तो भैया इसी दाउदपुरकी मिट्टीसे २० लाख २५ लाख सालाना निकलेगा न ?

भैया—और यह २०, २५ लाख सुक्खु भाई सबों घरका धन होगा । फिर दाउदपुरमें कोई सुअरकी खोभार नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई छान और खपड़ैल भी नहीं बच रहेगा उसकी जगह दाउदपुरमें होगी—एक चौड़ी सड़क जिसके दोनों ओर ई ट, सीमन्ट और लोहेसे बने पक्के मकान होंगे । हर मकानमें नलसे पानी जायगा और बिजली दीया चारेगी । हर घरके पीछे पक्का पाखाना होगा, लेकिन अबदुल भाईको उठाना नहीं पड़ेगा; नलसे पानी छोड़ा जायगा और वह धरतीके भीतर ही भीतर वहाँ ले जायगा । फिर आजके नंगे-भूखे आदमी दाउदपुरमें नहीं दिखाई पड़ेंगे । सब साफ कपड़ा पहिनेंगे । लड़के-लड़की सब पढ़ेंगे । सुखलाल तेवारीके पोते और सुखारी चमारके पोते एक-दूसरेको भाई समझेंगे और एक परिवारके बेकति (आदमी) ।

अबदुल—लेकिन भैया, यह सपना जैसी बात मालूम होती है ।

भैया—सपना वह होता है अबदुल भाई, जिसे धरतीपर कहीं न देखा जाय, लेकिन जो बात धरतीके किसी कोनेमें देखी जाय, उसे भी क्या सपना कहेंगे ?

अबदुल—धरतीपर ऐसी बात कहीं हुई है भैया ?

भैया—हाँ अबदुल भाई ! और बहुत दूर नहीं । दो दिन रेल और ३ दिन मोटरसे चलनेपर तुम उस देसमें पहुँच जाओगे जहाँ सब कारवार साँकेके परिवारका है, जहाँ कोई अछूत और बड़ी जातिका नहीं है, जहाँ कोई जोंक नहीं है, उस देसका नाम है सोवियत देस, किसानों-मजूरोंका पंचायती राज, और उसीको पहले रूस भी कहा करते थे ।

अबदुल—तब मैया ! सपनाकी बात नहीं, लेकिन अपनी जिनगीमें हम सब यह देख लेंगे ?

मैया—तमासा देखना चाहोगे तो कभी नहीं, लेकिन वैसा बनानेमें लग जाओगे, और खूब जिउजानसे लग जाओगे तो जरूर देख लोगे । सत्ताईस बरस पहिले रूसको भी जोंकोंने नरक बनाके रखा था लेकिन किसान मजूर भिड़ गए और अब उन्हें मरके सरगमें जानेकी जरूरत नहीं, अब सरग उनके घरपर उतर आया ।

सुखारी—लेकिन मैया अम्बेडकर इतना पढ़-गुनकर काहे मरकस बाबाके रस्तेको नहीं मानते ? जो वह भी दस-बीस लाखके जोंक बनना चाहते हैं तो हम लोगोंका क्या उपकार करेंगे ?

मैया—समझका फेर है सुक्खू भाई ! अम्बेडकर मरद बच्चा है, ईमान-दारीमें १००में १ है, और मैं समझता हूँ कि वह जोक नही बनना चाहता ।

सुखारी—तब तो मैया ! अम्बेडकरसे भेट हो, तो मैं उनके गोड़पर पड़कर कहूँ—दादा ! तुम भी मरकस ही बाबाका रस्ता पकड़ो, इसी रस्तेसे हम लोगोंकी २०० पीढ़ीकी गुलामी दूर होगी ।

मैया—गोड़ पढ़नेसे तो काम नहीं चलेगा सुक्खू भाई ! लेकिन हिन्दुस्तान भरके कमेरे, जब जोंकोंको उखाड़ फेंकनेके लिए उठ खड़े होंगे तब उनके मममें भी आसा बँधेगी अभी तो वह इसे अनहोनी बात समझते हैं इसीलिए जड़में पानी न देकर पत्तोंको सींचते हैं ।

दुखराम—लेकिन सुनते हैं मैया ! गांधीजी भी अछूतोंके उद्धारके लिए लाखों रुपया जमा कर चुके हैं । और उन्होंने जगह-जगह हरिजन आसरम खोला है, वह क्या करना चाहते हैं ?

मैया—करना तो चाहते हैं हरिजनोंका उद्धार, लेकिन हो रहा है कंडे-से आँख पोंछना । बस इतना ही हो रहा है कि कुछ सौ हरिजन लड़कोंको चरखा कातना सिखाया जाता है जिससे बहुत मेहनत करनेपर भी आदमी दो आना रोजसे बेसी नहीं कमा सकता, जिससे एक आदमीका भी पेट नहीं भर सकता, दूसरी बात यह हो रही है कि बड़ी जातिके सौ-दो सौ आदमियोंको

नौकरी मिल जाती है ।

सुखारी—तो भैया इससे तो हमारी जातिका उतना भी उपकार नहीं हो सकता, जितना अंबेडकरके रस्तेसे ।

भैया—हाँ ठीक कह रहे हो सुखू भाई और अंबेडकरका रस्ता धोखेका नहीं है, इतना ही है कि उनके रस्तेसे चलनेपर दो-चार पीढ़ीमें दसो करोड़ अछूतोंका दुख-दलिदर दूर होगा ।

अध्याय १६

मरकसका रस्ता विदेसी है ?

सोहनलाल—लोग कहते हैं भैया कि मरकस बाबाने जो कुछ कहा है वह ठीक हो सकता है; लेकिन एक देसके लिए जो बात ठीक है वही दूसरी जगहके लिए बेठीक भी हो सकती है ।

दुखराम—“ठाँव-गुने काजर, ठाँव-गुने कारिख,” वही चीज आँखमें लगकर काजर बन जाती है, और सोभा देती है । वही चीज गालमें लग कालिख कही जाती है और लोगोंको धोना-पोछना पड़ता है । यही बात है सोहन भैने !

सोहनलाल—हाँ दुखू मामा ! रूसमें जो बात ठीक उतरी, वही बात हिन्दुस्तानमें भी ठीक उतरेगी, इसपर कैसे विस्वास किया जाय भैया ?

भैया—“ठाँव गुने काजर, ठाँव गुने कारिख”को मैं मानता हूँ, सोहन-भाई ! रूसमें इतनी सरदी पड़ती है कि नदी-नाले सब जम जाते हैं वहाँ जाड़ेके मौसिममें हर घरको गरम पानीके मोटे नलोंसे गरम किया जाता है । हिन्दुस्तानमें भी मरकस बाबाका कोई चेला मकान गरम करनेके लिए गरम पानीका नल लगवाने लगे तो उसे मैं पागल कहूँगा, उसकी जगह यहाँपर गर्मियोंके दिनों बिजलीके पखेकी जरूरत पड़ेगी । मासको और लेनिनग्रादमें रूसी भाखा बोली जाती है, जो हिन्दुस्तानके ४० करोड़ आदमियोंको भी अपनी

भाखा छुड़वाकर रूसी भाखा सिखलानेकी कोसिस करे तो उसे भी मैं पागल कहुँगा। रूसके कवि वोल्गा माई और दोन बाबा (नदियों)के गीत गाते, हिन्दुस्तानमें जो कोई कवि गंगा माई सिन्ध और कावेरी माताओंको छोड़कर वोल्गा भाई और दोन बाबाका गीत गाये तो उसे भी मैं पागल कहुँगा, और मरकस बाबा भी उसे अपना चेला नहीं मानेंगे। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं, जो रूसकी अपनी और हिन्दुस्तानमें नहीं हैं। जो कोई आदमी अंधाधुंध नकल करना चाहेगा, तो उसे मैं बेकफ कहुँगा लेकिन मरकस बाबाने जो बातें जोंकोंके हटानेके लिए बताईं, कमेरोंके राज कायम करनेके लिए बताईं, सबको एक परिवारका भाई बननेके लिए कहा है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती है।

सोहनलाल—सबसे बड़ी बात यही है कि वह विदेशी चीज़ है।

भैया—तो हिन्दुस्तानमें कोई विदेशी चीज़ नहीं चलनी चाहिए यह कौन कहता है ?

सोहनलाल—गांधीजी कहते हैं, गांधीजीके चेंले लोग कहते हैं।

भैया—गांधीजी नहीं कह सकते सोहन भाई ! गांधीजी रूसके तालस्तापको अपना गुरु मानते हैं, विलायतके रस्किनका अपनेको रिनिया मानते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि छ्वापाखाना विलायतसे आया है, इसलिए उसमें छुपी गीताको नहीं पढ़ना चाहिए। घड़ी भी विलायतसे आई है, और गांधीजी उसको बाँधे-बाँधे फिरते रहते हैं, चसमा विलायतसे आया है लेकिन उसे लगाते हैं। ईसामसीका धरम विदेशसे आया है, लेकिन गांधीजी उसका बहुत आदर करते हैं। हिन्दुस्तानके चार आदमीमें एक आदमी मुसल्मान धरमको मानता है और वह भी दूसरे देससे आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि अरबके पैगम्बरको हिन्दुस्तानसे निकाल बाहर करना चाहिए।

सोहनलाल—लेकिन वह कहते हैं कि मरकस बाबाके रस्तेमें हत्याकी बातें आती है और हिन्दुस्तानके रिसि-मुनि बेहत्याका रस्ता बताते हैं।

भैया—यह दोनों बात गलत है। मरकस बाबा हत्याका रस्ता नहीं बताते, वह ऐसा रस्ता बताते हैं कि दुनियामें फिर आदमीको आदमीकी हत्या करनेकी

कभी जरूरत ही न पड़े। अकाल, महामारीमें करोड़ों आदमी मर जाते हैं वह चाहते हैं दुनियामें अकाल-महामारीका नाम ही न रहे।, जोंके अपने स्वारथके लिए बराबर लड़ाई करवाती हैं। हमारे सामने ही दो बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें करोड़ों आदमीकी हत्या हुई, जोंक गुन्डोंने स्खावों बेकसूर बच्चों और औरतोंको तड़पा-तड़पाकर मार डाला। मरकस बाबाके ऐसा रस्ता बतलाया है कि जोंक ही न रह जाय और दुनिया भरके सारे आदमियोंका एक परिवार बन जाय। गांधीजी जोंकोंको भी रखना चाहते हैं और यही जोंके हत्याकी जड़ हैं। दुख्ख भाई, बताओ कौन हत्याका रस्ता बताता है, कौन बेहत्याका ?

दुखराम—इससे तो मरकस बाबाका ही रस्ता बेहत्या (अहिंसा)का हुआ और गांधीजीका रस्ता दुनियासे कभी हत्याको नहीं हटा सकेगा।

सोहनलाल—लेकिन यह तो तब होगा न जब सारी दुनिया मरकस बाबाके रस्तेपर चलने लगेगी। लेकिन यह तो अनहोनी बात मालूम होती है।

भैया—जो दुनियामें जोंके रह जायगी 'तो हत्या भी रह जायगी, सोहन भाई ! लेकिन इसका टोस तो जोंकोंको रहेगा, मरकस बाबाके रस्तेको नहीं। फिर सोहन भाई आप मरकस बाबाके रस्तेके ऊपर सारी दुनिया आ जायगी इसे तो अनहोनी समझते हैं, और तब जब कि अपने सामने देख रहे हैं कि २७ बरस पहले दुनियाका छठवाँ हिस्सा मरकस बाबाके रस्तेको अपना चुका। आज जो लड़ाई हो रही है और उसके कारण जो उथल-पुथल हो रही है, उसके देखनेसे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जल्दी ही एक-चौथाई दुनिया अपनायेगी। इसको तो तुम अनहोनी कहते हो। और जोंके बनी रहेंगी, जिनका जीना ही दूसरेके खूनपर होता है, लेकिन वे भगत बन जायँगी और सेर-बकरी एक जगह पानी पियेंगे। है यह होनेवाली बात।

सोहनलाल—जोंकोंके हटानेकी बात तो गांधीजी भी कहते हैं, लेकिन हत्याके रस्तेसे नहीं, बेहत्याके रस्तेसे।

भैया—बुद्ध गांधीसे बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने भी बेहत्याके रस्ते जोंकोंको भगत बनाना चाहा, लेकिन नहीं हो सका। ईसामसीने भी बेहत्याके

रस्तेसे सबको ले जाना चाहा, लेकिन देख रहे हो न, उनके चले क्या कर रहे हैं ? गांधीजीके चेलों हीकी ओर नहीं देखते ? मिलवाले सेठ क्या कर रहे हैं ? उनके चेलोंने बम्बईमें मजदूरोंपर गोलियाँ चलवाईं । उनके चेलोने किसानोंपर घोड़े दौड़ाये । बेहत्याकी बात तो उसी दिन खतम हो गई जिस दिन गांधीजीने कह दिया कि कांग्रेस सरकारमें जायेगी तो पलटन, गोला-बारूद, सभी तरहसे फसिहोंका संहार करेगी । जर्मन-जापान फसिहोंके सामने निहत्था बन बेहत्याके रस्ते काम नहीं चलेगा इसीलिए कहा न. गांधीजीने भी हथियारके साथ फसिहोंका मुकाबिला करनेके लिए कहा । मरकस बाबा भी हथियार लेकर जोंकोंका मुकाबला करनेके लिए कहते हैं । बताओ दुख्खु भाई ! हे दोनोंमें कोई फरक ?

दुखराम—कोई फरक नहीं मालूम होता भैया ?

भैया—और मरकस बाबा हथियार लेके मुकाबिला करनेके लिए क्यों कहते, इसीलिए कि जोंके सिरसे पैर तक हथियारसे लैस हैं, तुम्हें निहत्था देखकर वह भून देंगी । उनमें दया-मया है, इसे वही विस्वास कर सकता है जिसको जोंकोकी करनी मालूम नहीं, उनका स्वभाव नहीं मालूम । फिर हिन्दुस्तानके रिसि-मुनि बेहत्याका रस्ता बताते हैं यह बिलकुल गलत है । अठारहवाँ अध्याय गीता हत्या करनेके लिए कही गई । अर्जुन बेचारा तो तीर-धनुस छोड़कर बैठ गया था, उसने लड़ाई करनेसे इनकार कर दिया था लेकिन किरसनने उसे तरह-तरहसे समझाया और लड़नेको तैयार किया । वह लड़ाई भी गरीबों-कमरोंकी भलाईके लिए नहीं हुई थी, कुरुक्षेत्रमें दोनों ओर जोंके ही आमने-सामने खड़ी थीं । जिरजोधन (दुरजोधन) राजमें हिस्सा नहीं देता था, इसीलिए पांडव लड़ रहे थे । जिरजोधन सारे राजके किसानों, कारीगरों, मजूरोंकी कमाईको छीनके ऐस-जैस करना चाहता था । पांडवोंने उसी ऐस जैसके लिए कौरवोंको मारा, लाखोंका संहार किया, गीताको गांधीजी बहुत मानते हैं । गीताको जो कहे कि वह बेहत्या (अहिंसा) का रस्ता बताती है इसके लिए हम यही कहेंगे कि वह दिन दोपहरका अंधा है । और दूसरे कौन रिसि-मुनि हैं जो बेहत्याका रस्ता

बतलाते हों ?

सोहनलाल—बुद्ध और महावीर ।

भैया—बुद्धको तो हिन्दुस्तानने निकाल बाहर किया, इसलिए उनकी सिन्धुको स्वदेसी कौन मुँह लेकर कहेंगे । रहा महावीर, लेकिन उन्होंने किसी राजाको युद्धमें हथियार डाल देनेके लिए कहा, इसका तो हमें कोई पता नहीं । हाँ, झादमी अपना मुकती और निरवान चाहे तो उसे सब जीव-जन्तपर दया करनी चाहिए । वहाँ एक देसको दूसरे देसकी गुलामीसे छूटने या एक जमातका दूसरी जमातके खूनी हाथोंसे बचनेके लिए, हथियार रखकर बेहत्या मान लेनेकी बात तो कहीं देखनेमें नहीं आती ।

सन्तोखी—पोथी-पन्ना बहुत है भैया ! क्या जाने कहीं रिसि-मुनिके मुँहसे ऐसी बात निकली हो ।

भैया—बुद्ध और महावीरसे पहिले किसी रिसि-मुनिने बेहत्याकी बात कही हो, इसपर मुझे बिलकुल विस्वास नहीं, उस समयके रिसियों-मुनियोंका रसोइ-खाना पूजा-घर नहीं; कसाई-घर होता था; बीचमें बछिया या बकरेको रिसि-मुनि अपने हाथसे मारते थे ।

दुखराम—क्या कहा भैया ! रिसि-मुनि बछिया मारते थे, राम राम । ऐसी बात कभी हो सकती है ? हिन्दू गौ माताके इतने भगत हैं तो उनके रिसि-मुनि भला कैसे गाय मार सकते हैं ?

भैया—बुद्धसे पहिले कुछ सौ बरस पीछे तक हिन्दू रिसि और सभी लोग गायका मांस खाते थे, उससे उनको कोई परहेज नहीं था । हिन्दुओंकी एक दो नहीं, पचासों पोथियोंमें लिखा है, रन्तिदेव राजाकी कथा महाभारत^१में

^१ 'राज्ञो महानसे पूर्वं रन्तिदेवस्य वै द्विज ।

अहन्य हनि बध्येते द्वे सहस्रे गवां तथा ।'

'समांसं ददतो ह्यन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः ।

अतुला कीर्त्ति रभवन्न पस्य द्विज सत्तम !'—वनपर्व २०८ । ८-१०.

आती है। उनके घरमें रोज दो-दो हजार गायें मेहमानों, मुसाफिरोंके खानेके लिए मारी जाती थीं।

दुखराम—लेकिन भैया जो हिन्दुओंकी पोथामें गाय मारनेकी बात लिखी है, और पहिलेके मामूली नहीं,—रिसी-मुनी तक गाय खाते थे तो आज गोकसीके लिए काहे हिन्दू लोग मुसलमानोंका सिर फोड़ते फिरते हैं ?

भैया—हिन्दुओंसे पोथीकी बात छिपा दी गई, इसीलिए नहीं तो क्या ६० पीढ़ी पहिलेके उनके अपने गो-भच्छक पुरखा मिल जायँ तो क्या यह उनका सिर फोड़ते फिरेंगे ? मैं यह नहीं कहता दुखवू भाई कि पहिलेके पुरखा गाय खाते थे तो आज भी खायँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन लाठी लेकर दूसरोंको न खाने देना यह तो जबरजस्ती है न ?

दुखराम—जबरजस्ती ही नहीं भैया यह तो भारी भगड़ेकी जड़ है। गोकसीके लिए न जाने कितने हिन्दू-मुसलमान मारे गए। आज जो सभी हिन्दुओंको यह बात मालूम हो जाय तो क्या वह गोरच्छाके पीछे पागल बनेंगे ?

सोहनलाल—लेकिन भैया ! हम लोगोंकी सारी खेती-बारी, दूध-धी गाय हीसे मिलता है, इसलिए गायकी रक्षा करनेका बुरा कैसे कहा जाय।

भैया—गायकी रक्षा करना अच्छा है सोहन भाई ! हम लोगोंको अच्छी-अच्छी नसलके बैल-गाय पैदा करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। ४० करोड़ आदमीमेंसे बहुत थोड़े हीको पीनेको दूध मिलता है। जब दूध-धी

“महानदी चर्मराशेरुत्केलेदात् संसृजे यतः ।

ततश्चर्मएवतीत्येवं विख्यातो सामहानदी ।”—शान्ति पर्व २६-२३ ।

सांस्कृतिं रन्तिदेवं च मृतं संजय ! शुश्रुम ।

आसन् द्विशत साहस्रा तस्य सूदा महात्मनः ।

गृहानभ्यागतान विप्रान् अतिथीन् परिवेषकाः ।—द्रोण पर्व ६७ । १-२ ।

“तत्रस्य सूदाः क्रोशन्ति सुमृष्ट मणि कुंडलाः ।

सूपं भूयिष्ठमशनीध्वं नाद्यमासं यथापुरा ।”—द्रोण पर्व ६७ । १७-१८ ।

—शान्ति पर्व २७-२८ ।

खानेको मिलता था, तो आदमी खूब तगड़े होते थे । दूध-घीकी इफरात हो इसके लिए जरूर हमें कोसिस करनी चाहिए । यह हमारे फायदेकी बात है और मुसलमानोंके भी । मुसलमान भाइयोंको समझाइये—हमारे भी पुरखा गायका बलिदान करते थे, गायका मांस खाते थे, लेकिन पीछे समझा कि गायकी रच्छासे हमारा ज्यादा फायदा है, इसीलिए उन्होंने गायका मांस त्याग दिया । देस भरके लोगोंको खूब घी-दूध खानेको मिला हल गाड़ीके लिए अच्छे-अच्छे बैल मिले, इसीलिए हमें गायोंकी रच्छा करनी चाहिए । बताओ दुक्खु भाई ! इस तरह समझानेसे मुसलमान भाई मानेंगे कि लाठी दिखानेसे ?

दुखराम—लाठी दिखानेसे तो गोरच्छा नहीं हुई भैया और न धरमकी दोहाई देने हीसे कुछ बना । नाहक भाई-भाईका भगड़ा बढ़ा । बल्कि मैं तो कहूँगा भैया कि जो गाय न दूध ही दे सकती हो, न बछिया उसे खानेवाले खा भी लें तो कोई बुरा नहीं ।

सोहनलाल—गांधीजीकी अहिंसा और दूसरी बातोंके बारेमें तो आपने बतलाया, तो भी बहुत लोग कहते हैं कि रूस और हिन्दुस्तानमें इतना फरक है । वहाँकी बात यहाँ चलाना उलटी गंगा बहाना है । वह यहाँ चलेगी नहीं, नाहक भगड़ा-भंभट बढ़ेगा ।

भैया—नहीं चलेगा, तो अपने ही बेकार हो जायगा उसके लिए चिन्ता करनेकी जरूरत क्या ? और भगड़ा-भंभटकी बात जो कहते हो, वह तो जोंके करती है । गांधीजी सेठों और जमींदारोंको समझा दें, कि वह हथियार रख दे और १० बरस किसानों-मजूरोंको मरकस बाबाके रस्तेपर चलने दें । जो सामेकी खेती, मोटरके हल, पानीकी पाइप और बिलायती खाद-से हरा-भरा खेत ऊसर बन जाने लगे, तो किसानोंको भूखे मरना पड़ेगा । फिर तुरन्त ही जमींदार आकर काम सँभाल लें ।

दुखराम—बस यही भैया गांधीजी जमींदारोंसे मनवा दें, तो हम महात्माजीको सबसे बड़ा अवतार मान लेंगे ।

भैया—सेठ लोगोंको भी गांधीजी मना लें कि बेसी नहीं पाँच बरसके लिए अपने द्वारपर लिखे “लाभ-सुभ”को मिटा दें ।

दुखराम—“लाभ-सुभ क्या है भैया ?

भैया—बनिया लोगोंकी गद्दीके ऊपर दीवारमें “लाभ-सुभ” सिन्दूरसे लिखा देखा है कि नहीं। सेठ लोगोंकी जिनगीका सबसे बड़ा मन्तर यही लाभ-सुभ है। मजूर १०)की चीज रोज पैदा करें, उन्हें ॥)देकर टरका दें, और साढ़े तीन रुपया हुआ लाभ-सुभ, और रखें उसे गोलकमें। सेठ लोग ४) में ॥) ही नहीं, कुल रुपया मजूरोके हाथमें दे दें और कह दें कि देखो तुम लोग बड़े जोखिममें हाथ डाल रहे हो। अब हम चीनीकी मिल कपड़ेकी मिल, जूटकी मिल, लोहेका कारखाना किसीका इन्तजाम नहीं करेंगे, हम “लाभ-सुभ” भी छोड़ते हैं और इन्तजाम भी। जो मजूर कारखानेको ठीकसे नहीं चला सके तो उनको ही भूखा मरना पड़ेगा। फिर सेठजी आकर कारखानेको सँभाल लेगे, भगड़ा-भंभट मिटानेका यह रस्ता है।

दुखराम—हाँ भैया ! बेसी नहीं पाँच ही बरसके लिए जमींदार और कारखानेवाले सेठ राम नामा ओढ़कर माला फेरें, और हम लोगोंको मरकस बाबाके रस्तेपर चलने दें, इससे तो बिना भगड़ा-भंभटके पैसला हो जायगा। जब हम देखेंगे कि मरकस बाबाका रस्ता हिन्दुस्तानमें, नहीं चल सकता, तो क्या पागल हुए हैं कि देसभरका संहार करेंगे।

सोहनलाल—लेकिन जमींदार और सेठ गांधीजीकी बात मानेंगे थोड़े ही ?

भैया—चार हजार बरससे जोंकोंने अपना रस्ता चलाया और उसके कारण पंचानबे सैकड़ा कमरोंके लिए नंगे-भूखे मरनेके सिवा कोई चारा नहीं। हम तो सिरिफ पाँच बरस ही चाहते हैं। जो जोंके उतना भी देनेके लिए तैयार नहीं हैं, उनके गुन्डे लाठी-छूरा लेकर घूमते-फिरते रहेंगे पुलिस-पलटनको उन्होंने अलग तैयार कर रखा है; अदालत-कचहरी सब उनके हाथमें है, इतना होनेपर भी जो महात्माजी कहते हैं कि किसानों-मजूरो ! तुम हमारा रस्ता ले लो और फुफुकार भी मत छोड़ो; तो इसकेलिए हम लोग तैयार नहीं हैं। यह तो सोलहों आना जोंकोंकी मदद करना है।

सोहनलाल—क्या समझते हो भैया ! गांधीजी जोंकोंकी मदद करना

चाहते हैं ?

भैया—इस बातको गांधीजीसे पूछ लो । मैं समझता हूँ, वह इन्कार न करेंगे, हाँ, उसके साथ यह भी कहेंगे कि मैं सबकी भलाई चाहता हूँ । कोई चाहता है, इसे वही जान सकता है, दूसरा आदमी दिलकी बातको क्या जाने लेकिन गांधीजी जो करते हैं, उससे सबसे ज्यादा नफा सेटोंको हुआ है । दूसरे नम्बरपर ज़मींदारोंको, और तुरन्त नफा तो उतना नहीं, हाँ आगेके लिए किसान-मजूरोंको बहुत मदद मिली है । तुम समझते होगे सोहन भाई, कि मैं गांधीजीके कामको बहुत बुरा समझता हूँ, और मानता हूँ कि उन्होंने हिन्दुस्तानके लिए कुछ नहीं किया । गांधीजीके उपकारको बहुत मानता हूँ । उन्होंने ही चम्पारनके निलहे साहबोंके मदको चूर किया और सैकड़ों बरसोंसे भेड़ बने सिकारोंको सेर बनाया । उन्होंने हीने हिन्दुस्तानकी भुक्खड़ जनताको अपने पैरपर खड़ा होनेमें सबसे अधिक मदद की । जनताने अपने बलको समझा और अब वह सो नहीं सकती, जब तक कि वह अपने सतानेवालोंको हमेशाके लिए खतम नहीं कर देंगी । आज भी उनकी उतनी जरूरत है, क्योंकि बिलायती जाँकोंके निकालनेमें वही हमारे सबसे बड़े नेता हो सकते हैं, और हिन्दू-मुसलमानको मिलाकर देसको आजाद करनेके लिए तैयार कर सकते हैं ।

दुखराम—तो गांधीजीकी कौन बात है, जो हिन्दुस्तानके कमरेको नुकसान पहुँचानेवाली है ?

भैया—सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह ज़मींदारों-कारखानेदारोंको कायम रखना चाहते हैं । उस उनसे इतना ही चाहते हैं कि वह किसानों और मजूरोंका अपनेको माँ-बाप समझे । सवाल यह है कि माँ-बाप महलोंमें रहेंगे या भोपड़ीमें, बीस लाखकी कारमें चलेंगे या पैदल । लड़के-लड़कियोंके ब्याहमें दस-बीस लाख खर्च करेंगे या धरम-विवाह करेंगे । सिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, उटकमंड, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बनारसमें बिड़ला हाउस बनाकर रहेंगे कि १०) भाड़ेकी कोठरीमें रहेंगे ।

दुखराम—मुटिया, धोती पहिरने और जौकी रूखी रोटी खानेके लिए यह जाँके कभी नहीं तैयार होंगी ।

भैया—मैं भी समझता हूँ इसके लिए कोई तैयार न होगा। क्या जाने ख्याल हो कि किसान-मजूर माँ-बाप बनानेकी आसरापर हाथपर हाथ धरकर बैठे रहें। लेकिन यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने पेटकी भूखको कैसे भुला सकते हैं। दूसरी बात गांधीजी कहते हैं कि कल-कारखाना नहीं, हमें चरखा चाहिए लेकिन यह भी होनेवाला नहीं। लोहेके जमानेसे आदमी लौटकर पत्थरके जमानेमें नहीं जा सकता। खदरसे जो मिलोंके बन्द हो जानेका डर होता, तो बिड़ला बजाज धाराभाई जैसे करोड़पति कपड़े मिलवाले लाखों रुपया खदर फण्डमें दान न देते। गांधीजी गुड़ खानेके लिए कहते हैं, लेकिन उनके चेला, बिड़ला और साराभाईकी चीनीकी मिलोंने चीनीको इतना सस्ता कर दिया है, कि कोई गुड़ खाना चाहेगा नहीं, किसान ऊख बेचकर जितना पैसा कमा लेते हैं, उसकी जगह वह गुड़ बनाने नहीं जायेंगे। बिड़लाने लाखों रुपया लगाकर हिन्द साइकिलका कारखाना खोला। वह पाँच लाख नफेमेंसे पाँच हजार गांधीजीको दान दे सकता है, लेकिन कारखाना नहीं बन्द करता। बिड़लाने करोड़ों रुपये लगाकर मोटर-कारखाना खोलनेका निहचय किया है, उसी नफेमेंसे धरमसाला बनवा सकता है, मालवीजीके विस्व विद्यालयको दान दे सकता है लेकिन कारखाना छोड़कर वह सतजुगकी और नहीं लौटेगा। चखेंकी बात करना पत्थरके हथियारोंकी और आदमीको ले जानेकी कोसिस करना है।

दुखराम—वह तो नहीं हो सकता भैया ! और लोहा बिना चरखेका तकुवा कहाँसे आएगा।

भैया—गुड़, हाथके कूटे चावल और चरखेको अपनानेकी बात कुछ कहकर छुट्टी नहीं मिल सकती। जो पीछे लौटना है तो सभी बातोंको साफ-साफ कहो, चरखेका तकुवा लोहेका रखोगे या लकड़ीका। चरखेको लोहेके वसूलेसे बनाओगे या और किसीसे। जो लोहा रखना ही पड़ेगा तो ताताके बिजली और पत्थरके कोयलेसे बने लोहेको लोगे या लोगोंको कहोगे कि बबूलका कोयला तैयार करो और पत्थरको गलाकर लोहा निकालो। लेकिन बबूलके कोयलेवाले लोहेको कौन खरीदेगा जब कि उससे भी बढ़िया फौलाद उसमें भी सस्ते दाममें

मिल रहा है । पत्थरका कोयला भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, लोहा भी चाहिए ; तब तो रेल भी रखनी होगी, क्योंकि उसके बिना कोयला-लोहा और बड़ी-बड़ी मस.नें एक जगहसे दूसरी जगह भेजी नहीं जा सकती । और विद्वाके लिए क्या कहेंगे गांधीजी ? छापाखानाके कारण आज किताब बहुत छपती हैं, बहुत सभ्ती बिकती हैं । लेकिन उसको छुड़ाकर क्या हमें फिर ताड़के पत्तेपर हाथसे लिख-लिखकर किताबें पढ़नी चाहिए ।

दुखराम—यह तो भैया जुम्नन दादी-सी बात है, जिसे हम लोग हँसीमें उड़ा देते हैं ।

भैया—हँसीमें उड़ानेकी बात है नहीं दुख् भाई ! आजकल लड़ाईका ज़माना है, कपड़ा कम मिल रहा और बहुत भँहगा भी, ऐसे समयमें जो हम चरखेसे कपड़ा तैयार करें तो यह अच्छी बात है । रेलकी लाइन उखड़ जाय, पिंटारौल बिना मोटर-लारी बन्द हो जाय, तो इक्का-बैलगाड़ी या पैदल चलनेको कौन नहीं कहेगा । लेकिन करोड़पति कारखानेवाले जो चरखामे भगती दिखाते हैं, उसके भीतर दूसरी ही बात है । वह समझते हैं कि किसान चरखा उठायेगे तो गांधीजीके रस्तेको भी अपनायेगे और हमको माई-बाप समझेंगे फिर मरकस बवाका नाम नहीं लेंगे, रूसकी बात नहीं सुनंगे । लाल भंडा लेकर “किसान-मजदूर राज कायम हो” चिल्लाते नहीं फिरेंगे । रघुपति राघव राजारामका कीर्त्तन करेंगे और इस दुनियासे बेसी परलोकका आसरा करेंगे ।

दुखराम—तो चरखावाली बातके भीतर भी भैया बहुत धोखा चल रहा है ।

भैया—गांधीजी क्या जाने धोखा देना न चाहते हों; लेकिन सेठ लोग तो जरूर आँखमें धूल झांकना चाहते हैं । जो उनका चरखेपर विस्वास है, तो कपड़ेके कारखानोंको क्यों नहीं तोड़ देने ? जो उनका गुड़पर विस्वास है तो अपनी चीनीकी मिलोंमें आग क्यों नहीं लगा देते जो उनको सेवगाँवकी बैलगाड़ीपर विस्वास है, तो क्यों मोटरका कारखाना खोल रहे हैं । जो उनको तालके पत्तेकी पोथीपर विस्वास है, तो बिड़ला औ डालिमाने क्यों कागजकी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ खोलीं ?

दुखराम—दोलके भीतर सारा पोल ही पोल मालूम होता है भैया !

भैया—सेठ लोग और कूद-कूदकर कह रहे हैं कि मरकसका रस्ता बिदेसी है, हिन्दुस्तान धर्मात्मा देस है, वह यहाँ नहीं चलनेका, इसको कहते है कि आँखकी लाज जो छोड़ दो, मुँहमें जो आये कहते फिरो। पंचरुखीकी चीनी मिल उसकी मसीनें और कारीगरी सब अहमदाबादकी बनी हैं और वहींके दिमागसे निकली है न, जब पंचरुखी मिलके लिये मसीनें मँगाने लगे तो उस वक्त ख्याल किया था कि यह स्वदेसी है या विदेसी ? हिन्दुस्तानमें सतजुगसे क्या अखबार निकलते आये थे जो बिड़लाने लाखों रुपया लगाकर “हिन्दुस्तान-टाइमस्य” (दिल्ली), “सर्च लाइट”, (पटना), “लीडर” (इलाहाबाद), “हिन्दुस्तान” (दिल्ली), जैसे रोजाना अखबारोंको चला रहा है।

दुखराम—यह अखबार क्यों चलाते हैं भैया !

भैया—सेठोंके दरवाजेपर दो ही सबद लिखे रहते हैं दुक्खू भाई “लाभ-सुभ” लाखों रुपया लगाते और लाखों रुपया पैदा करते हैं। यह बात तो हुई है, लेकिन एक इससे भी बड़ा नफा है।

दुखराम—इससे बड़ा नफा क्या है भैया ?

भैया—अखबार, तोप, टंक और हवाई जहाजसे भी बढ़कर खतरनाक हथियार है। बिड़लाके अखबार तो अभी तीस-तीस चालिस-चालिस हजार तक छुपते हैं, लेकिन बिलायती करोड़पतियोंके अखबार पन्द्रह-पन्द्रह सोलह-सोलह लाख रोजाना छुपते हैं। उसमें जो कुछ लिखा जाता है, वह अपने मतलबका ख्याल करके। किसानोंके ऊपर जमींदार जुलुम कर रहा है, उनकी जमीन छीन लेना चाहता है। किसान जीविका छोड़ते नहीं हैं, जमींदार उन्हें गुंडोंसे पिटवाता है। किसानोंकी ओरसे इसकी खबर अखबारमें भेजी जाती है, जोंकोंका अखबार उसे क्यों छापने लगे ? वह छापेगा जमींदारोंकी ओरसे भेजी गई खबरको जिसमें किसानोंको गुंडा-बदमास कहा गया है। किसान पिटे हैं, घायल हो गये हैं, कोई मर भी गया है, अभी थानेमें खबर भी नहीं पहुँचने पाई कि राजधानीमें जोंकोंके अखबारने जमींदारोंकी बात छाप दी। सूबाके पुलिसके बड़े अफसरने उसे पढ़ लिया। कलट्टर-मजिस्ट्रने उसे पढ़ लिया। एक तो वह स्वयं जोंकोंकी जातिके हैं, दूसरे उन्हें खबर भी एक ओरकी मिल गई है। अब वह मनमें बैठा लेंगे

कि किसान जरूर बदमास हैं। इसी तरह कोई कारखानेवाला जुलुम कर रहा है, मजूर अपनी तकलीफ लिखकर भेजते हैं तो जोंकोंका अखबार उन्हें छापता नहीं। कारखानेवाला लारी दौड़ाकर कितनोंको घायल और एक मजूरको मार भी डालता है, लेकिन वह मजूरोंके खिलाफ जो कुछ लिखके भेजता है वह सब जोंकवाले अखबारमें छपता जाता है, हाकिम और दूसरे भोले-भाले पढ़नेवाले एक ही ओरकी बात सुन पाते हैं और उसे ही सच्ची मान लेते हैं।

दुखराम—तब तो भैया यह अखबार नहीं, हम लोगोंके गलेकी फाँसी है।

भैया—और जोंकोंके अखबार स्वदेसी धरमका खूब प्रचार करते हैं। किसी सेठने निहायी (अहरन)की चोरी की है, और सुईका दान दिया है। बस सुईके दानको सेठकी तसवीर देकर बड़े-बड़े अच्छरोंमें छपा जायगा, भोली-भाली जनता समझेगी कि सेठ बड़ा धरमात्मा, बड़ा दानी है, हे भगवान तुम इसकी रच्छा करो। जब लाखों आदमी अब बिना मर रहे है उस वक्त कोई पागल या मक्कार सैकड़ों मन अनाज और पचासो मन घी आगमें फूँक देता है; उसकी भी खबर खूब गोल-मटोल अच्छरोंमें छपी जाती है, भोली-भाली जनता समझती है कि अब भी बड़े-बड़े धरमात्मा दुनियामें हैं। अब भी जग्गका अलोप नहीं हुआ है।

दुखराम—कितना बड़ा फरेब।

भैया—किसीने भूठी-सच्ची खबर उड़ा दी कि दिल्लीमें ऐसी लड़की पैदा हुई है, जो अपने पहिले जनमकी बात बतलाती है। फिर महीनों तक जोंकोंके अखबार उसके बारेमें लिखते रहेंगे। कितने ही लोग कसम खाकर गवाही देंगे वह भी छुपेगी। किसीने उसके खिलाफ लिखा तो नहीं छपा जायगा। जोंकोंको तो यह मनवाना है कि आदमी मरकर फिर दुनियामें जनम लेता है, और जैसा करम वैसा फल। सेठ लोगोंने पहिले जनममें अच्छा करम किया था, इसीलिये वह आज करोड़पती-अरबपती बने हैं। जोंकोंके अखबारोंमें जोतिसकी बातें भी छपती हैं, जोतिसी लोग बालकी खाल निकालते दुनियाका आगम (भविष्य) बतलाते हैं। उनके पत्रमें जोंकोंके मारनेवाले गरह कभी नहीं मिलेंगे। जोंके' उसे इसीलिये छापती हैं कि भोली-भाली जनता समझे कि हमारे आगमका

बनना-विगड़ना अपने हाथमें नहीं गरहोंके हाथमें है; इसलिये जोंकोंके साथ लड़ने-भगड़नेसे कुछ नहीं मिलेगा। जोंकोंके अखबारमें तसवीरके साथ किसी एक नंबरके बदमास, लम्पट, ठगका जीवन-चरित्र छुपेगा और उसमें उसे बड़ा सिद्ध महात्मा बतलाया जायगा। भोली-भाली जनता उसे पढ़कर समझेगी, कि अब भी भगवानके दरसन करनेवाले महात्मा दुनियामें मौजूद हैं। अब भी भगवान हैं। और वह दुनियाकी खोज खबर लेते हैं, इसलिये छोड़ो दुनियाका भ्रष्ट और भगवानकी ओर लौ लगाओ।

दुखराम—दिलमें तो आग ही लग जाती है लेकिन तुम कहते हो दिमाग ठंडा रखना चाहिये, इसलिये मनको समझता हूँ। इससे तो मालूम होता है कि सचमुच ही अखबार बड़ा जबरजस्त हथियार है।

भैया—और दुखू भाई ! विलायती जोंके जो किसानोंके घरोंमें दस पैसा रखवाने और बीस पैसा खानेका इंतजाम सोच रही हैं, तो फिर गाँव-गाँवमें नहीं, घर-घरमें अखबार आने लगेंगे। फिर जोंकोंके अखबार हजारों नहीं लाखों रोज छुपेंगे। अभीसे बिड़ला मनसूबा बाँध रहा है कि सारे हिन्दुस्तानमें जगह-जगहसे हिन्दी, अँगरेजी और दूसरी भाखाओंमें अपना अखबार निकालें। सिंहा-नियाँ, डालभियाँ, और दूसरे करोड़पति भी अब अखबारोंकी ताकतको समझने लगे हैं लेकिन दुखू भाई देखा न ? अखबर विदेसी चीज है, लेकिन उससे पूँजीपतियोंको नफा है, उससे उनकी तागत बढ़ती है, इसलिये अब वह स्वदेसी हो गया। अमेरिका और विलायतके दिमागसे वहाँके कारखानेमें बनी छापेकी मशीन भी स्वदेसी हो गई। विलायतके लोगोंने भाप और बिजलीवाले कारखानेको दिमागसे निकाला और उन्हें कायम करके हजारों मजूरोंका खून चूसना शुरू किया। वह लखपतीमें करोड़पती और करोड़पतीसे अरबपती हो गये। हिन्दुस्तानी सेठ जब उन्हीं कारखानोंको हिन्दुस्तानमें खोलकर करोड़पती बन गये तब उनको स्वदेसी-विदेसीका कुछ ख्याल नहीं आया। लेकिन जब विलायती मजूरोंने अपने मालिकोंके खिलाफ मरकस बाबाके जिस सिञ्चाका सहारा लिया, उसीको जब हिन्दुस्तानके मजूर अपनाते लगे तो वह विदेसी बन गयी।

सोहनलाल—हिन्दुस्तानी जोंके यह भी कहती हैं कि हिन्दुस्तान घरमा-

त्माओंका देस है यहाँ मरकसकी सिन्धु नहीं चलेगी ।

भैया — यह धर्मात्माओंका देस है, इसमें क्या सक है । यहाँ १६०० बरस तक डेढ़ अरब औरतें सतीके नामपर आगमें जलाई जाती रहीं । यहाँ सरग जानेके लिये लोग हिमालयमें गलते और अछुयवटके बरगदसे त्रिबेनीमें कूदकर धरम कमाते थे । यहाँ १० करोड़ आदमियोंको अछूत और जानवर बनाना, धरमका सबूत है । यहाँ गायका पेसाब-पाखाना खाना धरम है । यहाँ औरतोंको कोई अधिकार न देना जरूरी समझते हैं, पत्थर, बन्दर, सूअर, कुत्ता, गदहा, उल्लू सबके लिये यहाँ आदमीका सिर भुकनेके लिये तैयार है । यहाँ एक ओर बरहम-चारीपनका ढोंग है, दूसरी ओर अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करनेमें भी पुन्य माना जाता है । यहाँ एक ओर सराबको हराम कह करके भगवतीका जूठ मिलनेपर पवित्र समझा जाता है । यहाँ गाड़ीके गाड़ी-पोथे पढ़के भी आदमी गदहा बनता है, भूगोल पढ़के भी हिमालयके पास सरग डूढ़ता है । सायंस पढ़के भी राहुके कारण चंद्र गरहन, सूरज गरहन मानता है, और गंगामें नहाकर उद्धार करता है, मुंहसे “एको ब्रह्म द्वितीयोनास्ति” बोलते हैं, आदमीसे छू जानेसे, या छुआ रोटी-पानी खा लेनेसे पतित हो जाना मानते हैं । सोहन भाई, यह देस जरूर धरमात्माओंका है । लेकिन १० करोड़ अछूतोंको धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं ।

दुखराम—मानते तो उन्हें भी न धरम करनेके लिये मंदिरमें जाने देते ?

भैया—१० करोड़ औरतोंको धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ?

दुखराम—मानते तो उन्हें भी जनेव देते न ?

भैया—कायथोंको धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ?

दुखराम—उन्हें सराबी, कवाबी, सुदर कहकर हटा देते हैं ।

भैया—राजपूतोंको धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ?

दुखराम—मानते तो रजपुत भगत न मूसल धनुही कहके उन्हें भगत बननेके अजोग न कहते ?

भैया—बंगाली बरहमनोंको धरमात्मा मानते हैं या नहीं ?

दुखराम—कठी पहिनकर जो मछली-मांस खाय वह क्या धरमात्मा होगा भैया !

भैया—पंजाबी ब्रह्मनकों धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ?

दुखराम—मैं नहीं कह सकता भैया !

भैया—मैं कहता हूँ दुखू भाई, वह भी धरमात्मा नहीं, क्योंकि वह चौका-चूल्हा नहीं मानते और कहारके हाथकी रोटी-दाल खाते हैं। गौड़, कनौजिया, युभौतिया, सनाढ्य ब्रह्मन भी धरमात्मा नहीं है क्योंकि वह हल चलाते हैं। दक्खिनबाले ब्रह्मन भी धरमात्मा नहीं हैं, काहेसे कि वे मामा, बुआ, बहिन तककी लड़कीसे ब्याह करते हैं।

दुखराम—तो भैया, हिन्दुस्तानमें धरमात्मा है कौन ? यह तो प्याजके छिलकेकी तरह सब अधरमी ही बन जाते हैं।

भैया—अच्छा जो मोटा-मोटी धरमात्मा मान लो तो मानना पड़ेगा कि वहाँके, हिन्दुस्तानके हिन्दू भी धरमात्मा हैं, मुसल्मान भी धरमात्मा हैं, ईसाई भी धरमात्मा हैं, बौद्ध भी धरमात्मा हैं। फिर तो रूसमें भी ईसाई धरमात्मा हैं, मुसल्मान धरमात्मा हैं, यहूदी धरमात्मा हैं। वहाँ भी उनके बड़े-बड़े मन्दिर, मठ, गिरजा और मसजिद बनी हैं। वहाँ मुसलमानोंके तो बल्कि कई बड़े-बड़े पीर समरकन्द-बुखारामें पैदा हुये।

दुखराम—तब उनका यह कहना निलज्जताई ही है न कि मरकस बाबाकी सिच्छा रूसमें इसलिये चली कि वहाँके लोग धरमात्मा नहीं थे।

अध्याय १७

ग्यान और भाखा

सोहनलाल—दुखू मामा ! अभी तक हमने भैयासे बहुत सँभल-सँभलके सवाल पूछा है, अब एकाध अपने मनका भी सवाल पूछ लेने दो।

दुखराम—पूछो भैने ! हम भी सुनेंगे, लेकिन दो-चार आना हम भी समझे, ऐसा पूछना।

सोहनलाल—नहीं समझ पाओगे दुखू मामा ! तो दो ही चार आना

भर, नहीं तो सभी समझोगे । अच्छा तो भैया ! जोंके जो कहती हैं, कि जितना ग्यान-विग्यान दुनियामें है, वह सब हमने ही पैदा किया है, हम न रहेंगे तो दिया बुझ जायगा ।

भैया—हम कब कहते हैं कि जोंकोने कभी अच्छा काम किया ही नहीं । लेकिन जो दिया बुझ जानेकी बात कहते हैं, वह गलत है । हम दिया बुझने नहीं देंगे । हमारे कमेरोके राजमें ग्यान-विग्यान बहुत चमकेगा । वहाँ ग्यानके बिना कुछ हो भी नहीं सकता । जोंकोके राजमें आज अपढ़-अबुझ हलवाहेसे भी काम चल सकता है, लेकिन हमारे लिए तो मोटर-हल चलानेवाले हलवाहे चाहिए । राज सँभालते ही पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि देस भरमें कोई बेपढ़ नहीं रहे ।

दुखराम—लेकिन भैया ! कितने लोगोंमें तो जेहन ही नहीं होती, वह कैसे पढ़ेंगे ?

भैया—जोंकोकी जैसी पढ़ाई होगी, तब तो सबको पढ़ नहीं बना सकते । जोंके बिदा पढ़ानेके लिए भाखा पढ़ाती हैं, अपनी भाखा पढ़ावे तो कोई उतनी मेहनत नहीं लेकिन वह पढ़ाती हैं अगरेजी, फारसी, अरबी, संसकीरत । जो हम देस भरको अंगरेजी पढ़ा देनेकी परतिग्या करेंगे, तो वह सात जनमका काम है दुखू भाई ! हम तो बल्कि भाखा पढ़ायेंगे ही नहीं । क्य कोई आदमी गूँगा है, कि भाखा पढ़ाये । लोग कथा-कहानी कहते हैं, हसी-मजाक करते हैं, देस-बिदेसकी बात बतलाते हैं, सब अपनी ही भाखामें कहते हैं न ? बस हम पहले तो यही कहेंगे कि दो-तीन दिनमें अच्छर सिखला देगे । अइतालिस अच्छर तो कुछ हई हैं । दो-तीन नहीं तो पाँच-छः दिन लग जायेंगे, फिर आदमी जो भाखा बोलता है, उसीमें छपी किताब हाथमें थमा देंगे ।

दुखराम—ऐसा हो भैया ! तब पढ़ना काहेका मुस्किल हो ।

भैया—ढोला-मारु, सारंगा-सदाबिच्छ, लोरिकी, सोरठी, नैका, कुँअरि विजयमल, बेहुलाके कितने सुन्दर-सुन्दर खिस्से और गाने हैं । इन्हींको छापके दे दिया जाय, तब कहो दुखू भाई !

दुखराम—तो बूढ़े सुग्गे भी राम-राम करने लगेंगे क्या किसीको पढ़नेमें परित्थम मालूम होगा ।

भैया—बिदा अलग चीज है दुखू भाई ! भाखा अलग चीज है । लेकिन जोंके हमको सिखलाती हैं कि भाखा पढ़ लेना ही ग्यान है । यह ठीक है कि ग्यान सिखाते बखत उसे किसी भाखामें बोला जाता है । लेकिन अंगरेजीमें काहे बोला जाय, अरबी-संस्कीरतमें काहे बोला जाय, उसे अपनी बोलीमें काहे न बोला जाय ।

सोहनलाल—लेकिन बोली तो पाँच कोसपर बदल जाती है, ऐसा करनेसे तो हजारों भाखा बन जायेगी, और कौन-कौनमें किताब छापते फिरेंगे ?

भैया—पाँच कोस नहीं जो ५ अंगुलपर ही भाखा बदल जाय, ता भी हमको उसीमें किताब छापनी पड़ेगी । तभी हम दस बरिसके भीतर अपने यहाँ किसीको बेपढ़ नहीं रहने देंगे ।

सोहनलाल—लेकिन हिन्दी भी तो अपनी भाखा है ।

भैया—जिसकी अपनी भाखा हो, उसे हिन्दी हीमें पढ़ाना चाहिए, तुम्हारे बनारसमें सब लोग घरमें हिन्दी ही बोलते हैं ?

सोहनलाल—किताबवाली भाखा तो नहीं बोलते भैया ! बोलते तो हैं वही बोली जो बनारस जिलाके गाँवमें बोली जाती है ।

भैया—जो क-ख अच्छी तरह सिखा दिया जाय तो अपनी बोलीमें आदमी कितने दिनोंमें सुद्ध-सुद्ध लिखने लगेगा ?

सोहनलाल—अपनी बोलीको तो भैया ! असुद्ध कोई बोल ही नहीं सकता । अच्छरमें चाहे भले ही एकाध गलती हो जाय, लेकिन व्याकरनकी गलती कभी नहीं होगी ।

भैया—और हिन्दी कितना दिन पढ़नेपर व्याकरनकी गलती नहीं करेगा ।

सोहनलाल—कोई-कोई आदमी तो भैया जिन्दगी भर पढ़नेपर भी न सुद्ध बोल सकते हैं न लिख सकते हैं ।

भैया—लेकिन अपनी बोलीको तो आदमी चाहे भी तो असुद्ध नहीं बोल सकता, यह तो मानते ही हो । अच्छा जिनगी भर हिन्दी न बोलनेवालोंकी

बात छोड़ो । मामूली तौरसे सुद्ध हिन्दी लिखने-बोलनेमें कितना समय लगेगा । हमारे गाँवके एक लड़केको ले लो, जिसकी भाखा हिन्दी नहीं बल्कि भोजपुरी या बनारसी है ?

सन्तोखी—मैं कहुँ भैया ! हमारे यहाँ लड़के आठ बरस पढ़के हिन्दी मिडिल पास करते हैं, लेकिन तो भी न सुद्ध हिन्दी बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं ।

भैया—सोहन भाई ! तुम इन्ट्रेंस पासवालोंकी बात कहो ।

सोहनलाल—जब पूछते ही हो, तो मैं बतलाता हूँ कि कितने तो बी० ए० पासकरके भी सुद्ध हिन्दी लिख-बोल नहीं सकते ।

भैया—न मैं आठ साल पढ़े मिडिलवालेको लेता हूँ न बी० ए०की चौदह सालकी पढ़ाई । मैं इतना समझता हूँ कि आदमीकी जेहन बहुत खराब न हो और भाखा ही भाखा पढ़ता रहे तो पाँच बरस तो जरूर ही लगेंगे । लेकिन हिसाब और दूसरी चीज साथ ही साथ पढ़नी हो, तब काम नहीं बनेगा । हमारे मदरसोंमें जो हिसाब, जुगराफिया सब कुछ अपनी ही भाखामें पढ़ना हो, तो पाँच बरस क्या भाखा सीखनेमें एक दिन भी नहीं देना होगा । ग्यान है हिसाब, जुगराफिया, इतिहास, खेतीकी विद्या, इंजनकी विद्या, सड़क, पुल, मकान बनानेकी विद्या और पचीसों तरहकी विद्या । ग्यान पढ़ानेके लिए जब हम यह सरत रख देते हैं कि जब तक तुम पराई भाखा न पढ़ोगे, तब तक ग्यानमें हाथ नहीं लगा सकते, तब वह बहुत मुस्किल हो जाता है ।

सन्तोखी—हम लोगोंकी भाखाको तो भैया ! लोग गँवारु कहते हैं ।

भैया—“आइल-गइल”, “आयन-गयन”, “आयो-गयो”, “एल-गेल” बोलनेसे तो गँवारु भाखा हो गई, और “आये-गये” कहनेसे वह अच्छी भाखा होगी । और “कम्-वेन्ट” कहनेसे वह बहुत अच्छी भाखा हो गई । काहेसे वह साहेब लोगोंकी भाखा है । साहेब लोगोंका डंडा सिरपर है, उनका राज है, इसलिए अँगरेजी बोली बहुत अच्छी भाखा है, वह देवताओंकी भाखासे भी बढ़कर है, लेकिन जब साहेब लोगोंका राज न रहे, और गँवार यही किसान-मजूर अपना पंचायती-राज कायम कर लें, तो क्या तब भी उनकी

भाखाँ गँवारु रहेगी ? यह तो “जिसकी लाठी उसकी भैंस”वाली बात हुई । गँवारु कह देनेसे काम नहीं चलेगा । जिस बखत इसी गँवारु भाखामें इसकूल, कालेज सब जगह चौदह बरस तक पढ़ी जानेवाली विद्या पढ़ाई जायगी उसीमें हजारों किताबें छपेंगी । उपन्यास, कविता, कहानी सब कुछ गँवारु भाखामें मिलने लगेगा । रोजाना, हफ्तावार, माहवारी, अखबार निकलने लगेगे, तब इस भाखाको कोई गँवारु नहीं कहेगा ।

दुखरामं—क्या ऐसा होगा भैया ?

भैया—जो तुम लोग हमेसा गँवार बने रहना चाहोगे, तो नहीं होगा; जो तुम हमेसा गुलाम बने रहोगे, तो भी नहीं होगा; जो हिन्दुस्तानके आंध्र आदिमियोंको वेपढ़ बनाये रखना है, तो नहीं होगा; नहीं तो इसमें अनहांनी कौन-सी बात है ? बल्कि अपनी बोली पकड़नेसे तो छः बरसका रस्ता एक दिनमें पूरा हो जाता है ।

सोहनलाल लेकिन अपनी-अपनी बोली पढ़ाई जाने लगी, तो दरभंगा, बनारस, मेरठ, और उज्जैनके आदमी एक जगह होनेपर कौन सी भाखा बोलेगे ?

भैया—आज भी गौहाटी, ढाका, कटक, पूना, सूरत, पेसावरके आदमी एकठा होनेपर क्या बोलते हैं ।

सोहनलाल—हिन्दी बोलते हैं, टूटी-फूटी हिन्दीसे काम चला लेते हैं ।

भैया—लेकिन इकठा होनेका ख्याल करके उनसे यह नहीं न कहा जाता कि तुम असामी, बंगला, उड़िया, मराठी गुजराती, पस्तो छोड़के हिन्दी-सिरिफ हिन्दी पढ़ो, नहीं तो कभी जो इकठे होओगे तो बात करनेमें मुसकिल पड़ेगा । जैसे उन लोगोंको अपनी भाखामें सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसी तरह दरभङ्गावालोंको मैथिली, भागलपुरवालोंको भगलपुरिया (अंगिका), गयावालोंको मगही, छपरावालोंको छपरही (मल्ली), लखनऊवालोंको अवधी, बरैलीवालोंको बरैलवी (पंचाली), गढ़वालवालोंको गढ़वाली, मेरठवालोंको मेरठी (खड़ी बोली या कौरवी), रोहतकवालोंको हरियानवी (यौधेयी), जोधपुरवालोंको मारवाड़ी, मथुरावालोंको ब्रजभाखा, भाँसीवालोंको बुन्देलखंडी,

उज्जैनवालोंको मालवी, उदयपुरवालोंको मेवाड़ी, भालावाड़वालोंको बागड़ी, खँडुआवालोंको नीमाड़ी, छतीसगढ़वालोंको छतीसगढ़ी—सबको अपनी-अपनी भाषामें पढ़ाया जाय ।

सोहनलाल—पढ़ानेमें तो सुभीता होगा भैया ! हर आदमीका पाँच-पाँच साल बच जायेगा और डरके मारे जो बीच हीमें पढ़ाई छोड़ बैठते हैं, वह भी बात नहीं होगी, लेकिन हिन्दी भाषावालोंका एका टूट जायगा ।

भैया—एका टूटनेकी बात तो इस बखत नहीं कह सकते हो सोहन भाई ! इस बखत तो एका सिर्फ दिमागमें है । मध्य-प्रान्त अलग है, युक्त-प्रान्त और बिहार भी अलग है, हरियाना भी पंजाबमें है और रियासतोंने छुपन टुकड़ेकर डाले हैं, इसे आप देखते ही हैं ।

सोहनलाल—लेकिन हम तो चाहते हैं कि सबको मिलाकर हिन्दका एक बड़ा सूबा बना दिया जाय ।

भैया—सूबा नहीं, पंचायती-राज, प्रजातंत्र । सूबा क्या हम हमेशा विदेसी जोंकोंके गुलाम बने रहेंगे ? और अपना राज होनेपर किसी सुबजबंसीको दिल्लीके तख्तपर बैठायेंगे ? हमारा पंचायती-राज रहेगा, जो एक नहीं बहुत-से पंचायती-राजोंका संघ होगा । जो लोग चाहेंगे तो दरभंगासे बीकानेर, और गंगोत्तरीसे खँडवा तकका एक बड़ा प्रजातंत्र-संघ कायम कर लेंगे जिसके भीतर पचीसों प्रजातंत्र रहेंगे ।

सोहनलाल—तो भैया ! मल्ल प्रजातंत्रकी बोली मल्लिका रहेगी और मालव प्रजातंत्रकी मालवी, यौधेय (अंबाला कमिश्नरी) प्रजातंत्रकी हरियानवी; फिर जब वह हिन्द प्रजातंत्र संघकी बड़ी पंचायत (पार्लियामेंट)में बैठेंगे, तो किस भाषामें बोलेंगे ?

भैया—हिन्दीमें बोलेंगे और किसमें बोलेंगे ? इन्हींकी बात क्यों पूछ रहे हो, मदरास, कालीकट, बेजवाड़ा, पूना, सूरत, कटक, कलकत्ता और गोहाटीके मेम्बर भी जब सारे हिन्दुस्तानके प्रजातंत्र-संघकी बड़ी पंचायतमें इकट्ठा होंगे, तो क्या वह अंगरेजीमें लेच्चर देंगे । अंगरेज जोंकोंके जुवाके उतार फेंकनेके साथ ही अंगरेजी भाषाका जोर हिन्दुस्तानमें खतम हो

जायगा तब हिन्दुस्तानमें एक दूसरेके साथ बोलने-चालने, और सारे देसकी सरकारके काम-काजके लिये एक भाखाकी जरूरत होगी, तो वह भाखा हिन्दी ही होगी ।

सोहनलाल—तो भैया ! हिन्दी भाखाको तो तुम उजाड़ना नहीं चाहते हो न ?

भैया—हम उजाड़ेगे कि उसे और मजबूतीसे बसावेगे । सारे हिन्द प्रजातंत्र-संघकी वह संघ-भाखा होगी । मदरसोंमें जैसे अंगरेजीके साथ दूसरी भाखा पढ़ाई जाती है, वैसे ही बारह बरसकी उमरसे ३-४ साल तक लड़कोंको हर रोज एक घंटा हिन्दी पढ़नेका कायदा बना देंगे । उस बखत हिन्दीका जोर और बढ़ेगा कि घटेगा ?

सोहनलाल—आज तो हिन्दी ही हिन्दी सब कुछ है, फिर तो ब्रिज, मालवी, मैथिली, न अपने घरकी मालकिन बन जाएगी ? फिर बेचारी हिन्दीको जब कोई बुलायेगा तभी न चौखटके भीतर आयेगी ।

भैया—आज-कल यह कहना तो गलत है कि हिन्दी सब कुछ है, काहेसे कि सब कुछ तो अंगरेजी है । दूसरे हिन्दीके चौखटके भीतर बैठानेकी बात भी ठीक नहीं है । मेरठ कमिश्नरीके साढ़े-तीन जिले, (मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून $\frac{3}{4}$, बुलंद सहर $\frac{3}{4}$)की भी तो जनम भाखा वही है । उसके बाद सारे हिन्दुस्तानमें घर-घर में उसकी आव भगत रहेगी ।

सोहनलाल—तो लोग अपनी-अपनी भाखाका प्रजातंत्र बना लेंगे, फिर तो हिन्दुस्तान सौ टुकड़ोंमें बँट जायेगा ।

भैया—सोवियतकी आवादी हम लोगोंसे आधी है, २० करोड़ ही है, लेकिन वहाँ तो १८२ भाखा बोली जाती है और सबका अपना छोटा-बड़ा पंचायती-राज है । तुम चाहते हो कि पाँचों उगुलियोंको खुला नहीं रखा जाय, बल्कि मिलाके सी दिया जाय, लेकिन इससे हाथ मजबूत नहीं होगा सोहन भाई ! सोवियत १८२ प्रजातंत्रवाला होनेपर भी एक बड़ा प्रजातंत्र है । हिन्दुस्तान भी १०० प्रजातंत्रवाला, एक बड़ा प्रजातंत्र हो तो कौन-सी बुरी बात है ।

सोहनलाल—अच्छा तो यही होता कि सारे हिन्दुस्तानका एक ही प्रजातंत्र होता ?

भैया—अच्छा तो होता जो हिन्दुस्तानके लोग एक ही बोली बोलते होते, लेकिन वह तो अब हमारे हाथमें नहीं है। क्या सारे हिन्दुस्तानका तुम एक सूबा बनाना चाहते हो ?

सोहनलाल—नहीं सूबा तो हम अलग-अलग चाहते हैं। बंगाल, उड़ीसा, सिन्ध सबको मिटाकर एक सूबा तो बनाया नहीं जा सकता।

भैया - अगरेजी राजमें जो आज सूबा है और १२ लाख सालाना खरचपर वहाँ लाट् साहब लाके बैठाये जाते हैं, वही तब प्रजातंत्र कहा जायगा, जिसका राजकाज पंचायतके हाथमें होगा, अनेक सूबाको तो तुम मानते ही हो, उसका मतलब ही है कि अनेक प्रजातंत्र हिन्दुस्तानमें रहेंगे और हिन्दुस्तान प्रजातंत्रोंका संघ रहेगा। अब भगड़ा यही है न कि १४ प्रजातंत्र रहे या सौ ? मैं कहता हूँ कि उतने ही प्रजातंत्र हो जितनी भाखा लोग बोलते हों और अपने-अपने प्रजातंत्रमें पढ़ाई-लिखाई, कचहरी-पंचायतका सब कारबार अपनी भाखामें हो लेकिन सौ प्रजातंत्र होनेका मतलब यह तो नहीं है कि अब वह एक-दूसरेसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे, और कछुएकी तरह मूँड़ी समेटकर अपनी खोपड़ीमें घुस जाएँगे। हमारे महा-प्रजातंत्रके ये सभी प्रजातंत्र हाथ-पैर, नाक-कानकी तरह अंग होंगे। सबमें एक खून बहेगा। सब एक-दूसरेकी मदद करेंगे। उस बखत रेलकी लाइनें आजसे भी ज्यादा बढ़ जायगी, पक्की सड़के गाँव-गाँवमें पहुँच जायँगी। हर प्रजातंत्र में हवाई जहाजके अड्डे होंगे। लोगोंकी जेबमें पैसा रहेगा, सालमें महीने डेढ़ महीनेकी सबको छुट्टी मिलेगी। तो बताओ लोग कूएँके मेढक बनकर बैठे-रहेंगे या अपने महादेसमें घूमने-फिरने जायेंगे ?

दुखराम—घूमने-फिरने जायेंगे भैया ! देस-परदेस देखनेका किसका मन नहीं कहता, नातेदारों-रिस्तेदारोंसे मिलनेकी किसकी तबियत नहीं होती।

भैया—जनम-भाखाको कबूल करनेसे हिन्दीको नुकसान होगा यह ख्याल शकत है सोहन भाई ! उस बखत बनारसवाले कानपुरवालोंसे बहुत नगीच

रहेंगे, टेलीफोन भी नगीच कर देगा, हवाई जहाज भी और जेबका पैसा भी । हिन्दी सीखना लोग बहुत पसन्द करेंगे, क्योंकि सारे देसकी सामेकी भाखा वही है, फिर हिन्दीमें पोथियाँ सबसे अधिक निकलेगी । आज-कल देखते हैं न हिन्दीके सिनेमा-फिल्म जितने निकलते हैं, उतने बँगला, मराठी, तामिल, तेलगू सारी भाखाओंके मिलके भी नहीं निकलते । हिन्दी भाखाकी किताबोंकी भी वही हालत होगी; उसके पढ़नेवाले देश भरमें मिलेंगे । मुझे उमेद है, कि जैसे चौपटाध्याय फिल्म हिन्दीमें निकल रहे हैं, वह किताबें वैसी नहीं होंगी ।

सोहनलाल—चौपटाध्याय फिल्म क्यों कह रहे हो भैया ? जो चौपटाध्याय होते तो इतने लोग देखने क्यों जाते और फिल्मवालोंको लाखों रुपयेका नफा कैसे मिलता ?

भैया—देखनेवाले तो इसलिए जाते हैं कि दूसरा अच्छा फिल्म है कहाँ ? दूसरे नाच-गाना और सुन्दर मुँहके देखनेकी आदत लोगोंकी पहिले हीसे है, बस वह समझते हैं कि चलो दो आनामें तायफका नाच ही देख आएँ, लेकिन सिरिफ सुन्दर मुँह और सुरिले कंठ तकमें ही फिल्मको खतम कर देना अच्छी बात नहीं है, सोहन भाई । उसमें बात-चीत, हाव-भाव और तसवीरोंसे दुनियाका असली रूप दिखलाना होता है, साथ ही साथ लोगोंको रस्ता भी दिखलाना होता है । लेकिन रस्ता दिखलानेकी बात छोड़ दो, काहेसे कि जाँकोंके राजमें वह अनहोनी बात है । लेकिन हिन्दी फिल्मोंमें सब चीजोंमें बेपरवाही देखी जाती है । फिल्म बनानेवाले तो जानते हैं कि उनके पास रुपया चला ही आयेगा, फिर क्यों परवाह करें ?

सोहनलाल—हिन्दी फिल्मोंमें आपको क्या दोस मालूम होता है भैया ?

भैया—पहिले गुन बताता हूँ तब दोस बताऊँगा । गुन तो यह है कि हमारे फिल्मके खिलाड़ी (अभिनेता) और खिलाड़िनें (अभिनेत्रियाँ) अपना करतब दिखलानेमें दुनियाके किसी भी खेलाड़ी-खेलाड़िनीसे कम नहीं हैं । और अच्छे फिल्मके लिए यह बहुत अच्छी चीज है । वह अपनी बात-चीत, हाव-भाव, गीत-नाच सबमें अच्छे हैं—मैं सभी खेलाड़ी-खेलाड़िनोके बारेमें नहीं कहता, लेकिन अच्छे खेलाड़ी-खेलाड़िनोमें यह सब गुन हैं । और इन्हीं

गुनोका प्रस्ताप है कि मदरास, कालीकट और बेजवाड़ा में भी लोग अपनी भाषा-के फिल्मोंको छोड़कर हिन्दी फिल्मोंको देखने आते हैं, चाहे बेचारे फिल्मकी भाषाको नहीं समझ पायें । मैं समझता हूँ कि ये हमारे खेलाड़ी-खेलाड़िनोंके गुनका ही परताप है । पैसा बनानेवाले फिल्म मालिकोंकी चले तो सायद उसमें भी कुछ खराबी कर दें ।

सोहनलाल—और दोस क्या है भैया !

भैया—भाषा तीन कौड़ीकी होती है, न उसमें लचक, न कहावत और न गहराई होती है । यह क्यों होता है ? बहुतसि फिल्म मालिक भाषा जानते ही नहीं, लेकिन तो भी अपनेको महाविद्वान समझते हैं । एक तो उनके भाषा लिखनेवाले भी बहुतसे उन्हींकी तरह हैं, और जो कोई अच्छा भी लिखता हो, तो अच्छेको बुरा और बुरेको अच्छा कहनेका अख्तियार फिल्म तैयार करनेवाले अपने हाथमें रखते हैं । सभभ लो पूरी दमद-सोधन हो जाती है ।

सोहनलाल—दमद-सोधन क्या है भैया ?

भैया—किसी पंडितने एक मुखसे अपनी लड़की ब्याह दी । दामाद एक दिन ससुरार आया । छपाखानेसे पहिलेकी बात है, उस वक्त किताबोंको उतारनेवाले मामूली पढ़े-लिखे लेखक हुआ करते थे । वह मजूरी लेकर किताब उतार दिया करते थे । पंडित लोग किताब लेके फिर पढ़ते और जो असुद्ध होता उसपर पीला हड़ताल फेरते और जिसको ज्यादा ध्यानमें रखना होता, उसे गेरूसे लाल कर देते । पंडितके दामादने पोथी, हड़ताल और गेरूको देखा । उन्होंने पोथीको हाथमें ले लिया । पंडिताइनको अपने दामादपर बहुत गरब था, उन्होंने समझा कि दामाद भी बड़ा पंडित है और उससे कहा—“पंडित गेरू और हड़तालसे किताबको सोध रहे हैं, तुम भी तो सोधते होगे बाबू !” दामाद कब पीछे रहनेवाले थे । उन्होंने कहा—“हाँ, अइया ! मैं अच्छी तरह जानता हूँ ।” फिर जहाँ मन आया हड़ताल लगाया, जहाँ मन आया गेरू, पोथीकी दमद-सोधन हो गई ।

सोहनलाल—तो इसमें फिल्म पैदा करनेवालोंका ज्यादा दोस है या भाषा लिखनेवालोंका ।

भैया—फिल्म पैदा करनेवालोंका बहुत बड़ा दोस है, उनमें खुद लिखाकत नहीं है और न लायक आदमियोंको चुन सकते हैं। भाखा लिखनेवालोंमें जो थोड़ेसे अच्छे भी हैं, उनमें भी एक बड़ा दोस है। वह हिन्दी या उर्दूकी किताबी भाखा लिखते हैं। किताबसे पढ़के सीखनेवालेकी भाखामें जीवट नहीं होता और सहरोंमें जो थोड़े-बहुत बाबू लोग अपने घरोंमें हिन्दी भाखा बोलते हैं, वह भी किताबी भाखा जैसी ही होती है।

सोहनलाल—तो जीवटवाली भाखा कौन बोलते हैं भैया ?

भैया—मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुरके जिलोंके गँवार।

सोहनलाल—तब तो फिल्मकी भाखा लिखनेवालोंको भाखा सीखनेके लिए इन गँवारोंके पास जाना पड़ेगा ?

भैया—उनके चरनमें जाकर बैठना पड़ेगा। हिन्दी भाखाको किताबवालोंने नहीं पैदा किया, बल्कि इन्हीं गँवारोंने पैदा किया। हिन्दी पढ़नेवालोंने सैकड़ों बरस पहले उन गँवारोंसे भाखा तो ले ली, लेकिन भाखामें जीवट लानेके मुहाविरें, कहावतें, सबदोंका तोड़ना-मरोड़ना और उन्हें मनमाने तौरसे रखना इत्तादि बातें नहीं सीखीं; इसलिए हिन्दी भाखामें वह चमतकार नहीं आ सका। किताब पढ़नेमें तो किसी तरह आदमी बरदास भी कर लेगा लेकिन नाटककी बातचीतमें इससे काम नहीं चल सकता।

सोहनलाल—तो भैया ! तुमने कोई फिल्म ऐसा नहीं पाया, जिसमें कुछ जीवटवाली भाखा दिखाई दे।

भैया—मैंने सिर्फ एक फिल्म ऐसा देखा है जिसकी भाखा मुझे पसंद आई, वह था—“जमीन।” मैं समझता हूँ जब तक फिल्म पैदा करनेवाले अपनेको सब कुछ जाननेवाला मानना नहीं छोड़ेंगे और जब तक भाखा लिखनेवाले मेरठके उन गँवारोंके चरनोंमें नहीं बैठेंगे, तब तक यह दोस नहीं जायेगा।

सोहनलाल—और दूसरे दोस क्या हैं भैया ?

भैया—दूसरे दोस फिल्म पैदा करनेवालोंको है चाहे उन्हें उनका अंधापन कह लो, चाहे “कम दाम ज्यादा नफा”का ख्याल समझ लो, चाहे

फिल्म मालिकोंका अपने घरके पास ही फिल्म बनानेका हठ समझ लो । हिन्दीके फिल्म बम्बई या कलकत्तामें ही तैयार किये जाते हैं । वहीके आस-पासके गाँवों, पहाड़ों, नदियोंका फोटो खींचा जाता है । वहाँ न हिन्दी बोलनेवाले गाँव हैं न हिन्दीवालोंके रीति-रवाज कपड़े-लत्ते । इसका फल यह होता है कि सब चीजें बनावटी दीख पड़ती हैं । बहुत-सी चीजोंको तो वह आने नहीं देते । “जमीन”की तसवीरोंमें भी यह दोस मौजूद है । यह दोस बँगला, मरहठी या तमिल फिल्मोंमें नहीं पाया जाता, काहेसे कि उनमें उन्हीं गाँवों, नदियों, पहाड़ों और लोगोंकी तसवीरें ली जाती हैं, जो उस भाखाको बोलते हैं । हिन्दी-फिल्मोंका यह दोस तब तक दूर नहीं होगा, जब तक देहरादून, कालसी जैसी जगहोंमें फिल्मवाले अपने डंडा-कुडा उठाके नहीं आ जाते ।

सोहनलाल—और कौन दोस है भैया ?

भैया—हिन्दी फिल्मोंकी सारी तसवीरे दो-एक मीलके छोटसे घेरेमें घूमती रहती हैं, वह विसाल नहीं होतीं । नदियों, पहाड़ों, खेतों, गाँवोंका जो विसाल रूप हमें मिलना चाहिए, उसे हम नहीं पाते । क्या जाने यह पैसा बचानेके ख्यालसे होता होगा ।

सोहनलाल—और कोई दोस है भैया ?

भैया—हस्तिनापुरके पास गङ्गाका विसाल कछार है, वहाँ सैकड़ों गाएँ-भैसे चरती हैं. चरवाहे मस्त होकर गाना गाते हैं, गङ्गामें मलाह नाव खेता है, और अपनी तानमें सारी मेहनत भूल जाता है । धोबी, कुम्हार सबके अपने-अपने गीत, अपने-अपने बाजे, चित्र-विचित्र नाच हैं । सहरोंमें भी औरतोंके ब्याह और दूसरे वक्तके अपनी खास-खास नाच और नाटक हैं । इस तरहकी सैकड़ों चीजें हैं, जिनका बम्बई और कलकत्ताके फिल्मोंमें कहीं पता नहीं है ।

सोहनलाल—और कोई दोस है भैया ?

भैया—मैं अब एक ही दोस और कहूँगा । हिन्दी भाखा हिमालयकी गोदमें बोली जाती है । दुनियाके फिल्मवाले हिमालयके सुन्दर पहाड़ों, नदियों, झरनों, देवदार-बनों, और बरफीली चोटियोंको पाके निहाल हो जाते; लेकिन हिन्दी फिल्मवालोंके लिए वह कोई चीज नहीं । जापानके राजाकी राजधानी

लोकियो है लेकिन फिल्मोंकी राजधानी क्योतो है, कहिसे कि क्योतोको थोड़ा-सा हिमालयका रूप मिला है। लेकिन हमारे आजके फिल्मवालोंको इसका कभी ख्याल आयेगा, इसमें सक है।

सोहनलाल—तो भैया ! जो फिल्म बनानेवाले मेरठ कमिसनरीके हिमालयवाले टुकड़ेमें आ जायँ, तो उनके बहुतसे दोस हट जायँगे ?

भैया—यह मै मानता हूँ, लेकिन यह भी समझता हूँ कि सेठ अपना घर छोड़ तपोवनमें थोड़े जाना चाहेंगे, वह पचास तरहका बहाना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफा तो उन्हें खूब हो ही रहा है और थोड़े ही खर्चमें। लेकिन हम फिल्मकी बात करते-करते बहुत दूर चले गये सोहन भाई ! मैं कह रहा था हिन्दी भाखाके बारेमें।

सोहनलाल—हाँ, तो तुम समझते हो कि अपनी-अपनी भाखाको पढ़ाईकी भाखा मान लेनेपर हिन्दीको नुकसान नहीं होगा ? लेकिन भैया ! दुनियाको हमें और एक दूसरेके नगीच लाना है। मरकस बाबा तो सारी मानुख जातिको एक बिरादरी देखना चाहते थे, फिर किसी संजोगसे जो हिन्दीके नाते हिन्दुस्तानके आधे लोग एक भाखासे बँध गये हैं, उनको फिर तोड़-फोड़के अलग करना, यह तो पैर पकड़के पीछे खींचना है।

—भैया—पैर पकड़कर पीछे खींचना नहीं है सोहन भाई ! यह हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना है। जनम-भाखासे पढ़ाई करनेपर दस बरसके भीतर ही हमारे यहाँ कोई अपढ़ नहीं रह जायगा। और एक दूसरी जगह जाने, आपसमें मिलनेसे, हिन्दी भाखा सभी लोग थोड़ी-बहुत बोल लेंगे। और समझनेमें तो किसीको मुसकिल नहीं होगा, कहिसे कि इन सब भाखाओंमें बहुतसे सबद एक हीसे हैं। कविता, कहानी, उपन्यासका ढंग भी एक-सा ही रहेगा। हिन्दी पोथियोंकी उतनी ही ज्यादा माँग होगी, जितनी ही अधिक इन भाखाओंके पढ़ने-लिखनेवाले बढ़ेंगे। कमी इतनी होगी कि आज जो हमारे कितने ही भाई यह समझते हैं, कि अबधी, ब्रज, मालवी, बनारसी, मैथिली इत्तादि भाखायें कुछ दिनोंमें मर जातीं, उनको जरूर निरास होना पड़ेगा। निरास कैसे भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो जनम-भाखाओंको किताबकी भाखा न भी

बनाया जाय, तो भी सौ-पचास सालोंमें उन भाखाओंके मरते देखनेकी खुसी हमारे भाइयोंको नहीं मिलेगी। अभी उन्हें मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर अपनी जातिकी भाखा, समाज, विचार-विकास वगैरहके इतिहासकी बहुत-सी अनमोल सामग्री रखी है। मैं जानता हूँ जो दुनियासे जोंके उठ जायँगी, तो मानुख जाति जरूर एक होगी और फिर सबकी एक साभी भाखा भी होगी। हो सकता है, कि एक साभी और एक अपनी जनम-भाखा दो भाखाओंका रहना मुसकिल हो जाय। लेकिन वह अभी सैकड़ों बरसोंकी बात है। उस बखत तक हरेक भाखाके भीतर जितने रतन छिपे हुए हैं, सब जमा करके अच्छी तरह रख लिए गये रहेंगे। इसलिए किसी भाखाके नास होनेसे उतना नुकसान नहीं होगा।

सोहनलाल--लेकिन भैया ! यह बोलियाँ अभी ऐसी नहीं हैं कि इनमें साइन्स विग्यानपर किताबें लिखी जायँ। हिन्दीने बड़ी मुसकिलसे यह कर पाया है।

भैया—जो मान लें कि बनारसी बोलीमें साइन्सकी किताब नहीं लिखी जा सकती, तो कितने ही दिनों तक हिन्दीमें किताबें पढ़ेंगे जब तक कि हिन्दी बोली नाबालिगसे बालिग न हो जायगी। हिन्दी जैसी किसी भाखाकी किताब पढ़ना और उसमें लिखना-बोलना दोनोंमें बहुत फरक है, समझ लेना बहुत सहज है। अपनी बोलीके पढ़ानेका मतलब यह नहीं है कि हिन्दीको लोग छुयेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि बनारसी, मालवी किसी भी भाखामें साइन्स, इन्जीरिङकी किताबोंके लिखनेमें उतनी ही दिक्कत होगी, जितनी हिन्दीमें। आखिर हिन्दीने भी साइन्सके सबदोंको संस्कीरतसे लिया है, बँगला, गुजराती, मराठी भी संस्कीरतसे ही सबदोंको लेती हैं फिर बनारसी, मैथिली, ब्रिज, मालवीने क्या कसूर किया है ?

सोहनलाल—हिन्दी-उर्दूके बारेमें तुम्हारी क्या राय है भैया ?

भैया—मेरी राय क्या पूछ रहे हो मैंने तो पहिले ही कह दिया है कि जिसकी जो जनम-भाखा हो उसको उसी भाखामें पढ़ाना चाहिए। बनारसमें बहुतसे बंगाली भी रहते हैं, उन्हें बँगलामें पढ़ाना होगा। मराठे भी हैं,

उनको मराठीमें पढ़ाना होगा। हाँ, कोई दो भाखा बोलनेवाला हो तो वह चाहे जिस मदरसामें जाय। 'इसी तरह बनारसमें जिस लड़केकी जनम-भाखा हिन्दी है, उसके लिए हिन्दीका मदरसा कायम करना होगा, जिसकी जनम-भाखा उर्दू है उसके लिए उर्दूका मदरसा कायम करना होगा।

सोहनलाल — तो भैया, तुम हिन्दी-उर्दूको मिलाके एक भाखा नहीं करना चाहते।

भैया—मिलाना हमारे बसकी बात नहीं है, दस-पाँच आदमी बैठकर भाखा नहीं गढ़ा करते। हिन्दी-उर्दूके बननेमें सैकड़ों बरस न जाने कितनी पीढ़ियोंने काम किया है। मैं मानता हूँ कि हिन्दी और उर्दू भाखा मूलमें एक ही भाखा है। "का, में, पर, से, इस, उस, जिस, तिस, ना, ता, आ, गा" दोनों हीमें एकसे हैं, खाली भगड़ा है उधार लिए सबदोंका। हिन्दीने संस्कारतसे सबदोंको उधार लिया है, और उर्दूने, अरबी और कुछ-कुछ पारसीसे भी, लेकिन दोनोंने इतना अधिक उधार लिया है कि अकबालकी कविताको समझनेवाला सुमित्रानन्दन पन्तकी कविताको बिलकुल नहीं समझ सकता और सुमित्रानन्दन पन्तकी कविता जाननेवाला अकबालको बिलकुल नहीं समझ सकता। इसलिए मूलमें दोनों एक हैं, कहनेसे काम नहीं चलेगा। अकबाल और पन्त दोनोंके समझनेके लिए दोनों भाखाओंको अच्छी तरह पढ़ना होगा।

सोहनलाल—तो हिन्दू-मुसलमानोंकी भाखाओंके मिलनेका कोई रस्ता है ?

भैया—चोटियोंपर तो नहीं मालूम होता, लेकिन जड़में उसका भगड़ा ही नहीं।

सोहनलाल—जड़ क्या है भैया ?

भैया—जड़ यही है कि, जिसे जनम-भाखा कहते हैं, अवधी बोलनेवाले गाँवमें चले जाइये, वहाँ चाहे बाभन देवता हो, चाहे मोमिम जोलाहा, दोनों एक ही बोली बोलते हैं। बनारस, छपरा, गुड़गाँवा, थानाभवनके पास किसी गाँवमें चले जाइये, किसानों-मजूरोंकी भाखा एक है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। भाखामें फ़रक है सफ़ेद चोती, पैजामा पहिननेवालोंकी।

दुखराम—वही जोंकोंसे जिनका बेसी रिसता-नाता है ।

मैया—देखा न सोहन भाई ! जड़में अपनी एक भाखा तैयार है, हिन्दू-मुसल्मान दोनों कमेरे उसी भाखाको बोलते हैं और फिर उनका न संसकीरतके साथ पच्छपात है न अरबी-फारसीके साथ । यही दुखू भाईने जो अभी कहा, “बेसी रिसता-नाता” इसमें बेसी और रिसता पारसी भाखासे आया है और नाता अरबी भाखासे । रिसता-नाता कहनेसे बिलकुल निपढ़, गँवार बुढ़िया भी समझ लेगी, लेकिन “सम्बन्ध” कहनेसे उतना नहीं समझ पायेगी । हमने भी अपने इतने दिनोंके सत्संगमें पाँच-छः सौ अरबी-फारसी सबदोंको लिया है, और हिन्दीमें उनकी जगह अब सिरिफ संसकीरतके सबद ही लिखे जाते हैं । मैं समझता हूँ कि समरकन्द-बुखारासे सात पीढ़ी पहिले आया हो, लेकिन अब उसका भेख-भाखा सब हिन्दुस्तानका है, तो वह हिन्दुस्तानी है, वह अपने पुरखाके सहर समरकन्द-बुखारामें जायगा, तो वहाँ भी उसे लोग हिन्दुस्तानी कहेंगे—आजकल समरकन्द, बुखारा, उजबकिस्तान सोवियत प्रजातंत्रके अच्छे सहर हैं । उसी तरह जिन अरबी, पारसी सबदोंको निपढ़ गँवारोंने अपना लिया है और उसको वह अपने दंगसे तोड़-मरोड़के बोलते हैं, वे सबद अब बिदेसी नहीं, स्वदेसी हैं । जिन संसकीरत सबदोंको हमारे “गँवार” छोड़ चुके हैं. उनको फिरसे लादना भी ठीक नहीं ।

सोहनलाल—लेकिन मैया, इन गँवारोंने तो हजार-बारह सौ संसकीरतके सबदोंको निकालकर अरबीके सबद तो लिए हैं । ‘हमेसा’, ‘दिक्कत’, ‘मुसकिल’, ‘मवस्सर’, ‘अरज’, ‘गरज’, ‘लेकिन’, ‘बेसी’, ‘अमहक’ (अहमक), ‘इफरात’, ‘जमीन’, ‘हवा’, ‘तूफान’, ‘सहर’, ‘नौबत’, ‘जुलूम’, ‘परेसानी’, ‘मेहरबानगी’, ‘वगैरह’ सबदोंको उन्होंने लेकर संसकीरतके सबदोंको छोड़ दिया है जो संसकीरतके सबद रखे हैं, उनके बोलनेमें भी लाठीसें पीटके ठीक-ठाक कर डालते हैं । और आप इसी भाखाको अपनेको कहते हैं ?

मैया—दोनों बातोंको एकमें न मिलाओ सोहन भाई ! जहाँ तक जनम-भाखाकी बात है उसके लिए न रामसरूप पंडितकी बात मानी जायगी न कुतुबुद्दीन मोलवीकी, उसके लिए धनिया भौजी—गाँवकी बेपढ़ अहिरिनको

ही परमान माना जायगा । दोनों सबदोंको उसके सामने रखा जायगा, जो अरबीवाले सबदको वह समझेगी तो उसे ले लिया जायगा, संसकीरतवालेको समझेगी तो उसको । बोलनेमें कठिन सबदोंकी धनिया भौजी कपाल-किरिया करे हीगी, और उसकी कपाल-किरियाको भी मानना पड़ेगा । हिन्दी-उर्दूको मिलानेका काम भी यही जनम-भाखाये करेंगी क्योंकि जनम-भाखाओंमें हिन्दू-मुसल्मानका भगड़ा नहीं है । जड़वालोंका रस्ता साफ है, चोटीवालोंका भगड़ा है । उनमें जो अपनी जनम-भाखा उरदू मानता है वह उरदूमें लिखे-पढ़ेगा जो हिन्दी मानता है वह हिन्दीमें । मेरठ कमिसनरीके साढ़े-तीन जिलेमें भी कौन भाखा माननी चाहिए । इसका फैसला वहाँ कोई जाटकी धनिया भाभीके हाथमें होगा ।

सोहनलाल—और जो हिन्दुस्तानके संघकी भाखा हिन्दी होगी, उसमें हिन्दी-उरदूका भगड़ा कैसे मिटेगा ?

भैया—पहिले तो हिन्दीके अपने साढ़े-तीन जनम जिलोंकी भाखाके मुताबिक उसको मानना पड़ेगा । जिसके कारन बहुतसे संसकीरतके सबद छूट जायेंगे, बहुतसे अरबी-फारसीके । फिर यह प्रजातंत्रोंके ऊपर छोड़ दिया जायगा कि वह कौन भाखा पसन्द करेंगे । जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो तरहके प्रजातंत्र संघोंका हमारे देसमें बड़ा संघ बनेगा, तो हिन्दुस्तान प्रजातंत्र-संघमें हिन्दी-संघ भाखा होगी और पाकिस्तानमें उरदू । मैं यह भी जानता हूँ कि आजकी उरदूको जो बंगालवाले पाकिस्तानपर लादा जायगा, तो बहुत मुसकिल होगी । और सारे हिन्दुस्तानके बड़े संघके लिए चाहे उरदू-हिन्दी दोनोंको मान लेंगे, या मिला-जुलाके । लेकिन उसके लिए फिकिर करनेकी जरूरत नहीं, प्रजातंत्री हिन्दुस्तानमें हिन्दू-मुसल्मानके आपसी ब्याह बहुत ब्यादा होंगे । आजसे सौ बरस बाद रोटीकी तरह बेटी भी हिन्दू-मुसल्मानोंमें एक हो जायगी फिर जब खून मिलके एक होने लगा तो भाखाका भगड़ा हमारे परपोतोंके लिए ऐसा होगा अनुक वह कभी था ही नहीं ।

अध्याय १८

दुनिया बदलनेका हथियार

दुखराम—बात तो भैया ! बहुत कुछ साफ हो गई, दुनिया नरक है, यह तो बहुत दिनोंसे लोग कहते आये थे, लेकिन क्यों नरक है, यह बात समझमें अब आई। जोंकोंने इस हरी-भरी दुनियाको नरक बनाया, जब तक उनका पौरा (कदम) रहेगा, तब तक वह नरकसे भी बदतर बनती जायगी। जोंके वैसे हैं तो बहुत थोड़ी लेकिन मालूम होता है, कि उनसे भिड़ना चट्टानसे मत्था टकराना है।

भैया—ठीक कह रहे हो दुखू भाई ! आज जोंकोंकी तागत है भी बहुत मजबूत, जैसे ही आदमीको ताँबेका पता लगा, तैसे ही जोंकोंने उसपर भपट्टा मारा। ताँबेकी तरवारसे हवाईजहाज और तोप, मसीनगन तक सबको जोंकोंने अपने हाथमें किया। इसीलिए उनकी तागत बहुत जबरजस्त बन गई। लेकिन सारे हथियार कमेरे ही बनाते हैं, और कमेरोंके पूत ही उन्हें चलाते हैं। यह जोंकोंकी बड़ी कमजोरी है। कमेरे जब अपने खेत और मजूरीके लिए लड़ने लगते हैं, तो जोंकोंमें हड़कम्प मच जाती है। खेतपर किसानोंका कबजा हो जायगा, मजूरीमें बहुत रुपया देना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही ख्याल उनके मनमें नहीं आता, बल्कि वह यह भी समझने लगते हैं कि कमेरोंके पूत कहीं हमारे खिलाफ न हो जायँ। लेकिन जैसे जोंकोंने कमेरोंको दबानेके लिए अपनी मजबूत सेना तैयार की है, जैसे उन्होंने अपने जरनैल-करनैल बनाये हैं, वैसे ही कमेरोंकी भी मजबूत सेना होनी चाहिए, उनके पास भी जरनैल-करनैल होने चाहिए।

दुखराम—हाँ भैया ! बिना पलटन और जरनैल-करनैलके लड़ाई कैसे लड़ी जायगी। जरनैल-करनैल होंगे, तभी न हमें वह रस्ता बतलायेंगे। लेकिन जरनैल-करनैल हमारे देसमें ऐसे कौन हैं ?

भैया—हमारे जरनैल-करनैल हैं, कमनिस्ट पाटी, और उसके मेम्बर,

जिनको कमनिस्ट कहा जाता है ।

दुखराम—रूसमें भी तो कमनिस्ट ही न कमेरोके अगुआ हैं ? नाम बड़ा अच्छा है भैया ! मैंने भी कमनिस्टोंको देखा है, काममें उनकी बड़ी निसठा होती है ।

भैया—काम न करें, तो वह कमनिस्ट ही किस कामके ?

सन्तोखी—हमारा भानजा सोहनलाल अब तो भैया ! तुम्हारी बात सुनकर बहुत नरम पड़ गया है । लेकिन पहिले भी वह कमनिस्टोंका लोहा मानता था । वह कहता था, कि चाहे कुछ भी हो, सब कमनिस्ट एक ही बोली बोलते हैं ।

दुखराम—जिस पलटनमें बहुवाचक हो, सब लोग अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग गाये, वह पलटन होगी, कि महादेव बाबाकी बरात ? एक बोली बोलने और एक साथ पैर मिलाकर चलनेसे ही तो उसे पलटन कहते हैं । यह तो बहुत अच्छी बात है ।

भैया—कमनिस्ट पाटी—अच्छा दुखू भाई ! हम भी कमनिस्ट पाटी ही कहेंगे, यह पाटी महादेव बाबाकी बरात नहीं, उसका हुकुम बड़ा रुड़ा है । कितने ही पढ़े-लिखे लोग इसीसे घबराते हैं, सोहनलाल भी घबराते हैं, लेकिन पलटनका हुकुम कड़ा न हो, तो वह दुसमनके छक्के नहीं छुड़ा सकता ।

सन्तोखी—सोहनलाल तो कहता था कि हिन्दुस्तानमें कमेरोका राज कायम करनेके लिए और भी कई पाटियाँ हैं । सब मिलकर काम क्यों नहीं करती ?

भैया—मिलकर काम कैसे करें सन्तोखी भाई ! कोई जो जपान और जरमनीकी जै मनायेगा, वह कमेरोका राज क्या कायम करेगा ।

दुखराम—हाँ, यह बात तो ठीक कह रहे हो भैया ! जरमनी और जपानके फसिहा तो कमेरोके सबसे बड़े दुसमन हैं ।

भैया—और जो अंगरेजोंके हाथमें अपनेको बेच चुका है, उनके पैसेपर जीता है, वह भी क्या कमेरोका राज कायम कर सकते हैं ।

दुखराम—भैया ! जिसने अपना सरबस कमेरोके ऊपर निछावर किया

हे, वही कमरोंकी लड़ाई लड़ सकता है, और जो कमरोंकी लड़ाई लड़ेगा, उसके रस्तेमें बहुत काँटा पड़ेगा। मैं देखता हूँ न कि तुम जपान और जर्मनीके फसिहोंके कितने जबर्जस्त दुसमन हो। सोते-जागते, उठते-बैठते, चारों पहर बतीसों घड़ी तुम फसिहोंके नासकी ही बात सोचते रहते हो। लेकिन देखता हूँ कि खुफियाका कोई न कोई आदमी दरवाजेपर पड़ा ही रहता है। कोई साधू बनके आता है, कोई बाबू बनके और कोई पागल बनके। अबदुलवा तो छः महीना तक बीस-बीस रुपया महिना भूसके खाता रहा। मामा समझते थे, कि अब्दुल्ला रजबलीकी सब बात साँच ही साँच बतला रहा है, लेकिन वह काहेको बतलाये।

सन्तोखी - और दुखू भाई ! कांग्रेसनेता उमरपुरके बाबू साहब हैं न, वह भी रजबली भैयाको कच्चा ही खा जानेको तैयार हैं। कहते हैं, राजा-परजामें बहुत परेम रहा है, सो रजबली परजाको बिगाड़ रहा है।

दुखराम—जोंक और जोंकोंके पावक फूटी आँखसे भी रजबली भैयाको देखना नहीं चाहते। बड़का गाँवके मोलबी एक दिन आये थे, और बूढ़े-बूढ़े लोगोंको समझा रहे थे, कि रजबलीका हुक्का-पानी बन्द करो, यह काफिर हो गया। अल्लामियाँको नहीं मानता।

सन्तोखी—लेकिन दुखू भाई ! रजबली भैया तो हम लोगोंको भी मना करते हैं, कि मजहबवालोंसे लड़नेके लिए फाँड़ मत बाँधो, खाली रोटीकी बात करो, रोटीकी लड़ाई लड़ो, जिसका मन हो जो मजहब माने। यह तो ठीक ही है न दुखू भाई ?

दुखराम—ठीक ही है, सन्तोखी भाई ! लेकिन वह सब तो कहते हैं कि आज यह मजहबके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब इनका दल मजबूत हो जायगा, तो मजहबको निकाल बाहर करेंगे।

भैया—और तुम क्या समझते हो दुखू भाई ?

दुखराम—पीछे भी हम लोगोंके इतना काम रहेगा भैया कि मजहबके पीछे लाठी लेकर फिरनेका बख्त ही नहीं मिलेगा। हमें जोंकोंको हटाना है। जोंकोंको हटाकर इस नरकको सरग बनाना है, इसीमें दो-तीन पीढ़ी लगे

जायगी। तब तक न हम रहेंगे, न मोलबी, न राम रेखा पंडित। नाती-पोतोंका जो मन होगा, करेंगे, उनका रस्ता कौन छेकेगा ?

भैया—हमको बहुत सँभाल-सँभालके पैर रखना है, दुक्खू भाई ! सँभालके पैर रखनेपर भी जोंके वार करनेसे बाज नहीं आर्येगी, काहेसे कि हम उनके मुँहसे लगा खून छुड़ाना चाहते हैं।

सन्तोखी—बनारसमें भी कमनिस्ट बहुत हैं, जिनमें हमारी चिरादरीके भी बहुत हैं। बनिया, कायथ, बाभन, रजपूत, मुसुरमान, किरिस्तान सब जाति मजहबके कमनिस्ट हैं। लोग कहते हैं, कि सब एक ही थरियामें खाते हैं। ये सबको भरस्ट कर देंगे।

भैया—सबको भरस्ट करनेकी तो बात नहीं है सन्तोखी भाई ! चाकी कमनिस्ट चाहे कोई जाति धरमका हो, चाहे किसी देसके हों, सब एक-दूसरेको सगा भाई समझते हैं, सब मरकस बाबाके रस्तेपर चलते हैं। चीनका कमनिस्ट चाहे अंगरेज कमनिस्ट हमारे गाँवमें चला आये, तो रजबलीको वह अपना भाई समझेगा। हम लोग एक ही कामके लिए जी-मर रहे हैं। मर भी बहुत रहे हैं सन्तोखी भाई ! फ्रासमें अब तो हिटलरका राज खतम हो गया है, लेकिन चार बरस तक अतताई फसिहा वहाँ राज करते रहे, और रोज ही दस पाँच कमनिस्टोको गोली मारते थे। दुनियामें कौन मुलुक है, जहाँ जोंके कमनिस्टोंके खूनकी होली न खेलती रही हों। फ्रांसमें जब किसी कमनिस्टको फाँसीपर चढ़ाया जाता तो यहाँ रजबलीको वैसे हाँ दुख होता है, जैसे किसी अपने भाईके मारे जानेपर। रजबलीको गोली मारी जायगी, तो चीनके कमनिस्टको भी उसी तरह दुख होगा।

दुखराम—नाहीं भैया ! तुमको काहे गोली मारी जायगी ?

भैया—मैं भी अपनेको गोली नहीं मरवाना चाहता दुक्खू भाई ! लेकिन हमने जो रस्ता पकड़ा है, उसमें मौत बार-बार आके भाँक जाती है। जमींदार अपने लठइतको तैयार करते हैं, सेठ कारखानेदार अपने गुंडोंको। सरकार और उसका कानून भी हम लोगोंको फूटी आँख नहीं देखना चाहता। इसलिए अब हम कमनिस्ट पार्टीमें आते हैं, तो जिउ संकल्प करके ही आते हैं। मौलकी

हमें परवाह नहीं है। जिनगीकी परवाह करनी चाहिए दुक्खू भाई ! मौतकी परवाह बेकूफ करते हैं।

सन्तोखी—बेकूफ करते हैं ?

भैया—हाँ, संतोखी भाई ! जब मर गये, तब हमें होना-हवाना क्या है। राख या लासको पीटनेसे उसको दुःख होगा ? जिनगी है, तब तक आदमीको दुख-सुख मालूम होता है। जिनगीकी हमें परवाह करनी चाहिए, लेकिन परवाह करनेका यह माने नहीं कि हम अपने सुखमें सुख मानें।

दुखराम—हाँ भैया ! दूसरेके घरमें आग लगी हो. और हम बुझाने न जायें, खाली अपनी छान्ह अगोरें, तो सब गाँव जर जायगा।

भैया—हाँ दुक्खू भाई ! जिनगीका मतलब सिर्फ अपनी जिनगी भर नहीं है. अपने गाँव-पुर सबकी जिनगी अपनी जिनगी है। नाती-पोता सबकी जिनगी अपनी जिनगी है। जिनगी बहुत प्यारी चीज है, लेकिन जब बखत आता है, तो आदमी उसको तिरिन बराबर समझता है—आदमी उसीका नाम है दुक्खू भाई !

दुखराम—हाँ भैया ! आनपर जान न दे, तो क्या वह भी कोई आदमी है।

भैया—इसी वास्ते दुक्खू भाई ! कमनिस्ट जिनगीसे प्यार करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, तब तिरिन समान जानते हैं।

सन्तोखी—पहिले तो भैया हमहूँ नहीं सुनते रहे, लेकिन अब तो जहाँ-तहाँ सब जगह कमनिस्ट दिखाई देते हैं। कुल कितने कमनिस्ट होंगे हिन्दुस्तानमें।

भैया—पलटनमें जरनैल-करनैल होते हैं, सिपाही होते हैं, लेकिन खाली सिपाही-जरनैलसे लड़ाई नहीं जीती जाती। गोला-बारूद पहुँचानेवाले भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतनेसे भी काम नहीं चल सकता। गोहार पड़नेपर देसका देस जब टूट पड़ता है, एक बीर घरतीपर पड़ता है, तो दस बीर उसकी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। जिस पलटनके पास ऐसे जान देनेवाले गोहरिहा हैं, उसकी जीत निहचय होती है।

दुखराम—हाँ मैया ! बल्कि मैं तो सम्भक्त हूँ कि ऐसे गोहरिया भी पलटन हीके अंग हैं ।

मैया—हाँ दुक्खू भाई ! पलटन हीके अंग हैं, इसमें कोई सक नहीं है; फरक इतना ही है, कि अभी उनको कवायद-परेड नहीं सिखाई गई ।

दुखराम—कवायद-परेड सीखना चाहिए मैया ! कवायद-परेड सीखनेसे ही न आदमी पक्का सिपाही बनता है ?

मैया—तो दुक्खू भाई ! हिन्दुस्तानमें कवायद-परेड सीखे हुए सिपाही—कमनिस्ट पार्टीके मेम्बर—आज-कल तीस हजार हैं, चार साल पहिले तीन ही हजार थे ।

दुखराम—तो चार ही बरसमें मैया एकके दस हो गये न ?

मैया—हाँ, एकके दस तो हो गये, लेकिन हमारे देसमें चालीस करोड़ आदमी बसते हैं । इसके लिए तीस हजार बहुत कम है । त्रिलाइतमें साढ़े चार ही करोड़ आदमी बसते हैं, लेकिन वहाँ कमनिस्ट पार्टीके मेम्बर एक लाख हैं, माने हर साढ़े-चार सौ आदमीपर एक पार्टी मेम्बर और हमारे यहाँ बारह हजारमें अभी एक आदमी पहुँच रहा है ।

दुखराम—हाँ मैया ! जब हमारे यहाँ चार सौमेंसे एक आदमी पार्टी मेम्बर बन जाय, तभी सन्तोख करना चाहिए । लेकिन पार्टीके सिपाही लोग जल्दी-जल्दी बन रहे हैं, यह खुसीकी बात है ।

मैया—गुहारवाले भी आदमी हमारे कई लाख हैं । किसान सभाका जो मेम्बर होता है, वह भी पार्टीका गोहरिया सिपाही है, मजूर सभाका जो मेम्बर बनता है, वह भी गोहरिया सिपाही है ।

दुखराम—तो गोहरिया सिपाही भी बहुत हैं मैया ?

मैया—हाँ, बिहारथी सभामें भी गुहरिया सिपाही हैं । महटर, मुदरिंस सभामें भी गुहरिया सिपाही हैं । गोहरिया सिपाही भी बहादुर होते हैं दुक्खू भाई ! काहेसे कि कमनिस्ट सबकी लड़ाईमें सामिल होते हैं । जमींदारके जुलुमसे बचानेके लिए वह किसानोंकी लड़ाई लड़ते हैं, कारखानेदारोंके जुलुमसे छुड़ानेके लिए मजूरोंकी लड़ाई लड़ते हैं । बिहारथी, महटर लोगोंको भी

उनके हृद-पदके लिए खड़नेमें मदद करते हैं । इसीलिए गोहरिया पलटन भी कमनिस्टकी अपनी पलटन है ।

दुखराम—हाँ मैया ! और कमनिस्ट जो लड़ाई लड़ते हैं, वह सब तो हमारी ही लड़ाई—कमेरोकी ही लड़ाई है ।

मैया—हाँ दुखू भाई ! कमेरोकी लड़ाई छोड़ और कोई दूसरी लड़ाई वह नहीं लड़ते । वह कमेरोकी रोज-रोजकी तकलीफके लिए लड़ते हैं । इसलिए कमेरे समझते हैं कि यह हमारे अपने लड़वैया हैं ! वह कमेरोको बतलाते हैं कि रोगकी पीड़ाके लिए दवाई देनी चाहिए । लेकिन ऐसा उपाय करना चाहिए, जिसमें कि रोग जड़मूलसे चला जाय । इसीलिए कमनिस्ट कमेरोको कहते हैं, कि छोटी-मोटी लड़ाईसे काम नहीं चलेगा । जब तक जोंकोंको उखाड़ फेंक न दिया जायगा, तब तक कल्याण नहीं ।

सन्तोखी—हाँ मैया ! जब तक फोड़ेकी खील नहीं निकल जाती, तब तक पीड़ा बनी ही रहती है ।

दुखराम—यह तो समझा कि गोहरिया पलटन भी है, और मैं समझता हूँ कि जरमन-जपानी फसिहोंका बन्टाधार भ्रष्ट जायगा तब कमेरे फिर आजकी तरह चुप नहीं रहेंगे । उस बखत किसान-मजूरकी लड़ाई बहुत बढ़ जायगी । फिर तो गोहरिया पलटन करोड़ों तक पहुँच जायगी । अच्छा तो मैया ! पलटनमें भरती कैसे की जाती है, और कवाहद-परेड कैसे की जाती है ?

सन्तोखी—क्या मनमें है दुखू भाई ! कमनिस्ट तो नहीं बनना चाहते ?

दुखराम—तुमने ठीक समझा सन्तोखी भाई ! गोहरिया पलटनमें तो मैं अब भी हूँ । लेकिन अब कवाहद परेड सीखकर पूरा सिपाही बनना चाहिए । चार सौ आदमीपर एक पाटी मेम्बर चाहिए न मैया !

मैया—हाँ दुखू भाई ! दस लाख पाटी-मेम्बर हो जायेंगे, तब हिन्दुस्तानकी बिल्कुल काया पलट हो जायगी—मेम्बर—पाटी-मेम्बर पक्के सिपाही ।

दुखराम—हाँ मैया ! और क्या चार आना चन्दा देनेवाले मेम्बरसे थोड़े हीमें काम चलेगा । सिपाही वही है, जिसको आगमें, पानीमें, जहाँ-कहीं खड़ा होनेके लिए कह दिया गया है, वहीं खड़ा रहता है । ठीक कहा न मैया !

भैया—हाँ दुख्खु भाई ! कमनिस्टके लिए पाटीका हुकुम सबसे बड़ा हुकुम है लेकिन उसमें डरका उतना ख्याल नहीं होता, जितना कि किसी प्यारेके हुकुमकी तामील करनेकी खुसी । बल्कि इस हुकुमको वह अपना हुकुम समझता है । काहेसे कि पाटी और अपने भीतर कोई भेद भाव नहीं रखता । पाटी उसकी है, और वह पाटीका है ।

सन्तोखी—हाँ भैया ! यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ । पहले-पहल जब बिरादरीके एक आदमीसे कमनिस्टोंके एकामयी होनेकी बात सुनी, तो भूठ ब्यों बोलूँ, मुझे बुरा लगा । लेकिन अब न बातका पता लगा, कि वह क्यों एकामई हो जाते हैं ।

भैया—भाई भी भाईके लिए प्रान देनेमें भय खाता है, फिर जो हमारे लिए प्रान दे, वह सगे भाईसे भी बढ़कर है कि नहीं ?

सन्तोखी—हाँ भैया ! क्यों नहीं ।

भैया—इसीलिए कमनिस्टका भाई-चारा बहुत मजबूत होता है । मेरा जनम मुसुरमानके घरमें हुआ है, तुम्हारा अग्ररवालाके घरमें, दुखराम भाईका अहीरके घरमें, लेकिन पाटीके सिपाही जिस दिन हम बने, उसी दिन अब हम सगे भाई हैं । हम एक-दूसरेसे हर बात उसी तरह खुलके बतियायेंगे, जैसे अपने मनसे ।

सन्तोखी—सब बराबर हो जाते हैं, भैया !

भैया—हाँ, बराबर हो जाते हैं सन्तोखी भाई ! जैसी लियाकत है, काम वैसा करना पड़ता है । लेकिन बाकी बखतमें सब बराबर हैं । पूरनचन्द जोसी भी यहाँ आवे, तो इसी तरह आमकी जड़पर बैठकर बात करेगा, हँसेगा, हँसावेगा ।

सन्तोखी—पूरनचन्द कौन हैं भैया !

भैया—समूचे हिन्दुस्तानकी पाटीका मंतिरी हैं सन्तोखी भाई ! बड़ा दिमाग है, बड़ी बुद्धि है, खूब पढ़ा है, खूब सोचता है ।

दुखराम—दूसरी पाटीका नेता होता, तो आमकी जड़पर नहीं न बैठता, सब तो सिंहासन बिछाना पड़ता । तो हमारी पाटीके और भी नेता ऐसे ही

होगे न मैया !

मैया—हाँ दुख्खु भाई ! पाटीके कुछ नेताओंकी जिनगीका हाल-चाल, “नये भारतके नये नेता”में तुम्हें सुननेको मिलेगा । हमारे सूत्रमें डाक्टर अहमद, डाक्टर अखरफ यूसुफ, भारद्वाज, महमूद, हरखदेव मालवी, नकवी, सज्जाद जहीर इत्यादि कितने हैं । बिहारमें भी कारजानन्द, सुनील, मंजर, सन्तलाल, अखरफ इत्यादि हैं । हर सूत्रमें ऐसे ही अपने नेता हैं—नेता भी हैं, और सभे भाई भी हैं ।

सन्तोखी—नेतागिरीका भगड़ा नहीं होता, यह बात सोहनलाल भी कहता था ।

मैया—जहाँ अपना-अपना स्वारथ होता है, वहाँ भगड़ा होता है । कमनिस्ट पाटीका जो नेता है, वह सिपाही भी है । सीखने-गुननेसे ही यह होता है, और आदमीका मन अंकुसमें आ जाता है । पाटीने जहाँ किसी आदमीको मेम्बर बननेका उम्मेदवार मान लिया, तहाँ उसके सिखाने-समझानेकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है । और बहुत सीखना पड़ता है, सन्तोखी भाई ! जोंकोंके साथ कमरोंकी लड़ाई चकराबूहकी लड़ाईसे मुसकिल है । बहुत दाँव-पेंच सीखना पड़ता है । जो जिस जगह लड़नेके लायक है, उसको वहाँकी लड़ाईका दाँव-पेंच सिखाया जाता है । जब दाँव-पेंच समझने लगता है, पाटीके साथ रहकर उसका मन दूध-पानी बन जाता है, और देखा जाता है, कि वह निरभय सिपाही है, तभी पाटी उसे काम देगी, वह बड़ी खुसीसे उसे पूरा करेगा ।

दुखराम—रूसमें भी मैया ऐसी ही पाटी है न ?

मैया—रूसमें भी है, फ्रांसमें भी है, अमेरिका, इटली, चीन—सब जगह है—जहाँ-जहाँ कमरे जोंकोंको इटानेके लिए लड़ रहे हैं, सभी जगह पाटी है ।

सन्तोखी—अब तो नहीं, लेकिन पहले सोहनलाल कहता था, कि कमनिस्ट तो जो ऊपरसे हुकुम आता है, वही करते हैं ।

मैया—पहिले तो सन्तोखी भाई यह भी कहते थे कि इनको रूससे जो हुकुम आता है, वही करते हैं, अब जो नहीं करते, वही मनीमत है । ऊपरके

हुकुमको कमनिस्ट इनकार नहीं करते । सिपाही जरनैलका हुकुम माननेसे इनकार कर दे, तो वह पलटने लड़ सकती है लेकिन जो हुकुम आता है, वह इसी सम्बन्धमें कि किन बातोंमें देस भरको एक साथ कदम उठाना चाहिए । हमारे गाँवमें कोई भगड़ा हो जाता है, या किसी बातमें किसान हमारी सलाह लेते हैं तो क्या समझते हो, कि मैं ऊपरसे पूछ-पूछकर कदम रखता हूँ । पाटी हमको आँख देती है, हमको ग्यान देती है, आज सौ वरससे दुनियामें कमेरे लड़ रहे हैं, हमारे देसमें भी कमेरे जगह-जगहपर लड़ते रहे हैं । दूसरी लड़ाइयोंके बारेमें जानकर हम कितनी ही बातें सीख सकते हैं, पाटी हमें यह सिच्छा देती है, इसीलिए दो-दो तीन-तीन महीने तक, वेसी जानकार सात-सात आठ-आठ दिन तक बैठकर हमें सिखाते हैं । फिर पाटीमें एक आदमी किसी बातका फैसला नहीं करता । कई आदमी मिलकर खूब उस बातपर बातचीत करके, एक-एक बात जानकर कोई फैसला करते हैं । एक बार फैसला हो गया, तो सिपाहीको नहीं करना नहीं होगा । देखा न, जब अग्रस्त (१६८२)में लोग रेल-तार काट रहे थे, तो हम लोग मना करते थे ?

दुखराम—हाँ भैया ! तुम न समझाये होते तो हमारे गाँवको भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती और पीछे तो गांधीजी ने भी कह दिया कि इस तोड़-फोड़के लिए हमने कभी नहीं कहा था ।

भैया—उस वक्त हिन्दुस्तानमें जहाँ-जहाँ कमनिस्ट थे, उन्होंने एक ही रस्ता लिया । ऊपरसे हुकुम आनेका वहाँ कोई मौका नहीं था ।

दुखराम—हाँ भैया ! लेकिन कैसे हिन्दुस्तान भरमें सब कमनिस्ट एक ही तरह सोचने लगे ?

भैया—पाटी हुकुम कम देती है, आँख ज्यादा देती है । आँख दे देनेसे जब जैसा मौका होता है, वैसा आदमी मिलके आपसमें तय कर लेते हैं ।

संतोखी—अकेले किसी बातका फैसला नहीं करते भैया !

भैया—मान लो हमारे गाँवमें ५ पाटी-मेम्बर हैं । यहाँ जो कुछ फैसला करना होगा, पाँचों मिलकर फैसला करेंगे, अकेले नहीं कर सकते । लेकिन जब आदमी अकेला ही है, और आस-पासमें कोई मेम्बर या उम्मेदवार भी नहीं

है, तो फिर अकेले भी फैसला कर सकते हैं जो जल्दी न करनेसे काम बिगड़ता हो।

दुखराम—तब तो भैया ! एक आदमी मनमानी नहीं कर सकता। सब फैसला पंचायती कर लिया जाता है।

भैया—५ आदमी मिलकर जब किसी बातके ऊपर सोचते हैं, तो पाँचोंकी अकल लगती है, पाँचों अपना तजवीज बतलाते हैं। एक-दूसरेकी रायमें जो दोख होता है, उसको भी बतलाते हैं, इसलिये पंचका सोचा हुआ फैसला एक आदमीके फैसलेसे किया अच्छा होता है।

दुखराम—और पाटीके मेम्बरोका तो अपना कोई स्वारथ भी नहीं कि भूठ-साँचकी बात करेगे, इसलिये उनका फैसला तो और ठीक होगा।

भैया—दुखू भाई ! पाटीकी सब बात यहाँ कहनेसे कोई फायदा नहीं। मैंने अपने साथियोंसे कहा है, तुम्हारे लिये पाटी-मेम्बर बनानेके लिये। हम सिपारिस करेंगे, तुम वहाँ सब बात सीखोगे। यहाँ तो इतना ही बतलाना था कि दुनियाको नरकमे सरगमें बदलनेको कमेरोके पौरुसकी जरूरत है, और उम पौरुसको मिलाकर एक लड़ाका पलटन बनानेका काम कमनिस्ट पाटी करती है। हमें दुनियाको बदलना है। बदलनेके लिये हथियार तुम्हारे सामने है। जितना ही इसको मजबूत करके काममें लाओगे, उतना ही काम बनेगा।

